

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 116]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 मार्च 2024—चैत्र 8, शक 1946

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2024

फा.क. 56—चार—2024—वि.निर्वा.—66.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क. 56—2024—पीपीएस—III,
दिनांक 27 मार्च 2024 का हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरण सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया
जाता है।

प्रमोद कुमार शुक्ला, उपसचिव.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

संख्या : 56-2024-रा. दल अनु.-III

नई दिल्ली, तारीख : 27 मार्च, 2024-07 चैत्र, 1946 (शक)

अधिसूचना

यतः भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के अनुसरण में जारी, पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों (प.अ.रा.द.) की सूची को विनिर्दिष्ट करने वाली, अपनी अधि-सूचना संख्या 56/2022/रा0द0अनु0-III, तारीख 15 मई, 2023 को अद्यतन करने का निर्णय लिया है;

2. अतः अब निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के अनुसरण में, भारत के राजपत्र में, असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (iii) में प्रकाशित तारीख 15 मई, 2023 की, अपनी उपर्युक्त अधिसूचना संख्या 56/2022/रा0द0अनु0-III के अधिक्रमण में निर्वाचन आयोग एतद् द्वारा विनिर्दिष्ट करता है:-

- (क) सारणी-I(क) में, पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल (प.अ.रा.द.) और उनके मुख्यालयों के डाक-पता;
- (ख) सारणी-I(ख) में, सूची से हटाये गये पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल (प.अ.रा.द.) और उनके मुख्यालयों के डाक-पता; और
- (ग) सारणी-I(ग) में, निष्क्रिय पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल (प.अ.रा.द.) और उनके मुख्यालयों के डाक-पता।

सारणा-1(क)
रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दल

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	आवाद पार्टी	4-1/2, एससीबी नगर, रामावरम, मंडल: चुंचुपल्ली, जिला - भद्राद्रि कोतागुडम, तेलंगाना - 507118
2	आदर्श भारत निर्माण दल	ग्राम- भैणी भैरों, तहसील- महम, जिला- रोहतक, हरियाणा- 124112
3	आदर्श जनता सेवा पार्टी	रणजीत हाउस, डिडवाडा रोड, सालवन, जिला - करनाल, हरियाणा
4	आदर्श मिथिला पार्टी	ग्राम व पोस्ट - ठहरा गोपालपुर, बाया दिघरा, जिला - समस्तीपुर, बिहार - 848115
5	आदर्श संग्राम पार्टी	डी/एस- 1252, सेक्टर- डी, एल.डी.ए. कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226012.
6	आदर्शवादी कॉंग्रेस पार्टी	ई0 डब्ल्यू0 एस0-04, कौशलपुरी कालोनी, फेस-2, निकट पानी टंकी, ग्रामसभा-गदोपुर, विकास खण्ड-मसौधा, तहसील-सदर, जिला-फैजाबाद, उत्तर प्रदेश ।
7	आधी आवादी पार्टी	डी-1385/7, डी- प्लाक, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226016
8	आदी भारत पार्टी	116, बोपल हॉट एण्ड होम, ईसाईड सनसिटी, बोपल, अहमदाबाद, गुजरात- 380058
9	आदिजन मुक्ति सेना	प्रथम तल, 21 दुर्गेश विहार, जे. के. रोड, भोपाल (मध्य प्रदेश)।
10	आदिम समाज पार्टी	म0 नं0 - 84, ग्राम - मवैया कलां, पोस्ट - नारीबारी, शंकरगढ़, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
11	आदिवासी सेना पार्टी	ग्राम व पोस्ट-रूपवेल, (तिशाल, फलिया), ता0- वनसदा, जिला-नवसरी-396 321, गुजरात ।
12	आजाद भारत पार्टी (डेमोक्रेटिक)	ग्राम+पोस्ट - बेहटा बुजुर्ग, वि0 ख0 - भीतरगांव, जिला - कानपुर, उत्तर प्रदेश ।
13	आम आदमी मुक्ति मोर्चा	4, यू.एफ्. बाबर प्लेस, टोडरमल रोड, वंगाली मार्केट के पास, नई दिल्ली-110001.
14	आम आदमी परिवर्तन पार्टी	सत्य साईं कालोनी, प्रीत विहार, नियर समर विला स्कूल, छपरा, गौदम बुद नगर, उत्तर प्रदेश-2001001
15	आम आदमी संघर्ष पार्टी (एस)	डी- 489, गली नं.- 7, मुकन्दपुर एक्सटेंशन, पार्ट- 1, नई दिल्ली- 110042
16	आम अधिकार मोर्चा	मनोज मंडल, आदर्श नगर, चेठारिया पीर, वाई नं.- 15, पोस्ट ऑफिस व थाना- कहलगांव, जिला- भागलपुर, बिहार- 813203
17	आम अग्रिम विकास मोर्चा	फ्लैट न-डी. 202, गोकुल धाम अपार्टमेंट, रांची, झारखण्ड-834008
18	आम भारत पार्टी	अरविंद कुमार दिक्षित नं.3, तीसरी मंजिल, दूतीय विल्डिंग, अम्बिका कम्पलेक्स, दामोदर रिया, तालुका-इंदर, जिला-साबरकांठा गुजरात- 383430.
19	आम भारतीय पार्टी	103-रेडियो कॉलोनी, इंदौर, मध्य प्रदेश-452001
20	आम दल	प्लाट/भवन नं0 - 191, बुद्धा एन्क्लेव, लोहिया नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश ।
21	आम हिन्दुस्तानी पार्टी	गांव- भगौती द्वे का भिस्वां, पोस्ट- चौरी चौरा, जिला- गोरखपुर, उत्तर प्रदेश- 273201.
22	आम जन मजदूर पार्टी	भदपर चौराहा, भदपर, तहसील- लहरपुर, जिला- सीतापुर, उत्तर प्रदेश।
23	आम जन नीति पार्टी	वाई नं. 8, सेक्टर नं. 12एल, जी.जी.एस.पब्लिक स्कूल के पास, हनुमानगढ़ जंक्शन, राजस्थान- 335512
24	आम जन पार्टी (सेक्यूलर)	मीना वाटिका, माँ दुर्गा नगर, ग्राम- चकसकरा, पोस्ट- चन्द्रालय, थाना- हाजीपुर सदर, जिला- वैशाली बिहार ।
25	आम जनता जागरूकता पार्टी	झफर बैठा मार्केट, डगरुआ, थाना जगरुआ, पोस्ट-डगरुआ, बाया-गुलाबबाग, जिला- पूर्णिया, बिहार-854326
26	आम जनता पार्टी	ग्राम-जीगीना, डाकघर - मंझरिया विक्रम, जिला-बस्ती, उत्तर प्रदेश
27	आम जनता पार्टी (सर्वजन हिताय)	243-244, द्वितीय तल, राधा चैम्बर्स, प्लॉट नं0-9, जी - ब्लॉक, कम्यूनिटी सेंटर, विकासपुरी, दिल्ली - 18

28	आम जनक्रान्ति पार्टी	ग्राम व पोस्ट - भगोपुर, शिकोहाबाद रोड, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के पास, जिला - एटा, उत्तर प्रदेश - 207001
29	आम जनमत पार्टी	एच.आई.जी.फ्लैट नं० 7 एच.एफ.-25, बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, पटना, बिहार-800026
30	आम जनशक्ति पार्टी	इन्डियन जेट-0-जे-62, उत्तम नगर, दिल्ली - 110059
31	आम जनता पार्टी (इंडिया)	रानीपुरवा प्राइमरी स्कूल के पीछे, जानकी नगर, पोस्ट- बस स्टाप, जिला- गोंडा, उत्तर प्रदेश ।
32	आम जनता पार्टी (सोशलिस्ट)	ग्राम व पोस्ट-इंदौरपुर, जिला अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश-224129
33	आम जनता पार्टी डेमोक्रेटिक	हाउस नं. 1403, बेला, बार्ड नं. 4, ग्राम पंचायत बेला, तहसील- उमरेड, जिला- नागपुर, महाराष्ट्र-441115
34	आम जनता पार्टी राष्ट्रीय	फ्लैट नं०-804, 8वां तल्ला, धर्मादा कॉम्प्लेक्स, जगदेव पथ मोड़, बेली रोड, पटना, बिहार - 800014
35	आम जनता प्रगति पार्टी	बी - 141, अमर ज्योति कॉलोनी, सेक्टर - 17, रोहिणी, दिल्ली - 110081
36	आम लोक पार्टी युनाइटेड	मकान सं.328, गली नं.4, नेताजी पार्क हैबोवात कलां, लुधियाना, पंजाब-141001
37	आम नागरिक पार्टी	ग्राम - बौल्ला मजपुर, पोस्ट - कीरतपुर निमाना, ब्लॉक - गोंडा, तहसील - इंगलास, जिला - अलीगढ़, उत्तर प्रदेश ।
38	आम नागरिक युवा पार्टी	ग्राम- नल्हड़, हाफाणा - नल्हड़, तहसील व जिला- नूह, हरियाणा- 122107
39	आमजन एकता पार्टी	मोहल्ला-मुंशीपुरा, तहसील के पास-कस्बा-नकुड़, तहसील और थाना-नकुड़, जिला- सहारनपुर, उत्तर प्रदेश-247342
40	अनैथिनथिया जननायका पथुकप्पु कजागम	1/47बी, जे.एस.एम. कैथेड्रल रोड, इट्टेरी, जिला- तिरुनेलवेली, तमिलनाडु- 627007
41	आप और हम पार्टी	बार्ड नं. 24, मकान नं. 714/647, मोहल्ला- बसन्ती गली, जिला- मुजफ्फरपुर, बिहार
42	आप की इंसाफ पार्टी	निवासी 62 A, अबू बाज़ार ऊँचा, घासीफटरा, नियर आइडियल मेरीज हाउस, थाना- तिवारीपुर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273001
43	आप सबकी अपनी पार्टी	विनायका हाईट मेन रोड पर, तारबहार, बार्ड नं. 15, बिलासपुर, छत्तीसगढ़-495001
44	आपका गणतंत्र पार्टी	वैकट बार्ड -13, गली नंबर 2, शास्त्री कॉलोनी, कटनी, मध्य प्रदेश-483501
45	आपका हमारा पार्टी	ग्राम-महुडर, पोस्ट - रेवाली, जिला - हजारीबाग, झारखण्ड-825301
46	आपकी अपनी अधिकार पार्टी	मकान सं०-381/5, नई पर्वतिया कॉलोनी, सारन स्कूल रोड, महादेव चौक, गांव - सारन, एन.आई.टी. फरीदाबाद, हरियाणा ।
47	आपकी अपनी पार्टी (पीपल्स)	खसरा-नं. 19/26, नियर अमृत विहार, मेन रोड बुराडी, बुराडी, नई दिल्ली- 110084
48	आपकी आवाज पार्टी	206, चंद्र प्रकाश, रेसीडेंसी, सिदसर रोड, भावनगर, गुजरात-364002
49	अपना पंजाब पार्टी	मकान नं०-2442, फेज -II, सेक्टर - 65, एस.ए.एस. नगर, मोहाली, पंजाब ।
50	अपनी सरकार पार्टी	6/शान्तिकुंज सोसायटी, गायत्री मंदिर के सामने, नेशनल हाईवे, कलोल, जिला- गौधीनगर, गुजरात-382721
51	आपनी डेमोक्रेटिक पार्टी	धानी अमरुद के बाग वाली, धौलपुर रोड, ग्राम- भोडिया खेडा, तहसील व जिला- फतेहाबाद, हरियाणा-125050
52	आपसी सहयोग पार्टी	ई-737, ई-ब्लॉक, जे.जे.कॉलोनी, मंगोलपुरी, दिल्ली-110083
53	आरक्षण विरोधी पार्टी	डीटी-146, तिरखा कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद-121004, हरियाणा ।
54	आर्थिक विकास पार्टी	नील कण्ठ धाम मठ जिन्दा नागा समाधि, ग्राम- किनुखेडी, पोस्ट- झारडा, तहसील- मल्हारगढ़, जिला- मंदसौर, मध्य प्रदेश- 458553
55	आर्थिक व्यवस्था परिवर्तन पार्टी	मकान संख्या - 166, गाँव- तेजा का पूरा, अब्दुलपुर खास, पोस्ट- हरिसेन गंज, मऊ, आइमा, थाना- सोराऊं, तहसील- सोराऊं, जिला- इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश - 226020
56	आस पंजाब पार्टी	1901, 1902, चौक शक्ति नगर, अमृतसर, पंजाब-143001

57	आसरा लोकमंच पार्टी	म्हाडा कोलोनी, गाला क्र.683, गट क्र.74, देवलाई, ता. व जि. औरंगाबाद, महाराष्ट्र - 431001
58	आवाम अधिकार जागरण पार्टी	ग्राम - सरोखनपुर, निकट सरकारी अस्पताल (CHC), पोस्ट - बदलापुर, जिला - जौनपुर, उत्तर प्रदेश - 222125
59	अवामी पिछडा पार्टी	मकान संख्या 269, अराजी नं0-1, चक रशीद देहली, अटिलाबाद, पावर हाउस मोहमदाबाद, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश-233227
60	आजाद समाज पार्टी (कांशी राम)	मकान नं0 180, गली नं0 3/22, (खसरा नंबर-265), गोकुल पुर गांव, हक्का शाहदरा दिल्ली-110094
61	आजादी का अंतिम आंदोलन दल	एम. आई. जी. डी.- 27, शैलेन्द्र नगर, रायपुर - 492001 छत्तीसगढ़ ।
62	अभय समाज पार्टी	ग्राम - अन्धया, पोस्ट - हरपुर तिवारी, तहसील - सदर महाराजगंज, जिला - महाराजगंज, उत्तर प्रदेश ।
63	अभिनव भारत जनसेवा पक्ष	कामिनी हाउसिंग सोसाइटी, गली नं -1, महालक्ष्मी नगर, गैस गौडाऊन्त्या बाजुला, अवरनाथ (पूर्व), जिला - ठाणे, महाराष्ट्र - 421501
64	अभिनव भारत पार्टी	आर वी -10, ब्लॉक आर वी, इंदरपुरी दिल्ली- 110012.
65	अभिनव लोकतंत्र पार्टी	एच.नं.97, ठाकुर पट्टी लीखली, पोस्ट- मरियादा, तहसील - सिकराय, जिला - दौसा, राजस्थान-303326.
66	अभिनव राजस्थान पार्टी	सी-14, गांधी नगर, मेड़ता सिटी, जिला- नागौर, राजस्थान- 341510
67	अबुआ झारखंड पार्टी	रोड न. 7, मिडिल दौंडनगर, डिवडीह, रांची, - 834002
68	एक्शन पार्टी	गाँव व पोस्ट- मैंगलगंज, मेन मार्केट, निकट हरिचरणेश्वर महादेव मंदिर, ब्लॉक- पसगवां, जनपद- लखीमपुर (खीरी), उत्तर प्रदेश।
69	एक्शन पार्टी फॉर पीपुल्स प्रोग्रेस	नं. 13/7, ऐश्वर्या बिल्डिंग, शॉप नं.- 11, तीसरा क्रॉस स्ट्रीट, ट्रस्टपुरम, कोडामबक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु- 600024
70	आदर्श जन शक्ति पार्टी	हाउस नं0 10204, अरेई वाली गली, मान आटो स्टैंड, दुर्गा पुरी, हाई बोयाल कलान, लुधियाना, पंजाब ।
71	आदर्श जनकल्याण दल	ग्राम-चन्दुआरा, पोस्ट-जट डुमरी, थाना-पुनपुन, जिला-पटना, बिहार- 804453
72	आदर्श जनता पार्टी	ग्राम - कुडी, पोस्ट - कटनाहर्षा, आदर्श नगर, शिकोहाबाद, जिला- फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश- 283135
73	आदर्श लोक दल	आबू नगर, पुलिस थाना फतेहपुर सिटी के सामने, जिला-फतेहपुर, (उत्तर प्रदेश) ।
74	आदर्श मानवतावादी पार्टी	डी.एस./919, सेक्टर-सी, सीतापुर रोड योजना, जानकीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
75	आदर्श न्याय रक्षक पार्टी	ग्राम व पोस्ट- मालौल, तहसील-खरगापुर, जिला- टीकमगढ़, मध्य प्रदेश- 472115
76	आदर्श पोलिटिकल पार्टी	405, कुन्दन भवन कोमर्शियल काम्पलेक्स, आजादपुर, दिल्ली-110033.
77	आदर्श राष्ट्रीय विकास पार्टी	मकान नं0 1369, सुरक्षा-1, सेक्टर-4, ई0एल0डी0ई0सी0ओ0 रायवरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
78	आदर्श समाज पार्टी	बी-505, कमला नगर आगरा, उत्तर प्रदेश ।
79	आदर्श व्यवस्था पार्टी	सुगही बार्ड नं. 12, गांव- बंजरिया, टाउन एरिया सलेमपुर, जिला- देवरिया, उत्तर प्रदेश -274509
80	आदर्शवादी दल	जवाहर रोड, खुर्जा-203136, जिला-बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) ।
81	आदर्शवादी पार्टी (लोकतांत्रिक)	मकान नं. 81, मोहल्ला- चित्रसाई, नियर अशोक इंटर कालेज के पास, सदर जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222001
82	अधिकार पार्टी	234, ब्रिडजी अलीबेग, रेकावगंज, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश - 224001 ।
83	अधिकार विमर्श पार्टी	शिवाला तपस्या मकान नं0 - 10/571, अरुण नगर, अल्प आय वर्ग समिति, बार्ड नं0 - 10, तहसील - हुजूर, जिला - रीवा, मध्य प्रदेश ।
84	आधुनिक भारत पार्टी	299ए, नानकारी आई.आई.टी, कानपुर महानगर, कानपुर उत्तर प्रदेश- 208016
85	आदिम भारतीय दल	बेलदार भवन, कूरी बाजार मार्ग, (बलूआ) कूरी बाजार, जिला-गोरखपुर-273404. उत्तर प्रदेश ।

86	आदियासी जन कल्याण पार्टी	द्वारा दक्षिण गुजरात गामित समाज सेवा ट्रस्ट पानवाडी, गुजरात ट्रेडर्स के पास, व्यारा, जिला-तापी, गुजरात-394650।
87	अद्वैत ईशावास्यम् कॉंग्रेस	गुरुआईन वाडी आश्रम, रीम नाका, मैहर, जिला-सतना, मध्य प्रदेश।
88	अगर जन पार्टी	घो-949, अग्रवाल वाली गली, मेन कृष्णा गली के पास, मौजपुर दिल्ली-110053.
89	अगिला इंडिया मक्कल कड़गम	नं 3, द्वितीय क्रॉस, वल्लालर नगर, पेथुचेटीपेट, लॉस्पेट पोस्ट, पुडुचेरी-605008
90	अहिला इण्डिया धायगा मक्कल मुन्नैतरा कॉंबी	नं0 1/407, अय्यर कॉलोनी, थानाक्कनकुलम, तिरुनगर, मदुरै, तमिलनाडु - 625006
91	अहिंसा सोशलिस्ट पार्टी	डी0 नं0 - 5/125, वेस्ट पाल्पट्टी, पोस्ट - सेलप्पमपट्टी, तालुक व जिला - नामक्कल, तमिलनाडु - 637019
92	अहिंसा समाज पार्टी	प्रियदर्शनी कॉलोनी, वृद्धा आश्रम के पास, बार्ड नं0 - 47, छिंदवाडा, तहसील व जिला - छिंदवाडा, मध्य प्रदेश- 480001
93	अहिंसावादी जनता पार्टी	एन.टी.पी.सी. मुख्य गेट के पास, नौफरी, ग्राम-लोघई, शमशाबाद रोड, आगरा, जिला - आगरा, उत्तर प्रदेश
94	ऐहरा नेशनल पार्टी	1/24, एस.एफ. के एम टी भवन, गली नं0 2, तलिता पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
95	एम पोलिटीकल पार्टी	543, बाबासाहेब आंबेडकर सोसायटी, रूम नं0 - 179, सीईएन नं0 - 301, कैप्टन प्रकाश पट्टे मार्ग, कफ परेड, कोलाबा, मुम्बई, महाराष्ट्र - 400005
96	अकाली दल (1920)	296, सेक्टर - 10 - ए, चण्डीगढ़-160010।
97	अखंड आर्यावर्त एक्सेस पार्टी	1/4961, बलबीर नगर एक्सटेंशन, गली नं.4, शाहदरा, दिल्ली-110032
98	अखण्ड भारत चेतना दल	प्लॉट क्रमांक- 9, खसरा नं. 144/2, साई कॉलोनी, भाईजान रिक्षो वाले के पीछे, न्यू कॉलोनी, गढ़ा, जबलपुर, मध्य प्रदेश- 482003
99	अखंड भारत एकता मंच	ए-204, फेयरडील हाउस, स्वास्तिक क्रॉस रोड के पास, सी. जी. रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात- 380009.
100	अखंड भारत जनप्रिय पार्टी	गणेश शर्मा, रोड नं0-3, बजरंगपुरी, भगत सिंह पथ, गुलजारबाग, पटना बिहार-800007
101	अखण्ड भारत पार्टी	47-स्कमिणी विहार, मण्डी समिति के सामने, बाई पास, मथुरा, उत्तर प्रदेश- 281001
102	अखंड भारत समाज पार्टी	ई-14, फर्स्ट फ्लोर, डी.डी.ए.मिनी मार्किट, सुल्तानपुरी, दिल्ली-110086
103	अखण्ड भारत समाज्य पार्टी	एफ-305, राजहर्ष कॉलोनी, कोलार रोड, अकबरपुर, भोपाल, मध्य प्रदेश- 462042
104	अखण्ड भारत स्वतंत्र पार्टी	ग्राम- पटनी, पोस्ट व थाना- चिकलाना, जिला- सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।
105	अखंड भारत विकास पार्टी	प्लॉट नं0 - 100, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश- 247001
106	अखण्ड भारतीय आवाज	ए-54 मानेक नगर सी. एच0 एस0 लिमिटेड, एम0जी0 रोड कान्डीवाली (पश्चिम), मुम्बई - 400067, महाराष्ट्र।
107	अखण्ड भारतीय कवच पार्टी	बी-33, अशोक नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
108	अखंड भारतीय युवा पार्टी	421/6, ब्लॉक -बी, लक्ष्मी विहार, बुरारी, नई दिल्ली- 110005.
109	अखण्ड हिन्द पार्टी	बी-13, रफीक कम्पाउन्ड, किशन नगर, पश्चिम द्रुतगति मार्ग, दहीसर (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र 400068
110	अखंड लोकतांत्रिक पार्टी	मुख्य मार्ग स्टेट बैंक के सामने, C/O सहेतरीन बाई साहू, वाई नं.02, लवन, जिला- बलौदाबाजार, भाटापारा, छत्तीसगढ़-493526
111	अखण्ड मानव पार्टी	मकान नं.सी-20, नीलबड़ बालाजी नगर, फेस-1, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल, मध्य प्रदेश- 462044
112	अखण्ड राष्ट्रवादी पार्टी	7/5/67/2, विकास नगर, सेक्टर - 7, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226002।
113	अखंड राष्ट्रीय रक्षक पार्टी	बी-267, श्री जीवराज पार्क, नारायण नगर के पास, पोस्ट-खोडयार नगर, अहमदाबाद गुजरात- 382352

114	अखण्ड समाज पार्टी	2/45, बालु अंडा, संजय गांधी नगर, पाम नारायन रोड, थाना- हजरतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001
115	अखण्ड समता पार्टी	फ्लैट नं. आर- 202, टैरा ग्रीन्स, अलवर बाईपास भिवाड़ी, तहसील- तिजारा, जिला- अलवर, राजस्थान- 301019
116	अखिल भारत हिन्दू महासभा	मंदिर मार्ग, नई दिल्ली- 110001.
117	अखिल भारत समग्र क्रान्ति पार्टी	राजेन्द्र पाण्डे का घर, डा० सलीम अहमद की गली के सामने, कटरा, बस्ती, जिला- बस्ती, पिन कोड सं० 272001, उत्तर प्रदेश ।
118	अखिल भारतीय अशोक सेना	117/0/117, गीता नगर, कानपुर-208025, (उत्तर प्रदेश) ।
119	अखिल भारतीय काँग्रेस दल (अम्बेडकर) ।	च-1, कुम्भा नगर, हाऊसिंग बोर्ड, घितौड़गढ़-312001 (राजस्थान) ।
120	अखिल भारतीय गरीब पार्टी	गाँव-कुराना, पोस्ट-सिन्धवाली, जिला-गाजियाबाद, (उत्तर प्रदेश) ।
121	अखिल भारतीय गोरखा लीग	महावीर बिल्डिंग, लाडेन्ला रोड, दार्जिलिंग-734101, (पश्चिम बंगाल) ।
122	अखिल भारतीय हिन्दू क्रांति पार्टी	कृष्णा भवन, सेमरिया चौक, सतना, मध्य प्रदेश ।
123	अखिल भारतीय जन संघ	टी-14, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज -2, नई दिल्ली-110020.
124	अखिल भारतीय जनशक्ति पार्टी	2538, हडसन लाईन, जी.टी.वो.नगर, दिल्ली-110009
125	अखिल भारतीय किसान मजदूर मोर्चा	श्री महात्मा गाँधी विचार केन्द्र, उलदान, झाँसी (उत्तर प्रदेश) ।
126	अखिल भारतीय लोकतंत्र पार्टी	गाँव और पोस्ट-दत्तावाली, जिला-मेरठ (उत्तर प्रदेश) ।
127	अखिल भारतीय मानवता पक्ष	मानवता भवन पेन्ट्री (कोके), तहसील-सिन्देयाही, जिला-चन्द्रपुर, महाराष्ट्र ।
128	अखिल भारतीय मुस्लिम लीग (सेक्यूलर) ।	खारी कुआं मुगलपुरा प्रथम, मुरादाबाद-244001, (उ. प्र.)
129	अखिल भारतीय राजार्या सभा	आदर्श गुरुकुल शाही, जिला-पीलीभीत- 262001, (उत्तर प्रदेश) ।
130	अखिल भारतीय समाजवादी काँग्रेस	सी-31, हौज खास, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली-110016.
131	अखिल भारतीय संघर्ष दल	नंगली भट्टा, फतेहगढ़, चुडियाँ रोड, अमृतसर-143001 पंजाब ।
132	अखिल भारतीय सेना	ओम कला निकेतन संकल्प, को. ओप. हाउसिंग सोसायटी, आनन्दगार, विखोरिली पार्क साइट (पश्चिम), मुम्बई - 400079 (महाराष्ट्र) ।
133	अखिल भारतीय शिवसेना राष्ट्रवादी	अखिल भारतीय शिवसेना भवन, गुड मंडी, लुधियाना (पंजाब) ।
134	अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी	3 सर्कुलर रोड, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश-211001
135	अखिल भारतीय आमजन पार्टी	मुकाम, पोस्ट-लाड़पुरा, गाँव-गणवाना, जिला-अजमेर, राजस्थान-305023.
136	अखिल भारतीय आपकी अपनी पार्टी	एफ - 2, ग्राउंड फ्लोर, राजेन्द्रा पार्क, नांगलोई, नई दिल्ली- 110041
137	अखिल भारतीय आरक्षित समाज पार्टी	392बी, सेक्टर- बी, सर्वधर्म कॉलोनी, कालोर रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश- 462042
138	अखिल भारतीय अपना दल	1372, गणेश नगर, मातिका मऊ आड़मा, जिला- रायबरेली, उत्तर प्रदेश-229010
139	अखिल भारतीय एकता पार्टी	जाधववाड़ी रोड, हनुमान चौक, तहसील व जिला - उस्मानाबाद, महाराष्ट्र - 413501
140	अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी	263, राहुल नगर, कोलार रोड, भोपाल - 462003, मध्य प्रदेश ।
141	अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी	सा-17/235.जी.पी. सारंग ताताब पहडिया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, पिनकोड-221007
142	अखिल भारतीय जन मोर्चा	मकान संख्या- 960, प्रताप नगर, भानपुर, भोपाल, मध्य प्रदेश- 462037.
143	अखिल भारतीय जनादेश पार्टी	मकान सं.43, ग्राम-देल्हुआ जजदीक बेरुआरवारी, मेन रोड, सुखपुरा, वांसीडीह रोड, जिला- बलिया, उत्तर प्रदेश-277301
144	अखिल भारतीय जनता सहारा पार्टी	7/96-97, विकास नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ।
145	अखिल भारतीय जनहित पार्टी	पोस्ट - साजणी, तालुक - हातकण्गले, जिला - कोल्हापुर, महाराष्ट्र - 416115
146	अखिल भारतीय जनसत्ता पार्टी	60, चौधराना पोस्ट- जायस, जिला- अमेठी, उत्तर प्रदेश- 229305
147	अखिल भारतीय झारखण्ड पार्टी	गाँव-किनुडीह, पोस्ट-करनडीह, जमशेदपुर-831002, जिला-पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड ।

148	अखिल भारतीय कल्याण पार्टी	मो0 मिर्दहान, दक्षिणी, पोस्ट- दरियाबाद, जनपद- बाराबंकी, उत्तर प्रदेश- 225403
149	अखिल भारतीय किसान मजदूर पार्टी	ग्राम-फरीदपुर, तहसील-तिगांव, जिला-फरीदाबाद, हरियाणा-121101
150	अखिल भारतीय क्रांति सेना पक्ष	महाराणा प्रताप चौक में दुकान नंबर 01, ओ.पी.पी., भगत सिंह स्कूल के सामने बजाज नगर, बालुज एम.इ.डी.सी., जिला-औरंगाबाद, महाराष्ट्र- 431001
151	अखिल भारतीय लोकाधिकार पार्टी	शोप नं०-9, बी विंग, भुराज ऐनक्लेव, समर्थ वाडी, मान खुर्द स्टेशन रोड, मुम्बई, महाराष्ट्र-400088.
152	अखिल भारतीय मानवाधिकार विचार मंच पार्टी	बलिया (जिलेबियामोड़), सुलतानगंज देवघर रोड, पो०-मंझली मटिहानी, भाया - बेलहर, जिला - बांका, बिहार।
153	अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी	मकान नंबर 820, गोपी कॉलोनी, राजा गार्डन, सेक्टर-19 के पास, सर्वोदय अस्पताल, फरीदाबाद, हरियाणा - 121002.
154	अखिल भारतीय मिथिला पार्टी	विलास राय कॉम्प्लेक्स, सीतामढ़ी रोड, एन.एच.-77, निकट एस.एस.बी. हैड क्वार्टर्स, रूसुलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार - 842004
155	अखिल भारतीय नैतिक पार्टी	मो० कन्हईपुरवा, निकट बिलग्राम चुंगी, जनपद - हरदोई, उत्तर प्रदेश - 241001
156	अखिल भारतीय नवनिर्माण पार्टी	ग्राम- सिकटिया, पोस्ट- लंगरी, थाना- हाटा, जिला- कुशीनगर उत्तर प्रदेश- 274203
157	अखिल भारतीय परिवार पार्टी	ए-37, पाकेट-11, भूतल, जसोला जनता फ्लैट, नई दिल्ली- 110025.
158	अखिल भारतीय राष्ट्रीय परिवार पार्टी	बी-19/70-4, इयोटियावीर, भेलपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
159	अखिल भारतीय सर्वधर्म समाज पार्टी	72, बजरंग नगर, रोड क्र: 6, मानेवाडा रोड, पोस्ट- पार्वतीनगर, नागपुर, महाराष्ट्र- 440027
160	अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी	448/986, मल्लाही टोला-1, नागरिया, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226003
161	अखिल भारतीय सवर्ण पार्टी	177/क्यू/94, एन० आई० सी० सोसाइटी, शारदा नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश - 208024
162	अखिल भारतीय सुधार पार्टी	मकान सं०- 2389, प्रथम तल, हडसन लेन, किंग्सवे कैम्प, दिल्ली - 110009
163	अखिल भारतीय स्वराज दल	मकान नं० 22/178, मांझखोर रमेडी तराई चौराहा, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश ।
164	अखिल भारतीय विकास कॉंग्रेस पार्टी	एस-7, विकासदीप वेसमेन्ट, स्टेशन रोड, लखनऊ-226001 उत्तर प्रदेश ।
165	अखिल हिन्द फार्वर्ड ब्लॉक (क्रांतिकारी)	वाई संख्या - 36, होलिंग संख्या - 711/499, रेलवे हंडर रोड, उपाध्याय लेन, पश्चिमी लोहानीपुर, कदमकुआँ, पटना, बिहार - 800003
166	अखिल राष्ट्रवादी पार्टी	मोहारवती सिसोदिया भवन, नजदीक डाक बंगला, नाद्री गेट, कासगंज, जिला एटा (उत्तर प्रदेश) ।
167	अखिल राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी	ब्लॉक-22, पहला तल, गणेश चैयर, घंतोली, नागपुर महाराष्ट्र-440012
168	अखिल भारतीय रथपा पार्टी	नं० 127, श्रवणाबेलागुला टाउन, बैंगलुरु मेल रोड, चन्नारायापटना तालुक, जिला-हसन, कर्नाटक-573135
169	अखिल इण्डिया जनानयाका मक्कल काची (डॉ इसाक) ।	नं० 171, कानन नगर, चैंटरपेट, अराकोनम, जिला-वेलौर, तमिलनाडु ।
170	अखिल केरला त्रिणमूल पार्टी	मकान नं० 161, स्वातिनगर, इटकोट देशम, पल्लिचल विल्लेज, नेमौम पी.ओ. तिरुवनन्तपुरम केरल - 695020
171	अखिला विजया पार्टी	डी.591.5 वीं मंजिल, हबडाउन मार्केट, गीता मंदिर, बस स्टोप, अहमदाबाद, गुजरात- 380022
172	अखिला इण्डिया वल्लालार पेरावई	43, पिल्लायार कोल स्ट्रीट, वीरा रागवपुरम, चेन्नई-600 077, तमिलनाडु ।
173	अखिला इन्धिया मक्कल मरुमलार्ची कझकम	144/82, मरीअम्मन कोविल स्ट्रीट ठुवाकुदी-पोस्ट, थिरुवरुम्पुर तालुक त्रिचिरापल्ली जिला, तमिलनाडु- 620015
174	अल-हिन्द पार्टी	बी-2/40, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली - 110029 ।
175	ऑल भारत तोजिलातर काचि	नंबर 106/1. (ओल्ड नं. 19) थीरुवल्लुवर स्ट्रीट, करप्पाचावाडि, कृष्णनकुप्पम पोस्ट, कुरिनजेपडुडी, टीके कुल्लनचावडुडी वे, कुड्डालोर जिला, निकट श्रीदुलुकनाथम्मन कोडल, तमिलनाडु- 607302.

176	ऑल इंडिया आर्य महासभा	ग्राम-नावा-हिम्मतपुर, कृष्णापुर, पी.एस. नलहटी, पोस्ट-कृष्णापुर, जिला-वीरभूम, पश्चिम बंगाल- 731237
177	ऑल इंडिया आजाद कांग्रेस पार्टी	म0 नं0 5-9-30/सी, मेडिशन हाऊस, बशीर बाग, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
178	ऑल इंडिया बैकवर्ड पीपुल सुनामी पार्टी	1-2-53, फ्लैट नं. 302, ओडियन एन्वलेव, दोमालागुडा, (गगनमहल), हिमायत नगर, हैदराबाद, तेलंगाना-500029
179	ऑल इंडिया वी० सी०, ओ० वी० सी० पार्टी	म० नं० 1-1-109/18, रामदास नगर, कपडा, ई. सि. आई. एल., रंगा रेड्डी जिला, आन्ध्र प्रदेश-500062
180	ऑल इण्डिया भारती जग पार्टी	लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास, ग्रेन मार्केट, मनसा- 151505, पंजाब
181	ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी	एम0-77, सेक्टर-9ए, साकेत नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश-462024
182	ऑल इंडिया डिसेबल्ड पार्टी	प्लॉट नंबर 57, भगवान श्री शेषस्थिरी नगर, मालापट्टी रोड, डॉन बोस्को कॉलेज बैकसाइड, बालकृष्णपुरम पंचायत, डिंडीगुल, तमिलनाडु- 624003.
183	ऑल इंडिया फेडरल ब्लॉक	मलेक्कुडी, इलम्बकापिल्ली पी.ओ., क्वाप्पडी, ऐरणाकूल जिला, केरल- 683544
184	ऑल इंडिया फार्वर्ड ब्लॉक (सुभासिस्ट)	49-एम, मोतीलाल, फर्स्ट स्ट्रीट, मदुरई-625010, (तमिलनाडु)
185	ऑल इण्डिया हिन्दु नान कांग्रेस पार्टी	191 सी, चन्द्रनगर ए, नौ दुकान, कालवाड रोड, गोविन्दपुरा, झोटवाडा, जयपुर, राजस्थान - 302012
186	ऑल इंडिया जयहिंद पार्टी	डोर नं.- 22-77, भगत सिंह नगर, छठी लेन, यानमलाकुंडरु, विजयवाड़ा, आन्ध्रा प्रदेश- 520007
187	ऑल इंडिया जन कांग्रेस पार्टी	ए-1वी/110ए, कृष्णा अपार्टमेंट, एल.आई.जी फ्लेट्स, ए-1वी, पश्चिम विहार, दिल्ली- 110063
188	ऑल इंडिया जन समस्यानिवारण पार्टी	वार्ड नं०-1, मु. पो. ता. - कलमेश्वर, जिला - नागपुर, महाराष्ट्र - 441501
189	ऑल इण्डिया जन आन्दोलन पार्टी	खादाले, पुदुंग बस्ती, रैली रोड, कालिम्पोंग खासमहल, पोस्ट व थाना - कालिम्पोंग, जिला - दार्जीलिंग, पश्चिम बंगाल - 734301
190	ऑल इंडिया जननायक मक्कल कझगम	नं.- 137, केसवा गार्डन, तीसरा ब्लॉक, डेमेलिएस रोड, चेन्नई, तमिलनाडु - 600012
191	ऑल इंडिया जनारक्षा पार्टी	के.नं. 1403/वी.एस-17/1404/वी.एस 18, गंगाधरपुरा, डोड्डाबल्लापुरा टाउन, बैंगलोर रूरल जिला, कर्नाटक
192	ऑल इंडिया किसान जनता पार्टी	हाउस नं० 2-221, ग्राम - जयपुरम, कुदैर मंडल, अनंतपुर, जिला - आन्ध्र प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश- 515751
193	ऑल इण्डिया किसान मजदूर मोर्चा	गली गुज्जर सिंह वाली, बगदादी गेट के अंदर, फिरोजपुर सिटी, पंजाब-152002
194	ऑल इण्डिया क्रान्तिकारी कांग्रेस	184/1469, मोती लाल नगर-1, गोरेगांव (पश्चिम), मुम्बई-400104, महाराष्ट्र ।
195	ऑल इंडिया लेबर पार्टी	34/1-ए, लोवर रेन्ज, कोलकाता, पश्चिम बंगाल- 700019
196	ऑल इण्डिया लीगल राइट्स पार्टी	डी.नं.-27, न्यु नं.-8 जे, कल्याणाबायनागर कोयाल स्ट्रीट, पंडियन नगर, थीरुनगर, जिला- मदुरई तमिलनाडु- 625006.
197	ऑल इण्डिया लिबरल पार्टी	प्लॉट नं० 48, विनायक मन्दिर के पास, सेक्टर-6, एम.वी.पी. कॉलोनी, विशाखापटनम- 530017, आन्ध्र प्रदेश
198	ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी	डोर नं० 9-4-135/35/ए, 9-4-135/35, प्लॉट नं० 35, सर्वे नं० 206, 207, 210 199, 198, 195/2, अरुणा कॉलोनी, टोलीचौकी, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500008
199	ऑल इंडिया मजलिस-ए-इन्कलाब-ए-मिल्लत	नं. 23-1-1009/13, मोगलपुरा, हैदराबाद, तेलंगाना- 500002
200	ऑल इण्डिया मजलूम अधिकार पार्टी	ग्राम-दुर्गापुर (ताजपुर फतेहपुर), पी.ओ.-जयनगर माजिलपुर, थाना-जयनगर, जिला-दक्षिण 24 परगना, पिन-743337, पश्चिम बंगाल
201	ऑल इंडिया मक्कल नलवालवु कोषी	नं. 2/259, ओन्दीबदानायकनपट्टी, पलकानुथू पोस्ट, डिंडीगुल जिला, तमिलनाडु- 624619

202	ऑल इंडिया मककल राज्य कङ्गम	प्लॉट नंबर 6-7, शेख मोहम्मद नगर, अलुंद, श्रीरंगम-तालुक, जिला-तिरुचिरापल्ली, तमिल नाडु-620012
203	ऑल इंडिया मानवाधिकार राजनैतिक दल	ग्राम व पोस्ट - राजापुर, थाना - घोलापुर, तहसील व जिला - वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221101।
204	ऑल इंडिया मांची पार्टी	फ्लैट नं० एफ-5, साई अपार्टमेंट, काटुरु रोड, वुय्युरु, जिला-कृष्णा, आंध्र प्रदेश।
205	ऑल इंडिया मजदूर पार्टी (रंगरेटा)	मकान नं०-2453, बाग वाला खूह, जण्डियाला गुरु, जिला - अमृतसर, पंजाब
206	ऑल इंडिया एम.जी.आर. मककल मुन्नेत्र कङ्गम	फ्लैट नं.- ए-4, श्रीनियास आर्कड, नं.- 1/2, अरुणाचलम रोड, चेन्नई, तमिलनाडु-600093
207	ऑल इंडिया माइनोरीटीज फ्रंट	148, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001
208	ऑल इंडिया मूवेन्डार मुन्नानी कङ्गम	लेक एरिया, मेतूर रोड, मदुरई-625107, (तमिलनाडु)
209	ऑल इंडिया नेशनल रक्षा सेना	फ्लैट नं.503, पॉचना फ्लोर, सामानिस पार्क विय, साईदाबाद, सरुनगर, हैदराबाद
210	ऑल इंडिया न्याय पक्ष	मकान संख्या - 1106, सेक्टर-16-17, जिला - हिसार, हरियाणा- 125001
211	ऑल इंडिया पसुम्पन मुन्नेत्र कङ्गम	47बी/2, सोर्गायासल स्ट्रीट, सी.एन.ग्रामन, जिला - तिरुनेलवेली, तमिलनाडु - 627001
212	ऑल इंडिया पट्टाली मुन्नेत्र कांची	नं०-90, गांधी रोड, कल्यांकुरुची, विल्लुपुरम - जिला, तमिलनाडु- 606202
213	ऑल इंडिया पीपल डेवलपमेंट पार्टी	डी नं.-1/119 बी, नार्थ स्ट्रीट, अनैकुत्तम(पोस्ट) थिरुचंगल, शिवमसी, जिला-विरुधूनगर, तमिलनाडु- 626130.
214	ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट (रेडिकल)	बी. पी.-18, 40-फीटरोड, पटेल नगर, मुगल सराय, चन्दौली, उत्तर प्रदेश।
215	ऑल इंडिया पिछड़ा जन समाज पार्टी	475/15 क, कदम रसूल, डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
216	ऑल इंडिया प्रजा पार्टी	मकान नं.- 5-1-240, द्वितीय तल, जामबाग, स्ट्रीट नं.- 17, फ्लावरमार्केट के समीप, हैदराबाद, तेलंगाना- 500095
217	ऑल इंडिया पुराची थलाईयर मककल मुन्नेत्र कङ्गम	डी. नं. 33, कल्यादासन मेन रोड, पहली मंजिल, एस.एस.कॉलोनी, मदुरै, तमिल नाडु- 625010
218	ऑल इंडिया रविदास समता पार्टी	भगवत सिंह भवन सं०-10, सेक्टर-11, शास्त्री नगर, नैरठ, उत्तर प्रदेश।
219	ऑल इंडिया समता पार्टी	मकान नं. 23-8/3, मिलीनियम टॉउनशिप शादनगर, रंगा रेड्डी जिला, फर्रुकोनगर मंडल, तेलंगाना स्टेट- 509216
220	ऑल इंडिया समुधुया मककल कांची	2, कल्याणी नगर, कट्टीवक्कम, चेन्नई-600041, तमिलनाडु।
221	ऑल इंडिया सत्यान्योति पार्टी	ऑगाराकुडिल, 19, एक्सटेंशन, तुरैयूर, तिरुचि जिला, तमिलनाडु - 621010.
222	ऑल इंडिया सेक्यूलर फ्रंट	फुरफुरा, पोस्ट- फुरफुरा, थाना-जंगीपाड़ा, जिला-हुगली पश्चिम बंगाल- 712 706
223	ऑल इंडिया शिरोमणि बाबा जीवन सिंह मजहबी दल	गौध और पो. ऑ. मजीठा, अमृतसर, (पंजाब)।
224	ऑल इंडिया तफसीली यूनाइटेड पार्टी	गौध-सिमुलपुर, पो०-ठाकुर नगर, जिला-24 परगना (एन), (पश्चिम बंगाल)।
225	ऑल इंडिया उलेमा कांग्रेस	नं० 20-24, जफराबाद ग्राम, गुलबर्गा तालुक, जिला - गुलबर्गा, कर्नाटक
226	ऑल इंडिया उझावरगल उझाईप्पलरगल कांची	द्वार नं०-55, प्रथम तल, सिनावर गली, तिरुप्पुर-635601, तमिलनाडु।
227	ऑल इंडिया वीमेन डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी	नं०-36, गणेश नगर, नियर अम्बेडकर नगर बस स्टॉप, 200 फ्रीट रोड, कोलायूर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600099
228	ऑल इंडिया वीमेन यूनाइटेड पार्टी	कमरा नं०-1, चौथी मंजिल, ए-117, शुबराती अपार्टमेंट, ओखला गौध, जामिया नगर, नई दिल्ली - 110025
229	ऑल इंडिया यूथ डेवलपमेंट पार्टी	4/286, कालीपुरम वट्टम, वेला कुट्टई ग्राम, वनियाम्बाडी- तालुक, जिला- चेन्नोर तमिलनाडु- 635752

230	ऑल इंडियन राजीव कांग्रेस पार्टी	41/238, आलापुर हाऊस, राधाकृष्ण मंदिर लेन, नरही, हजरतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001
231	ऑल इंडियन रिपब्लिकन पार्टी	शॉप नं. 4, स्ट्रीट नं. 33, प्लॉट नं. 2814, मौजा भानापेठ, एम.जी.रोड, तहसील व जिला- चंद्रापुर, महाराष्ट्र- 442401
232	ऑल इंडियन पार्टी	डोर नं. 30-3-11, असम गार्डन्स, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश- 530020
233	ऑल जे एण्ड के किसान मजदूर पार्टी	स्टेण्डर्ड होटल, शहीद चौक, जम्मू, जम्मू और कश्मीर ।
234	आल जम्मू एण्ड कश्मीर निवरत डेमोक्रेटिक पार्टी	एम. पी. गली, राजवाग, श्रीनगर जम्मू एवं कश्मीर ।
235	ऑल जम्मू एण्ड कश्मीर रिपब्लिकन पार्टी	1464, मौहल्ला खवाजा बाजार, पावर स्टेशन के पास, अनन्तनाग, पिन कोड - 192101, जम्मू एण्ड कश्मीर ।
236	ऑल पेंशनर्स पार्टी	नं0-12डी पावोडुम तोप्पू, नेल्लूरपेट, गुडियातम, वैल्लूर जिला, तमिलनाडु
237	ऑल पीपुल्स पार्टी	डोर नं0 1-138, पल्लेगुन्टा गांव व पोस्ट, गुराजाला रुरल मण्डल, जिला - गुंदूर, आन्ध्र प्रदेश ।
238	एलियांस ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पार्टी	फ्लैट नं0 106, साई श्री टॉवर्स, 3-6-429/106, स्ट्रीट सं0 4, हिमायतनगर, हैदराबाद - 500029.
239	एलाइड मिलेनियल्स पार्टी ऑफ इंडिया	एटी-51, तीसरी स्ट्रीट, अन्नाई थेरेसा नगर, मदिपक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु- 600091
240	आल-इन-वन पार्टी	प्लॉट नं0-4, ग्राम - साधूपुर, डी0 डी0 पुरम् कालोनी, पोस्ट - कमलाबाद बटौली, रैथा रोड, निकट नशा मुक्ति केंद्र, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226201.
241	अमन और शांति तहरीक-ई-जम्मू और कश्मीर	जेके-ई-खडमात मरकज, के.पी. चौक, खन्नाबल, अनन्तनाग, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के पास, जम्मू और कश्मीर- 192101
242	अमन पार्टी ऑफ इण्डिया	83, सुशीला विहार फेस - प्रथम, वार्ड नं.- 2, भूड, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश ।
243	अमन समाज पार्टी	वी-1452, गली नं0-4, विजय पार्क, दिल्ली-110053
244	अम्बेडकर बहुजना समथा पार्टी	08-7, तिमसाजीपेट (ग्राम व मंडल), नागरकुर्नूल, तेलंगाना - 503001
245	अम्बेडकर जनता पार्टी	सं0 57/1 सविमाना इटरप्राइजेज, भद्रप्पा लेआउट, कोदिगेहल्ली नगरीयहल्ली मेन रोड बैंगलोर- 560092, कर्नाटक।
246	अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस	8-3-323 अमृतपेट, कास रोड, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।
247	अम्बेडकर पीपुल्स मूवमेंट	39, सरायना स्ट्रीट, टी नगर, चेन्नई-600017. (तमिलनाडु) ।
248	अम्बेडकर पॉलिटिकल पार्टी	डी. नंबर 321/1 एस.एस मीलाक्षीपुरम, सोयदार्पति (पी.ओ.), थिरुमंगलम (टी.के.), मदुरई (डी.टी.), तमिलनाडु-625704.
249	अम्बेडकर समाज विकास पार्टी	मकान नं - 49, मुहल्ला- तिलक नगर, युमना नगर, तहसील- जगाधरी, जिला- युमना नगर, हरियाणा- 135003
250	अम्बेडकर सेना पार्टी	शाम-कवरी, रविदास मंदिर के पास, तहसील व जिला-पानीपत, हरियाणा-132013
251	अम्बेडकर विकास पार्टी	गांव-रोहता, इंदिरा आवास कोलोनी, थाना-सदर बाजार, आगरा, उत्तर प्रदेश-282009
252	अम्बेडकर युग पार्टी	240/71 एफ/3, स्टैनली रोड, कमला नगर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
253	अम्बेडकरवादी पार्टी	136/1, डायमंड हारबर रोड, कोलकता-700063 (पश्चिम बंगाल) ।
254	अम्बेडकरिस्ट रिपब्लिकन पार्टी	राष्ट्रभाषा प्रचार समिती के पीछे, वर्धा - 442001, जिला-वर्धा, महाराष्ट्र ।
255	आंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया	ए.पी.आई.. सेंट्रल सेक्टरियट, प्लॉट नं.1672, नियर बुद्धा विहार, नारा रोड, इंदारा (वारपखड), नागपूर-440014, महाराष्ट्र
256	अम्मा मक्कल मुन्नेट कळगम	नया नं.-15, पुराना नं.8, गण्ड फ्लोर, वेस्ट कोट रोड, रोयापेट्टाह, चेन्नई- 600014, तमिलनाडु
257	आमरा बंगाली	नं0 2, वल्लव स्ट्रीट, कोलकता-700004, (पश्चिम बंगाल) ।
258	अनाईथिंडिया समुदया मुन्नेत्र कजगम	नं0 7/13, पूर्व माडा स्ट्रीट, थिरुवथीपुरम व पोस्ट चेय्यर तालुक - 604 407, थिरुवन्नामना, जिला-तमिल नाडु।

259	अनैथिन्डिया उज्जैककुम पटैप्पाली वाज्जुरिमै कच्चो	नंबर 1, रेणुनाथपुरम ईस्ट स्ट्रीट, देवकोटई, शिवगंगई जिला, तमिलनाडु-630302
260	अनैतीन्डीया समूदाय मक्कल काची	80, कूलदाई वेलन लेन, मेन रोड, डिडिगुल, तमिल नाडु - 624001
261	अनैथिनथिया अन्ना द्विडा मक्कल सेयल काचि	15/28, पिल्लानल्लूर पुडूर, गुरुसामि पलायम पोस्ट, वेटेरिनरी हॉस्पिटल, गुरु सामि पलायम पोस्ट, रासीपूरम टीके, नामक्कल जिला, तमिलनाडु - 637403
262	अनैथिनथितया तामिझागा मुन्नेत्र कङ्गम	10/2, नलवर नगर, कलवीरामपालायम, भारतीयार, यूनिवर्सिटी (पोस्ट), कोयम्बटूर-641048 (तमिलनाडु)।
263	अनैतु इंडिया मक्कल कांची	176/9, 37डी, तालुक ऑफिस रोड, पुलिस क्वार्टर के पीछे, सेसर, कृष्णागिरी- जिला, तमिलनाडु- 635109
264	अनैथु मक्कल अरासियल काची	नम्बर 1/111, ईस्ट कोस्ट रोड, इन्जायक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु- 600115
265	अनैथु मक्कल काची	नं. 44, दूसरा तल, नारायणसामी स्ट्रीट, पुलियानतोप, पैरम्बूर बैरेक्स के पास, चेन्नई, तमिलनाडु- 600012
266	अनाईथु मक्कल मुन्नेत्र कङ्गम	डी नं०- 199/416 (आर०एस०नं० 177-1बी), प्रथम तल, आरकोट रोड, वडापझानी, चेन्नई-600026, तमिलनाडु।
267	अनैथु मक्कल पुराची कांची	न. 268, अमन कोईल स्ट्रीट, आलडी पोस्ट- विरुथाचलम्, (टीके) कडलूर (डीटी), तमिलनाडु- 606115
268	अनैतु मरुथुवार मक्कल मुनेत्र कङ्गम	136/डी 3, अन्नाई आराधना अष्टलक्ष्मी नगर, गुदलूर, कांचीपुरम, तमिलनाडु, पिन कोड- 603204
269	अनाईथु उलागा तमिलारगल मुनेत्रा कलगम	नं. 17, एजहिल नगर, पैरुमालपुरम, पालयमकोटई, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु-627007
270	अनैतुमक्कल नीति कांची	डी० नं० 11, भूतल, 8वीं स्ट्रीट एक्सटेंशन, अहिंसापुरम, सेलुर, मद्रुरै, तमिलनाडु - 625002
271	अनारक्षित समाज पार्टी	मकान नं०-371, प्रथम तल, मोहल्ला - सधवाड़ा, कायमगंज, जिला - फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश ।
272	अन्वू उदयम कच्चो	12/11, सुभाष ईलम, तेनी - गुडलूर - 625518, तमिलनाडु
273	अण्डमान एंड निकोबार जनता पार्टी	गाराचरमा गाँव, टीटीआई रोड, तहसील - पोर्ट ब्लेयर, जिला - दक्षिण अण्डमान, अण्डमान एंड निकोबार द्वीपसमूह - 744103 ।
274	अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक कांग्रेस	गाँव और पीओ - रामकृष्णपुर, लिटिल अंडमान, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह - 744207
275	आन्ध्र चैतन्य पार्टी	डोर नं. 12-20-3, गुड्डू स्ट्रीट, भीमुनिपटनम, विशाखापटनम् जिला, आन्ध्र प्रदेश- 531163
276	आन्ध्र प्रदेश राष्ट्र समैक्या समिति पार्टी	मकान नं० 11-8-118/2 (ओल्ड), 11-8-99/84 (न्यू), नरसिन्हापुरी कॉलोनी, अष्टलक्ष्मी एच वाई डी - विजयवाड़ा हाईवे, हैदराबाद - 500035, आन्ध्र प्रदेश ।
277	आंध्र पेंशनर्स पार्टी	म.न.8-6-666, प्लॉच नं. 64बी, श्री बालाजी नगर, बी.नं. रेड्डी नगर के पास, वनस्थलीपुरम, हैदराबाद, तेलंगाना-500070
278	आन्ध्र प्रदेश राष्ट्र समिति	डोर नं. 15-8-158/बी, जाकिर हुसैन नगर, 3 लैन, नंदिवेलुगु रोड, ओल्ड गुंदर, गुंदर जिला, आन्ध्र प्रदेश- 522001
279	आन्ध्र राष्ट्र प्रजा समिति	ए. सी. स्टेडियम के पीछे, कोनेयापालेम गेट, दरगामिता, नेल्लोर - 524001. आन्ध्र प्रदेश ।
280	अंगिकर समाज पार्टी	आनन्द आश्रय, पोस्ट ऑफिस- पुराना जूट मिल, शरीफगंज, वाई नं. 42, जिला- कटिहार, बिहार-854105
281	अन्जान आदमी पार्टी	भवन सं. 391/117ए/1, राधा नगर कालोनी, फुलवरिया रोड, दारागंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
282	अंजुमन पार्टी	मकान नं. 95, निजातपुरा, नजर अली मार्ग, कोतवाली रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश- 456006.
283	अन्ना डेमोक्रेटिक हूमन राईट्स मूवमेंट पार्टी ऑफ इंडिया	अमल भवन, थिक्कन्नामंगल, कोट्टारकाश पीओ, कोल्लम, केरल- 691506.

284	अन्ना द्रविड़ कड़गम	8/1, कटचोरि रोड, तिरुतुरैपण्डि, जिला- तिरुवारूर, तमिलनाडु- 614713
285	अन्ना एम.जी.आर. जयललिता द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम	1/213, थिरुसक्तिमुत्रम, कीलावीथी, पटेश्वरम, कुम्बकोणम् तालुक, तंजापुर जिला, साउथ इंडिया, तमिलनाडु - 612703
286	अन्ना मक्कल इयक्कम	नंबर 660, आर.के.जे. वल्लीवेलन नगर, पम्माथुकुलम, पौतुर ग्राम, अम्ब्यातूर तालुका, चेन्नई, तमिलनाडु- 600052
287	अन्ना मक्कल काचि	20सी, रेलवे स्टेशन रोड, चिन्नासलेम विलूपूरम, तमिल नाडू- 606201
288	अन्ना एमजीआर द्रविड़ मक्कल कलगम	नं.150, 3rd क्रॉस स्ट्रीट, अलवरयिस्नगर, श्रीलक्ष्मी नगर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600087
289	अन्ना एमजीआर द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम	मकान नं० - 176, वार्ड नं० - 5, ईस्ट स्ट्रीट, पलोडाई कोलोनी, अन्नाईमलाईयान्पट्टी, उल्थमापलायम - तालुक, थेनी - जिला तमिलनाडु - 625526
290	अन्ना पुरुचि थलैवर अम्मा द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम	नं. 1/424, थोतट्टू पाल्यम, लक्ष्मी नगर, पुलुवापट्टी (पोस्ट), तिरुपुर, तमिलनाडु, तमिलनाडु- 641602.
291	अन्ना वार्डएसआर कांग्रेस पार्टी	द्वार नं० 7/2-2, चीलकलाबावी स्ट्रीट, कडपा, आन्ध्र प्रदेश- 516001
292	अन्नदाता पार्टी	ग्राम- बघला, पोस्ट- दुयहा (वाया- जसरा), थाना- तालापुर, तहसील- बारा, जिला- प्रयागराज, उत्तर प्रदेश- 212107
293	अन्नन तमिलगा राइजिंग कड़गम	223, जीएसटी रोड, कोमपेट, चेन्नई, तमिलनाडु- 600044
294	अन्नदाता कारीगर पार्टी	गनियारी बैढन, जिला- सिंगरौली, मध्य प्रदेश- 486886
295	एन्टी क्रप्शन डायनेमिक पार्टी	प्लॉट नं. 52, गणेश नगर, वेपामुपट्टु- गांव, थिरुवेल्लार, तमिलनाडु- 602024
296	अपना दल बलिहारी पार्टी	ग्राम- महाखरपुर, पोस्ट- रघवापुर, तहसील- हरैया, जनपद- बस्ती, उत्तर प्रदेश- 272155
297	अपना अधिकार पार्टी	मसीहा इग हाऊस, लाईन बाजार, पूर्णियाँ, बिहार ।
298	अपना भारत विकास पार्टी	ग्राम - काशीपुर (मिश्रा नेवरी), जिला - बलिया, उत्तर प्रदेश - 277001.
299	अपना भारतीय सनातन पार्टी	जय शेष मार्केट, ग्राम-किरतारतारा, पोस्ट-विरशाहपुर, जिला-मिर्जापुर उत्तर प्रदेश-231001
300	अपना दल	1/2 ए. पी. सेन रोड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।
301	अपना दल (कमेरावादी)	126/17 बी.बी.एन. रोड, तालबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001
302	अपना दल युनाईटेड पार्टी	ग्राम-सिसवाँ, पो०-कसया, थाना-कसया, जिला-कुशीनगर, उत्तरप्रदेश - 274402
303	अपना देश पार्टी	मकान नं० - 457, मेजरगंज, जिला - सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश ।
304	अपना हक पार्टी	म.नं.-244, विधायक विजय यादव आवास, वार्ड नं.-1, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश- 244601
305	अपना किसान पार्टी	अमला टोला, वार्ड नं.- 30, होटल जय, न्यू मार्केट, कटिहार, बिहार- 854105
306	अपना राज फ्रंट	मकान नं. 1096, सेक्टर-7, बहादुरगढ़, हरियाणा।
307	अपना समाज पार्टी	एससीएफ-49, फेस 3बी2, मोहाली, पंजाब- 160059
308	अपना संघर्ष किसानी, एकता पार्टी	2379/2, कृष्णा नगर, आरती वैक, निकट अमन हॉस्पिटल, सूपर एक्सप्रेस वाली गली, लुधियाना, पंजाब - 141001
309	अपनी एकता पार्टी	पुरानी तहसील परिसर के पास, झालूर रोड, ग्राम-शेरपुर, तहसील-धूरी, जिला- संगरूर, पंजाब - 148025
310	अपनी जनता पार्टी	735/4, (1286/60), गली नं० 13, सिद्धार्थ पुरम (चौहान पुरी), नई बस्ती, बल्लापुरा, जिला- मेरठ, उत्तर प्रदेश- 250002
311	अपनी जनतांत्रिक पार्टी	मकान नं० 234-के, संकट मोचन भवन, ग्राम व पोस्ट-अमरपुर औन, जिला-उन्नाव, उत्तर प्रदेश- 209827
312	अपनी पार्टी (सेक्यूलर)	ग्राम- ऊँची दनकौर, टाउन- दनकौर, जिला- गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 203201
313	अपनी पार्टी इंडिया	एफ-4/149, द्वितीय तल, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली- 110089

314	अपनी प्रजाहित पार्टी	प्लॉट नं 12, दिन प्रजाहित कॉलोनी, ऑपोजिट श्री कॉम्प्लेक्स, नरेंद्र नगर, विवेकानंद नगर, नागपुर, महाराष्ट्र-440015
315	अपनी जिन्दगी अपना दल	ए-119, भूतल, निकट एंजल मेगा मॉल, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201010
316	अप्पाअम्मा मयकल कडकम	3/59, मारियम्मन कोविल स्ट्रीट, पोस्ट - अम्मापालयम्, तालुक व जिला - पैराम्बलूर, तमिलनाडु - 621101
317	एरावोर मन्नेत्र कडगम	डी.नं.0 663, आगराबरम, राजालिपट्टी पोस्ट, थिआगासर अलैं बाया, वीरालीमलई युनियन, पुदुक्कोट्टायी जनपद तमिलनाडु-621312
318	अर्जक अधिकार दल	नं.128/169/26-ए, ब्लॉक-के, किदवई नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208011
319	अर्जुन भारत नेशनल पार्टी	जी-2, 1-फ्लॉर, प्लॉट नं0-216, हस्तिनापुर, बिस्तार, पांच्यावाला, जयपुर, राजस्थान-302034
320	अरूणाचल काँग्रेस	जी-एक्सटेंशन, नहरलागुन (अरूणाचल प्रदेश)
321	अरूणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी	एल.आर.बी. 09233/94 दि.टी-30/03/1995, ई-सेक्टर, पीओ/पीएस-ईटानगर, अरूणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा, जिला-पापुम पारे अरूणाचल प्रदेश-791111
322	आर्य दल	सेन्ट्रल कैम्प ऑफिस - 775, शान्ति कॉलोनी, इटावा, उत्तर प्रदेश ।
323	आर्यावर्त पार्टी	ग्राम व पोस्ट- बरसेना, थाना - अहिरौली, जनपद - कुशीनगर, उत्तर प्रदेश - 274207
324	असंख्य समाज पार्टी	ए-490, गली नम्बर-22, श्याम कालोनी, बुद्ध विहार फेस-2, दिल्ली-110086.
325	असली भारत पार्टी	सी-48, साऊथ एक्सटेंशन, पार्ट-1, नई दिल्ली- 110049
326	असली देशी पार्टी	शोप नं.10, प्रथम तल, बी-ब्लॉक, सेन्ट्रल मार्केट, दिलशाद गार्डन, दिल्ली- 110095
327	असम जन मोर्चा	वाई नं. 25, ग्राम- आजाद नगर, पोस्ट ऑफिस- छोटहयवर, मोजा- निजसहर, थाना व जिला- नगोंओ, असम- 782002.
328	असम संग्रामी मंच (असम)	म.न.5 ए.राजगढ़ बाई लेन न. 4, गुवाहाटी, असम-781003
329	असम दृष्टि पार्टी	दूम दूमा, पथर गांध, पोस्ट ऑफिस- हंसार, जिला- तिनसुकिया, असम- 786790.
330	असम जातिय परिषद्	मकान नं. 33 की पहली मंजिल, लैंब रोड, उजान बाजार, गुवाहाटी, पी.एस. लतासिल, पी.ओ. - उजान बाजार, जिला - कामरूप (M), असम - 781001.
331	अटल जनशक्ति पार्टी	ग्राम- यरता, पोस्ट- सिकन्दरपुर, तहसील- हरैया, जनपद- बस्ती, उत्तर प्रदेश- 272190
332	अतुल्य भारत पार्टी	91, पीली कोठी, गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल के पास, हरि नगर, नई दिल्ली - 110064.
333	अतुल्य भारत सर्व समाज पार्टी	ग्राम-खरैला, पोस्ट-सराय पलदू, ब्लॉक-ठेकमा, जिला-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश-276302
334	ऑटोनोमस स्टेट डिमान्ड कमेटी	रौंगनीहंग, डिफू-782460, कारबी अंगलॉंग (असम) ।
335	अधिरत नेशनल सेवा पार्टी	24, श्री लक्ष्मी नियास, प्रथम ब्लॉक, द्वितीय फ्लोर, अक्षय नगर, बेंगलूर, कर्नाटक - 560016.
336	अवामी आमजन पार्टी	न्यू आदर्श नगर, आशापूर्णा कॉलोनी, जालोर, जिला - जालोर, राजस्थान ।
337	अवामी पार्टी	ई-11/77, न्यू कॉलोनी, हौजराजी, मालवीय नगर, नई दिल्ली -110017.
338	अवामी समता पार्टी	भवन संख्या - 631/135, पानी गांव, सेक्टर - 9, पोस्ट - इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226016
339	अवामी विकास पार्टी	606/607, जफरीन चेंबर्स, शिवडी रेलवे स्टेशन के सामने, शिवडी (ईस्ट), मुम्बई, महाराष्ट्र - 400015
340	अयया मुन्नेटरा काजगम	डोर नं.180/128, थिरुगनानासम्बंदर रोड, रोसकोर्स, कोयम्बटोर तमिलनाडु- 641018
341	आजाद अधिकार सेना	5/426, विक्रम खंड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010
342	आजाद भारत कांग्रेस	218, द्वितीय तल, एल.एस.सी. मार्केट, ब्लॉक-ए, सम्माट इन्कलेब, पीतमपुरा, दिल्ली- 110034

343	आजाद भारत पार्टी (नेशनल)	गांव- 50 कुटिया रामपुर, परगना एवं तहसील- नरवाल, जिला- कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 209401
344	आजाद भारत पार्टी (यूनाईटेड)	डी-59/14ए/-1/ए, शिवपुरवा, रथयात्रा रोड, महमूरगंज, वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221010
345	आजाद जनता पार्टी	208, दिल्लीन काम्पलैक्स, आकाशगंगा सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ ।
346	आजाद क्रांति पार्टी	मकान नं. 559, ब्लॉक- जी, स्कीम नं. 40, पनकी, गंगागंज, कानपुर, उत्तर प्रदेश- 208020
347	आजाद मजदूर किसान पार्टी	डी-4, प्रेम नगर-पपप शनि बाजार रोड, किरारी नहर, नांगलौई, नई दिल्ली -110086.
348	आजाद पार्टी	खनुहट, विकासखंड- मोतिगरपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश- 228137
349	आजाद समाज पार्टी	ग्राम- मण्डूसरा बुजुर्ग, पो.- फतेहपुर, थाना- रानीपुर, जनपद- मऊ, उत्तर प्रदेश- 276402।
350	आजाद शिवालिक भारत पार्टी	यूपी महल, गांव डांगोली, खेवत नंबर-58, खतौनी नंबर-218, खसरा नंबर - 109, तहसील ऊना, जिला-ऊना, हिमाचल प्रदेश- 174303
351	अजगु तमिल देसियम	टीआई, तीसरी मंजिल, लैंड मार्बल अपार्टमेंट 30, सदायप्पन स्ट्रीट, मंदावेली, चेन्नई तमिलनाडु - 600028
352	बी० सी० भारथा देशम् पार्टी	मकान नं० 12-13-426, गली नं० 1, तरनाका, हैदराबाद-500017 आन्ध्र प्रदेश ।
353	बी० सी० यूनाईटेड फ्रन्ट	15, ससगिरि नगर, रेडी बोवली, हैदराबाद-500028, आन्ध्र प्रदेश ।
354	बैकवर्ड क्लासेज डेमोक्रेटिक पार्टी, जे० एण्ड के० (बी डी पी)	पीर बाग कॉलोनी, आर्मी गेट के पीछे, सुंजवान रोड, जम्मू, जम्मू और कश्मीर-180 004.
355	बडाचारा श्रमिकारा रैतारा कांग्रेस पार्टी	1/ए, पारवथी नगर मेन रोड, बेल्लारी-583103, कर्नाटक ।
356	बहादुर आदमी पार्टी	एस-11/37-38ए, चौकाघाट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221002
357	बहादुर इन्सान नागरिक दल	खाता नं० 678, ग्राम टेमा जेड, शेरपुर, पोस्ट गौरा, जिला भदोही, उत्तर प्रदेश-221404
358	बहुजन आन्दोलन पार्टी	शाहजीपुरा, सराजतरीन संभल, प्रथमा बैंक के पास, जिला-संभल, उत्तर प्रदेश- 244302.
359	बहुजन अवाम पार्टी	मकान सं० - 52/42/ए/2, एडमास्टन रोड, ताशकन्द मार्ग, सिविल लाईन इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
360	बहुजन आजाद पार्टी	ग्राम- सयाम फंडा, पोस्ट ऑफिस व थाना- रिगा, जिला- सीतामढ़ी, बिहार- 843327
361	बहुजन बल पार्टी	डी० एस० - 50/जी-11, एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ उत्तर प्रदेश ।
362	बहुजन भारत पार्टी	बत्सलावाई मोहन कांवले, धारावी कुम्भरवाडा, 90 फुट रोड, वी.ओ.सी., मुंबई सिटी महाराष्ट्र- 400017
363	बहुजन चेतना विकास मोर्चा	म.न. सी-8, कचनार सिटी, तहसील-जबलपुर, जिला-जबलपुर, मध्य प्रदेश-482001
364	बहुजन द्रविड पार्टी	मकान नं० 6659, ब्लॉक नं० 9, देव नगर, कारोल बाघ, नई दिल्ली- 110005
365	बहुजन गौडवाना पार्टी	वार्ड नं. 8, राम जानकी मंदिर के पीछे, बुरहर, जिला- शहडोल, मध्य प्रदेश- 484110
366	बहुजन हसरत पार्टी	ग्राम- खरुवान्वा, पोस्ट- कुंवर पुर, तहसील- मछलीशहर, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222202
367	बहुजन जनता दल (खोडावल)	सी-170, सेक्टर-1, शताब्दी नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250103.
368	बहुजन क्रान्ति पार्टी (मार्क्सवाद-अम्येडकरवाद)	ग्राम-धन्सुआ, पो०-सेन्ट्रल जेल, फतेहगढ़, जिला-फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश 209601
369	बहुजन लोक दल	नादरागंज रामसागर रोड, मस्जिद गली (चडी दाहा), गया, बिहार- 823001
370	बहुजन लोकराज्य पार्टी	मैत्र निवास, तेमभुरनी रोड, कुरदुवारी ताल - मधा, जि. सोलापूर, महाराष्ट्र- 413208.
371	बहुजन महा पार्टी	बी-245, गली नं. 2, मण्डावली, फजलपुर, निकट सदायना अपार्टमेंट, मदर डेयरी के पीछे, दिल्ली-110092 ।
372	बहुजन मजदूर पार्टी	खसरा नं. 249, ग्राम- सिकारी, तहसील- दूंडला, थाना- पंचोखरा, जनपद/जिला-

		फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश- 283204
373	बहुजन मुक्ति पार्टी	फ्लैट नं०-14, आशा पुष्प विहार, सहकारी आवास समिति, सेक्टर-14, कौशाम्बी, गजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
374	बहुजन नेशनल पार्टी (अम्बेडकर)	आर.जेड-35 (तृतीय तल), सीता पूरी, पंखा रोड, निकट डाबरी मोड मेट्रो स्टेशन गेट न.3, नई दिल्ली-110045
375	बहुजन न्याय दल	596/1, न्यू पहाड़पुर, पुलिस कालोनी, थाना- गर्दनीबाग, पोस्ट- अनिसाबाद, जिला- पटना, बिहार-800002
376	बहुजन पार्टी	125/98, न्यू एल0 आई0 जी0, बर्रा-7, कानपुर-208027 उत्तर प्रदेश ।
377	बहुजन रयत पार्टी	198क-ई, दत्त हौ, सोसा राबाडे कॉलोनी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र -416001
378	बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच	हरदास नगर, कामठी, जिला-नागपुर, महाराष्ट्र
379	बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी	4/17, बी.डी.डी, चर्ली, मुंबई, महाराष्ट्र- 400018
380	बहुजन सदान मोर्चा	इसरी बाजार, पो0-इसरी बाजार, जिला-गिरिडिह, झारखण्ड-825107.
381	बहुजन समाज पार्टी (अम्बेडकर)	म.सं.-B-33/103, मोहल्ला-शहरियान, कपूरथला, पंजाब
382	बहुजन समाज पार्टी (अम्बेडकर-फुलै)	म0नं0 वी-25, सन्ध्या घेनस अपार्टमेंट, एस. पी. नगर, मोडला-अली, हैदराबाद, आन्ध्रा प्रदेश ।
383	बहुजन समाज विकास पार्टी	20-बी.डी. एस. कमर्शियल मार्केट, ग्रा0-सदरपुर, सेक्टर-45, पो0 ऑफिस अरुण विहार, सेक्टर-37, नौएडा, जनपद-गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश ।
384	बहुजन समाजवादी पार्टी (बाबा साहेब)	53-54, प्रथम तल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, साऊथ पटेल नगर, मेट्रो पिलर नं० 190 के सामने, नई दिल्ली -110008.
385	बहुजन सम्यक पार्टी (मिशन)	83क/1, रिलौरा, बरेली, उत्तर प्रदेश- 243122
386	बहुजन संघर्ष दल	पडाव पुलिस स्टेशन के सामने लक्ष्मणपुरा, पोस्ट ऑफिस-लश्कर, (गालियर) मध्य प्रदेश ।
387	बहुजन संघर्ष पार्टी (कांशीराम)	बहुजन भवन, खन्वाशपुर, पोस्ट-मलिकपुर, जिला - रोपड़, पंजाब ।
388	बहुजन सेना	124ए/जी-1, सेक्टर- 6, वैशाली, गजियाबाद, उत्तर प्रदेश -201012
389	बहुजन सेवा पार्टी	899, फूलबाग कॉलोनी, कुर्सी रोड, लखनऊ उत्तर प्रदेश- 226021
390	बहुजन शोषित समाज संघर्ष समता पार्टी	डी.डी.ए. दुकान नंबर-16, प्रथम तल, सी.एस.सी.नं० वी.सेक्टर-5, रोहिणी दिल्ली- 110082
391	बहुजन सुरक्षा दल	1/7, जी. एच. बोर्ड, हरदासनगर, ओल्ड बापूनगर, अहमदाबाद-380024, गुजरात ।
392	बहुजन उत्थान पार्टी (जी)	ग्राम- लोनापुर, मजरा-विलाई खेड़ा, निकट पूर्व माध्यमिक विद्यालय लोनापुर, पोस्ट- लौलाई, तहसील/परगना - सदर, जनपद- लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226028
393	बहुजन विजय पार्टी	98/5, पोस्ट ऑफिस गली, ग्राम- खुटभार, पोस्ट व तहसील- खजनी, जिला- गोरखपुर, उत्तर प्रदेश- 273212
394	बहुजन विक्रम अघाडी	ए-301, आरती अपार्टमेंट, चरतक रोड, विरार (पश्चिम) तालुक-यसाई, जिला-थाणे, महाराष्ट्र-401303.
395	बहुजना देशम पार्टी	डोर नं. 4/32, गद्दामीदा हरिजना वाडा, सिंगारेड्डी पल्ली, पेनागलुर मंडल, वाई.एस.आर., कडप्पा जिला, आन्ध्र प्रदेश- 516127
396	बहुजन लेफ्ट पार्टी	मकान नं. 6-73, एससी वाडा, पेड़डालिंगापुर गांव, मंडल इल्लंथाकुन्ता, जिला- राजन्ना सिसिल्ला, तेलंगाना स्टेट- 505405
397	बहुजना राज्यम पार्टी (फुले अंबेडकर)	मकान नं.- 4-33-163, वैकटेश्वरा नगर, कुकटपल्ली, पाईप लाइन जगतगिरीगुट्टा, बालानगर मंडल, जिला- मेडचल, हैदराबाद, तेलंगाना- 500037
398	बहुजना राज्याधिकार पार्टी	मकान नं० 8-1-77/9/बी, टीचर्स कॉलोनी, जिला महबुबनगर, तेलंगाना- 509001
399	बहुजन राष्ट्र समिति	प्लॉट नं० - 34/2, ललितानगर, वेस्ट मारेडपल्ली, सिकंदराबाद, तेलंगाना - 500026
400	बज्जिकांचल विकास पार्टी	सहजानंद नगर, भगवानपुर, एन.एच.-28, मुजफ्फरपुर-842002, बिहार ।

401	बलीराजा पार्टी	प्लॉट नं. 1, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पृथ्वीराज नगर, बेलतरोडी रोड, नागपुर, महाराष्ट्र-440034
402	बंचित स्वराज पार्टी	सं0 117, डॉ. वी. आर. अम्बेडकर रोड, पोस्ट ऑफिस एवं पुलिस स्टेशन-नलहाटी, जिला-वीरभूमि-737220, पश्चिम बंगाल ।
403	बंग भारत पार्टी	ग्राम घनश्यामपुर, पोस्ट-पुरंदरपुर, थाना-कांदी, जिला-मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल- 742140
404	बंगाली नवनिर्माण सेना	सी/ओ सुप्रिया दास, चैंगकुरी रोड, ईस्टर्न बाइलेन, पोस्ट- अम्बकापट्टी, थाना- सिलचर सदर, जिला-कछार, असम- 788004.
405	बंगला बिकाशवादी कांग्रेस	युसुफगंज, अफाक नगर, गोलघर-चबूतरा हाऊस के पास, पोस्ट व थाना - इस्लामपुर, जिला - उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल - 733202
406	बेगलुरु नव निर्माण पार्टी	101, ग्रेगोड पैरामाउट, 5, ओल्ड मंद्रास रोड, सी.वी.रमन नगर, बेगलुरु - 560093
407	बेरोजगार आदमी अधिकार पार्टी	डी-2/329, शिव दुर्गा विहार, लक्कड़पुर, फरीदाबाद, हरियाणा ।
408	भारतीय जनशक्ति कांग्रेस	डोर नं. 4-148/ए, पणियूर रोड, उच्छिला, उडुपि - जिला, कर्नाटक- 574117
409	भागीदारी क्रान्ति दल	ग्राम व पोस्ट मवई पडियाना, ब्लॉक - सरोजनी नगर, तहसील व जनपद - लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226008.
410	भागीदारी पार्टी (पी)	30/5बी/4, दक्षिण लोकपुर, नैनी, जिला-प्रयागराज, उत्तर प्रदेश- 211008
411	भापसे पार्टी	ग्राम - मरसा (खं), तहसील - कलम, जिला - उस्मानाबाद, महाराष्ट्र - 413507 ।
412	भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल	भवन संख्या - ए-1061, सेक्टर- आई, एल.डी.ए. कॉलोनी, कानपुर रोड, पोस्ट- एल.डी.ए. कॉलोनी, जिला- लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226012
413	भारत (इन्टिग्रेटेड) रक्षक पार्टी	मकान सं0-वी-98, मेयफिल्ड गार्डन, सेक्टर - 50, गुरुग्राम, हरियाणा- 122018 ।
414	भारत आदिवासी पार्टी	प्लॉट नं0 27ए, गामडी हाऊस (कॉमर्स) कॉम्प्लेक्स, शास्त्री कॉलोनी, इंगरपुर, राजस्थान- 314029
415	भारत भारती पार्टी	38, कौशलपुरी, गौमती नगर एक्सटेंशन, गली नं० 10, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010
416	भारत भविष्य पार्टी	मकान सं0-94 स, ग्राम - मुगीसपुर, थाना - तारून, पोस्ट - चन्द्रिकागंज, जिला - फैजाबाद, उत्तर प्रदेश 224141
417	भारत भूमि पार्टी	मकान नं. 48, ग्राम- खपरी (टांडपारा), पोस्ट- पकरिया, तहसील - पामगढ़, थाना- मुलमुला, जिला- जांजगीर-चापा, छत्तीसगढ़ -495553
418	भारत दल	भारत सेवाधाम अरण्यक, क्रान्तिदीप मौराना, नूरपुर, जिला-बिजनौर (उत्तर प्रदेश) ।
419	भारत एकता मिशन पार्टी	171/123, आराधर, जिला - देहरादून, उत्तराखण्ड-248001
420	भारत गौरव पार्टी (इण्डिया)	13/543, सेक्टर-13, इंदिरानगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226016
421	भारत जागो जनता पार्टी	न्यू मार्केट, सहारा इंडिया बैंक बिल्डिंग, हाई स्कूल पारा, कटिहार, पटना, बिहार- 854105
422	भारत जन आधार पार्टी	प्लॉट नं.4, कुर्ली अमर सीएचएस सोसायटी, जनसेवा पेट्रोल पम्प के सामने, काले मार्ग, कमानी कुर्ली (पूर्व), महाराष्ट्र-400070
423	भारत जन चिकित्सा पार्टी	113, कामराज नगर वेस्ट, रेडियार, ऊथंगराई, जिला-कृष्णागिरी
424	भारत जन जागरण दल	घाई नं. 5, नारा परसौन, भैरोगंज, पश्चिम चंपारण विहार-845108
425	भारत जन शक्ति पार्टी	मकान नं. 15/281, शक्ति नगर, शुक्ला नगर, जिला- उन्नाव, उत्तर प्रदेश- 209861
426	भारत जनसंग्राम पार्टी	मकान नं0 - 366, अहिल्या, न्यू शांन्नी नगर, पोस्ट- एच.वी.पी.एम. अमरावती, महाराष्ट्र-444605 ।
427	भारत जनता दल (तुगलक)	ग्राम- निरमानी, डाक- निरमाना, ब्लॉक- बघरा, थाना- शाहपुर, जिला- मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश
428	भारत जोड़ो पार्टी	मोहम्मद अली मार्ग, 786/1, जोगी नवादा, निकट बड़खडी नाथ मंदिर, वरेली, उत्तर प्रदेश-243006.

429	भारत का किसान मजदूर पार्टी	ग्राम-बलियाँ (नयन नगर) पोस्ट - बलियाँ, महाराजगंज, सियान, बिहार - 8415061।
430	भारत कल्याण पार्टी	ग्राम पंचायत - मेवली, तहसील - खैरागढ़, जिला - आगरा, उत्तर प्रदेश- 283115।
431	भारत कौमी दल	ग्राम - लाठरदेवा झूण, पो0 झबरेडा, जिला- हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
432	भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी	3/250, विश्वास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उत्तर प्रदेश)।
433	भारत क्रान्ति रक्षक पार्टी	बरकतपुर, पोस्ट-बडागाँव, जिला - कौशाम्बी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
434	भारत लेबर प्रजा पार्टी	4-25, सीतानगर कॉलोनी, सोमुलागुदेम (पी), पलवन्चा (एम), खम्माम जिला-507115 आन्ध्र प्रदेश।
435	भारत लोक सेवक पार्टी	दुकान नं. 16, डी-ब्लाक मार्केट, पुष्पांजली इन्फ्लेव, पीतम्पुरा, नई दिल्ली- 110034
436	भारत महापरिवार पार्टी	.1286, ग्रांड फ्लोर, डी.डी.ए.मार्केट, न्यू मीना बाजार, सीमापुरी, दिल्ली- 110095
437	भारत माता पार्टी	ग्राम व पोस्ट - कटका, जिला - मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश
438	भारत माता सपूत पार्टी	ग्राम- डेहरिया दयाराम, पोस्ट- लोहरा खास, जिला- भदोही, उत्तर प्रदेश- 221303
439	भारत नमन पार्टी	ग्राम व पोस्ट - मंशापुर, ब्लॉक- कटेहरी, जिला - अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश - 224168.
440	भारत नव निर्माण पार्टी	ए-2, नितेश विला, विवेकनन्द कालोनी, नया खेडा, अम्बावाडी, जयपुर - 23, राजस्थान।
441	भारत नवनिर्माण वोटर सेना	1255-एफ, बसन्त विहार, कानपुर-208021, उत्तर प्रदेश।
442	भारत निर्माण पार्टी	हाई स्कूल रोड, पो0 त्रिवेणीगंज, जिला-सुपौल - 852139, बिहार।
443	भारत न्याय दल	एन0 एच0-58, दिल्ली बाई पास रोड, गोपाल विहार, म0 नं0-48, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
444	भारत परिवार पार्टी	भारत हृदय आश्रम, मौ0 कड़छ जवालापुर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड-249407
445	भारत पीपुल्स सेना	प्लॉट सं. 64-787, फुले नगर, सोमनाथपुर रोड, तालुक- उदगीर, जिला- लातूर महाराष्ट्र।
446	भारत प्रभात पार्टी	105, प्रथम तल ए.जी.सी.आर. एन्क्लेव, कड़कडूमा कोर्ट के पास, दिल्ली-110092
447	भारत रक्षक पार्टी (डेमोक्रेटिक)	गांव पोस्ट पक्का सहरना, तहसील जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।
448	भारत स्वाभिमान पार्टी	55/1/228, ग्रांड फ्लोर भावापुर, जी.टी.बी.नगर, करेली, प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211016
449	भारत उदय मिशन	सी-3/4, सुमन नगर, वी. एन. पुरव मार्ग, चैम्बर, मुम्बई-400071.
450	भारत उत्कर्ष पार्टी	17A/418, प्रेम नगर, लोलाई, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010
451	भारत इत्थान पार्टी	ग्राम- हरनी औसेरी, परगना- हिसामपुर, पोस्ट- अरई उमरी, तहसील- कैसरगंज, जिला- बहराइच उत्तर प्रदेश -271904.
452	भारत वाहिनी पार्टी	मातृमंदिर, प्लॉट नं. ई- 185, राम पथ, श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान- 302019.
453	भारत वैभव पार्टी	सी-8, शिवधाम वेलफेयर सोसाइटी, नियर बी.एम.सी.फॉलोनी, एम.डी.नगर, नालासोपारा पूर्व, पालघर, महाराष्ट्र - 401209
454	भारत विकास मोर्चा	शेखपुरा रोड, मधुपुर, जिला-देवघर, झारखण्ड।
455	भारत विशाल पार्टी	ए/6ए, डी0डी0 ए0 फ्लैट, मुनीरका, नई दिल्ली - 110067.
456	भारत युग जनता पार्टी	ग्राम-गफफरपुर, पोस्ट-गुलरिया, तहसील एवं जिला-अमरोहा, उत्तर प्रदेश-244221
457	भारतीय बहुजन प्रजा राज्यम्	डी नं. 956, अरुणदेनपेट, दसवीं लेन, गुंदूर - 522002, आन्ध्र प्रदेश।
458	भारतीय मानवाधिकार पार्टी	21, राजेन्द्र मलिक स्ट्रीट, कोलकाता - 700007, पश्चिम बंगाल।
459	भारत धर्म जन सेवा	इमारत सं0-849/V, मारारिकुलम उत्तर पंचायत, कांचीकुलंगर मंदिर के पूर्व में, मारारिकुलम उत्तर गांव, चेरत्तल तालुका, आलप्पझा जिला, केरल - 688544
460	भारत प्रजा स्पन्दन पार्टी	डी.न0-2-42, कलावचरला ग्राम, निदादावोले मंडल, पश्चिम गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश।
461	भारत समाज डेवलप पार्टी	डी. नं0 40-31-26, धर्म नगर, विशाखापत्तनम, आन्ध्र प्रदेश- 530008

462	भारता चैतन्या युवाजना पार्टी	2-35/एस.एफ-2,रामाचार्यपुडु,विजयवाडा रूरल,एन टी आर डिस्ट्रिक्ट,आन्ध्र प्रदेश- 521107
463	भारता मयकल कच्ची	नियर डोर नं. 44व 45 (पुराना डोर नं. 38), एस.एस. कॉलोनी, पोनमेनी नारायणन स्ट्रीट, जिला-मदुरै, तमिलनाडु- 625016
464	भारता प्रजाकीय पार्टी	म.न.-3-175/1,बोधमपल्ली (गांव),डब्बा (पोस्ट),कोतला (मंडल),कुमरभीम आसिफावाद (जिला),तेलंगाना राज्य - 504299
465	भारत सेवाई कच्ची	नं. 1 व 2, गून्स रोड, पैरिस, चैन्नई, तमिलनाडु- 600001
466	भारतीय चैतन्य पार्टी	डी. सं. 9-186/7, हाई स्कूल रोड, चेकंट नगर, कडियम, पूर्व गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश- 533103
467	भारतीय जवान किसान पार्टी	XL.VI/2694 (एसबी/एस/867एच),पी.ओ. सिविल स्टेशन,नियर सन्निधान ट्रिस्ट होम एंड बेस्ट इंजीनियरिंग,कन्नूर,केरल - 670001
468	भारथीया सधरमा समस्थापना पार्टी	हाऊस नं० 3/17, डोरसानी पल्ली, प्रोहुर मंडल, कडापा डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश ।
469	भारतीय प्रजा सेवा पार्टी	6-3-360/1,श्री कृष्णा देवराय नगर,बडवेल टाउन,वाईएसआर कडप्पा जिला,आन्ध्र प्रदेश- 516227
470	भारथ्या वेलाक् पार्टी	नं. 54, गवर्नमेंट स्कूल रोड, गांव- गोपनहल्ली, तालुका- मादुर, जिला- मंड्य, बेंगलुरु, कर्नाटक- 571422
471	भारतीय प्रगनावंथा कांग्रेस	60सी, 80 फीट रोड, आई.टी.आई लेआउट, मल्लाथाहल्ली, नगरामावी वार्ड, बेंगलोर, कर्नाटक- 560056
472	भारतीय आम जनता अधिकार पार्टी	101-डी,ईस्ट लक्ष्मी मार्केट,गली नं.-4,पटपरगंज रोड,दिल्ली-110092
473	भारतीय आम अग्राम पार्टी	सरिस्तावाद, इन्द्रपुरी पश्, गली नं० ई, गर्दनीबाग, पटना, बिहार- 800001
474	भारतीय आमजन पार्टी (विवेकानन्द)	150, गणेश कॉलोनी, गली नं. 8, जैन मंदिर के पास, झोटवाडा, जयपुर, राजस्थान- 302012
475	भारतीय आग्राम एकता पार्टी	23 सी, सेक्टर- ए, सैनिक विहार, नन्दानगर, कूडाघाट, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
476	भारतीय अग्रगामी दल	44,श्री कृष्णा नगर,रोड नं.1,पी.एस.बुध कॉलोनी,पटना,बिहार-800001
477	भारतीय अम्बेडकर पार्टी	मेन बाजार, कृष्णा नगर,जाउरा फाटक, अमृतसर (पंजाब) ।
478	भारतीय अपना समाज पार्टी	LIG-A/LGF-03,यशोधरा कुंज आवासीय योजना,गोरखपुर,उत्तर प्रदेश- 273016
479	भारतीय आशा पार्टी	मकान नं० 590,गाँव-भरण,गवर्नमेंट हाई स्कूल के पास,तहसील-मेहम,जिला- रोहतक,हरियाणा- 124111
480	भारतीय अग्राम ताकत दल	ग्राम- सुजनडीह (रामपुर), पोस्ट- शोहंसा (मुंगरा वादशाहपुर), तहसील- मछलीशहर, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222204
481	भारतीय बैकवर्ड पार्टी	71, सूर्य अपार्टमेंट्स, फ्रेजर रोड, पटना - 800001 (बिहार) ।
482	भारतीय बहुजन कॉंग्रेस	117, खोडियारकृपा सोसायटी, कंतारेश्वर महादेव मंदिर के पास, कतारगाम, सूरत, गुजरात ।
483	भारतीय बहुजन परिवर्तन पार्टी	खसरा नं०- 139/2, ग्राम - लखवाया रसूलपुर, रोहता रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश ।
484	भारतीय बहुजन पार्टी	156, भरोली, शाहगंज, जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।
485	भारतीय बहुजन समता पार्टी	ग्राम व पोस्ट- सुरजननगर, जिला- मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश- 244602
486	भारतीय बेरोजगार पार्टी	ग्राम- कौंटा करौंदी, पोस्ट- मीरक नगर, थाना- निगोहा, तहसील- मोहनलाल गंज, जिला- लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226302
487	भारतीय विकास परिषद	बैंक कॉलोनी, प्रथम लाईन, रेडियो स्टेशन रोड, ब्रह्मपुर, गंजाम, ओडिशा-760001
488	भारतीय छात्रसंघ भारत	प्रेमघन मार्ग, बदली घाट, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश - 231 001 ।

489	भारतीय कांग्रेस पक्ष	कसेंबापेठ, लिंबूवाली मधारी के सामने, मु० पोस्ट - बारशी, जिला - सोलापुर, महाराष्ट्र ।
490	भारतीय डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट अलायंस पार्टी	मकान सं. 198, मोहल्ला- कच्छपुरा, (शाक्य नगर), वाई नं.8, पोस्ट- राजा का रामपुर, जिला- एटा, उत्तर प्रदेश ।
491	भारतीय डेवलपमेन्ट पार्टी	बिल्डिंग न. 14/54, एस.बी. बिल्डिंग, अपोजिट सरी कृष्णा टेम्पल, असरामम, कोल्लम, केरल-691002
492	भारतीय डा० बी० आर० अम्बेडकर जनता पार्टी	नं० 18, बारहवीं क्रॉस, एम० टी० एस० लेआउट, केनगिरी उपनागरा, बैंगलूरु - 560060 कर्नाटक ।
493	भारतीय एकलव्य पार्टी	गांव व पो० - बेलहार कलां, तहसील मेहडावल, जिला - संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश ।
494	भारतीय एकता दल	189, बसंत अपार्टमेंट, बसंत विहार, नई दिल्ली - 57.
495	भारतीय गन परिषद	मकान नं. 3, बाय लेन नं. 4, वाई नं. 16, ब्रिष्णुराभा पथ, लालगणेश (उदालवाला), थाना- दिसपुर, जिला- कामरूप मैट्रो, गुवाहाटी, असम- 781034
496	भारतीय गांव ताज दल	ग्राम - कुका, पो० ओ० मक्सूदपुर, जिला - कपूरथला, पंजाब ।
497	भारतीय गोर्खा प्रजातांत्रिक मोर्चा	47/1, विक्टोरिया रोड, वाई नं. 17, डाक, थाना और जिला - दार्जीलिंग, पश्चिम बंगाल. - 734101.
498	भारतीय ग्रामीण दल	आर्यव्रत प्रकाशन मंदिर, बस स्टाप, गौसाईगंज, जनपद - लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
499	भारतीय हिन्दू सेना	जी-17, रिद्धि सिद्धि टावर, सैक्टर-5, प्लॉट नं.4, सन एण्ड मूल टावर के पास, विधाधर नगर, सीकर रोड, जयपुर, राजस्थान-302023
500	भारतीय हितरक्षक पार्टी	नं०-33, मीरा निवास, पुष्कर पार्क, वायेन, नियर बाबैन प्राथमिक शाला, तांतुक - बाराडोली, जिला - सुरत, गुजरात- 394601
501	भारतीय इन्कलाब पार्टी	गा० राणा प्रताप नगर, इस्लामपुर, पो० च थाना - इस्लामपुर, जिला - तालन्दा, बिहार, पिन - 801303.
502	भारतीय जय भीम पार्टी	1304, भानतलैया, सिंधी कैम्प, जिला- जबलपुर, मध्य प्रदेश ।
503	भारतीय जन बेरोजगार छात्र दल	आर० टी० ओ० ऑफिस के पास, हुसैनगंज, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश ।
504	भारतीय जन जागृति पार्टी	बृजधाम आश्रम, रणहेरा, तहसील - छाता, जिला - मथुरा (उत्तर प्रदेश) ।
505	भारतीय जन क्रान्ति दल (डेमोक्रेटिक)	एफ-23, सैनिक सोसायटी, शक्ति नगर, जबलपुर, मध्य प्रदेश ।
506	भारतीय जन मोर्चा पार्टी	वाई नं.-1, सतना रोड, अमरपाटन, जिला- सतना, मध्य प्रदेश - 485775
507	भारतीय जन सभा	मार्फत राजाराम यादव, रघुवीर नगर, न्यू कॉलोनी, देवरिया (उत्तर प्रदेश) ।
508	भारतीय जनचेतना दल	नं.70, एलआईजी इंदिरा नगर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश-208026
509	भारतीय जनक्रान्ति पार्टी	12/17, चकखुवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
510	भारतीय जनतंत्र संरक्षण विकास पार्टी	ग्राम-पंडित पुर थाना एवं अंचल - पिप्राकोठी, जिला - पूर्वी चंपारण, बिहार - 845429
511	भारतीय कमरेरा वर्ग पार्टी (कांशीराम)	मकान नंबर। 198, पटौदी रोड, आई टी आई के पास, रेवाड़ी, हरियाणा - 123401.
512	भारतीय कार्यस्थ सेना	121, विष्णु कॉलोनी शाहगंज, आगरा - 282010. उत्तर प्रदेश।
513	भारतीय किसान परिचर्तन पार्टी	नगला दखाल, कोटला रोड, फिरोजाबाद - 283203, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।
514	भारतीय किसान रोजनैतिक पार्टी	प्लॉट नं० 04, खसरा नं० 151/01, सेमरा गौदी, मडिगांव, सीता रोड लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226021
515	भारतीय किसान सेना लोकतांत्रिक	मकान नं०-392/1, चक रघुनाथ, नैनी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
516	भारतीय लिबरल पार्टी	सी- 79, प्रथम तल, गली नं. 4, राधे श्याम पार्क एक्सटेंशन. राधे श्याम पार्ट एक्स. कॉलोनी, घोडे-ली वाई, कृष्णा नगर, दिल्ली- 110051
517	भारतीय लोक सेना	लोअर ग्राउन्ड फ्लोर, ऑफिस नं०-2, बिल्डिंग नं० ए.-212-सी, तिरुपति प्लाजा, गली नं०-1, शंकरपुर विक्सस मार्ग, दिल्ली - 110092
518	भारतीय लोकशक्ति पार्टी	371-5, बेघर वसाहत, मेन रोड मजले, तालुका-हलकजंगले, जिला-कोल्हापुर, महाराष्ट्र- 416109

519	भारतीय लोकविकास पार्टी	साई कृपा अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 404, दैवा भारती अस्पताल के पास, कंचनवाड़ी, औरंगाबाद, जिला. औरंगाबाद, महाराष्ट्र-431001
520	भारतीय मजदूर जनता पार्टी	ग्राम - लालपुरा, पो- कुकथरी (पिनाहट), तहसील- बाह, जिला- आगरा, उत्तर प्रदेश- 283123
521	भारतीय माइनरिटीज सुरक्षा महासंघ	410, अर्कडिया विल्डिंग, सर जे.जे. रोड, जे.जे. हॉस्पिटल के सामने मुम्बई-400008. (महाराष्ट्र)।
522	भारतीय मोमिन फ्रंट	174, आनन्दपुरी, वेस्ट बोरिंग, कैनाल रोड, पटना 800001 (बिहार) ।
523	भारतीय मूल निवासी समाज पार्टी	77/129, भगत सिंह कालोनी, तरला अधोईवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
524	भारतीय मुलनिवासी आजाद पार्टी	एट-रूम नंबर-601, विल्डिंग नंबर-3, एवेन्यू-एच, रुस्तमजी एवरशाइन ग्लोबल सिटी, विरार पश्चिम, जिला-पालघर, महाराष्ट्र- 401303
525	भारतीय नागरिक पार्टी	गांव-कनासी, पो. ओ. -कनासी, जिला-फर्रुखाबाद-207501 (उत्तर प्रदेश)।
526	भारतीय नेशनल जनता दल	701 ए, सातवीं मंजिल, मेघमल्हार काम्पलेक्स, सेक्टर नं० 11, गांधीनगर, गुजरात- 382010
527	भारतीय नव क्रान्ति पार्टी	गांव-मखमैलपुर, पोस्ट-सरायख्वाजा, जिला-जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।
528	भारतीय नवयुवक पार्टी	मकान नं० 572, बाई साहब की परेड, प्रिया ब्रेड फैक्टरी के पास, लक्ष्मीगंज, लखर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश ।
529	भारतीय न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी	ग्राम व पोस्ट- डारा, थाना- जयनगर, जिला- दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल- 743337
530	भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी	पूर्व बिष्णुपुर, डाकखाना - रमाकान्त नगर, थाना - मन्दिरवाजार, जिला - 24 परगना (दक्षिण), पश्चिम बंगाल - 743395
531	भारतीय परिवर्तन कांग्रेस	126, आदिवासी कोलोनी, राष्ट्र संत तुकदोजी महाराज कैंसर हॉस्पिटल के निकट, मानेवाडा रोड, नागपुर-440027, महाराष्ट्र ।
532	भारतीय पीपुल्स पार्टी	टी-9, 295/16/11, शिवशक्ति नगर, सैयद चिनचौली रोड, फिल्टर बेंड, गुलबर्गा, कर्नाटक-585104.
533	भारतीय पिछड़ा दल	ग्राम-खुजरी, पोस्ट-सागर, वाया-चकरमाथा कैम्प, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़-495 220 ।
534	भारतीय प्रगति पार्टी	C/o चंद्र प्रकाश, गांव और पोस्ट बेलसड, जिला - तापागौर, थाना - पैकोलिया, तहसील - हरैया, बस्ती - 272163 उत्तर प्रदेश ।
535	भारतीय प्रजा ऐक्यता पार्टी	नंबर 01, कोटे स्ट्रीट, बैकटेथर मंदिर के पास, कोडिगेहल्ली एल, सहकारनगर पोस्ट, बैंगलोर, कर्नाटक -560092
536	भारतीय प्रजा पक्ष	नं. 374/ए, प्रथम तल, 1-ब्लॉक, 1-क्रॉस, रविन्द्र नाथ टैगोर नगर (आर.टी.नगर), बंगलोर-560032 (कर्नाटक) ।
537	भारतीय प्रजा सुराज्य पक्ष	ए./पी. - खंडज, तालुका - बारामती, जिला- पुणे, महाराष्ट्र- 413116
538	भारतीय प्रजागला कल्याण पक्ष	नं० - 23, फ्लैट नं० - 401, चौथी मंजिल, एवरजॉय, नंदनाथना, तृतीय क्रॉस, द्वारका नगर, चन्नासंदारा, बैंगलोर, कर्नाटक- 560098.
539	भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी	29/3, पंचकुईयाँ, झांसी, उत्तर प्रदेश ।
540	भारतीय प्रजातांत्रिक शुद्ध गांधीवादी कृषक दल	मिस्टा, जिला जांजगीर, विकास खण्ड नवगढ़, छत्तीसगढ़ांचल, छत्तीसगढ़ ।
541	भारतीय राष्ट्रवादी पक्ष	12, जूना पावर हाऊस, रोटरो हाल के पीछे, जेल रोड, मेहसाना (गुजरात), पिन-384002.
542	भारतीय राष्ट्रवादी समानता पार्टी	एफ-402, रोड सं० 9-एफ, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर- 302 013, राजस्थान
543	भारतीय राष्ट्रीय बहुजन समाज विकास पार्टी	जी-96, शांतिपुरम फाफामऊ, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
544	भारतीय राष्ट्रीय महिला सर्वोदय कांग्रेस	नं० 2, प्रथम तल, वायुपुत्र आर्कड, बार्ड नं. 15, नियर एन.टी.टी. एफ, पी.बी. रोड, धारवाड, जिला- धारवाड, कर्नाटक-580001
545	भारतीय राष्ट्रीय मजदूर दल	नया सराफा, ग्वालियर-474001 (मध्य प्रदेश) ।

546	भारतीय राष्ट्रीय मोर्चा	डी-6, प्रताप बाग कॉलोनी, नैनी, हनुमान मन्दिर, अलीगंज, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ।
547	भारतीय रिपब्लिकन फ़्लैग	डा. अम्बेडकर भवन, गोकुलदास पास्ता रोड, दादर मुम्बई-400014 (महाराष्ट्र) ।
548	भारतीय सभ्यता पार्टी	545क / अघ -006, अयन्ती विहार, पुराना पारा. थाना, हरदोई रिंग रोड, पोस्ट - राजाजीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226017.
549	भारतीय सद्भावना समाज पार्टी	खान मंजिल खपाइगंज, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
550	भारतीय समाज दल	85, चौक माकान्डु गंज, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) ।
551	भारतीय समाजवादी पार्टी (लोकतांत्रिक)	मुहल्ला-चाहशीरी, पंजाब एंड सिंध बैंक लेन, सिविल लाइंस, बिजनौर, जनपद-बिजनौर, उत्तर प्रदेश-246701
552	भारतीय समतावादी पार्टी	संख्या 60, भाग संख्या 3, बिजलीनगर, चिंचवाड़, पुणे, महाराष्ट्र - 411033.
553	भारतीय सम्पूर्ण क्रान्तिकारी पार्टी	ए-1/150, अमन विहार, नांगलोई, नई दिल्ली - 110041
554	भारतीय सम्राट सुभाष सेना	ग्राम - अजीतपुर, पो0 - कनखल, लक्सर रोड, हरिद्वार, उत्तराखण्ड - 249408
555	भारतीय समता समाज पार्टी	ग्राम-देहरामऊ, पोस्ट-गोसाईगंज, जिला -लखनऊ - 227 125 (उ.प्र.)
556	भारतीय समतावादी पार्टी (ए)	निकट खान आटा चक्की, अपोजिट देवी लाल कॉलोनी, सरस्वती विहार, मेहलाना रोड, तहसील एवं जिला- सोनीपत, हरियाणा- 131001
557	भारतीय संघर्ष मोर्चा	सी4/33, ई. डब्लु. एस. विश्व बैंक कॉलोनी, ए.डी. ए. नैनी, तहसील-करछना, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश-212301
558	भारतीय संगठित पार्टी (एस)	साई ग्रीन सिटी, अटोर रोड, निकट मोरटी, राजनगर एक्सटेंशन, एन.एच.-58, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश-201017
559	भारतीय संग्राम परिषद्	48, बैंक स्ट्रीट, खटाव बिल्डिंग, ग्रांड फ्लोर, एस. बी. एस. रोड, ओल्ड कस्टम हाउस के सामने, फोर्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400001
560	भारतीय सन्त मत पार्टी	बहु झोलरी रोड, ग्राम व पोस्ट - नाहर, तहसील - कोसली, जिला - रेवाड़ी, हरियाणा ।
561	भारतीय सर्वजन विकास पार्टी	ग्राम- हर्षपुर (पूरे राहू), पोस्ट- कोटवाशुकुलपुर, तहसील- लालगंज, थाना- सांगीपुर, जिला- प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश- 230136
562	भारतीय सर्वोदय क्रान्ति पार्टी	113, मलिकपुर, ज़ी.टी.बी.नगर, दिल्ली-110009.
563	भारतीय सत्यार्थ संगठन	भारत नगर, प्रेम विद्यालय- रेनवे क्रॉसिंग, राधापुरम हाउसिंग कॉलोनी के सामने, विरला मंदिर के पास, वृन्दावन रोड, जीटीवी- 3, मथुरा-281,003, (उत्तर प्रदेश) ।
564	भारतीय सुभाष सेना	ग्राम और पो. ओ. बानकासिया शिवरतन सिंह, जनपद-गोन्डा-271302 (उत्तर प्रदेश) ।
565	भारतीय सुहेलदेव जनता पार्टी	ग्राम व पोस्ट- चितवड़ागांव, मकान नं0-885ख, याई नं0-8, इन्दिरा नगर, तहसील - बलिया, बलिया, उत्तर प्रदेश- 221713
566	भारतीय सुराज दल	सिन्हा भवन, एग्जिजिशन रोड, रिजर्व बैंक के पीछे, पटना, बिहार - 800001
567	भारतीय स्वजीवी नागरिक पार्टी	ग्राम- कुकुरिहा, पोस्ट- रुद्रपुर कोरवा, थाना व तहसील- रुद्रपुर, जिला- देवरिया, उत्तर प्रदेश।
568	भारतीय स्वतन्त्र पार्टी	गांव-नौगाई, पो0ओ0 रघुनाथपुर, तहसील, वाडरूपनगर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़ ।
569	भारतीय युवा जन एकता पार्टी	261, केसर पैलेस, अबुलक़ादिर, ता0 अबू रोड, जिला - सिरोही, राजस्थान - 307501
570	भारतीय युवा पार्टी (डेमोक्रेटिक)	वाई सं-54, सफ़िल सं0-71, बिस्कोमान गोलम्बर, बी.एस.एन.एल, टेलिफोन एक्सचेंज के पास, पोस्ट ऑफिस- गुलजारबाग, कुम्हार, पटना, बिहार-800007.
571	भारतीय युवा शक्ति	हवेलियों का वास, ग्राम पंचायत, कोसेवाल, तहसील-सुमेरपुर, जिला - पाली, राजस्थान ।
572	भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी	शॉप नं0-22, सी एस सी-11, डी डी ए मार्केट, आई. पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली - 110092
573	भारतवासी पार्टी	अम्बेडकर नगर पूर्वी, रामकोला रोड, पोस्ट- पडरौना, जिला - कुशीनगर, उत्तर प्रदेश- 274304

574	भारिपा बहुजन महासंघ	डॉ. अम्बेडकर भवन, गोकुलदास पास्ता रोड, दादर मुम्बई- 400014 (महाराष्ट्र) ।
575	भरोसा पार्टी	मकान नं. 8-233, पोचाराम ग्राम पंचायत, घाटकेसर- मण्डल, जिला- मेडचल, तेलंगाना - 500088
576	भारती जन सुरक्षा पार्टी	प्रधान कार्यालय, धौलवाहा मार्ग, हीरा कालोनी के समीप, टाउन एवं पो.ओ. हरिआना, जिला होशियारपुर, पंजाब-144208
577	भारती समुदाय पार्टी	7 सी-10, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, थाना - पी.ओ.आई.0, तहसील - लखनऊ, जिला - लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226002
578	भारतीय आम आदमी परिवार,	1000 जय अम्बे अपार्टमेंट, डी.डी.ए.ए.आई.0, फ्लैट्स, न्यू कौंडाली, मयूर विहार फेज-3, दिल्ली- 110096
579	भारतीय आम जनता विकास पार्टी	ग्राम व पोस्ट- दुलमा, थाना- मधुवन मोतिहारी, जिला- पूर्वी चम्पारण, बिहार।
580	भारतीय अहिंसा पार्टी	728, तिराला नगर, अयोध्यापुरी, रायबरेली, उत्तर प्रदेश।
581	भारतीय अमृत पार्टी	खसरा नं. 661/3, कचनारिया, भोपाल रोड बायोरा, जिला- रायगढ़, मध्य प्रदेश- 465674
582	भारतीय अन्तर्क्षित पार्टी	मकान नं. 08, आनन्दवन, एन.एच-02, नवादा, पोस्ट- औरंगाबाद, जिला- मथुरा, उत्तर प्रदेश- 281006
583	भारतीय अनार्य पार्टी	राजवंशी मार्किट बस स्टैंड राजगीर, थाना व पोस्ट-राजगीर, जिला- नालंदा, बिहार- 803116
584	भारतीय अंत्योदय पार्टी	8- प्रीत विहार, फेज- 11, इंदिरा गांधी मार्ग, निरंजनपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड- 248171
585	भारतीय अपना अधिकार पार्टी	किरार छात्रावास के पास, रामपुरी आऊ खाना कला शब्द, प्रताप आश्रम, जिला- ग्वालियर, मध्य प्रदेश-474012
586	भारतीय आरक्षण मुक्ति दल	291, अग्निहोत्र नगर, मकड़ीखेडा, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 208017
587	भारतीय आर्य क्रान्ति मंच	83 राम वाटिका, कोलोनी, गीता पैलेस के पीछे, श्यामगंज, बरेली, उत्तर प्रदेश - 243005
588	भारतीय अस्मिता पार्टी	मकान नं. 302, ग्राम-कतबाव, दहगांव रोड, पोस्ट- वाशिंद, तालुका-शाहपुर, महाराष्ट्र- 421602.
589	भारतीय अवाम एक्टिविस्ट पार्टी	गाँव- केशरू, थाना- चन्दौली, जिला- गया, बिहार- 823002
590	भारतीय अवाम पार्टी (राष्ट्रीय)	मकान नं. 30 (बी.पी.ओ.20), बेचपुर, पटेलनगर, (40 फीट रोड), मुगलसराय, जिला- चन्दौली, उत्तर प्रदेश । पिन कोड -232 101
591	भारतीय आजाद सेना	15 नं. चौक, बड़कागांव, जिला- हजारीबाग, झारखण्ड- 825311
592	भारतीय बहुजन क्रांति दल	सेवागढ़ बिल्डिंग नं.- 02, अजादेगांव, डोंचिवली पूर्व, जिला- ठाणे, महाराष्ट्र- 421201
593	भारतीय भाईचारा पार्टी	मकान नं. 61/3, गांव - छत्तेरा बांगर, अम्बेडकर विहार, सेक्टर - 37, परगना व तहसील - दादरी, नोएडा, जनपद - गाँतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश - 201303
594	भारतीय चैतन्य पार्टी	बी. 97, पंचशील विहार, निकट शेख सराय, कम्युनिटी सेंटर, नई दिल्ली ।
595	भारतीय छत्रपती सेना	शकुन रो हाउस डी 3, उद्योग भवन के पीछे, अयोध्या नगर, सिन्धूर, नासिक, महाराष्ट्र - 422103
596	भारतीय चेतना पार्टी	सूरतगंज, वार्ड नं. 15, थाना नगर, मधुबनी, जिला मधुबनी बिहार- 847211
597	भारतीय दलित कायेस	चौपड़ा पारा, काली मंदिर के पीछे, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़ -497001 ।
598	भारतीय दलित पार्टी	खाना सं. 269, गौ. विजयनगर, पोस्ट- विजयनगर, अँचल-बाँका, जिला- बाँका, बिहार ।
599	भारतीय दमिस्तजन पार्टी	गाँव-गाँविन्दपुर, पोस्ट-सिहारा, तहसील-धामपुर, जिला-विजयनगर, उत्तर प्रदेश- 246746.

600	भारतीय धर्मनिरपेक्ष पार्टी	मकान नं. 146, ग्राम- खडगपुर, पोस्ट- चौबेपुर, थाना- चौबेपुर, जिला- कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 209203
601	भारतीय इतिगोचर पार्टी	मकान संख्या- 54, ग्राम - भौसदी, पोस्ट- सूरतगंज, जिला- बाराबंकी, उत्तर प्रदेश- 225304
602	भारतीय एकता मंच पार्टी	श्याम बिल्डिंग, टैगोर मार्ग, नदया रोड लखनऊ 226020, उत्तर प्रदेश ।
603	भारतीय गदर पार्टी (एस)	गांव-ओदरा मठिया, पोस्ट-राऊतमऊ, जिला-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश-276406
604	भारतीय गणवादी पार्टी	जी-18, ब्रांडेड फ्लोर, सॉची कॉम्प्लेक्स, शिवाजी नगर, नियर बोर्ड ऑफिस, भोपाल, मध्य प्रदेश, पिन कोड-462016
605	भारतीय गांधीवादी पार्टी	ग्राम व पोस्ट- गड़वार, जिला- बलिया, उत्तर प्रदेश ।
606	भारतीय गणराज्य पार्टी	मकान नं0 1094, विक्रम शर्मा बी.टी.आई. रोड, बजाज एजेंसी के बगल में, मोहल्ला बेनी सागर, पन्ना मध्य प्रदेश-488001
607	भारतीय गरीब विकास कल्याण पार्टी	रेफरल चिकित्सालय के सामने गुलाबपुरा तहसील हरदा जिला भीलवाड़ा राजस्थान- 311021
608	भारतीय गरीबमजदूर पार्टी	ग्राम- पचटकी राम, पोस्ट- पचटकी यदू, थाना- बैरगनिया, जिला- सीतामढ़ी, बिहार- 843313
609	भारतीय ग्राम नगर विकास पार्टी	एकता विहार, लेन नं. -1, ग्रामसभा- आमवाला तन्ना, पी0ओ0-कण्डोली, सहस्रधारा रोड, देहरादून उत्तराखण्ड -248001 ।
610	भारतीय ग्रामीण समाज पार्टी	भवन नं0 15/357, भरोसी की धर्मशाला, पंचम वाली गली, दत्तपुरा, भुरैना, मध्य प्रदेश- 476001
611	भारतीय हरित पार्टी	निकट हंस प्राकृतिक चिकित्सालय, मीरापुर रोड, जानंसठ, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश - 251314
612	भारतीय हिमाचल जन विकास पार्टी	गांव व डाकघर - बद्रलठोर, तहसील - देहरा, जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश - 177105
613	भारतीय हिन्दू फौज	यु.जी.एफ-07, चिन्नांश ड्रीम सोसाइटी, आर.के.पुरम, गोविन्दपुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201013
614	भारतीय हिन्दू पार्टी	90, ईश्वरी दयाल बिल्डिंग, आर्य समाज रोड, गणेश गंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226018
615	भारतीय ईमानदार पार्टी	सिंघौली, तहसील - पुवायाँ, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश ।
616	भारतीय इण्डियन सैकुलर पार्टी	हमदर्द नगर-बी, जमालपुर, माफी, तहसील कोल, जिला- अलीगढ़, उत्तर प्रदेश- 202001.
617	भारतीय इंसान पार्टी	नं0 - 84, चतुर्थ तल, यदुला हाउस, खलीलुल्लाह मस्जिद के पास, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली-110025 ।
618	भारतीय इन्सॉन रक्षक दल	मकान नंबर 192/17, धरमपुर, ग्राम-गेवरबस्ती/गेवरा, पोस्ट ऑफिस, कुसमुंजा, वार्ड नं0 60, तहसील, कटघोरा, जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़-495454
619	भारतीय जागरण पार्टी	पूर्वी नवादा, आरा, भाजपुर- 802301, बिहार ।
620	भारतीय जन अधिकार पार्टी	गाँव-भीम, हॉस्पिटल रोड, पोस्ट ऑफिस-भीम, जिला-राजसमन्द
621	भारतीय जन हित विकास पार्टी	220, इन्द्रापुरी, जैकबपुरा रोड, गुडगाँव, हरियाणा - 122001
622	भारतीय जन हितकारी पार्टी	प्लॉट नं0 31-32, शिवनगर, टॉक रोड, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान
623	भारतीय जन जागरूक पार्टी	सर्वे नं. 171, ग्राम- चैनपुरा, पोस्ट- शिवगढ़, तहसील- मेघ नगर, जिला- झाबुआ, मध्य प्रदेश- 457777
624	भारतीय जन जन पार्टी	दुकान संख्या - 8 व 9, द्वितीय तल, गोयल प्लाजा, फैजाबाद रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
625	भारतीय जन मानस पार्टी	मकान संख्या - 262 घ, सरसवाँ, थाना - अर्जुनगंज, अर्जुनगंज, तहसील व जिला - लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226002 ।
626	भारतीय जन मंच	361, गली नं0 13, बुद्ध विहार, (बड़े स्कूल के पीछे), मंडोली गांव, नन्द नगरी, दिल्ली - 110093 ।
627	भारतीय जन नायक पार्टी	सी-17-18, सेक्टर-15, वसूंधरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201012
628	भारतीय जन परिषद	एफ.एफ/108, शान्तिविला कॉम्प्लेक्स, एच.पी.पेट्रोल पंप के सामने, दहेगम रोड, नारोडा, अहमदाबाद, गुजरात- 382330

629	भारतीय जन प्रगति दल	मकान नं.- 134, गाँव- रामरायपुर (बाय पास रोड), पोस्ट- रामरायपुर, तहसील- भदोही, जिला- भदोही, उत्तर प्रदेश- 221314
630	भारतीय जन सहयोग पार्टी	8/6, जूही सफेद कॉलोनी, कानपुर, उत्तर प्रदेश - 208014
631	भारतीय जन समाधान पार्टी	411, स्पेक्ट्रम, नजदीक यशरीअन, स्यामी विवेकानंद सर्किल, मेम नगर, अहमदाबाद, गुजरात-380052
632	भारतीय जन समाज पार्टी	मोहल्ला ग्राम, अहमदपुर उर्फ कमलापुर परगना, विजयनौर तहसील व विधानसभा, सरोजनी नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226002
633	भारतीय जन सम्मान पार्टी	फ्लैट नं. 32, कृष्णा अपार्टमेंट, ब्लॉक वी.एच. पूर्वी, डी.डी.ए फ्लैट्स, ग्राउंड फ्लोर, शालीमारबाग, दिल्ली- 110088
634	भारतीय जन सम्पर्क पार्टी	मकान संख्या- 3616, शारदा निवास कटरा, आधारताल, जयलपुर, मध्य प्रदेश।
635	भारतीय जन समरसता पार्टी	5081, विश्वकर्मा नगर, प्लॉट नं.80, वाई नं.14, द्वारकापुरी, रामेश्वरी रोड, राधा मंदिर के पास, पार्वती नगर, नागपुर, महाराष्ट्र-440027
636	भारतीय जन सम्राट पार्टी	खसरा नं. 719, प्रॉपर्टी नं. X-9/10, ओल्ड नं. X-6/12, ग्राम- घोंडा गुजरन खादर, गली नं. 9, X- ब्लॉक, ब्रह्मपुरी, दिल्ली- 110053
637	भारतीय जन सत्ता पार्टी	भवन संख्या - 11, मुख्य ग्राम + पोस्ट - भादवासी, भाया - कटराथल, जिला- सीकर, राजस्थान- 332024
638	भारतीय जन स्वराज पार्टी	एम.वी.-156 एस./एफ., मास्टर ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली-110092
639	भारतीय जन विकास आघाडी	क्रांतीसूर्य नवजीवन नगर, जुना पेडगांव, रोड, जिला-परभणी महाराष्ट्र- 431401.
640	भारतीय जन युग पार्टी	हीरा नगर, पुरानी छावनी, लश्कर, बवालियर, मध्यप्रदेश - 474010
641	भारतीय जनता समाजसेवी पार्टी	हाउस नं0 116 आरपीजी/844, वर्तमान म.116/839, रावतपुर-2, कल्यानपुर, कानपुर उत्तर प्रदेश- 208019.
642	भारतीय जनता विकास पार्टी	डी- 4/2, सेक्टर- 20, रोहिणी, दिल्ली- 110086
643	भारतीय जनहित काँग्रेस पार्टी	ए-3, रूम नं. 602, छठा माला, आर.एन. ए. पार्क, वाशी नाका, आर.सी. मार्ग, चेम्बुर, मुंबई- 400074, महाराष्ट्र
644	भारतीय जनहित दल	डी-1/535, जे.जे.कलस्टर, भलस्या डेरी, नई दिल्ली - 110042
645	भारतीय जनजागरण गोंधीवादी पार्टी	खाता नं. 112, खसरा नं. 1196, ग्राम- हसमी, पी.एस- भाण्डर, जिला- राँची झारखण्ड- 835214
646	भारतीय जनमुक्ति पार्टी	ग्राम - कुन्दुर, पोस्ट - लठैया, थाना - छतरपुर, जिला - पलामू झारखण्ड - 822116
647	भारतीय जनराज पार्टी	मकान संख्या 653, वाई नं. 14, शिव नगर, नियर शिव मंदिर, हिसार, हरियाणा- 125001
648	भारतीय जनसमानता अधिकार पार्टी	कोठी नं0 2, पूर्णांगिरी विहार, पटेल नगर, पो0- इज्जत नगर, जनपद- बरेली, उत्तर प्रदेश ।
649	भारतीय जनसमूह दल	म.नं.-55/35, सी घाई. चिंतामणि रोड, जॉर्ज टाउन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश - 211002
650	भारतीय जनसेवा कांग्रेस	कोठी नं. 768, वाई नं. 17, किला कॉलोनी, कोसली रोड, इज्जर, हरियाणा- 124103
651	भारतीय जनता दल	सी-16, संजय विहार, आवास विकास कॉलोनी, मेरठ रोड, हापुड, जिला-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
652	भारतीय जनता दल (इंटिग्रेटेड)	मकान नं0-62, गली नं0-16, ए-1 ब्लॉक, सन्त नगर, (बंगाली कॉलोनी), बुराडी रोड, दिल्ली-110084 ।
653	भारतीय जनता सेक्यूलर पार्टी	सर्वमंगला नगर, दुरपा, वाई नं. 45, पोस्ट- दुरपा, थाना- कुसमुण्डा, तहसील- कटघोरा, जिला- कोरवा, छत्तीसगढ़- 495677
654	भारतीय जनतंत्र मोर्चा	खाता नम्बर-80, प्लॉट नम्बर-528, ग्राम-सिंदरौल, थाना-नामकुम, युगान्तर भारती परिसर, जिला-रांची झारखण्ड-834002
655	भारतीय जनतंत्र सनातन दल	नं. 752, चरित्र यन, टीचर्स कॉलोनी, जिला- बक्सर, बिहार- 802101
656	भारतीय जनताधिक जनता दल	1, दरोगा राय पथ, पटना- 800001, बिहार ।

657	भारतीय जनतांत्रिक पार्टी	ग्राम- चिरोटा, पोस्ट- अजयराजपुरा, याया- बगल, तहसील- सांगानेर, जिला- जयपुर, राजस्थान- 303007
658	भारतीय कामगार पार्टी	ग्राम- चान्दोपारा, पोस्ट- चान्दोपारा, जिला- इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 212402 ।
659	भारतीय कौटिल्य सेना	आर 14/6 (बेसमेंट), राजनगर, स्कवायर माल के सामने, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
660	भारतीय किसान जनशक्ति पार्टी	मकान नं० 600, वार्ड नं० 5, घसियारीपुरा, नौवागढ़ी, बहराइच उत्तर प्रदेश
661	भारतीय किसान पार्टी	ई- 58, तारानगर, झोटवाड़ा, जयपुर, राजस्थान- 302012
662	भारतीय किसान पार्टी (सेक्युलर)	ग्राम-वियारा, अंचल-भगोडीयाँ, जिला-यडोदा, गुजरात- 391760
663	भारतीय किसान यूनियन समाज पार्टी	मकान नं. 332एफ, चून्दावन गेट के पास, राजेन्द्र नगर, पश्चिम गोरखनाथ, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश- 272115
664	भारतीय किसान विकास पार्टी	ग्राम अमराई, पोस्ट लखारामपुर, विश्वेश्वरगंज, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश ।
665	भारतीय क्रांति वीर पार्टी	ग्राम- काजीचक, पोस्ट व पुलिस स्टेशन- संदेश, जिला- भोजपुर, बिहार-802164.
666	भारतीय क्रांतिसंध पार्टी	नं० 19/ जी-3, बुजेश्वरी एनेक्स, फनाडिया रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश -452016.
667	भारतीय कृषक दल	197, कौशलपुरी (सरला बाजपेयी का बाग), सुभाष नगर के दक्षिण, जनपथ, हरदोई, उत्तर प्रदेश ।
668	भारतीय लोक चेतना पार्टी	जानकी निवास, ब्रह्मपुर, पोस्ट व थाना- फुलवारी शरीफ, जिला-पटना, बिहार-811505
669	भारतीय लोकनायक पार्टी	ग्राम- नौवापाती, पोस्ट-चकरा, जिला सिवान, बिहार- 841226
670	भारतीय लोकसत्ता पार्टी	गली नं.6, वार्ड नं.47, गंडोरा का पुरा, जिला-मुर्ना, मध्य प्रदेश-476001
671	भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी	ग्राम व पोस्ट- सदाय बिगहा-165, बड़हिया, जिला- लखीसराय, बिहार- 811302.
672	भारतीय लोकशाही पार्टी	खडका रोड, रामदेव बाबा मंदिर, ता०-भुसावल, जिला- जलगांव, महाराष्ट्र- 425201
673	भारतीय लोकस्वराज्य पार्टी	सुभाष नगर, अष्टविनायक कॉलोनी, जि०प० प्राथमिक शाळे समोर, डी०पी० भोसले कॉलेज जवळ, सुलतानवाडी रोड, ता० कोरेगांव, जिला- सतारा, महाराष्ट्र-415501
674	भारतीय लोकवाणी पार्टी	प्लॉट नं० 6, ए ब्लॉक, एमिटी ग्रीन कॉलोनी, हासेमऊ, पोस्ट-लौलाई, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226028
675	भारतीय महासंघ पार्टी	नं० के-2413, नगर पालिका रोड, रोसड़ा समस्तीपुर, बिहार- 848210
676	भारतीय महाशक्ति मोर्चा	जय नारायण वर्मा रोड, फतेहगढ़, जिला-फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन- 209601.
677	भारतीय मजदूर पार्टी	ग्राम व पोस्ट-तिगरी, ब्लॉक-गजरौला, जिला-अमरोहा, उत्तर प्रदेश-244235
678	भारतीय मल्लराष्ट्र पार्टी	333, ओ लच्छीपुर भाटी विहार, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273007
679	भारतीय मानव कल्याण पार्टी	ई 49/1, राजहर्ष कॉलोनी, कोलार रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश- 462042
680	भारतीय मानव समाज पार्टी	गांव घु पोस्ट- ओड़ना, तहसील- केराकत, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222146.
681	भारतीय मानवता पार्टी	श्रीरामपुर टोला (बिहटा), पो. + थाना-बिहटा, जिला- पटना, बिहार- 801103
682	भारतीय मानवाधिकार फेडरल पार्टी	154/17, राज चेंबर, (फखरुद्दीन मंजिल), अलीभाई प्रेमजी मार्ग, ग्रांट रोड, मुंबई, महाराष्ट्र- 400007.
683	भारतीय मित्र पार्टी	सर्कल -10, होल्डिंग सं०-79ए/64, मोहल्ला - गोला रोड, बाकरगंज, जिला- पटना बिहार- 800004
684	भारतीय मोहब्बत पार्टी (ऑल इण्डिया)	म.नं.-18184, चंदसार बस्ती, अटिण्डा-151001. (पंजाब)।
685	भारतीय नागरिक सुरक्षा पार्टी	नं.13, न्यू केतन सोसाइटी, नजदीक उमा शिक्षण तीर्थ, भ.भाग्योदय सोसाइटी, नरोदा, अहमदाबाद, गुजरात-382325
686	भारतीय नव विकास पार्टी	60, सीडा मोहल्ला, चिल्ला गाँव, नियर साई मंदिर, मयूर बिहार फेस-1, दिल्ली- 110091

687	भारतीय नवजवान सेना (पक्ष)	श्री. मोरया पार्क, शॉप नं०-4, सोमनाथनगर, सोमनाथ मंदिर के पास, वडगांवशेरी, पुणे-411014, महाराष्ट्र ।
688	भारतीय नवोदय पार्टी	ग्राम- अहेरिया, पोस्ट- चकरनगर, चकरनगर चौराहा, जिला- इटावा, उत्तर प्रदेश।
689	भारतीय न्यू संस्कार क्रांतिकारी पार्टी	ग्राम व पोस्ट- सहसरॉव, भाया- भगवानपुर हाट, जिला- सिवान, बिहार-841408
690	भारतीय निवास पार्टी	ग्राम - सरवसी, पोस्ट - बढनी, गोपालपुर (उनवल), जिला - गोरखपुर, उत्तर प्रदेश - 273406 ।
691	भारतीय पंचायत पार्टी	डी - 15/674, गली नं०-5, गणेश नगर-2, शकरपुर, दिल्ली - 110092
692	भारतीय पंचायती राज पार्टी (लोकतांत्रिक)	बी-247, तीसरी मंजिल, प्रियदर्शनी विहार दिल्ली- 110092.
693	भारतीय पंचशील पार्टी	बी-71, इंदिरा नगर, रायबरेली, उत्तर प्रदेश- 229001
694	भारतीय पार्टी	न्यू कॉलोनी, पोस्ट-नीम का थाना, जिला-सीकर, राजस्थान - 332713
695	भारतीय पार्टी (लोकतांत्रिक)	ए-12, अन्सा प्लाजा, आर.बी.एस.एस. सहाय रोड, भागलपुर, बिहार- 812001
696	भारतीय प्रबुद्ध समाज पार्टी	554 सी/118, दामोदर नगर, नियर राज चंद्र अस्पताल, वीआईपी रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226005.
697	भारतीय प्रगतिशील कांग्रेस	डी.-43, राजधानी पार्क, नांगलोई, दिल्ली - 110041.
698	भारतीय प्रजा जन पार्टी	नारायणपुर रोड, कस्बा बानसूर, जिला-अलवर, राजस्थान ।
699	भारतीय पब्लिक लेबर पार्टी	357/3, श्याम नगर, गली नं०-1, काली मन्दिर के पीछे, फॉयसागर रोड, अजमेर, राजस्थान - 305001
700	भारतीय रणवीर पार्टी	एस - 498, भूतल, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली- 110092
701	भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी	जे- 74ए, गली नं. 14, खसरा नं. 6/14, स्वरूप नगर, दिल्ली- 110042.
702	भारतीय राष्ट्रीय दल	सी- 6/52, यमुना विहार, दिल्ली- 110053
703	भारतीय राष्ट्रीय एकता दल	10/10, मोहल्ला कैतवाड़ा, निकट अम्बेडकर चौक, जवालापुर, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड - 249407
704	भारतीय राष्ट्रीय जागरूक दल	ई-2548, राजाजीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226017 ।
705	भारतीय राष्ट्रीय जगसेवा पार्टी	यूनिट नंबर 208, दूसरी मंजिल, सनराइज टॉवर, शिव मार्केट, बजीरपुर, अशोक विहार, दिल्ली- 110052
706	भारतीय राष्ट्रीय जनसत्ता	127, प्रथम तल, वर्धमान टावर, प्रीत विहार, दिल्ली - 110092
707	भारतीय राष्ट्रीय लोक मंच पार्टी	प्लॉट नं०.2, गली नं०-2, चौहान पट्टी, निकट मंगल बाजार, करावल नगर, दिल्ली- 110094
708	भारतीय राष्ट्रीय तंत्र पार्टी	एन. 502, मधुवन ग्लोरी, सेन्ट जेरी स्कूल के नजदीक, नरोडा, अहमदाबाद, गुजरात- 382330
709	भारतीय रिप्लेक्शन पार्टी	एन.आई.जी.-11- जी, पाकेट ए-2, मयूर विहार, फेज-3, दिल्ली- 110096
710	भारतीय रिपब्लिकन पार्टी (इन्सान)	ग्राम - महुआरी, पो० जंगीगंज, जिला - सं० र० त० अदोही, उत्तर प्रदेश ।
711	भारतीय रोजगार पार्टी	ई-77, पुराना जसोला गाँव, निकट मेट्रो पिलर नं०- 141, जसोला, निकट जामिया को-ऑपरेटिव बैंक, नई दिल्ली- 110025 ।
712	भारतीय सबका दल	मुहल्ला- गोलवार टोला, पोस्ट, थाना व तहसील- मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद- मऊ, उत्तर प्रदेश- 276403
713	भारतीय सवलोग पार्टी	मौजा दीघा, राजीव नगर, रोड सं० 25 ई, पो०-केसरीनगर, थाना-फूलवारी, पटना बिहार- 800024
714	भारतीय साक्षर पार्टी	खसरा नं 78/4, धरमपुरा अटल विहारी बाजपाई वार्ड नं०.38, जगदलपुर, तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़- 490001.
715	भारतीय समाज सेवा पार्टी	मकान नं०-1, ग्राम - वनुपुर पुख्ता, पोस्ट - मलिकपुर (सोरो), जिला - काशगंज, उत्तर प्रदेश ।
716	भारतीय सामाजिक एकता पार्टी	16, ग्राम- नंदोरा, तहसील- गोरगंज, जिला- रायसेन, मध्य प्रदेश- 464990

717	भारतीय सामाजिक क्रान्ति दल	गांव- सुवारी, पोस्ट-दानगंज, जिला-वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
718	भारतीय सामाजिक न्याय पार्टी	गांव च डाकखाना - सेरसा, तहसील व जिला - सोनीपत, हरियाणा ।
719	भारतीय सामाजिक पार्टी	6, बस स्टैंड, अलिराजपुर, जिला - अलिराजपुर, मध्य प्रदेश - 457887
720	भारतीय समाजवादी सेना	भवन संख्या- एस.-2/525, मोहल्ला- सिकरौल, पोस्ट- कैण्टनमेण्ट, जिला- वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221002
721	भारतीय समानता पार्टी	चित्रकूट धाम, तीसरी मंजिल, 60-बी, पनकी रोड, कल्याणपुर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 208017.
722	भारतीय समृद्धि कल्याण पार्टी	मकान संख्या- 12/2, बी ब्लॉक, फेज- 2, गौयल विहार, निकट सेंट थॉमस स्कूल, द्वारका, गोगिया डेरी रोड, नई दिल्ली- 110071.
723	भारतीय समता पार्टी	173 डी, राधा कृष्ण चौराहा, रामपुरम् श्याम नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश- 208013
724	भारतीय संगम पार्टी	230/5, न्यू मेंहदौरी, पो0- तैलियरगंज, जनपद - इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211004.
725	भारतीय संघर्ष समिति	मकान सं. 4684, निसार नगर, करीदा संकुल के सामने, जम्भून रोड, सांगवान, बुलढाणा, महाराष्ट्र-443001
726	भारतीय संस्कृत विरासत पार्टी	मकान नं. 338, ग्राम च-पोस्ट- लखौर खुर्द, थाना- कुरावली, जिला-मैनपुरी, उत्तर प्रदेश ।
727	भारतीय संयुक्त किसान पार्टी	भुसाही बाजार, यादव मार्केट, कमले बलिया, भुसाही, बोधवा, मुजफ्फरपुर बिहार-843103
728	भारतीय सार्थक पार्टी	शिवशंकर पथ, मिठनपुरा, पोस्ट-रमना, थाना-मिठनपुरा, जिला-मुजफ्फरपुर, बिहार-842002
729	भारतीय सर्वधर्म पार्टी	विलास मार्केट, शॉप न.5, खदरी, थाना, माडियाँव, सीतापुर रोड, लखनऊ 226013
730	भारतीय सर्वजन हिताय समाज पार्टी	अनंत विहार कॉलोनी, दलदल सिवनी मार्ग, मोवा, रायपुर, छत्तीसगढ़।
731	भारतीय सर्वजन पार्टी	गांव-रामपुर, हाटा मार्ग, पोस्ट-गौरी बाजार, जिला-देवरिया-274202, उत्तर प्रदेश।
732	भारतीय सर्वोदय पार्टी	152/126, पटेल नगर (पश्चिम), देहरादून-248001, उत्तराखण्ड ।
733	भारतीय सत्य संघर्ष पार्टी	ग्राम-विडिया, थाना-मंडला, जिला-मंडला, मध्य प्रदेश ।
734	भारतीय सेवक पार्टी	उत्तराखण्ड ग्रामिण बैंक के नजदीक, बुग्गावाला (मेन मार्केट), हरिद्वार, उत्तराखण्ड- 247662
735	भारतीय शक्ति चेतना पार्टी	वाई नं0 18, ग्राम - खामदार, पो0 मोऊ, तहसील-ध्योंहारी, जिला - शहडोल, मध्य प्रदेश
736	भारतीय श्रमिक दल सोशलिस्ट	वामन नगर पतेरी, सेक्टर - 20, जिला - सतना, मध्य प्रदेश ।
737	भारतीय सुवर्णयुग पार्टी	कार्यालय ऐ/33, कैपिटल कॉमर्सियल सेंटर, निकट सन्यास आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात- 380009
738	भारतीय स्वदेशी कांग्रेस	12/303, मैक्स सिटी पार्क सफायर, रामप्रस्था ग्रीन्स, सेक्टर-9, वैशाली गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201010.
739	भारतीय स्वराज जन सेवा संगठन	एच. न. 647, कल्याणपुर माजरा, खेलिया कल्याणपुर, पी.एस. - अहमदगढ़, तहसील - शिकारपुर, जिला - बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश - 203391.
740	भारतीय स्वराज्य क्रांती पार्टी	तृमयोलीनगर, कसबा-वावडा जिला-कोल्हापुर, महाराष्ट्र- 431124.
741	भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी	40, लक्ष्मी नगर, रत्नेश्वर रोड, रतलाम, मध्य प्रदेश- 457001
742	भारतीय स्वतन्त्र पंच पार्टी	नोरगिया चौराहा से 50 मीटर कोनी मार्ग, पोस्ट-कोनी, तोहरू चौक खलीलाबाद, जनपद संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश-272175
743	भारतीय तारक समाज पार्टी	465ए चिनौली, तहसील- बडौत, जिला- वागपत, उत्तर प्रदेश- 250645
744	भारतीय ट्रायबल पार्टी	मु.पो. चंदेरिया, तालुका- वालिया, जिला- भरुच, गुजरात
745	भारतीय उदय निर्माण पार्टी	एच. नंवर-431/955एन, वाई गंज (132), नेवली टोला, एलाफ पैलेस के पास, मोमिन नगर, कैम्पवेल रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश -226003
746	भारतीय वंचितसमाज पार्टी	ग्राम - भुडिया (फगुहा), तह0 व जिला - कन्नौज, उत्तर प्रदेश।

747	भारतीय वीर दल	खेवट/खसरा नं.- 39/56, मुस्टिल नं.- 14, मौजा- घुडासन, पोस्ट- तिगाँव, बल्लबगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा - 121101
748	भारतीय वीर किसान पार्टी	ग्राम-खापरखेडा, तालुक- जफाबाद, जिला- जालना, महाराष्ट्र।
749	भारतीय विकास पार्टी	139-वी, टामुर नगर, न्यू फ्रेडस कॉलोनी, नई दिल्ली।
750	भारतीय विकास दल यूनाइटेड	मकान नं. एसएम.011-0425, ग्राम- छोटा बरियारपुर, वार्ड नं.- 38, पोस्ट- मोतिहारी कोर्ट, थाना- छत्तीनी, जिला- पूर्वी चम्पारण, बिहार- 845401
751	भारतीय विस्तारवादी पार्टी	ग्राम-श्यामपुर, पो- दुगरेई, जिला - फतेहपुर, उत्तर प्रदेश।
752	भारतीय योजना रायथु पार्टी	डी.नं.0.27-1-148/H, अत्ताराताय स्ट्रीट, नियर चन्नापल्ली बुंगला गवर्नर पेट, विजयवाड़ा, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश-520002.
753	भारतीय युवा एकता शक्ति पार्टी	मकान सं.-63, रामपुर रोड, मानपुर उत्तर, हल्द्वानी, जिला-नैनीताल, उत्तराखण्ड-263139
754	भारतीय युवा जनशक्ति पार्टी	रोजी अनीमा एक्स.टी.टी.आई, अखण्ड ज्योति हस्पिटल के पास, दीघा, पटना, बिहार- 800011
755	भारतीय युवा क्रान्ति पार्टी	ई-ब्लॉक सूरजदीप कॉम्प्लेक्स, निकट दैनिक जागरण चौराहा, जॉपलिंग रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001
756	भारतीय युवा पार्टी	एवरशाइन आपार्टमेंट जलाराम सोसायटी के निकट, रॉयल पार्क के सामने, पार्क एवेन्यू, के निकट, जानागढ़, गुजरात- 362001
757	भारतीय युवा पार्टी (राष्ट्रवादी)	मकान नं. 139, सोनवरसा बैरिया, जिला- बलिया, उत्तर प्रदेश- 277208
758	भारतीय युवा सेना	मकान नं.0-1-407, कस्बा विभाग, किल्ले धारूर, तालुक - धारूर, जिला - बीड, महाराष्ट्र - 431124।
759	भारतीय युवा स्वाभिमान पार्टी	19/769, मोहल्ला - नारायणपुर, शुक्ला आटा चक्की के पास, गोविन्द नगर, औरैया, उत्तर प्रदेश- 206122
760	भारतीय मानवता निर्माण पार्टी	लाला लाजपत नगर, पोस्ट- पुण्ड्राग, थाना- जगन्नाथपुर, जिला - राँची, झारखण्ड - 834004.
761	भीम ट्राइबल कॉंग्रेस	14-ई/जे/804, भारवाड अपार्टमेंट, चोपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर, राजस्थान- 342008
762	भीम सेना	स्वराज नगर, स्वराज अपार्टमेंट, 66/7/बी-134/102, मानेवाड़ा, रिंग रोड, नागपुर-440024
763	भोजपुरिया जन मोर्चा	सहयोगी नगर, पोस्ट - बहिरो, थाना + जिला भोजपुर, आरा, बिहार-802301
764	भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा	चन्द्रनगर कुरुद रोड कोहका, भिलाई, जिला व तहसील - दुर्ग, छत्तीसगढ़।
765	भ्रष्टाचार विरोधी दल	आर.जेड.डी.-120सी, निहाल विहार(नानगलोई), दिल्ली- 110041
766	भ्रष्टाचार का अंत पार्टी	64/189 गडरिया मोहाल, कानपुर, उत्तर प्रदेश- 208001
767	भूमिपुत्र यूनाइटेड पार्टी	ग्राम-इटाहर, पावर हाउस गेट के पास, पोस्ट-इटाहर, पुलिस स्टेशन-इटाहर जिला- उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल-733128
768	भूमिसन्तान अधिकार पार्टी	ग्राम-तलूक रानाघाट, पो.-पूर्व रानाघाट, थाना-मथुरापुर, जिला-दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल- 743338
769	बिहार जनता पार्टी	ग्राम - जेल शहर, ओल्ड रिमाण्ड होम, धर्मनाथ मन्दिर रोड, दौलतगंज, सारण, बिहार - 841301
770	बिहार जस्टिस पार्टी	प्लॉट नम्बर 2251, यदुवंशी नगर दीघा, आशियाना रोड, पटना बिहार-800011
771	बिहार लोक निर्माण दल	मौ. नूनगोता, थाना नगर व पोस्ट- हाजीपुर, जिला- वैशाली, बिहार- 844101
772	बिजु स्वाभिमान दल	प्लॉट नं.0 40, उमापदा, स्टेडियम वी आई पी रोड, पी ओ - एफ सी प्रोजेक्ट, कलिंग नगर, जाजपुर रोड, जाजपुर, ओडिसा - 755020
773	बीरा ओडिया पार्टी	माफेत - श्री पी. सामन्तरे, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त), स्था./पो.ओ. -मधुपटना, कटक - 10 (उडिसा)।
774	व्यू इंडिया पार्टी	मकान नंबर 2-8, गाँव और मंडल-बचुपल्ली, जिला-मेडचल, मल्कजगिरी, तेलंगाना- 500090

775	बोलशैविक पार्टी ऑफ इंडिया	डा. शशिकान्त वायेकर, 9 भुपेशनगर, गोरेवाड़ा रोड, नागपुर- 440013, महाराष्ट्र ।
776	बराबर समाज सांझी पार्टी	मकान नं०-698, ग्राम - अर्नियायानी, तहसील - नन्थुसारी चोपटा, जिला - सिरसा, हरियाणा - 125055
777	बृज पार्टी	बेसवां मोड़, अलीगढ़ मथुरा रोड, पोस्ट - बेसवां, ग्राम पंचायत - नयाबोस, तहसील - इगलास, जिला - अलीगढ़, उत्तर प्रदेश - 202145
778	भज विकास पार्टी	ए-193, ट्रांस यमुना कालोनी, फेस - II, आगरा - 286002, उत्तर प्रदेश ।
779	बृहत्तर भारत प्रजातंत्र सेवा पार्टी	पैलेस के पीछे, किशोरगंज पन्ना, जिला- पन्ना, मध्य प्रदेश ।
780	ब्रिज क्रान्ति दल	16, हरियाणा भवन, दयाल बाग, आगरा - 5, उत्तर प्रदेश ।
781	ब्रह्म भारतीय कल्याण पक्ष	2484/एफ, एईसीएस लेआउट, कूडल, एईसीएस लेआउट, ए-ब्लॉक, बैंगलोर, कर्नाटक- 560068
782	बुलंद भारत पार्टी	दुकान नंबर 8, पहली मंजिल, एस.सी.ओ.नंबर-84-85, सेक्टर-16, सागर सिनेमा के पास, फरीदाबाद, हरियाणा-121002
783	बुन्देलखण्ड कॉंग्रेस	56, जवाला इंड्री मार्केट, शर्बती काम्प्लेक्स, पश्चिम विहार, दिल्ली - 110063.
784	बुन्देलखण्ड क्रान्ति दल	मकान नं. 40, मोहल्ला- खाई, नई बस्ती, झांसी, उत्तर प्रदेश - 284001
785	बुंदेलखंड विकास दल	द्वारा श्री शिव नारायण खरे (एडवोकेट), 116/3 शिवालय, किशोर गंज, टाउन एरिया, कुलपहाड़, जिला - महोबा, उत्तर प्रदेश - 210426
786	चैलेंजर्स पार्टी	दुर्गेश निवास, विठोबा मंदिर के सामने, 68/XX, टेलर स्ट्रीट, काठलबाजार, बेल्लारी, कर्नाटक - 583102 ।
787	चण्डीगढ़ की आवाज पार्टी	मकान नं. 2207, ग्रांड फ्लोर, सेक्टर- 45 सी, चण्डीगढ़- 160047
788	चेन्नई यूथ पार्टी	एच नं० 2595, टी.एन.एच.बी., अय्यप्पक्कम, प्रथम तल, चेन्नई, तमिलनाडु- 600077
789	छत्रपति शिवाजी भारतीय गरीब पार्टी	ग्राम-फतेहपुर (खौदा), पोस्ट-कटोना, जिला-वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221208
790	छत्तीसगढ़ एकता पार्टी	मकान सं. 182/2, वार्ड नं. 08, बड़े पडरमुदा रोड, जमगहन, तहसील- मतखरोदा, जिला- जांजगीर चम्पा, छत्तीसगढ़- 495691
791	छत्तीसगढ़ महतारी पार्टी	एलआईजी 76, सेक्टर-2, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़, पिन-492007
792	छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा	पो. अं०. दल्ली राजहारा, जिला - दुर्ग- 491228. (छत्तीसगढ़) ।
793	छत्तीसगढ़ समाजवादी पार्टी	रामानुजगंज रोड, संजय पार्क के सामने, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़ - 497001
794	छत्तीसगढ़ संयुक्त जातीय पार्टी	बजरंग नगर (तात्यापारा वार्ड), रायपुर, छत्तीसगढ़।
795	छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच	21, बत्तीस बंगला, भिलाई नगर, जि०-दुर्ग- 490006 छत्तीसगढ़ ।
796	छत्तीसगढ़ विकास गंगा राष्ट्रीय पार्टी	खोंगापानी, जिला - कोरिया छत्तीसगढ़ - 497447
797	छत्तीसगढ़ विकास पार्टी	ए-12, फलाश विहार, न्यू पुरैना, पोस्ट ऑफिस-रवियाम, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
798	छत्तीसगढ़ समाज पार्टी	हांडीपाड़ा आजाद चौक, रायपुर - 492001. (छत्तीसगढ़)।
799	छत्तीसगढ़िया पार्टी	म०नं०-93, ग्राम- धनरास, पोस्ट- छुरी, तहसील- कटधोरा, जिला- कोरवा, छत्तीसगढ़ - 495450
800	छाया दल	सर्वे नं० 11-2, प्लॉट नं० 01, सीताराम नगरी, मल्हारवाडी, पोस्ट-हिंगोली, तालुका - हिंगोली, जिला-हिंगोली, महाराष्ट्र- 431513.
801	क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक फ्रंट	नं. 9, रोसारी चर्च रोड, सनथोमे, चेन्नई - (तमिलनाडु) ।
802	सिटिजन एक्सन पार्टी-सिविकम	पार्टी प्रमुख क्यूटीआर, लोअर लुम्से, एडमपूल से रेडिथाग रोड, गंगटोक, सिविकम- 737128
803	सिटिजन पार्टी	मकान. नं. 53, सर्वे नं. - 620, बजनाईकोइल स्ट्रीट, मधननकुप्पम, कोलाथुर, चेन्नई, तमिलनाडु-600099.
804	सिविल राईट्स पार्टी	फ्लैट नं. डी- 89, ग्रांड फ्लोर, ब्लॉक-16, शिवजीत इन्क्लेव, खरड एस.ए.एस नगर, मोहाली, पंजाब- 140301
805	कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी केरल स्टेट कमेटी	कुन्नुकुडी, त्रिवेन्द्रम - 695037, (केरल) ।
806	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट -लेनिनिस्ट) रेड स्टार	सी-141, सैनिक नगर, नई दिल्ली - 110059 ।

807	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ तेलंगाना (मार्क्सिस्ट-अंवेडकरिस्ट) सीपीटी(एमए)	मं. नं0 2-2-1106/वी/एसवीके1,शान्तिनगर,अम्बरपेट,हैदराबाद-500013
808	कांग्रेस (सेक्युलर)	राम राज भवन, मनीष्काठ रोड, कोचीन - 16 (केरल) ।
809	क्रप्शन एवोलिशन पार्टी	गकान नं0-219, गाँव व डाकखाना - शेरिया, तहसील - बेरी, जिला - झज्जर, हरियाणा
810	कण्ट्री सिटीजन पार्टी	#5, 'पद्मावती' माराम्मा मंदिर के पीछे, चिक्कालासंद्रा, बैंगलुरु, कर्नाटक- 560061.
811	दक्ष पार्टी	आई/1102, रहेजा चिस्टा, रहेजा विहार, चांदीवली, अंधेरी ईस्ट, मुम्बई, महाराष्ट्र- 400072
812	दलित कान्ति दल	जाति मेघवाले, गांव पोस्ट - धौलीपाल, तहसील व जिला - हनुमानगढ़ (राजस्थान) ।
813	दलित मजदूर किसान पार्टी	इ-11/77 न्यू कॉलोनी, हौज रानी मालवीय नगर, नई दिल्ली - 110017.
814	दलित शोषित पिछड़ा वर्ग अधिकार दल	ग्राम- हसनपुर जागीर, पोस्ट- सिकन्दाबाद, जनपद- बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश-203205
815	दलित विकास पार्टी (भारत)	हाई स्कूल के पीछे, वाई नं. 3, गांव व पोस्ट - घुनवारा, तहसील - मैहर, जिला - सतना, मध्य प्रदेश ।
816	दलित बहुजन पार्टी	म.स. 1-7-186/303, श्रीनिवास निलयम चैतन्यपुरी, दिलसुखनगर, हैदराबाद- 500060
817	दिल्ली जनता पार्टी	वाई - 200, कैप नं0-1, नांगलोई, दिल्ली - 110041
818	डेमोक्रेटिक भारतीय समाज पार्टी	गली नं0-7, गुरु नानक पुरा (पूर्वी), चिन्तपूर्णी मन्दिर के पास, जालंधर, पंजाब ।
819	डेमोक्रेटिक कांग्रेस पार्टी	291, ओडियन वाली गली, गोपाल मंदिर के पास, मजीठा रोड, अमृतसर (पंजाब) ।
820	डेमोक्रेटिक क्रप्शन लिबरेशन फ्रन्ट	2एफ/1ए नेडुंगनचिलै, पोन्नप्पा नाडार नगर, नागरकोडल, तमिल नाडु - 629004
821	डेमोक्रेटिक ह्यूमन राईट्स मूवमेंट पार्टी	तुन्डुविला वीइ, पन्निजयूर, वेनजारा मूड पी.ओ. तिरुवनन्तपुरम, केरल- 695607
822	डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी	डोर नं0.3/78, पी.ओ-एलामकुन्नपुझा, जिला-एर्नाकुलम, कोच्चि, केरल- 682511
823	डेमोक्रेटिक नेशनल अलेजियन्स	नंबर 6, राजावेलु स्ट्रीट, एरुक्कनचेरी, चेन्नई-600118, तमिलनाडु
824	डेमोक्रेटिक ऑरगेनाइजेशन ऑफ सोसिओ-इकोनॉमिक ट्रांसफोरमेशन ऑफ इंडिया पार्टी	प्लॉट नंबर -749, वेसमेंट, सेक्टर-39, गुडगाँव, हरियाणा- 122011
825	डेमोक्रेटिक ऑरगेनाइजेशन ऑफ नेशन पार्टी	मन्नारायथु, थेक्केथिल वीतिल, पल्लीसेरीकल, पोस्ट - सष्ठमकोट्टा, कोल्लम, केरल- 690521.
826	डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया	162, आनन्दराव उमरा मार्ग, अशोक नगर, नागपुर - 17, (महाराष्ट्र) ।
827	डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (अम्बेडकर)	मोहल्ला - ताजपुरा, राहों, तहसील - नवांशहर, जिला - शहीद भगत सिंह नगर, पंजाब - 144517
828	डेमोक्रेटिक प्रजाक्रान्ति पार्टी सेक्युलरिस्ट	उम्माथुर पो. व ग्राम. हन्सुर तालुक, मैसूर जिला, कर्नाटक - 571105
829	डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी	राष्ट्रीय उच्च सोनवार, अमर सिंह क्लब के सामने, श्रीनगर, जम्मू और काश्मीर- 190001
830	डेमोक्रेटिक सेक्युलर पार्टी	कोहिनूर बेकरी, उमरेद रोड, ताजाबाद, औलिया नगर, नागपुर - 24, महाराष्ट्र ।
831	डेमोक्रेटिक सोशल जस्टिस पार्टी	तिरुवोणम, एन.एल.आर.ए.140, नीराड़ी लैन (नं.7/242), तिरुवनन्तपुरम नगरसभ, उल्लूर, मेडिकल कॉलेज, पो.ओ-तिरुवनन्तपुरम, केरल-695011
832	डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी (प्रबोध चन्द्र)	63- अनन्दा पलित रोड, कोलकाता - 700014, पश्चिम बंगाल ।
833	डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	359, वेस्ट कोदलिया, न्यू बैरकपुर, थाना - घोला, जिला - उत्तर 24 परगना, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700131
834	डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी	आर्य स्कूल रोड, वीपीओ - सोहना, एस ए एस नगर, पंजाब- 140 308

835	देस मक्कल मुनेट्ट कडगम	3/172, वीरचेल्लैयपुरम कोलनी, वल्लीयूर (पोस्ट), पी. कुमारलिंगपुरम, आमनुर (वाया), तालुक एवं जिला-विरुधूनगर, तमिलनाडु - 626005
836	देसिया प्रजा सोसलिस्ट पार्टी	एन. एस. भवन, वेलायनी, डाकघर - नेमोम, तिरुवनन्तपुरम - 695020, केरल ।
837	देश बचाओ जन मोर्चा	डी - 6/171, सेक्टर - 31, नोएडा - 201301 (उत्तर प्रदेश) ।
838	देश बचाओ पार्टी	223/ए, केवलपुरी, अहिल्याबाई रोड, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश- 251001
839	देश हित पार्टी	प्लॉट नं०-467, ग्राम- जमुनी, पोस्ट- तरकुलवा, जिला- देवरिया, उत्तर प्रदेश ।
840	देश जनहित पार्टी	प्लॉट नं. 78, विनायक को० हाऊसिंग सोसाईटी बिदीपेट, पावर हाउस के पीछे, नरसाला, मकान नं०-4430/78, मौजा बिदीपेट, नागपुर - 30 महाराष्ट्र ।
841	देश प्रेम पार्टी	वाई नंबर-19, (पुराना वाई नंबर-17), दरवाजा नंबर 143(2), विषक्ष पुराना के. एस.आर.टी.सी बस स्टैंड, कोलाचलम कपांड, जनताकल कॉम्प्लेक्स बल्लारी, कर्नाटक- 583101
842	देश सेवा पार्टी	तं. ए-2, अधाना भवन, ग्राम- मोरना, सेक्टर- 35, नोएडा, उत्तर प्रदेश- 201303.
843	देश शक्ति पार्टी	14/39, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
844	देशा दल	मानस रंजन मिश्रा खतियान नं.466/90, तहसील नं.198, आनंद विहार, सर्वहल, हनुमान मंदिर के पास, पोस्ट एवं थाना-झारसुगुडा, जिला-झारसुगुडा, ओडिशा-768201
845	देशबन्धु पार्टी	ग्राम- मेहरबान नगर, निकट प्राइमरी पंठशाला, मेहरबान नगर, बाईपास रोड नानपारा, पो०-बलहा, तहसील - नानपारा, जिला - बहराइच, उत्तर प्रदेश।
846	देशभक्त जगत पार्टी	638/111, चेतना विहार, सेक्टर-14, इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226016.
847	देशभक्त निर्माण पार्टी	सुल्तानपुर वारहगौवा, पोस्ट व तहसील - मधुबन, जनपद - मऊ, उत्तर प्रदेश
848	देशी किसान पार्टी	मकान सं०-1524, वाई सं०-52, लकड़ीबाग मानपुर, जिला गया, बिहार
849	देशवादी पार्टी	मकान नं. 2184, डी- ब्लाक, इन्दिरा नगर, जनपद- लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226016
850	देसिया जननयागा काची	डी. नं. 4/133ई, अन्ना नगर, रेड्डीपट्टी पोस्ट, नमक्कल जिला, तमिलनाडु-637002
851	देसिया मक्कल पेरियक्कम	प्लॉट नं. 19, के.के. नगर, नन्तिलम 61010, नन्तिलम- पोस्ट, तिरुवारूर, जिला तमिलनाडु- 610105.
852	देसिया मक्कल शक्ति कांची	न्यू न - 21, ओल्ड नं०-11, वैक्टरमन स्ट्रीट, मिंट, चेन्नई, तमिलनाडु- 600079
853	देसिया सिरुपनमयिनर मक्कल इयक्कम	एस जॉन, नं. 7, पवुन्जुर, मेन रोड, कीरल्यादी- गांव, पुलियारानन कॉट्टु, पंजायत, जमीन, एन्दाथुर- पोस्ट, मदुरैताकम- तालुका, कांचीपुरम- जिला, चेन्नई, तमिलनाडु- 603311
854	देशिया उझवर उझइपलर कडगम	2/52, सी.सी.रोड. इ.बी.ऑफिस से सामने, किलपाल्लीपट्टु गांव, वेल्लोर तालुक, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु- 632311
855	धनवान भारत पार्टी	फ्लैट नं. 002, डी चिंग, श्री गणेश सी.एच.एस., शांति विधानगरी, मीरा रोड (ईस्ट), तालुका और जिला- ठाणे, महाराष्ट्र- 401107
856	धर्मनिरपेक्ष दल	24/42, लोकनाथ चौक, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) ।
857	धर्मराज्य पक्ष	601/602, बिल्डिंग नं० 7, शुभारम्भ फेस -1, कोनकानीपाडा मार्ग, ऑफ जी बी रोड, मानपाडा, ठाणे- 400610, महाराष्ट्र ।
858	धर्म समाज पार्टी	डोर नं. 8-17-90 / वी42, नन्दनवनम, कर्मनघाट विलेज, सरूरनगर मंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना- 500079.
859	धरतीपुत्र विकास पार्टी	29, विद्युत अभियन्ता कोलोनी, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान-302017
860	देशिया एलिया मक्कल नालाकाची	संख्या- 8 / 166, मारुथम्पट्टी कोलोनी, कठालपट्टी (पीओ) करूर, तमिलनाडु- 639007.
861	देसीया मक्कल कडगम	डोर नं०-1/239-3, मेन रोड, आर.सी. चेट्टीपट्टी, कोट्टामेट्टुपट्टी विलेज, धर्मपुरी ओमलुर तालुक, जिला - सलेम, तमिलनाडु - 636455

862	धू सेना	25/549, श्री शीतला माता मंदिर मार्ग, नवभारत चौक के पास, पुरानी बस्ती, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001
863	डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशन पार्टी	घाई नं. 25, मालमता क्रमांक 35, प्लॉट नं. 3776, मोतीनगर पुसद, तालुका-पुसद, जिला- यवतमाल, महाराष्ट्र- 445204
864	दिविजय भारत पार्टी	#5 (40/जी) 21वाँ मेन रोड, मारेनहल्ली, स्टेडर्ड इंग्लिश स्कूल, विजयानगर, बेंगलुरु, कर्नाटक- 560040
865	दो जमा पांच मुद्दे जन पार्टी	गांव व डाकखाना - आसन, तहसील व जिला - रोहतक, हरियाणा
866	डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी	नं० 9 और 10, ब्लॉक - डी, सेक्टर - सी, गांधी नगर, जम्मू, जम्मू एण्ड कश्मीर - 180004
867	डा. अम्बेडकर पीपुल रिवोल्यूशन मूवमेंट	नं० 4, ग्यारवीं गली, कुमारप्पा नगर, धारापाडावेडु, कटपाडी, वैल्लोर जिला, तमिल नाडु ।
868	डॉ. अम्बेडकर पीपुल्स पार्टी	106, 4 वां क्रॉस, के. एच. रंगनाथ कॉलोनी, अपोजिट वीएचईएल फैक्ट्री, मैसूर रोड, बंगलौर - 26 कर्नाटक
869	डॉ. अम्बेडकर समाजवादी डेमोक्रेटिक पार्टी	वेङ्कटैअन्न चतरा, हरदत्तहल्ली होवली, चामराजनगर तालुक व जिला, कर्नाटक ।
870	डा. भीमराव अम्बेडकर दल	ग्राम - कोठीडीह, तहसील - पुराना नवाबगंज, जनपद - बाराबांकी - 225001, उत्तर प्रदेश ।
871	डॉ. एमजीआर डेमोक्रेटिक पार्टी	नया नंबर 2 और पुराना नंबर 2/75, पडवेट्टम्मन कोयिल स्ट्रीट, शेनबाक्कम, वैल्लोर- 632008
872	द्रविड जननायगा मक्कल काची	नंबर-6, इम्मानुएल 2 nd क्रॉस स्ट्रीट, पल्लिकरानी, चेन्नई, तमिल नाडु- 600100
873	द्रविड जनशक्ति पार्टी	नंबर 4 / 87, ओथावीडु, अलीनगरम (पी.ओ.), थिरुप्पुवनम, शिवगंगई जिला, तमिल नाडु - 630611
874	द्रविड मक्कल पाथुकप्पु कझगम	नंबर 2, पहली लेन, पी.वी.कोविल स्ट्रीट, रायपुरम, चेन्नई, तमिलनाडु-600013
875	द्रविड मुरपोक्कु मक्कल काची	कार्यालय नं० 5/762, सबरई रोड, मडिपक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु- 600091
876	द्रविड पेरावाई	69, रंगापिल्लई स्ट्रीट, पांडिचेरी - 605001.
877	डुगर प्रदेश पार्टी	झाड़विंग इंस्टीट्यूट कॉम्प्लेक्स, जानीपुर जम्मू - 180007, जम्मू और कश्मीर ।
878	एकम सनातन भारत दल	20 बी/बी, गांधी नगर, जम्मू-180004
879	एकजुट अधिकार पार्टी	सी- 1037/2, इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226016
880	एकलव्य समाज पार्टी	53, वी-ब्लॉक, पुराना दारुलशफा लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 251001.
881	एकता निर्माण नेशनल पार्टी	नियर दुर्गा माता मंदिर, 41-बी बटना नगर तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश-452018
882	एकता समाज पार्टी	6898, नीम स्ट्रीट, अहाता किदारा, बाडा, हिन्दू राय, दिल्ली - 110006.
883	एकता शक्ति	झंझाडी, पो० शैली खुर्द, तहसील - नीलोखेडी, जिला - करनान, हरियाणा ।
884	एकता विकास महासभा पार्टी	सिन्हा सदन, एल.सी.टी. घाट, पूर्वी मैनपुरा, थाना- पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पोस्ट- जी.पी.ओ, सदर-पटना, जिला- पटना, बिहार-800001
885	एलुची देशम पार्टी	पुराना नं. 1/46, न्यू नं. 34, वडिवलपुरम, पोस्ट- वाडुकाचिमथील, तालुक- नानगुनेरी, जिला- तिरुनेलवेली, तमिलनाडु- 627102
886	इंजीनियर्स पार्टी	बूताना हसुर, पोस्ट- सुतागहल्ली, जिला - मड्या, कर्नाटक- 571403
887	इक्वालिटी पार्टी ऑफ इंडिया	मिथुनम, 15/818/81ए, भद्रा नगर, उलियाकोविल (P.O), कोल्लम, केरल - 691019.
888	एजहुची तमिझारगल मुनेत्र कझगम	5/197, चिन्ना मंगलाकुडि, उयागुडि पोस्ट, मदुरै, तमिलनाडु - 625107
889	फौजी जनता पार्टी	मकान नं० - 104, गॉव - मनोवास, डाकखाना - बराल, तहसील - सिकन्दाबाद, जिला - युलन्दशहर, उत्तर प्रदेश- 203001
890	फौजी किसान पार्टी	ग्राम- सेराहवा, पोस्ट ऑफिस- मुराली, वाया हरिनगर, जिला- पश्चिम चम्पारण, बिहार- 845103

891	फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी	244/ब, कठमोड़वा, पोस्ट - मदैनिया, जनपद - अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश - 224147
892	फोरम फार प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी	बी/145-146, मितल टायर्स, नारीमन प्वाइंट, मुम्बई - 400021, महाराष्ट्र।
893	फॉरवर्ड डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी	वाई नं. 5, रेस्ट हाउस के सामने, गणेश नगर, मुरमाडी, तहसील व पोस्ट- लाखानी, जिला- भंडारा, महाराष्ट्र- 441804
894	फ्रीडम पार्टी	एफ-2/260, टोंप फ्लोर, सुंदर नगरी, नन्द नगरी, शाहदरा, दिल्ली- 110093
895	फ्रियोट पार्टी ऑफ इंडिया	121, धर्म विहार, पो. ओ. खंडगिरि, भुवनेश्वर, ओडिसा - 751030
896	फ्रंट ऑफ रेवल्यूशनरी इंडस्ट्रियल क्रिएटिव एफर्ट्स	श्री गोवर्धन पैलेस, धार रोड, उधमपुर - 182101 जम्मू एण्ड कश्मीर ।
897	गदर पार्टी	मकान सं० 32, रामलीला मैदान के बगल में, पड़ाव वार्ड, पोस्ट मकन्दगंज, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश - 230001 ।
898	गद्दार प्रजा पार्टी	प्लॉट नं. 26, मकान नं. 1-23-125/1, मदेवी नगर, मंडल, अलवर, पोस्ट- थिरुमालागिरी, सिकंदराबाद, तेलंगाना-500015
899	गंगा सुरक्षा पार्टी	ग्राम-दिघलीपुर, तमूलपुर, थाना-तमूलपुर सब डिविजन-बक्स, जिला-बक्स असम-781367.
900	गृहसंगम पार्टी ऑफ इंडिया	डी. नं. 6/786, साक्य मंजिल, पौनविलानगर, तिरुची रोड, नामकट्टल, तमिलनाडु-637001
901	गाँधी एकता पार्टी	के-63/01, भूतभैरव नखास (खाशीपुरा), वाराणसी, उत्तर प्रदेश
902	गांधी प्रकाश पार्टी	मकान सं०-126, खाता सं०-236, प्लॉट सं०-637, ग्राम- सिकठी, पोस्ट ऑफिस- अखलासपुर, थाना - अमुआ, जिला- कैमूर, बिहार ।
903	गाँधीयन पीपुल्स पार्टी	सी - 1255, इन्दिरा नगर, लखनऊ - 226016, उत्तर प्रदेश ।
904	गणतांत्रिक जनहित पार्टी	द्वारा चेदवती देवी, पश्चिमी लोहाजीपुर, कदमकुआ, पटना बिहार-800003
905	गरीब आदमी पार्टी	आर-21, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, नई दिल्ली -110059
906	गरीब जनक्रान्ति पार्टी	वार्ड - 12, होल्डिंग संख्या - 747/642, दाउदपुर कोठी, एम0आई0टी0 गेट के सामने, लक्ष्मी चौक, ब्रह्मपुरा, मुजफ्फरपुर, बिहार- 842003
907	गरीब क्रान्ति पार्टी	मकान सं. 7, मुकरपुर खेमा, नवाब का आहता, तहसील व जिला- बिजनौर, उत्तर प्रदेश -246701
908	गरीब समाज स्वराज पार्टी	शाहपुर तिगरी, पोस्ट और थाना-मड़ोला, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश-244001
909	गरीब सामना पार्टी	म० नं० -399, आवास विकास कॉलोनी, जिला- मिर्जापुर - 231001 उत्तर प्रदेश ।
910	गरीब बेरोजगार विकास पार्टी	ग्राम- चम्पतपुर, पो.ओ- बलिया, तहसील- आंवला, विकास-खण्ड- आलमपुर जाफराबाद, जिला- बरेली, उत्तर प्रदेश- 243402
911	गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी	132 बृंद लामर मैदान, गुर्जर बस्ती, दा देवसर, कुलगाम, जम्मू एंड कश्मीर-192231
912	गरीब एकता पार्टी	ए-71 थुप, वजीरपुर, औद्योगिक क्षेत्र, वजीरपुर, दिल्ली - 110052.
913	गरीब जनशक्ति पार्टी	कुमार मार्केट, अखाड़ाघाट रोड, होल्डिंग नंबर -17/15, वार्ड सं. 17, बालुघाट बलान के समीप, मुजफ्फरपुर, बिहार-842001
914	गरीब जनता दल (सकुलर)	मित्र मंडल कालोनी, वार्ड नं. 11, स्थित होल्डिंग नम्बर- 470, साकेत विहार, अनिसाबाद, पटना-2, बिहार
915	गरीब कल्याण पार्टी	नं.-सी/ 268, थप नं.-2, प्रभाकर टेन्ट, नियर सेजल नगर सो., नियर जी.डी. हाई स्कूल, सैजपुर बोधा, अहमदाबाद, गुजरात-382345
916	गरीबी मुक्त भारत पार्टी	मकान संख्या- 185, बलिया देव नगर, बड़ोदरा, गुजरात- 390001
917	गारो नेशनल काउन्सिल	न्यू तुरा, पश्चिम गारो हिल्स, (मेघालय)।
918	गरवी गुजरात पार्टी	नं. 112, घीवाली चाली, चमनपुरा, असारवा, अहमदाबाद, गुजरात- 380016
919	ग्लोबल पीपुल पीस पार्टी	1-आनंदनगर, पोस्ट - आनंदनगर, थाना - कल्याणी, जिला - नदिया, पश्चिमी बंगाल - 741245
920	गोवा नेशनलिस्ट पार्टी	मकान नं०-442, चिंचमाला, वाडा पायें, सतारी, गोवा - 403505।

921	गोवा प्रजा पार्टी	क्लासिक अपार्टमेंट्स, हाउस नं०-69, एल्ला, पुराना गोवा, तिसवाडी, नॉर्थ गोवा, गोवा - 403402
922	गोवा सु-राज पार्टी	383-ए, पीराजोना, मोइरा, बारडेज, गोवा, पिन - 403514.
923	गोवा सुरक्षा मंच	दुकान नं०-644/1, वाई नं०-4, ग्राउण्ड फ्लोर, अहिल्याराम निवास, पंचायती के सामने, सावईयेरे, पोडा-गोवा ।
924	गोवा विकास पार्टी	लक्ष्मी सदन, ग्राउंड फ्लोर, असेम्बली कॉम्प्लेक्स के सामने, जर्नलिस्ट कॉलोनी के पास, पुर्योरिम, गोवा - 403507.
925	गोएमकरेंची ऑट्रेक असरो	मकान नं० 780/ए, मुगल्ली, साओ जोस डी एरीयल, सालसेट, गोआ ।
926	गोयंचो स्वाभिमान पार्टी	घ.क.12/678,सेंट जोकिम चंपल के पीछे,मडगांव,गोवा-403601
927	गोकुला मक्कल काची	न्यू नं. 7, ओल्ड नं. 3, चैकटरामन स्ट्रीट, तेनाम्पेट, चेन्नई, तमिल नाडु- 600018
928	गोंडवाना गणतंत्र पार्टी	ग्राम व पो. ऑ. तिवेथ, तहसील कटघोरा, जिला-धिलासपुर (छत्तीसगढ़) ।
929	गोंडवाना कॉंग्रेस पार्टी	शाहपुरा, ए-121, बी० डी० ए० कालोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश ।
930	गोंडवाना दंडकारण्य पार्टी	H.No.4-4-24/2/308/8/1, ग्रीन किराना शाप के पास, रिक्शा कॉलोनी के बगल में, सजय नगर, आदलाबाद, तेलंगाना राज्य-504001
931	गोंडवाना मुक्ति सेना	एम-2, पूर्वांचल फेस- 1, खजूरीकला रोड, भोपाल- 462021, मध्य प्रदेश ।
932	गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट	डोंजकिर हुसैन रोड, (जलपहाड़ रोड) पो. ऑ. और जिला दार्जिलिंग, दार्जिलिंग गोरखा हिल कार्गसिल (पश्चिम बंगाल) ।
933	गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट	शाही निवास चन्द्राबनी, पोस्ट-मोहव्येवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
934	गोर्खा राष्ट्रीय कांग्रेस	9, के.वी. रोड, पोस्ट-घूम, थाना -जोरबंगला, जिला -दार्जीलिंग, पश्चिम बंगाल ।
935	ग्रेजुएट इंडिया पार्टी	नंबर 443, काथा नंबर 1200, एजीवी लेआउट, बीबीएमपी वाई नंबर 12, चिक्कासंद्रा, बैंगलोर, कर्नाटक - 560090.
936	ग्रामीण विकास पार्टी	शिव ग्राम, प्लॉट नं. 323, (खाता नं. 1161/1314), इंतकाल नं. 5678, किला नं. 10/02, (1-0), चोमा, पालम विहार एक्सटेंशन, तहसील व जिला- गुरुग्राम, हरियाणा- 122017
937	ग्रेट इंडिया पार्टी	डी नं० 1-1334, देवस्थानम रोड, मंगलागिरी-522503, गन्दूर डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश ।
938	ग्रीन पार्टी ऑफ इंडिया	36-सी, गोविन्दपुरी, रामनगर, सोडाला, जयपुर, राजस्थान- 302006
939	गुजरात जनता पंचायत पार्टी	सिटी सर्वे नं. 966, रामेश्वर मंदिर के पास, डेली फली, बोखिरा, पोरबंदर, गुजरात- 360577
940	गुजरात किसान मजदूर लोकशासन पार्टी	710/32, ग्रीन सिटी, गली नंबर 5, लातपुर रोड, जामनगर, गुजरात- 361005.
941	गुजरात क्रांतिकारी पार्टी	दुकान नंबर 1, मधुर कॉम्प्लेक्स, बडगाम, डाकघर, बडगाम, बस स्टैंड के पास, जिला- बनावसकाठा गुजरात-385421
942	गुजरात लोकतंत्र पार्टी	बी-2, सहकार विकास फ्लैट्स मोता नगर के सामने, नेहरू नगर, एस एम रोड, अहमदाबाद, गुजरात-380015
943	गुजरात नव निर्माण सेना	C-19, जयराज फ्लैट, सोनी नी चली, ओधय, अहमदाबाद, गुजरात-382415
944	गुजरात सर्व समाज पार्टी	प्लॉट नंबर-20, सर्व नंबर-133/3, निर्मल नगर, किदाता, तहसील-गांधीधाम, जिला- कच्छ, गुजरात-370205
945	गुंज सत्या नी जनता पार्टी	कार्यालय संख्या सी/442, सुमेल - 7, सोनी नी चावल क्रॉस रोड, एन एच नं० 8, रखियाल, अहमदाबाद - 380023
946	गुडगाँवा रेसिडेन्ट्स पार्टी	सी-1927, सुशांत लोक-1, गुडगाँव -122 002, हरियाणा।
947	गुरु चोंद मुक्ति मोर्चा	जी-52, अरुणा नगर, मजनु का टीला, सिविल लाईन्स, दिल्ली - 110054
948	गुरुचंद सेना दल	106, पुरवा प्लाचन्ता, ग्राम साउथ, पोस्ट-बी.आई.पी. नगर, पी.एस.-अनंदापुर, कोलकता, पश्चिम बंगाल-700100
949	हाकिम अपना पार्टी	मौहल्ला महमूद खॉं, सराय नखासा चौराहा, सम्भल, तहसील व जिला -सम्भल, उत्तर प्रदेश 244302 ।

950	हमर राज पार्टी	के-19, गोमती इण्डस्ट्री के सामने, लक्ष्मी नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001
951	हमारा काम धन्धा और बेरोजगार पार्टी	म0न0.652, इरेगा प्रोजेक्ट, पोस्ट-रालेगन सिद्धि, स्वराज हिन्द ट्रस्ट रोड, ताल-पारनेर, डिस्ट्रिक्ट-अहमदनगर, महाराष्ट्र-414302
952	हमारा सहारा पार्टी	सानंद भवन, ग्राम व पोस्ट - मसौदा, थाना - पालीगंज, जिला - पटना, बिहार - 801110
953	हमारा सही विकल्प पार्टी	फ्लैट नंबर 303, केएच। क्रमांक 167, लाल डोरा, ग्राम-कापसहेडा नई दिल्ली-110034
954	हमारी अपनी पार्टी	सर्वे नंबर -75/1, इंद्रायणी बिहार, संत नगर, लोहगांव पुणे, महाराष्ट्र - 411047
955	हमारी जनमंच पार्टी	1/12, नया चुक्खवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
956	हमदर्द पार्टी	मोहल्ला- सैय्यदवाडा, पोस्ट- सट्टी मस्जिद, शहर- गाजीपुर, जिला- गाजीपुर, उत्तर प्रदेश- 233001
957	हमदर्दी जनरक्षक समाजवादी विकास पार्टी (जन सेवक)	ग्राम- उधुरा, पोस्ट ऑफिस- दल्लुपुर, थाना- ब्रह्मपुर, जिला- बक्सर, बिहार-802130
958	हमरो सिविकम पार्टी	ओम शांति निवास, लोवर भरचाक, रानी पूल, ईस्ट सिविकम, सिविकम - 737135
959	हक ईसाफ पार्टी	नं.3037, तलब खटिकान, जम्मू एवं कश्मीर-180001
960	हरदम मानवतन्त्रवादी राष्ट्रीय दल	नं. 3-10-18, पट्टाभिपुरम, गुंदूर, आन्ध्र प्रदेश- 522006
961	हरित प्रदेश विकास पार्टी	मकान नं. 34, ग्राम- तबेलागढ़ी, तहसील- बडौत, जिला- बागपत, उत्तर प्रदेश- 250622
962	हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट	नम्बर 549, मथुरा नगरी अम्बाला सिटी, हरियाणा- 134003
963	हरियाणा डेवलपमेंट पार्टी	नं0 2079, सेक्टर-4, (नियर कम्यूनिटी सेंटर), रेवाड़ी, हरियाणा-123401
964	हरियाणा हितकारी दल	गाँव-ब्राह्मण माजरा, पोस्ट-भदौर, तहसील-पानीपत, जिला - पानीपत हरियाणा-132103
965	हरियाणा ईसाफ कांग्रेस	फार्म हाउस, नजदीक भगवत भक्ती आश्रम, रामपुरा, रेवाड़ी, हरियाणा - 123401
966	हरियाणा जन चेतना पार्टी (वी)	कोठी नं0 - 118ए, सर्वूलर रोड, मॉडल टाउन, अम्बाला सिटी, हरियाणा - 134003
967	हरियाणा जन सेवक पार्टी	32ए/34, आशोष कूटीर, नीयर शिव पार्क, जनता कॉलोनी, रोहतक, हरियाणा-124001
968	हरियाणा जनहित विकास पार्टी	531ए, सेक्टर-4, रोहतक, हरियाणा- 124001
969	हरियाणा जनरक्षक दल	249/3, पार्क रोड, आदर्श नगर, गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा ।
970	हरियाणा जनसेना पार्टी	मकान नंबर 633, भूतल, न्यू जनता कॉलोनी, ऑपोजिट सारण थाना, फरीदाबाद, हरियाणा-121005
971	हरियाणा क्रान्ति दल	बबैन रोड, लाइवा, जिला - कुरुक्षेत्र, हरियाणा
972	हरियाणा लोकहित पार्टी	शॉप नं0-8, एस सी ओ - 2, ओल्ड जुडिशल काम्प्लेक्स, झारसा रोड, सेक्टर - 15, गुडगाँव, हरियाणा - 122001
973	हरियाणा नवनिर्माण सेना	101, गाँव- सिलोखरा, गुडगाँव - 122001, हरियाणा ।
974	हरियाणा सर्वजन पार्टी	मकान नं. 236, चार्ड नं. - 2 ग्राम पंचायत रादौर, जिला - यमुना नगर, हरियाणा ।
975	हरियाणा स्वतंत्र पार्टी	हाउस नं.- 154, ग्राम व पोस्ट ऑफिस-जखौदा, तहसील-बहादुरगढ़ जिला-झज्जर, हरियाणा ।
976	हेल्पिंग हैंड पार्टी	बी - 203, श्री राम हाइड्स, समोर रेजीडेंसी, टोल टैक्स भुठिया के पास, नरोदा, अहमदाबाद - 382330, गुजरात
977	हिमाचल जन क्रांति पार्टी	मकान सं.435, चार्ड नं. 10, शाम नगर, धर्मशाला, जिला- कांगडा, हिमाचल प्रदेश- 176215
978	हिमाचल जनता पार्टी	पवन कटोच C/o उर्मिला देवी, 88, महाल बिहार, मं नं. 248 गाँव बण्ड विहार, डाकघर दियोद्या, तहसील पालमपुर, जिला-काँगडा, हिमाचल प्रदेश- 176061.
979	हिमाचल लोकहित पार्टी	शास्त्री भवन, देव नगर कासुम्पटी, शिमला - 171009, हिमाचल प्रदेश ।
980	हिन्द कांग्रेस पार्टी	सी-6, साउथ साइड, जी0 टी0 रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
981	हिन्द हितैषी हिन्द मां सेना	1-विराट नगर, सावन पार्क, परशुराम चौक, फेज-11, कनाल बाईपास, मॉडल टाउन, नियर होटल विराट पैलेस, पानीपत, हरियाणा-132103

982	हिंदू जन कांग्रेस	72, प्यारेलाल कम्पाउण्ड, नगरा झांसी, उत्तर प्रदेश ।
983	हिन्दू जन स्वराज पार्टी	ग्राम-किशनपुर, पोस्ट-वेनीपुर, पुलिस स्टेशन-यहेडा, जिला-दरभंगा, बिहार-847208
984	हिन्दू समर्पित पार्टी	156, शाहबिसवा जलालपुर, रघुनाथपुर, मुरादनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201206.
985	हिन्दू समदर्शी पार्टी	एफ-64, गलैक्सी अपार्टमेंट, सेक्टर-43, गुडगांव, हरियाणा-122002
986	हिन्दू साम्राज्य पार्टी	512/695क/1, चान्दा रोड, निशातगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226007
987	हिन्दू यूनाईटेड मोर्चा	नंबर जे-1, शिवालिक टावर्स, शिवालिक सिटी, सेक्टर-27, खरार, एस.ए.एस. नगर, पंजाब-140301.
988	हिन्दू विकास पार्टी	पो. ऑ. श्री हर भगवान नगर तापाकालान, काली मन्दिर के पास, जलेसर रोड, फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश) ।
989	हिन्दू एकता आन्दोलन पार्टी	हिन्दी एकता कार्यालय, मल्हार, खान भाग, पुलिस चौकी, मकान नं० 927/1, सांगली - 416416, जिला सांगली, महाराष्ट्र ।
990	हिन्दू समाज पार्टी	राष्ट्रवादी धर्म सत्ता, 26-ए, खुशिदाबाद, लखनऊ -4, उत्तर प्रदेश
991	हिन्दुस्तान एकता पार्टी	दुकान नं० 132/2, केशो राम कौम्पलैक्स, सेक्टर-45 सी० चण्डीगढ़ - 160047
992	हिन्दुस्तान हमारा पार्टी	555ए/1, भम्फोर्डगंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211002
993	हिन्दुस्तान इंकलाब पार्टी	महेश प्रसाद मंडल, गोंय-झिटकी, पोस्ट-हिसार, थाना नंबर-32, ब्लॉक-हरलाकी, बजरंग बाजार झिटकी, जिला-मधुबनी बिहार-847230
994	हिन्दुस्तान जनमोर्चा	मकान सं० -1, ग्राम व पोस्ट- टेकुआं, जिला- देवरिया, उत्तर प्रदेश- 244182 ।
995	हिन्दुस्तान जनता पार्टी	मैसर्स सोनो सेल्स कोरपोरेशन, सच्ची मण्डी, खोकडपुरा, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) ।
996	हिन्दुस्तान जनता पार्टी सेक्युलर	ग्राम गरीला, डाकघर-सिरसविरण, थाना लालगंज, जिला वैशाली, बिहार-844123
997	हिन्दुस्तान क्रान्ति दल	गाँव- टुन्डलाका, पंचायत-गाँधोला, पोस्ट व तहसील - पुन्हाणा, जिला -मेवात (नूँह), हरियाणा ।
998	हिन्दुस्तान क्रान्तिकारी दल	ए-65, सेक्टर-34, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश ।
999	हिन्दुस्तान पीपल्स पार्टी	एच. न. 57, (स्काई सडाम) प्लॉट न. 34/392/बी/8/सी, ग्राम-पालवागन, वार्ड-4, मिहिजाम जामताड़ा झारखण्ड - 815354.
1000	हिन्दुस्तान राष्ट्रीय पार्टी	डोर नं० 64-8/1/1, रुधवनगर, पटमाता लंका, विजयवाड़ा, कृष्णा जिला, आन्ध्र प्रदेश- 520010
1001	हिन्दुस्तान समाज पार्टी	ग्राम व पोस्ट- जगदीशपुर, डीह- रायबरेली, उत्तर प्रदेश- 229310.
1002	हिन्दुस्तान संपूर्ण आजाद पार्टी	ग्राम - सेन्दूआरी पुरुषोत्तम वार्ड नं० 8, पोस्ट-बखरी, थाना+अंचल-मोतीपुर, जिला- मुजफ्फरपुर, बिहार - 843111
1003	हिन्दुस्तान शक्ति सेना	म० नं० - 1113/11, दर्शन सिंह नगर, अलिपुर रोड, पटियाला, पंजाब
1004	हिन्दुस्तान स्वराज कांग्रेस पार्टी	शेखर चंगला, ए. बी. नायर रोड, जूहू सुम्बई-400049, महाराष्ट्र
1005	हिन्दुस्तान तहरीक ए-ईसाफ	मकान नं० 1-12-386, राजावडी, पटवाडी नाका बहार भुज, तहसील- भुज, जिला- कच्छ, गुजरात- 370001
1006	हिन्दुस्तान उत्थान पार्टी	मकान सं० 438, ग्राम- रवानी कटौरी, पोस्ट- बुगरासी, तहसील- स्याना, जिला- बुलन्दशहर उत्तर प्रदेश- 245403
1007	हिन्दुस्तान विकास दल	करमल टोला, आरा, जिला-भोजपुर-8002301 बिहार ।
1008	हिन्दुस्तान जिदाबाद पार्टी	नंबर सी-33, हरि कृष्णा पार्क, कैडिला रोड, घोडेसेयर क्रॉसिंग पास, अहमदाबाद, गुजरात -380050
1009	हिन्दुस्तानी आवाम पार्टी	मं० नं० - 202ए/104, जवाहर नगर, निकट हाथी पार्क, लखनऊ उत्तर प्रदेश - 226001

1010	हिन्दुस्तानी अवागम मंच (युनाइटेड)	मौ. ग्राम-दखनेर, पोस्ट- परैया, थाना-परैया, जिला-गया, बिहार- 824209
1011	हिन्दुस्तानी अवागम मोर्चा (सेक्युलर)	माँ शबरी कुटीर, गोदावरी, थाना - रामपुर, जिला - गया, बिहार - 823001
1012	हिन्दुस्तानवादी पार्टी (जयहिन्द)	मकान सं. 102, ग्राम-रमदतपुर, पोस्ट- पाण्डेयपुर, थाना-कैण्ट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221007
1013	हिन्दुस्थान जनसेवा पक्ष	33, अण्णाभाऊ साठे नगर, रमाबाई कॉलोनी, व्ही. एन. नाइक मार्ग, पूर्व दुतगति महामार्ग, घाटकोपर (पू.), मुंबई, महाराष्ट्र-400084
1014	हिन्दुस्थान निर्माण दल	मकान नं० 100, गली नं० 5, कृष्णा नगर, सफदरगंज इंकलेव, नई दिल्ली ।
1015	हिन्दुस्तान प्रजा पक्ष	7/702, 'सी' विंग, शीतलधारा कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नं. 28, सेक्टर-7, कामोठे, नवी मुंबई- 410209, महाराष्ट्र ।
1016	हिन्दवी स्वराज्य दल	नं. 167, अम्बिकानगर, भचाऊ-7, तालुका-भचाऊ, जिला-कच्छ गुजरात- 370140
1017	हाईटेक पार्टी	बी-85, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010 ।
1018	हमार पिपुल्स कन्वेंशन	द्वारा लालुवा, मकान नं०-ए/56, बावंगकाउन चिमवेग एजल- 796014, मिजोरम ।
1019	हम भारतीय पार्टी	मकान नं. 1-3-3227, हर्षरुस, मुक्ता लॉन के पीछे, जीजऊ नगर, बाशी रोड, बीड, महाराष्ट्र- 431122
1020	हम एक है पार्टी	मकान सं. 212, खसरा नं. 15/21, रशौद नगर, नाल साहब रोड, नागपुर, महाराष्ट्र-440018
1021	हम किसान पार्टी	मकान नं० - 1699/G-25/A1, विद्या नगर रोड नं० - 1, हरमु. राँची, झारखण्ड - 834002
1022	हम लोग पार्टी	803-बी, वेचली पार्क 1, एमजी रोड 1, एमजी रोड डीएलएफ फेज-2, सेक्टर-25, चकरपुर (74), गुडगांव, हरियाणा-122002
1023	हम सबकी पार्टी	ग्राम- महिमापुर (जलालपुर चौमुहानी), पोस्ट - जलालपुर, जिला - जौनपुर, उत्तरप्रदेश - 222136
1024	हमन डेमोक्रेटिक पार्टी	मकान सं. 2/42, वृसिपल्ली गांव, थेनेपल्ली पोस्ट, वेपनपल्ली पंचायती, पूतलपट्ट मंडल, चित्तूर-जिला, आन्ध्र प्रदेश-517124
1025	ह्यूमैनिटी फॉर पीस पार्टी	1- ए.ए.आर. रहमन नगर, जेएमएस कंपाउंड, क.न. विल्क्यू, आदिपति तालुक, थेनी जिला, तमिलनाडु-625512
1026	ह्यूमैनिटी यूनिवर्सल मोशन पार्टी	c/o शमिक बनर्जी, # होलडिंग नं. 84/1, इंदरा रबिन्द्रापल्ली, वाई नं. -02, प्रांतिक क्लब के पास, खडगपुर, जिला-पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल-721305
1027	इलन्तमिलर मुन्नानी कझगम	1/159, पेरीयार नगर, तिरुमुलम, चेन्नई, तमिलनाडु- 600043
1028	इन्डिपेंडेंट इन्डियन कॉंग्रेस	मु० पो० पिंपलगंव तर्फ महालुंगे, ता० आंबेगांव, जिला - पुणे, महाराष्ट्र - 410503
1029	इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट फ्रंट	89 सथनगड्ड विलेज स्ट्रीट, सथनगड्ड तिरुवोत्तरियुर, तमिलनाडु-606104
1030	इंडिपेंडेंट पीपुल्स पार्टी	मकान सं० - 63, कारगिल कॉलोनी, नरवाल बाला, जम्मू, जम्मू एण्ड कश्मीर ।
1031	इन्डिया कुडियारासु काची	11, कारपगम्बल नगर, III स्ट्रीट, कोट्टीयक्कम, चेन्नई-600041, तमिलनाडु ।
1032	इन्धु द्रविडा मक्कल काची	नं० 14, बालाजी नगर, चिक्कारायापुरम, मंगादू, जिला- चेन्नई, तमिल नाडु- 600069
1033	इन्डिया द्रविड मक्कल मुन्नेत्र कांची	द्वार सं० 15/1, वाई नं० 21, सरोजनी नगर, टॉवरलाइन कॉलोनी, इरोडे कौरपोरेशन जॉन - II, इरोडे-638011, तमिलनाडु ।
1034	इंडिया ग्रीन्स पार्टी	104, वर्धमान कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, एलएससी, सविता विहार, दिल्ली-110092
1035	इंडिया जनशक्ति पार्टी	प्लॉट नं. 20, 21 एवं 22, नई बस्ती, नहर रोड, शैदपुर जागीर, भूईआ देवी मंदिर के निकट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226062
1036	इंडिया मक्कल मुन्नेत्र कांची	95, कावेरी स्ट्रीट, भवानी-638301 जिला इरोड, तमिलनाडु
1037	इंडिया मानुस पार्टी	प्लॉट नंबर 2308, खतियान नंबर 1505, पिला. और पोस्ट तलबंगुरुआ। नहर अली टोला, पी.एस.-हरिधंनपुर, जिला-मालदा, पश्चिम बंगाल-732125

1038	इंडिया प्रजा बंधु पार्टी	मकान नं. 18-1-317/ए/68/1, शिवाजी नगर, उप्पुगुडा, हैदराबाद, तेलंगाना- 500053
1039	इंडिया राइजिंग पार्टी	मकान सं. 39, फतेहपुर कपुरापुर-1, तहसील- तिरवा, जिला- कन्नौज, उत्तर प्रदेश- 209723
1040	इंडिया समाधान पार्टी	मकान नं. 129, ग्राम च पोस्ट- चौरादेव, थाना- गागलहेडी, जिला- सहरनपुर, उत्तर प्रदेश- 247669
1041	भारत सुराज्य पार्टी	नं० 48, चोला स्ट्रीट, प्रकाश नगर, अंबानुर, चेन्नई, तमिलनाडु-600053
1042	इंडियन पीपल एसोसिएशन पार्टी	2-74, गांव- वेंकटापुर, लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर, टाउन/मंडल- वेलपुर, जिला- निजामाबाद, तेलंगाना- 503311
1043	इंडियन आर्थिक सुधार पार्टी	मकान नं०-1, मनजीत नगर, बस्ती शेख, जालन्धर, पंजाब ।
1044	इंडियन एलाएंस पार्टी	शॉप नं. 6, एल/1/21/6/83, अलनूर सोसायटी, अहमदाबाद रोड, बालासिनोर, जिला- महीसागर, गुजरात- 388225
1045	इंडियन बहुजन समाजवादी पार्टी	2/3, अम्बेडकर नगर, पोस्ट, नगीना, जिला- विजनौर - 246762, (उत्तर प्रदेश) ।
1046	इंडियन वीलीवर पार्टी (आईवीपी)	पुराना एच.नं.केंद्रीय कार्यालय 8-3-168, फ्लैट नंबर 201, दूसरी मंजिल, भानु टावर्स, ईएसआई अस्पताल, मेट्रो स्टेशन, एस.आर.नगर, हैदराबाद, तेलंगाना- 500038
1047	इंडियन विजनेस पार्टी	1207, प्रगति टॉवर, 26-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
1048	इंडियन क्रिश्चियन फ्रन्ट	एल.आई.जी. 289, अन्ना नगर, वैल्लकन्नी चर्च के सामने, मदुरै - 625020, तमिलनाडु ।
1049	इंडियन क्रिश्चियन सेक्युलर पार्टी	प्लॉट नं० 8, वहाब नगर, सिख गाँव, सिकंदराबाद - 500009 आंध्रप्रदेश ।
1050	इंडियन सिटिजन्स पार्टी	मरकटा नगर, सेंक्टर-10, प्लॉट नं० सी-43, पोस्ट-अभिनवा विद्यानसी, कटक-753014, उड़ीसा ।
1051	इंडियन डेमोक्रेटिक कांग्रेस	गांव - बाबू शंकर नगर, मौजा - भालुकुंडी, जे.एल.नं०: 22, पोस्ट - अलीगढ़, थाना - राजनगर, जिला - वीरभूम, पश्चिम बंगाल - 731130 ।
1052	इंडियन डेमोक्रेटिक पार्टी	डी-978, जन कल्याण स्कूल रोड, भजनपुरा, दिल्ली - 110054 ।
1053	इंडियन डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी	बाबूगाछ, पोस्ट- गेन्दागाछ, थाना- चोपडा, इस्लामपुर, जिला- उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल- 733207
1054	इंडियन गॉथियन पार्टी	कुरियाकोट्ट विल्डिंग, थेक्कुमपदम रोड, पट्टिक्कड डाकघर थीसूर जनपद, केरल - 680 509
1055	इंडियन इन्दिरा कांग्रेस (आर)	1- रूपरजत नगर, न्यू बस स्टैंड के पीछे, पाली, राजस्थान - 306401
1056	इंडियन जस्टिस डेमोक्रेटिक पार्टी	टीसी/25/25(3), जीवीएनआरए- 63, कलपाल्लयम लेन, गान्धारीअम्मन कोविल रोड, तिरुवन्तपुरम, केरल- 695001
1057	इंडियन कांतिकारी लहर	मुहल्ला टुडी बाला, याजीगर बस्ती, फरीदकोट, जिला -फरीदकोट, पंजाब ।
1058	इंडियन लेबर पार्टी (आंबेडकर फुले)	डी० नं०- 26-28-118, 1 लाइन, नेताजी नगर, ए० टी० अग्रहारम, गुदूर, आन्ध्र प्रदेश - 522004
1059	इंडियन लवर्स पार्टी	नं०-23, बी - ब्लॉक, द्वातीय स्ट्रीट, भूपति नगर, कोडमयक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु - 600024
1060	इंडियन मक्कल कलवी मुनेत्रा कजगम	नं०-3, दीनदयालऊ स्ट्रीट, टी० नगर, चेन्नई-600017, तमिलनाडु.
1061	इंडियन मिलन पार्टी ऑफ इंडिया	गोल वाजार, पोस्ट- अकोट, जिला- अकोला, महाराष्ट्र- 444101
1062	इंडियन माइनोरिटीज पॉलिटिकल पार्टी,	डी० नं० 9-4-51/35/48, हकीमपेठ (आई. ए. एस.) कॉलोनी, टॉली चौकी, पोस्ट- गोलकुण्डा फोर्ट, हैदराबाद-500008, आन्ध्र प्रदेश ।
1063	इंडियन मुवमेन्ट पार्टी	65, मनतप्पाविलेज, बन्नरेगाटारोड, जिगाजी हुवली, अनेकल तालुक, बैंगलोरकर्नाटक- 560083
1064	इंडियन नेशनल लीग	नं. 7, बल्यन्त राय मेहता लेन, कस्तूरबा गाँधी मार्ग कांस, नई दिल्ली - 110001.
1065	इंडियन नेशनल मानवाधिकार पार्टी	प्लॉट नं० - 429/(आर), राणी दुर्गावती चौक, एन. आय. टी. कॉम्प्लेक्स विनाफी ले- आऊट, नागपुर, महाराष्ट्र- 440017.
1066	इंडियन नेशनल परिवर्तन पार्टी	सी-316ए, वाशी प्लाजा, सेंक्टर- 17, वाशी, नवी मुंबई, महाराष्ट्र- 400703

1067	इंडियन नेशनल समाज पार्टी	डी-64/52,ई-1 ख,माधोपुर,सिंगरा,वाराणसी,उत्तर प्रदेश 221010
1068	इंडियन नेशनल सेकुलर डेमोक्रेटिक पार्टी (ऑफ इंडिया)	विक्रम फार्म,दड़ी नहर के पास,चैरोवाल रोड,जण्डियाला गुरु,जिला-अमृतसर,पंजाब-143115
1069	इंडियन नेशनल सोसलिस्टिक एक्शन फोरसेस	अमृता, पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन- सैंथिया, जिला वीरभूम, पश्चिम बंगाल - 731234.
1070	इंडियन नेशनल यूथ पार्टी	नं. 68-वी, देवासंदा, के.आर. पूरा, बैंगलुरु, कर्नाटक-560036
1071	इंडियन नेशनल युवा जना पार्टी	मकान नं.9-14, प्रशांत नगर, बोडोपल, घटकेसर मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना-500092
1072	इंडियन नेशनलिस्ट एलायंस पार्टी (इंडिया)	सी/1061/5, इन्दिरानगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226016
1073	इंडियन न्यू कांग्रेस पार्टी	ऑफिस नं०-107, द्वितीय तल, 1st क्रॉस, 'ए' ब्लॉक, ए. के. कॉलोनी रोड, घौंसिया नगर, मैसूर सिटी, कर्नाटक - 570 019
1074	इंडियन पीपुल्स कॉंग्रेस पार्टी	मखदूम साहिब, मकान नं०-51, रैनावारी, श्रीनगर, कश्मीर, जम्मू एण्ड कश्मीर ।
1075	इंडियन पीपुल्स अधिकार पार्टी	544, नरसिंह बाई, मदन महल, जबलपुर, मध्य प्रदेश-482001
1076	इण्डियन पीपुल्स फारवर्ड ब्लॉक	तंगरा हाउसिंग एस्टेट, ब्लॉक-एल/1, फ्लैट-5, 40/1, तरंगरा रोड, कोलकाता-15, पश्चिम बंगाल ।
1077	इण्डियन पीपुल्स ग्रीन पार्टी	19, शुभम इनक्लेव, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान ।
1078	इंडियन प्रजा कांग्रेस	मथुरेचौमवा, शॉप नं. 1, गाऊंड फ्लोर, लिबर्टी प्लाजा, डोर नं. 3-6-365/यूजी/3-4, हिमायत नगर, हैदराबाद, तेलंगाना- 500029
1079	इंडियन पब्लिक फेडरेशन पार्टी	220, वर्धमान फोर्चून मॉल, मेहेन्द्र एन्क्लेव के सामने, जी.टी. करनाल रोड, दिल्ली-110033
1080	इण्डियन पब्लिक पार्टी	बी-1, राज कम्प्लेक्स, संस्कार मंडल, भवनगर - 364002, गुजरात
1081	इंडियन रक्षका नयाकुडु पार्टी	मकान नं. 4-279, बासावेशवारा कॉलोनी, मकथल, जिला- महबूब नगर, तेलंगाना स्टेट- 509208
1082	इण्डियन सर्वहित पार्टी	6-बी/138, गोपेशकुंज, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226025
1083	इण्डियन सवर्ण समाज पार्टी	मकान संख्या - 0053, दाउदपुर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश
1084	इंडियन यूनाइटेड पीपल्स पार्टी	बाई नं० 18, इंदिरा चौक, सोहागपुर, शहडोल, मध्य प्रदेश-484001
1085	इंडियन युनिटि सेंटर	गाँव तथा पो.ओ. सोमरुक, पो.स. उलुवेरिया, जिला-हावड़ा-711316, पश्चिम बंगाल)
1086	इंडियन विकास पार्टी	खसरा नं. 327, खोड़ा हजारी, बुटेश्वर बगीची रोड, तहसील एवं जिला- हाथरस, उत्तर प्रदेश- 204101
1087	इंडियन युथ प्रोग्रेसिव पार्टी	चितरणी मार्ग, इटार रोड, देवसर, जिला-सिंगरौली, मध्य प्रदेश-486881
1088	इंडियन विक्ट्री पार्टी	3/261-2, आनन्दन नगर, अस्सीपाल्लम - 629201, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु
1089	इन्डीजीनियस नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ त्वीपरा	अभय नगर, अगरतला-799005, त्रिपुरा ।
1090	इण्डिया जनतायक काच्ची	स० 9, थर्ड ऐव्यू, 34 स्ट्रीट, अशोक नगर, चेन्नई-600083 तमिलनाडु ।
1091	इंकलाबी पार्टी	बी०टी०आई० स्कूल के पीछे, महावीर नगर, भिण्ड (मध्य प्रदेश), पिन 477001.
1092	इन्साफ दी आवाज़ पार्टी	एमसी नं. 9/128डी, 3/128/ई, गली नं. 10, बाई नं. 9, नियर कसल गैस एजेंसी, रमन मण्डी, तहसील- तलवडी साबो, जिला- भटिंडा, पंजाब- 151301
1093	इंसाफवादी पार्टी	ग्राम व पोस्ट-पियरी, थाना चौवेपुर, जिला - वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221104
1094	इंसानियत लोक विकास पार्टी	प्लॉट नं.1938/447/2, केयर ऑफ हिन्दू स्कैप स्टोर, स्ट्रीट 0-2, जनता नगर, निकट पी.एन.बी., लुधियाना, पंजाब-141003
1095	इंसानियत पार्टी	मकान नं०-262/1, गणनायक भवन, एट व पो. - सनाली, तालुका - महुधा, जिला- खेड़ा, गुजरात - 387330।
1096	इंटरनेशनल पार्टी	ब्लॉक बी-5, फ्लैट नं. 111, यमुना विहार, दिल्ली- 110053

1097	इस्लाम पार्टी हिंद	मौहल्ला-राजडे पुर, पो० सिटी, जनपद-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश ।
1098	इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल	93. सोदागरन, दरगाह आला हजरत, बरेली, उत्तर प्रदेश ।
1099	जे एन्ड के पीपुल्स मूवमेन्ट	शेखपुरा, हम्मामा, तहसील य जिला-बडगाम, जम्मू और काश्मीर- 191111
1100	जे एंड के यूनाइटेड पीस एंड डिवेलपमेंट पार्टी	धगांदर, लासजन-बी, बंड रोड के पास, श्रीनगर-191101, जम्मू एवं कश्मीर
1101	जागो भारत फ्रन्ट	डी-185वी, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, दिल्ली - 110059
1102	जातीया चेती वृताला ऐक्य वेदीका पार्टी	दरवाजा नं. 12-494, ससगिरी कॉलोनी, 9वीं लाइन यस स्टॉप, थिम्मलानैडु पालेम (पोस्ट), तिरुपति अरवन मंडल, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश-517507
1103	जबरो देस म्हारो	149, कल्याण कुंज, झोटवाडा पोस्ट ऑफिस के सामने, झोटवाडा, जयपुर, राजस्थान-302012
1104	जगत कल्याण मोर्चा	गाँव-नानी, डाकघर-मतियाना, तहसील-ठियोग, जिला-शिमला, हिमाचल प्रदेश-171212
1105	जागो भारत जागो पार्टी	14 ए/84 डब्ल्यू.ई.ए., करोलबाग, नई दिल्ली - 110005
1106	जागो हिन्दुस्तान पार्टी	मकान नं. 368, मोहल्ला- कल्यानी देवी सिविल लाईन्स, जिला- उन्नाव, उत्तर प्रदेश-209801
1107	जागो पार्टी	9-1-108/1, द्वितीय फ्लोर, टाटा चैरी कम्पाऊंड, एस० डी० रोड, सिकन्दराबाद-500026, आन्ध्र प्रदेश ।
1108	जागरूक जनता पार्टी	ग्राम- दिलावरपुर, पोस्ट व थाना- बिहटा, जिला- पटना, बिहार- 801103
1109	जागते रहो पार्टी	द्वारा मैसर्स क्षमा आर देसाई, 2, वाटिका बंगला, सबरी स्कूल के पास, वासना रोड, बडोदा, गुजरात ।
1110	जय आन्ध्र पार्टी	डी. नं०-14-71, चगलनाडु स्टील्स, मोरंपुडी जंक्शन, राजमुंड्री, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश
1111	जय भारत नेशनल पार्टी	12-4-27, विजयवाड़ा नगर निगम, राजस्व वाई 40, विजयवाड़ा-520001, आन्ध्र प्रदेश
1112	जय भारत पार्टी	आर जैड एच-710 ई (इ/54), राज नगर-II, (देव हास्पिटल के पास), पालम कॉलोनी, नई दिल्ली-45.
1113	जय भारत समानता पार्टी	ए-36/54-बी-1, समानता शक्ती भवन, कजकपुरा, कोनीया रोड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
1114	जय भारत जेना सेना पार्टी	डी. नं. 42-64-1/1, लूना सेन्टर, एम.के. वैग मुनिसिपल कॉरपोरेशन हाई स्कूल के पीछे, सिंह नगर, विजयवाड़ा, जिला - कृष्णा, आन्ध्र प्रदेश - 520015
1115	जय हिन्द कांग्रेस पार्टी	शॉप नं. 34, रिद्धि सिद्धि कॉलोनी, रवाला - मण्डी, श्रीगंगानगर, राजस्थान- 335771
1116	जय हिन्द जय भारत राष्ट्रीय पार्टी	बी.के. नम्बर-1366, रूम नम्बर-10, मराठा सैक्सन-32, स्टेशन रोड, नियर उल्हास विद्यालय, प्रदीप वाडापाव सेन्टर से आगे, उल्हास नगर, थाने, महाराष्ट्र-421004
1117	जय हिन्द नेशनल पार्टी	ए2/135, दशेनम एटिका, दत्तेश्वर, बडोदरा, गुजरात-390004
1118	जय हिन्द पार्टी	खरैल पुनवास, वाई नं. 16, नगर परिषद, सुपौल, बिहार
1119	जय हिन्द समाज पार्टी	ग्राम-खडहरा (विन्द वलिया), पोस्ट-दुबिहा, जनपद-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश ।
1120	जय हिन्दुस्तान पार्टी	मकान नं. 22-13-47, ब्लॉक नं. 13, अम्बेडकर कॉलोनी, तिरुपति, चित्तूर-जिला, आन्ध्र प्रदेश- 517507
1121	जय जना सगम पार्टी	म० नं. 6-282, अपोजिट चन्द्रिका राईस मिल, (पोल्डम्मा पुट्टा), ग्राम-रायावरम, मंडल-रायावरम, जिला-बी.आर. अम्बेडकर, कोनासीना, आन्ध्र प्रदेश-533346
1122	जय जनसेवा पार्टी	14/43, संभाजी चौक, इचलकरंजी, तहसील-हातकगल, जिला-कोल्हापुर, महाराष्ट्र-416115 ।
1123	जय जनता पार्टी	वाडें नं०- 18, होल्डिंग नं०- 27, भभुआ (कैमूर), अग्रवाल पेट्रोल पम्प के पास, बिहार-821101 ।

1124	जय जवान जय किसान पार्टी	प्रथम तल, मकान नं०-60, गली नं०-7, चिक कोलोनी, निकट डी सी डब्ल्यू, पटियाला, पंजाब - 147001
1125	जय जवान किसान नौजवान संविधान पार्टी	खसरा न.101/3, मौजा वाहनपुर, पोस्ट-कैलोरा, हाथरस जंक्सन, जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश-204102
1126	जय किसान जय मजदूर पार्टी	हाउस नंबर 77, खरसा नंबर 374, गांव और पोस्ट - बालाकोट, मंदिर दरवाजा के पास, पानी टंकी के पास, तहसील - दमोह, जिला - दमोह, म.प्र. - 470672
1127	जय लोक पार्टी	एफ-2/5, मयूर विहार, अशोक गार्डन भोपाल, भोपाल, मध्य प्रदेश-462023
1128	जय महा भारत पार्टी	जय महाभारत भवन, श्री महावैकुण्ठ पुरम, गांव-बुककापुरम, तह० आलमपुरम, जिला-महसूब नगर, आन्ध्र प्रदेश, पिन-509652
1129	जय मान्यता पार्टी	मकान नं०-1, समृद्धि परिसर, साहू आटा चक्की के पास, ललिता नगर, कोलार रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश ।
1130	जय प्रकाश जनता दल	190, प्रताप नगर, मयूर विहार, फेज-1, दिल्ली-110091
1131	जय समाख्या आंध्र पार्टी	डी० नं० 4-86, कम्मावरी विधि, माचावरम, ग्राम पंचायत लिमिट्स, रायावरम मंडल, जिला - पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश - 533 214
1132	जय समता पार्टी	रक्खा शेर नगर बीबीपुर, कल्लरपुर, जानसठ रोड, तहसील- सदर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश- 251001
1133	जय सेवानाल बहुजन विकास पार्टी	मकान नं० 2, प्लॉट नं० 31, हिमालयपुरिया बिल्डिंग, स्वपननगरी, गारखेडा एरिया, औरंगाबाद, महाराष्ट्र- 431005
1134	जय स्वराज पार्टी	10-105/1/बी/2, प्रथम तल, रोड नंबर- 2, नई गड्डीनाराम कोलोनी, दिलसूक नगर, हैदराबाद, तेलंगाना - 500060
1135	जय विजय भारथी पार्टी	पो० ऑ० चिन्नागोटीगल्लू, जिला-चित्तूर, आन्ध्र प्रदेश।
1136	जयभीमराव भारत पार्टी	डी.नं. 32-13-1/1, लावण्या अपार्टमेंट्स, फ्लैट नं. बी/3, मोंगलराजपुरम, विजयवाडा, आन्ध्र प्रदेश- 520010
1137	जामात-ए-सिरातुल मुस्ताकिम	पोस्ट - छोटा सुजापुर, थाना - कलियाचाक, जिला - मालदा, पश्चिम बंगाल - 732206
1138	जम्मू और कश्मीर आल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी	हरको हाउस मस्जिद नूर लेन, राजबाग, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर-190008
1139	जम्मू एण्ड कश्मीर अयामी नेशनल कॉन्फ्रेंस	3-आर सी क्याटरर्स, प्रेस एन्क्लेव, प्रताप पार्क, श्रीनगर - 190001. (जम्मू व कश्मीर)
1140	जम्मू एण्ड कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस	जनरल ऑफिस, ओल्ड सेंक्रेटेरिएट रोड, श्रीनगर 190001, (जम्मू व कश्मीर) ।
1141	जम्मू एण्ड कश्मीर पीर पंजाब अयामी पार्टी	नजदीक पुलिस स्टेशन पुंछ, केयर ऑफ जिला कोर्ट पुंछ, जम्मू एण्ड कश्मीर .
1142	जम्मू एण्ड कश्मीर अपनी पार्टी	कोहिनूर हाउस, 7 शेख बाग, श्रीनगर, जम्मू एण्ड कश्मीर-190001
1143	जम्मू एण्ड कश्मीर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट	168, रावलपोरा हाउसिंग कोलोनी, श्रीनगर, (जम्मू व कश्मीर) ।
1144	जम्मू और कश्मीर नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रंट	बादशाह फ्लैट्स 7-बी, जहंगीर चौक, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर- 190001
1145	जम्मू कश्मीर पीपुल्स पार्टी (सेक्यूलर)	96/9, नानक नगर, जम्मू, जम्मू एण्ड कश्मीर - 180004
1146	जम्मू कश्मीर सेय पार्टी	गाँव- रावलपोरा, श्रीनगर, जम्मू एण्ड कश्मीर
1147	जम्मू स्टेट मोर्चा (प्रोग्रेसिव) ।	8, ओल्ड ड्राई फ्रूट मार्केट, ज्यैल चौक, जम्मू - 180001, जम्मू व कश्मीर
1148	जन आवाज पार्टी	झीझक, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश- 209302
1149	जन अभियान पार्टी	27/3, बिरहाना रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208001
1150	जन आदेश अक्षुणी सेना	मकान सं० - 117, पठारिया मोहल्ला, पडुआ चौराहा, जी. टी. रोड, भोगांव, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश
1151	जन अधिकार पार्टी	मकान नं. 331, सर्वोदय नगर, चण्डी रोड, पिलखुवा, उत्तर प्रदेश।
1152	जन अधिकार पार्टी (लोकतांत्रिक)	वाई संख्या- 05/14, बह्दमान हाता, अर्जुन भवन, अर्जुन नगर, पोस्ट आफिस- पूर्णियाँ, थाना- सहायक के० हाट, जिला- पूर्णियाँ, बिहार - 854301

1153	जन आंदोलन मोर्चा	ए-8/18, प्रथम तल, ब्लॉक-ए, पॉकेट - 8, सेक्टर - 17, रोहिणी, दिल्ली - 110085
1154	जन आसरा पार्टी	सी/ओ रावल सिंह भिंडर, खसरा नं0 12/1, ग्राउण्ड फ्लोर, कलवानु रोड के पास, अतालन, तहसील-पटरन, जिला-पटियाला पंजाब-147102
1155	जन आवाज विकास पार्टी	मकान नं0 - 631, द्वितीय तल, मेन रोड, मुखर्जी नगर, दिल्ली ।
1156	जन चेतना क्रांति मंच	खेमनीचक, जकरियापुर, कृष्णा निकेतन स्कूल के पीछे, थाना-आलमगज, अगमकुआ, जिला-पटना बिहार-800007
1157	जन चेतना पार्टी	चेम्बर नं. 475, वेस्टर्न विंग, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली - 110054
1158	जन कांग्रेस पार्टी	वाई नं0- 1, मकान नं0- 395, चोकाखाट टाउन, जिला- गोलाघाट, असम- 785612
1159	जन हित पार्टी प्रगतिशील	ग्राम-भादुरपुर, पोस्ट-मोर्टी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, पुलिस चौकी के पास, उत्तर प्रदेश-201003
1160	जन जागरण युवा मंच	नम्बर 2528/2649, रतनदीप हॉस्पिटल, नगर रोड, जामखेड, तालुका-जामखेड, जिला-अहमदनगर, महाराष्ट्र-413201
1161	जन जन (युनाईटेड) पार्टी	शान्तिपुरम, फाफामऊ, आपोजित - बी.बी.एस. इंजी. कालेज, नियर नवजीवन हॉस्पिटल, जिला- प्रयागराज, उत्तर प्रदेश- 211013
1162	जन जन पार्टी	गली सं0- 7, ग्राम - ममूरा, सेक्टर- 66, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश ।
1163	जन जनवादी पार्टी	गाटा नं0 88, ग्राम बडहारा, पोस्ट-नुरता, तहसील-सैदपुर, थाना-नंदगंज, जिला-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश-233306
1164	जन कल्याण पार्टी	फतेहपुर- सहावपुर, पोस्ट ऑफिस- कसेडा, तहसील- चायल, जिला- कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश।
1165	जन क्रांति पार्टी, अण्डमान एंड निकोबार	द्वारा हर्ष मेहरा ट्रेडर्स, सी बी आई कार्यालय के सामने, रांची बस्ती, पोर्ट ब्लेयर- 744103 ।
1166	जन मन पार्टी	डी-409, प्रतिक मॉल, रायसन, गाँधीनगर, गुजरात- 382007
1167	जन मिथिला विकास पार्टी	ग्राम-सन्धिनिया, पास्ट-गरी, थाना-जाले, जिला-दरभंगा बिहार-847303
1168	जन प्रगति पार्टी	544/2395, मरी माता मंदिर, निकट विकास पब्लिक स्कूल, बलागंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226003
1169	जन राज्य पार्टी	110/F/10A/1A, गॉव-कन्हाईपुर, धूमनगंज, इलाहाबाद-211001, उत्तर प्रदेश
1170	जन रक्षा पार्टी	भिठौली, सीतापुर रोड, लखनऊ - 226020, उत्तर प्रदेश ।
1171	जन राष्ट्रवादी संगठन	356/340/1331, अशोक विहार, आलम नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226017.
1172	जन साधारण पार्टी	मकान नं0 - 4, डॉ फतेहउल्लाह बेन, मेन रोड, रांची, झारखण्ड- 834001
1173	जन सहारा पार्टी	फ्लैट नं.2, युजी फ्लोर, ए-1/बी, एडवोकेट कम्पाउंड, औलंड जसोला विलेज, दिल्ली-110025
1174	जन समाज एकता पार्टी	530ए, के-ब्लॉक, यशोदा नगर, मॉ दुर्गा इंटर कॉलेज, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208011
1175	जन समानता पार्टी	बी - 125, नवजीवन कैम्प, तुंगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110019.
1176	जन समर्पण पार्टी	मकान नंबर 189, जटेपुर उत्तर, लाहिया नगर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273015
1177	जन सम्मान पार्टी	जी- 238, मेन रोड, गली नं.- 6/28, बाल ज्ञान स्कूल, पश्चिम करावल नगर, दिल्ली - 110094
1178	जन समूह पार्टी	मकान नं0 366/ए, ग्राउंड फ्लोर, गली नं0 12, खसरा नं0 18/14, माता वाली गली, जौहरी पुर, दिल्ली-110094
1179	जन संवाद पार्टी	319, अमखेरा रोड, गोहलपुर, जयलपुर, मध्य प्रदेश-482004
1180	जन संदेश पार्टी	72/76/3, स्टेनली रोड, (म्योराबाद कॉसिंग), मम्फोर्डगंज, प्रयागराज (इलाहाबाद), उत्तर प्रदेश - 211002.

1181	जन संघ पार्टी	ए-90, सेक्टर - 21, जलवायु विहार, नौएडा, गौतम बुद्ध नगर - 201301, उत्तर प्रदेश ।
1182	जन संघर्ष दल	छोटी मस्जिद के पास, मेन रोड लौरिया, जिला पश्चिम चम्पारण, बिहार- 845453
1183	जन संघर्ष विराट पार्टी	गली नं०-2, भूतेश्वर मन्दिर के पास, संत रविदास बाई, सागर, तहसील व जिला - सागर, मध्य प्रदेश ।
1184	जन संतोष पार्टी	गांव + पोस्ट, लालपुर, पुलिस चौकी-कमर, थाना-कोसकला, ब्लॉक-नंदगाव, तहसील-छाता, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश-281403
1185	जन सत्य पथ पार्टी	प्रथम तल, माधव कॉमप्लेक्स, सिटी पल्स थिएटर के सामने, रायपुर, अहमदाबाद, गुजरात-380022
1186	जन सेवा सहायक पार्टी	ग्राम - तालमहावर, तहसील - बिलासपुर, जिला - रामपुर, उत्तर प्रदेश
1187	जन सेवा संघर्ष पार्टी	गाँव व पोस्ट - पीली मन्दोरी, तहसील- भट्ट कर्ण, जिला- फतेहाबाद, हरियाणा - 125053 ।
1188	जन सेवक पार्टी	एल0 आई0 जी0 63, शेखपुरा, अलिगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
1189	जन सेवा ड्राइवर पार्टी	प्लॉट एफ-201, कृषि एक्सप्लोरिटर, ऑपोजिट रजिपा ब्रीद लैंड, बी/एच, श्यामवेद रेजिडेंसी, निकोल, अहमदाबाद, गुजरात- 382350.
1190	जन सेवक क्रांति पार्टी	ए टी-772, भीमनगर नया रेलवे रोड, गुरुग्राम-122001
1191	जन शक्ति दल	शिवाजी नगर, गली नं० 1, निकट कैल्टन स्कूल, लाईन पार, मुरादाबाद - 244001, उत्तर प्रदेश ।
1192	जन शक्ति एकता पार्टी	ग्राम - मंडनपुर, पोस्ट - मीरगंज, जिला - बरेली, उत्तर प्रदेश - 243504 ।
1193	जन शक्ति पार्टी ऑफ इंडिया	7107, स्ट्रीट नं० 3, न्यू विश्वकर्मा नगर, फोकल पॉइंट, लुधियाना, पंजाब-141010
1194	जन सृजन पार्टी	15-डी, कौशलपुरी, खरगापुर, विकास खण्ड - चिनहट, गोमतीनगर, परगना, तहसील व जिला - लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
1195	जन सुराज पार्टी	सूट नंबर 2, पहली मंजिल, दक्षिणेश्वर भवन, 10, हैली रोड, नई दिल्ली-110001
1196	जन सुराज्य शक्ति	जन सम्पर्क कार्यालय, बारानानगर, ता० - पनहाला, जिला - कोल्हापुर, महाराष्ट्र - 416113.
1197	जन स्वाभाविक पार्टी	636/09, बुद्ध विहार कॉलोनी, फेज-1, तकरोही, इन्दिरा कॉलोनी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226016
1198	जन विकास पार्टी सेक्यूलर	1/97, विशेष खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010
1199	जन ध्वनि पार्टी	डी. नं. 3-पी सी/18, लक्ष्मी नारायण एस्टेट्स, मियापुर, हैदराबाद, तेलंगाना - 500049
1200	जना राज्यम पार्टी	मकान नं. 8-217/16, धर्मरेड्डी आर्कट, फ्लैट-टी 1, गायत्री नगर, लक्ष्मीनगर कॉलोनी, रोड नं. 3, जिल्लेला गुडा म्यूनिसिपलिटि, बालापुर मण्डल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना-500097
1201	जन सहायता सक्ति	दरवाजा नंबर 27-85/1, कोवालडपेट, 4 लेन, गुंदर, आन्ध्र प्रदेश- 522006.
1202	जना सामान्यता पार्टी (कर्नाटक)	श्री वीरभद्रा स्वामी निलया, पहला मेन, पाँचवां क्रॉस, विजय नगर, तुमकुर, कर्नाटक - 572102
1203	जन समृद्धि पार्टी	काशीपुर-बलरामपुर, यूनिट- 18, पोस्ट ऑफिस- कैदुझरगढ़, थाना- टाउन, जिला- कैदुझर, ओडिशा- 758001.
1204	जना शंखरावम पार्टी	मकान नं. 4-1-216/54/502, कार्तिकेय नगर, नाचरम, उप्पल, मेडुचल मल्कजगिरि जिला, तेलंगाना-500076
1205	जना स्पन्दना पार्टी	नं.-60, फर्स्ट फ्लोर, वीरापिल्लय स्ट्रीट, शिवाजी नगर, बैंगलोर, कर्नाटक- 560001
1206	जन स्वराज्य पार्टी	प्रधान कार्यालय - 83/ए, तृतीय बाई, कलम्मा बाजार, सन्दुर-583119, कर्नाटक ।
1207	जन वाहिनी पार्टी	डोर नं. 28-05-37ए, 12 रोड, शांति नगर, एलुरु, पश्चिम गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश- 534001.
1208	जनाधार नेशनल पार्टी	63, आर.आर.एवेन्यु, तुलसी नगर, महालक्ष्मी नगर रोड, इन्दौर, मध्य प्रदेश- 452010

1209	जनाधार शक्ति पार्टी	ग्राम 162512, देवरख रोड, अरेल, नैनी, तहसील करचना प्रयागराज, उत्तर प्रदेश-211008
1210	जनाधिपथ्या केरला कांग्रेस	जवाहर बालभवन के पास, भवन सं०-641, वाई नं०-21, कोट्टयम म्यूनिसिपैलिटी, जिला - कोट्टयम, केरल ।
1211	जनाधिपथ्या समक्षणा समिती	केरल राज्य समिती कार्यालय, आयरन ब्रिज डाक घर, एलेप्पी - 688011, केरल ।
1212	जनहित पक्ष	डॉ० नं० 109, सैकेंड वाई, कालम्मा स्ट्रीट, वेल्नारी, कर्नाटक - 583101
1213	जनम मनम पार्टी	13-24/ए, पाण्डुरंगावारीपल्ली गांव, इथेपल्ली पोस्ट, चन्द्रगिरी मंडल, चित्तूर जिला, आन्ध्र प्रदेश- 517102
1214	जनम राष्ट्रीय पार्टी	भवन संख्या 582, इवरकला वाई 5, कुन्नतूर पंचायत, इवरकला ईस्ट पीओ, कोल्लम-691507, केरल
1215	जननायक मक्कल रज्जियम	20/86ए, कृष्णा नगर वेस्ट, अम्मापेट (पी ओ), जिला - सेलम, तमिलनाडु - 636003.
1216	जनपालना पार्टी (डेमोक्रेटिक)	8-2-703/2/बी, प्लॉट नं.2, रोड नं.-12, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश -500034
1217	जनसेना पार्टी	डी.नं. 11-1903, लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी कॉलोनी, मंगलगिरि, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश-522503
1218	जनता कैबिनेट पार्टी	16/ए (16/1), लिटन रोड, सुभाष रोड, देहरादून न्यू नगर निगम, नं०-184/4, पिन - 248001 उत्तराखण्ड
1219	जनता कांग्रेस	278 ए, प्रथम तल, जी.के. कॉम्प्लेक्स, मेन रोड ओखला, जामिया नगर, नई दिल्ली - 110025
1220	जनता कांग्रेस नेशनल मोवमेंट पार्टी	नं. 8-2-293/82/जे/III, रोज नं०-79, जुवलीहिल्स, हैदराबाद तेलंगाना - 500033
1221	जनता दल (अहिंसावादी)	201, भेल एक्सटेंशन, 9 वां क्रॉस, स्टेज-2, राजराजेश्वरी नगर, बैंगलोर, कर्नाटक- 560098
1222	जनता पार्टी	जी/42, पूर्वी विनोद नगर, दिल्ली - 110091
1223	जनता उदय पार्टी	860, गली नं०-4, संजय इन्क्लेव, चाचा चौक, परवतिया कॉलोनी, एन० आई० टी० फरिदाबाद, हरियाणा
1224	जनता उन्नती पार्टी	ग्राम-पाल्हापूर, पोस्ट ऑफिस-पकडी दुवे, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273413
1225	जनता विकास पार्टी	अवषेक भवन, उदयनगर कॉलोनी, सागर रोड, विदिशा, (मध्य प्रदेश) ।
1226	जनहित भारत पार्टी	730, अर्रा नई बस्ती, नौबस्ता, योगेन्द्र विहार, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 208021
1227	जनहित दल	आर.एम.एस. कॉलोनी, रोड नं० 2, कंकड वाग, पटना-20, बिहार ।
1228	जनहित किसान पार्टी	वाई नं० 24, सक्सेना नगर, नगरपालिका परिषद - महाराजगंज, जनपथ-महाराजगंज - 273303, उत्तर प्रदेश ।
1229	जनहित क्रांतिकारी पार्टी	पन्ता लाल के पुत्र शिवाजी, मकान नंबर 47/1, गांव और पोस्ट-नयागांस, परगना-मरहेरा, थाना-मिर्हाची, तहसील-एटा, जिला-एटा, उत्तरप्रदेश-207125
1230	जनहित लोकशाही पार्टी	रूम सं०-41/3, गोवदेवी रोड, पावणे गांव, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र - 400705
1231	जनहित संकल्प पार्टी	शिव 15/52 सी-6-2-एस, उसरपुरवा, भरलाई, शिवपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221003
1232	जनहित विकास पार्टी	ग्राम- कपासी, पोस्ट- हसनपुर, ब्लॉक- वलियाखेडी, जिला- महारनपुर, उत्तर प्रदेश-247111
1233	जनक्रान्ति समाज पार्टी	मकान नं. 16, सदरपुर कॉलोनी, वी.डी.एस.मार्केट, सोम बाजार, सैक्टर-45, झोएडा, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश ।
1234	जनलोक विकास पार्टी	हाऊस संख्या-124, वाई संख्या-22, कसाई टोला, गोरया स्थान, पोस्ट ऑफिस-रसडा, जिला-वलिया, उत्तर प्रदेश-221712
1235	जनमंगल पक्ष	राम प्रताप, गीता नगर, मेन रोड, गुरुकुल के पास, राजकोट - 360002, (गुजरात) ।
1236	जनमत पार्टी	सी2ए/107, पाकेट-16, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
1237	जनमत विकास पक्ष	पोस्ट - ससवाड, पुर्नधार, महाराष्ट्र - 412301

1238	जननायक युवा शक्ति पार्टी	म.नं.587/20, खासा चौक के पास, रामेश्वर पुरम कॉलोनी, कबीरपुर, सोनीपत, हरियाणा-131001
1239	जन-न्याय दल	301, श्री देवरहा - काम्पलेक्स, माता मदिथा चौराहा विजय टाकीज रोड, मोतीनगर वाई, तहसील व जिला - सागर, मध्य प्रदेश ।
1240	जनरल समाज पार्टी	सूरत प्रीटिंग प्रेस, दाना मंडी रोड, बठिण्डा, पंजाब ।
1241	जनसमुदाय पार्टी	57, प्रथम तल, स्टेडियम हाउस, स्टेडियम क्रॉस रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात - 380009 ।
1242	जनसत्ता दल लोकतांत्रिक	ग्राम व पोस्ट- मझिलगाँव (बाबूगंज), तहसील- कुण्डा, जिला- प्रतापगंज, उत्तर प्रदेश- 230204
1243	जनसत्ता राष्ट्रवादी एकता पार्टी	श्री राघवेंद्र सिंह, श्री हरिवंश सिंह, ग्राम गद्दी, मजरे-खसपरिया, पोस्ट- बस्ती, तहसील - नवाबगंज, ब्लॉक - बंकी, जिला-बाराबंकी, उत्तर प्रदेश-225003.
1244	जनसेवा गोंडयाना पार्टी	प्लॉट नं. 36, जायसवाल ले आउट, भोयर गल्स हॉस्टल के पास, नालवाडी, वर्धा, तह और जिला वर्धा महाराष्ट्र- 442001
1245	जनशक्ति जनता दल	रजनी कॉम्पलेक्स, खगौल रोड, दयानंद बालिका उच्च विद्यालय के नजदीक, मीठापुर, पटना, बिहार-800001
1246	जनशक्ति पार्टी (राष्ट्रीय)	प्लॉट नं०-38, भू-तल (ग्रांड फ्लोर), के डी के पब्लिक स्कूल के सामने, मेन रोड, मंडावली, फजलपुर, दिल्ली - 110092
1247	जनशक्ति समता पार्टी	तहसील कैपस पोस्ट - 'सलोन, जनपद - रायबरेली, उत्तर प्रदेश - 229127
1248	जनशक्ति विकास पार्टी (डेमोक्रेटिक)	ग्राम+पो०-नुमर, थाना-बरहट, जिला-जमुई बिहार-811313
1249	जनता त्रिग्रेड पार्टी	आर.-142, जवालापुरी, कैम्प नं०-5, नई दिल्ली- 110087.
1250	जनता दल हिन्दुस्तानी	खाता नं. 64 (ओल्ड), प्लॉट नं. 370 (ओल्ड), न्यू प्लॉट नं. 838, 839, 744, 745, थाना नं. 314, ग्राम- आम्बिला, थाना- मुफसिल, अंचल- मानपुर, जिला- गया, बिहार- 823003
1251	जनता दल राष्ट्रवादी	म० न०-55/1, हरून नगर कॉलोनी, सैक्टर - 1, थाना व डाकघर - फुलवारी शरीफ, पटना, बिहार - 801505
1252	जनता दरबार पार्टी	एमआईजी-11, 70/1, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, पीओ/पीएस-चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर, जिला-खोर्दा, ओडिशा-751016
1253	जनता कल्याण मोर्चा	खेचट सं०-184, खाता सं० 188, कीला नं०-51/16/3 खेडी दमकन, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा - 131301.
1254	जनता क्रान्ति पार्टी	भरत दिहार कॉलोनी, बड़े शिव मंदिर के सामने, मण्डावर रोड, बिजनौर, जिला - बिजनौर, उत्तर प्रदेश- 246701
1255	जनता क्रान्ति पार्टी (राष्ट्रवादी)	न. 29, कान्तीपुरम पार्ट-2, शिवपुरी बिजली हाउस के पीछे, गणेशपुर, रहमानपुर, देवा रोड, चिनहट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001
1256	जनता राज पार्टी	मकान नं० 43, ग्राम - तेजपुरा, पोस्ट - इन्दौर, जिला - गाजीपुर, उत्तर प्रदेश - 233226
1257	जनता राज विकास पार्टी	ग्राम- चकफैज, पोस्ट- सुक्की, थाना- पातेपुर, जिला- वैशाली, बिहार-843114
1258	जनता रक्षक पार्टी	वार्ड नंबर 1, मोहल्ला कमलापुर, डॉ भीम राव अम्बेडकर इंटर कॉलेज के पास, पोस्ट- उदयपुर महवा, जिला-लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश-262701
1259	जनता समाजवादी पार्टी (विवेक राज)	72, रतन नगर, प्रदर्शनी पंचाल मार्ग, शहर व जनपद-इटावा, उत्तर प्रदेश-206001
1260	जनता समता पार्टी	ग्राम-डुमरी एखलास, पोस्ट-हेतिमपुर, थाना-रामपुर कारखाना, तहसील एवं जिला- देवरिया, उत्तर प्रदेश- 274206.
1261	जनता सरकार पार्टी	1-4/39, ग्रांड फ्लोर, सैक्टर - 16, रोहिणी, दिल्ली- 110089
1262	जनता सेना राजस्थान	मुकाम पोस्ट: वल्लभनगर, जिला - उदयपुर, राजस्थान - 313601
1263	जनता शासन पार्टी	4ए / केशव पार्क, सरस्वतीपुरम रायबरेली रोड, लखनऊ उत्तरप्रदेश - 226014

1264	जनता स्वाभिमान पार्टी	कटघरा देहाती, हवेली, सदर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश-222002
1265	जनतंत्र आवाज पार्टी	पूर्वी गुमटी लख नं० 11, पोस्ट-आरा, जिला-भोजपुर, बिहार-802301
1266	जनतंत्र पार्टी	तीसरी मंजिल, टकसाल थियेटर्स बिल्डिंग, नदेसर, वाराणसी - 221002, उत्तर प्रदेश ।
1267	जनतांत्रिक लोकहित पार्टी	सुषमा नवल कुंज, एन.टी.पी.सी. कॉलोनी, आर.के.नगर, वार्ड नंबर 32, सर्कल नं. 8, पो.ओ. नाम जगनपुरा, पी.एस.-राक नगर, जिला - पटना, बिहार - 800027
1268	जनतांत्रिक समता पार्टी	मकान नं. 100, वार्ड नं. 4, लुधुपारा, जसवंत नगर, इटावा, उत्तर प्रदेश- 206245
1269	जनतांत्रिक विकास पार्टी	201, पी.मौल, दूसरा तल, एक्जिबिशन रोड, जिला- पटना, बिहार- 801503
1270	जनतावादी कांग्रेस पार्टी	161/बी, शिवाजी मैदान के सामने, स्वदेशी मित रोड, चुनाभट्टी (पूर्व), मुबई- 400037, महाराष्ट्र
1271	जनवादी पार्टी (सोशलिस्ट)	बी-32/2, जैन मन्दिर के पीछे, नरिया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
1272	जातिया समा समाजम पार्टी	1-24, दिन्नादेवारापड़ गांव, कुरनूल मण्डल, कुरनूल जिला, आन्ध्र प्रदेश-518002
1273	जातिया जना सेना पार्टी	डोर नं. 1-9-290/बी/ए, अदिकसेट, रामनगर गुंडू, ललिता नगर, न्यू नल्लाकुला, हैदराबाद, तेलंगाना- 500044.
1274	जातिय महिला पार्टी	6-3-बी-922, एन.जी.ओ. कॉलोनी, घनास्थालिपुरम, हैदराबाद, तेलंगाना- 500070
1275	जवान किसान आवाज पार्टी	नई बस्ती, बहादुरपुर, मांझेलपुर, थाना-थाना-जहंगीराबाद, पोस्ट-सोमैया नगर, बाराबनाकी, उत्तर प्रदेश-225002
1276	जवान किसान मोर्चा	क्वाटर नं० एल० आई० जी०, एच०-1/7, हाउसिंग कॉलोनी, दलपत पूर्व (चन्दवा), आरा, बिहार - 802312.
1277	जय हिन्द जय भारत पार्टी	एन-106, एच. आई. जी. फ्लैट, संजय नगर, सैक्टर-23, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
1278	जय विदर्भ पार्टी	302, कोलवास्वामी रेजिडेंसी, विठ्ठल नगर, न्यू इरा इंग्लिश स्कूल, उदय नगर स्क्वायर, मानेवाडा रिंग रोड, नागपुर, महाराष्ट्र- 440034
1279	जेयामणि जनता	नं० 33, सैकंड स्ट्रीट, पूर्व अबिरामपुरम, माइलापोर, चेन्नई-600004, तमिलनाडु ।
1280	झारखण्ड अनुशीलन पार्टी	ग्रा० च पो० आफिस झिलीमिली थाना - बरीकुल, जिला - बाकुंडा पश्चिम बंगाल - 722135
1281	झारखण्ड आजाद पार्टी	झालेश्वर करमली मकान संख्या- 153 ए, खाता संख्या 40, प्लॉट संख्या 293, मौज होम्बई, विलेज-होम्बई पोस्ट-निवरी विकास, थाना-सदर राँची, जिला - राँची, झारखण्ड - 835217.
1282	झारखण्ड दिशोम पार्टी	12, मार्ग सं० 21, कदमा फार्म परिया, जमशेदपुर - 831005, झारखण्ड ।
1283	झारखण्ड जन क्रांति मोर्चा	मकान सं० - 36, दिनकर नगर, पो०-इटिया रेलवे कॉलोनी, थाना - जगरनाथपुर, राँची, झारखण्ड ।
1284	झारखण्ड जनाधिकार पार्टी	हॉली क्रॉस स्कूल के सामने, लालपुर पीस रोड, राँची - 834001, झारखण्ड ।
1285	झारखण्ड की क्रांतिकारी पार्टी	23, पूर्वी जेल रोड, राँची - 1 (झारखण्ड) ।
1286	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (उलगुलान)	द्वारा श्री ओम प्रकाश सिंह, ग्राम एवं पो. - मधुकुम, रोड नं.4, थाना - सुखदेव नगर, जिला - राँची, झारखण्ड - 834001
1287	झारखण्ड पार्टी	आनन्द सुवाना निवास, एयरपोर्ट रोड, हिनू, राँची, झारखण्ड - 834002.
1288	झारखण्ड पार्टी (नरेन)	स्थान - रथुनाथपुर, पो. ओ. - झाड़ग्राम, जिला - गिदनापुर - 721507, (पश्चिम बंगाल) ।
1289	झारखण्ड पार्टी (सेकुलर)	ग्राम - उनीडीह, पोस्ट - राजा उल्लातु, थाना - नामकुम, जिला - राँची, झारखण्ड ।
1290	झारखण्ड पीपुल्स पार्टी	पो. ओ. लौबासा, जमशेदपुर, पु० स्टे०-गोविन्दपुर, जिला - सिंहभूम (पूर्व) झारखण्ड ।
1291	झारखण्ड विकास दल	273, लेक एवेन्यू, स कॉले रोड, राँची, झारखण्ड
1292	जिन्दाबाद क्रांति पार्टी	31/38ए, तृतीय तल, गली नं.5, भीकम सिंह कॉलोनी, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली- 110032
1293	जोहार पार्टी	ग्राम- दड़हाटांड, पोस्ट एवं थाना- ईटकी, जिला- राँची, झारखण्ड- 835301

1294	जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी	10, दूसरा माला, शहीद वीरनारायण सिंह परिसर, नगर घड़ी चौक, जी ई रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001।
1295	जस्टिस अण्ड डेवलपमेंट पार्टी	गाँव+पोस्ट-ऑफिस अहिरन, पी.एस.-सुति, जिला-मुर्शिदाबाद, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-742223.
1296	जस्टिस पार्टी	ग्राम- दिक्कत खेड़ा, पोस्ट- हरचन्दपुर, जिला- रायबरेली, उत्तर प्रदेश -229303।
1297	ज्वाला दल	मकान संख्या -247 बी, मु०-जंगल तुलसीराम, पो०-बिछिया पी.ए.सी. कैम्प, थाना - शाहपुर, जिला -गोरखपुर -273014 उत्तर प्रदेश।
1298	कर्लीग नेसनल फ्रंट	स्थान - परबौल, पो० औ० -कन्दरपुर, जिला -कटक -754100, ओडिशा।
1299	कलिंगा सेना	19ए, मधुसूदन नगर, यूनिट -4, भुवनेश्वर -751001, खुर्दा, उड़ीसा।
1300	कल्याण कर्नाटक पार्टी	सीटीएस नं.4589/ए, पहली मंजिल, शेर्डी गल्ली, बेलगावी, कर्नाटक-590002
1301	कल्याण क्रांति पार्टी	#57, दूसरा तल, 3 मेन अदित्यानगर, 8 फेज, जेपी नगर, बैंगलूरु, कर्नाटक -560062
1302	कल्याण राज्य प्रगती पक्ष	49/48, कायातासनाहल्ली, कोठानूर पोस्ट, बैंगलूरु, कर्नाटक -560077.
1303	कल्याणकारी जनतांत्रिक पार्टी	बी-4/260ए, केशवपुरम, नई दिल्ली -110035।
1304	कल्याणवादी पार्टी	16, पाण्डेय टोला, पैंतेपुर, महमूदाबाद, सीतापुर, उत्तर प्रदेश -261203
1305	कामराजार देसीया काँग्रेस	7-येलायुथा, राजा स्ट्रीट, राजा अन्नामलाईपुरम, मंडावेली, चेन्नई -600028 (तमिलनाडु)।
1306	कामराजार मयकल काची	52/6, गांधी सलाई, चेन्नई -600042
1307	कामतापुर पीपुल्स पार्टी (यूनाईटेड)	गाँव एवं पोस्ट- मंदानी, पुलिस स्टेशन- धुपगुडी, जिला- जलपाईगुडी, पश्चिम बंगाल-735210.
1308	कमेरा समाज पार्टी	घाई न. -3, लाला का पुरवा शंकरगढ (पन्ती देवी स्कूल के पास), पो० शंकरगढ, जिला- प्रयागराज, उत्तर प्रदेश-212108.
1309	कामगार किसान पार्टी	राहुल भवन, मकान नं० 00-51, मानस नगर, जियामऊ, हजरतगंज, जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001
1310	कामतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी	चिल्ला रॉय भवन, गाँव - बिधानपल्ली, डाक घर - कदमताला, जिला -दार्जिलिंग -734433, पश्चिम बंगाल।
1311	कन्नड़ चालवाली वाटल पक्ष	154, रंगास्वामी टेम्पल स्ट्रीट, बंगलूरु -560053, (कर्नाटक)।
1312	कन्नड़ देशदा पक्ष	नं. 20, बन्दारलाहल्ली विलेज, कामसमुद्रम होथली, बंगारपेट तालुक, जिला-कोलार कर्नाटक-563129
1313	कन्नड़ पक्ष	नं० 259/1, फर्स्ट फ्लोर, रंगास्वामी टेम्पल स्ट्रीट (जैन टेम्पल के सामने), बंगलूरु -560053 (कर्नाटक)।
1314	कन्नूल राज पार्टी	डी-1/1045, गली नं.27, हर्ष विहार, शाहदरा, दिल्ली-110093
1315	काशीराम बहुजन दल	खाता नं. 208, का अराजी नं.- 159एम/0.0810, गाँव- अली खानपुर, पी.एस.- लाईन बाजार, तहसील- सदर, परगना- हवेली, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश-222132
1316	काशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी	मकान नं० ए-62/1-153, ओ ब्लॉक ओमेक्स सिटी, औरंगाबाद खालसा जनपद, लखनऊ उत्तर प्रदेश -226025
1317	कर्मा पार्टी	शॉप नं०-1, हुडा मार्केट, लैज़र वैली पार्क, किंगडम ऑफ ड्रीम्स के सामने, सेक्टर -29, गुडगाँव, हरियाणा -122002
1318	कर्नाटक जनसेवा पार्टी	ओल्ड पीआईडी नं.36, खाता नं.151, सर्वे नं.42, कावेरीपुरा मेन रोड, नं.587, नियर महादेशवरा मंदिर रोड, रंगनाथापुरा, कामाक्षीपलया, बैंगलूरु, कर्नाटक-560079
1319	कर्नाटक जनता पक्ष	#11, 12 मेन, 17 क्रॉस, मालेश्वरम, बैंगलूरु-560055, कर्नाटक

1320	कर्नाटक कामिकर पक्ष	नं. 120, प्रथम तल, सेन्ट जोन्स चर्च रोड, नियर कोल्स पार्क, बेंगलूर, कर्नाटक - 560005
1321	कर्नाटका मक्कला पक्का	एच0 ओ0 नं0 09, ब्लॉक - 4जेएसएस इम्प्लायस लेआउट, साधामली नजाराबाद मोहल्ला, मैसूर, कर्नाटक- 570011
1322	कर्नाटक प्रगत्यावन्ता जनता पार्टी	नं0-23, दूसरी "ए" मेन रोड, 7 वां क्रॉस, मुनेश्वर लेआउट, श्रीगंदनगर, बेंगलूर, कर्नाटक - 560091
1323	कर्नाटक प्रजा पार्टी (रैथथा पर्व)	फ्लैट नं. 104, अदित अपार्टमेंट, एस.जे.सी.ई कालेज रोड, टेलिकॉम ले आउट, वाग्देविनगर, मैसूर, कर्नाटक- 570009.
1324	कर्नाटक प्रजा विकास पार्टी	नं0 15, सम्पंगीमै लेआउट, सिदेदाहल्ली, यशवंतपुर हौवी, नागासन्दा पोस्ट, बेंगलूर नॉर्थ ता0, बेंगलूर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक- 560073
1325	कर्नाटक राज्य रयोता संघ	636, आईडल होम्स ले आउट, राजाराजेश्वरी नगर, बंगलौर - 560098 (कर्नाटक)
1326	कर्नाटक राष्ट्र समिति	नं.31/2,8वा इ मेन,चतुर्थ ब्लॉक, जयनगर,बेंगलूर,कर्नाटक-560011
1327	कर्नाटक समता पक्ष	नं. 718, एस. कलेदार प्लॉट, तिरुपुर, नवलगुंड, जिला- धारवाड़, कर्नाटक- 582208
1328	कर्नाटका स्वाभिमानी रैथरा कर्मिकारा पार्टी	खाता एससमेंट नं. 565/7782/6536, सी.के.पूरा मेन रोड, चित्रादुर्गा, कर्नाटक- 577501
1329	कर्नाटक स्वराज्य पार्टी	सं0 2082, चिदाम्बर कृपा, साई नगर, रायबाग, जिला बेलगाम, कर्नाटक - 591317
1330	कर्पूरी जनता दल	राजीव नगर, रोड नंबर 15ए, पोस्ट केशरी नगर, पटना, बिहार-800024
1331	कर्तव्य राष्ट्रीय पार्टी	मकान सं0 -46, ताला मोहम्मदपुर, कंकर खेडा, मेरठ, उत्तर प्रदेश ।
1332	करुनाडु पार्टी	सा. 13/2, नं0 7 मल्लायहल्ली, नंजप्पा गार्डन, बेंगलूर-560056 कर्नाटक ।
1333	करुनाडा सेवाकरा पार्टी	डोर नं. 2-6, करोडी हाउस, केन्जर विलेज एवं पोस्ट, मंगलूर तालुक, डी. के डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक- 574142
1334	करुणाडगा तमिझार काची	नं.15, निदरसनम, जेवी. शेटी, रामासामी पाल्ना, एम.एस नगर पोस्ट, बेंगलूर, कर्नाटक- 560033
1335	काश्मीर डेवलपमेंट फ्रंट (जे एंड के)	म0 नं0 - 254 - मेन रोड, पोस्ट ऑफिस के पास, जवाहर नगर, श्रीनगर, जम्मू एण्ड कश्मीर ।
1336	कठोर शासन पार्टी	75, वी-3, जाटन, भगवती भवन, पी. ओ. व जिला - बिजनौर, उत्तर प्रदेश - 246701 ।
1337	केंद्रीय जनविकास पार्टी	प्लॉट नं0 - 179, आयुर्वेदिक लेआउट, भाडे प्लॉट, उमरेर रोड, सक्करदरा, जिला - नागपूर, महाराष्ट्र-440024 ।
1338	केरल काँग्रेस	67 कुमारानसन नगर, कादवानथारा, पो0 ओ0 एरनाकुलम, केरल ।
1339	केरल काँग्रेस (वी)	पी.टी. चाको स्मारक, मन्दिरम्, एस.एस. कोविल रोड, थाम्पनूर, तिरुवनन्तपुरम - 695001, (केरल) ।
1340	केरल काँग्रेस (जेकव)	वाड 13, बिल्डिंग 346, टी. वी. रोड, कोट्टायम, (केरल) - 686001
1341	केरला काँग्रेस (स्कारिया थॉमस)	चिंगवनं, बिल्डिंग नं. 711, वाड नं. 6, कोट्टयम मुनिसिपलिटि, कोट्टयम, जिला- कोट्टयम, केरल
1342	केरल काँग्रेस सेक्यूलर	केरल काँग्रेस सेक्यूलर स्टेट कमेटी कार्यालय, भारत बिल्डिंग, पुलीमूड जंक्शन, कोट्टायम - 1, केरल ।
1343	केरला डेमोक्रेटिक पार्टी	6/341, पिनाकट्ट, भारनागरम, चुन्दाचेरी, पोस्ट 'पाला, कोट्टयम जिला, कोट्टयम- 686579, केरल
1344	केरला जनापक्षम (सेक्युलर)	टी.सी. 16/882(13), श्रीकृष्ण नगर, जगती- पोस्ट, तिरुवनन्तपुरम, केरल- 695014
1345	केरला जनता पार्टी	मुलाकुलम पंचायत, वाड नं. 12, बिल्डिंग नं. 2, पूझीकोल पी.ओ., कडुथुरुती केरल- 686604
1346	केरला कामराज काँग्रेस	बिल्डिंग नं.- एन.एम.सी. XII/342डी, नैय्याट्टिकारा, तिरुवनन्तपुरम, केरल- 695121.
1347	केरला प्रवासी एसोसिएशन	कांजीरामातिल (हाउस), नंबर 11/585पी, मल्लथ, डार्कहास कासरगोड, केरल-671533

1348	केरला रिगोल्यूशनरी सोसलिस्ट पार्टी (लेनिनिस्ट- मार्क्सिस्ट)	नं. 19/1347, सासथाकोटा ग्राम पंचायत, कौल्लम, केरल- 690521
1349	केरला विकास काँग्रेस	ई.पी.- III/468, इखवेस्सी, पी.ओ.- चेम्परी, तालीपरम्बा, जिला- कन्नूर, केरल, पिन- 670632
1350	खानदेश विकास काँग्रेस पार्टी	बिल्डिंग नं0 2, 15/16, प्रथम तल, खानदेश, मिल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जलगांव - 425001.
1351	खत्यान्ती झारखंडी पार्टी	गांव-होम्बाई पोस्ट-नियोरी विकास, पी.एस. सदर, ओपी-भेसरी, राँची, झारखण्ड-835217
1352	खुन हिन्दूटिप नेशनल अवेकनिंग मूवमेंट	जियाव लोअर लेंसोनालेन, हाउस नं. 32 एवं वार्ड नं. 14 एवं होल्डिंग नं. 65, शिलांग, पूर्व खासी हिल्स जिला, मेघालय - 793002
1353	खुशहाल किसान पार्टी	मकान नं.- 125, अनाज मण्डी के पास, नागर रोड दीग, तहसील- दीग, जिला- भरतपुर, राजस्थान- 321203.
1354	खुसरो सेना पार्टी	आई-4/95, शास्त्री नगर, जिला- बरेली, उत्तर प्रदेश ।
1355	किसान अधिकार पार्टी	ए/1-104, प्रथम तल, सूर्यान्जली रेसिडेन्सी, संसकार रेसिडेन्सी के सामने, क्रास रोड, अमरोली, सूरत, गुजरात- 394107
1356	किसान क्रान्ति दल	नांगला सुखदेव, नीमखेरा - जलैसर, जिला - एटा (उत्तर प्रदेश)।
1357	किसान मजदूर बेरोजगार संघ	गांव - जेतपुर, पोस्ट - फफुन्द, ओरइया, उत्तर प्रदेश ।
1358	किसान मजदूर प्रजा पार्टी	ए एक्स - 223/224, राजहर्ष कौलोनी, नयापुरा, कोलार रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश ।
1359	किसान मजदूर सुरक्षा पार्टी	मकान नं. 45, ग्राम- खेडिया-हैबतखाँ, पोस्ट- कुलना, तहसील- गथाना, जिला- अलीगढ़ उत्तर प्रदेश- 202001
1360	किसान मजदूर संघर्ष पार्टी	भरोसा सिटी, ग्राम- सरोसा भरोसा, पोस्ट- मौदा, ब्लॉक- काकोरी, जिला- लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226008
1361	किसान पार्टी (लोकतान्त्रिक)	श्रीकृष्णा चिकित्सालय, सीडा, सतहरिया, पोस्ट-पघौरा, जिला-जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222202.
1362	किसान पार्टी ऑफ इण्डिया	वार्ड नं. 01, जनकपुर रोड, नागेश्वर स्थान, थाना- पुपरी जिला- सीतामढ़ी बिहार - 843320
1363	किसान राज पार्टी	जुनियर एल.आई.जी. 358, विंध्य विहार कॉलोनी (पडरा), जिला- रीवा, मध्य प्रदेश- 486001
1364	किसान रक्षा पार्टी	529/ए व नया मकान संख्या- 807, पठौरियां दतिया गेट के बाहर, तहसील व जिला- झांसी, उत्तर प्रदेश- 284001
1365	किसान समाज मोर्चा	बिचौला भुइ, पो0- पतरिया, तह0- गुन्नाौर, बदायूँ, उत्तर प्रदेश ।
1366	किसान समाज पार्टी (एस)	झिन्नापूर्वा, पोस्ट -धाखेरवा नानकरं, तहसील - तिघासन, जिला-लखीमपुर (खीरी), उत्तर प्रदेश ।
1367	किसान संघर्ष समिति	छरियारी, मखदुसपुर, जहानाबाद, जिला-जहानाबाद बिहार-804422
1368	किसान सेना	101, कोलियान, विशुनगढ़ रोड, छिबरामऊ, कन्नौज, उत्तर प्रदेश ।
1369	किसान शक्ति जनतांत्रिक पार्टी	मकान नं0 - 12/445, मझौला आवास विकास, तहसील - सदर, जिला - मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1370	किसान विश्व पार्टी	ग्राम व पोस्ट-सफिपुर, थाना-देवां, जिला-बाराबंकी, उत्तर प्रदेश-225301
1371	किशोर राज पार्टी	एल - 2/601, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
1372	कोन्गु देसा मारुमलरची मक्कल कांची	नं0 - 301/14, अलगर नगर, गांव - पचनपालयम, पोस्ट - अंतियर, ईरोड, तमिलनाडु- 638501
1373	कोगुनाडू इलैगतर पड़ाई कन्नची	डो.नं.2/38, जननी गाईन, मेल्लिकुलम, नागम्मा पुत्तूर (झकघर), साथी रोड, अन्नूर, कोयंबदूर जिला, तमिलनाडु-641653
1374	कोगुनाडू मक्कल देसीय कन्नची	5/54, ईस्ट स्ट्रीट, पोस्ट - द कॉकरायपेट्टै, तालुक - तिरुचंगोड, जिला - नामकल्लक, तमिल नाडु - 638007
1375	कोसल जनता दल	प्लॉट नं. जे.सी-02, फेज-01, छैद कॉलोनी, राउरकेला, जिला- सुन्दरगढ़, ओडिशा- 769015

1376	कोशल क्रान्ति दल	टेलिफोन एक्सचेंज रोड, रूग्दी पाड़ा, बालेनगिर - 767001, उड़ीसा ।
1377	कोशल मुक्ति मोर्चा	रेलवे स्टेशन रोड, तितिलागढ़, जिला - बोलांगिर, ओडिसा ।
1378	क्रान्ति जनशक्ति पार्टी	1058, यादव पुरा, पुरानी विधान सभा के सामने, वार्ड नं० - 34, जौन नं० - 8, तहसील - हुजूर, भोपाल, मध्य प्रदेश ।
1379	क्रान्तिकारी जयहिन्द सेना	द्वारा एडवोकेट आर० एन० काचवे, देवी प्रसाद होटल के पास, एम आई डी सी सेंट्रल रोड, अन्धेरी पूर्व, मुम्बई-400093, महाराष्ट्र ।
1380	क्रान्तिकारी किसान सेना	सी-221, ओल्ड मीनल रेसीडेन्सी, राज होम्स, जे० के० रोड, भोपाल-462023, मध्य प्रदेश ।
1381	क्रान्तिकारी परिवर्तन पार्टी	देवयानी मार्ग, निकट सिक्सवे बाईपास, अशोक नगर (पूर्वी), इटावा, उत्तर प्रदेश-206001
1382	क्रान्तिकारी साम्यवादी पार्टी	एम एल ए फ्लैट नं० 26, वीर चन्द पटेल पथ, पटना (बिहार)।
1383	क्रान्तिकारी शेतकरी पार्टी	शॉप नं० 20, तिरुपती कॉम्प्लेक्स, सोनई-राहुरी रोड, सोनई, तालुका-नेवासा, जिला-अहमदनगर, महाराष्ट्र- 414105
1384	क्रान्तिकारी स्वराज दल	ग्राम भवैया कलां, पोस्ट नारीबारी, थाना शंकरगढ़, तहसील बार, जिला प्रयागराज, पिन कोड नं० 212106 (30प्र०)
1385	क्रान्तिकारी विकास दल	78/09 सी., मौ० - बिरसा आदिवासी कॉलोनी, पोस्ट - गुलजार बाग, थाना - आलमगंज, जिला - पटना - 800007, बिहार।
1386	क्रान्तिकारी युवा पार्टी	मकान नं० 318, ओल्ड रोहतक रोड, गुर्जर गली, शाहजादा बाग, दया बस्ती, दिल्ली-110035
1387	कृषक भारती पार्टी	दुकान नं० 841, गली नं० 11, हरिपुर सैंक्टर-4, पंचकूला, हरियाणा-134112
1388	कृपा पार्टी	प्लॉट नं० 452, खाता सं० 69, शांति भवन, ग्राम- पहाना, पो.ओ-तिकनपुर, जी.पी.-रामचन्द्रपुर, पी.एस- पाटकुड़ा, जिला- केन्द्रपाड़ा, ओडिशा-754153
1389	कूकी नेशनल असेम्बली	ग्रेस कॉटेज, पेटेवेग, कवाकेलथेल, पो. ऑ. - इम्फाल, पिन - 795001, (मणिपुर)
1390	कूकी पीपुल्स एलायंस	लीटल बुइस, रैंगकाई रोड, जेनहांग लामका, चुराचंदपुर, मणिपुर भारत- 795128
1391	कुनबी बहुजन सवराज्य पार्टी	एच. नं० 114, ए-2, गॉव और पोस्ट खादी लोलवन, तालुका-संगमेश्वर, जिला-रत्नागिरी, महाराष्ट्र- 415801
1392	कुशल जनता पार्टी	पुपरी, वार्ड नं० 2, पोस्ट- जनकपुर रोड, जिला- सीतामढ़ी, बिहार- 843320
1393	लेबर पार्टी (सेक्यूलर)	382/4, गली हरदेव, संत निरंकारी कॉलोनी, दिल्ली-110009.
1394	लेबर पार्टी ऑफ इण्डिया	म.न.ए-63, न्यू गोपाल नगर एक्सटेंशन, नानक प्याऊ, रामा पब्लिक स्कूल रोड, गली नं० 4, नज़फगढ़, नई दिल्ली-110043
1395	लक्ष्मण गणतान्त्रिक पार्टी	पुरानी बस्ती, चौकीदारपाड़ा, पो० औ० के० एम० रोड, झारसुगुडा-2, जिला - झारसुगुडा, ओडिसा ।
1396	लक्ष्मण जननायक पार्टी (लजक)	नं० - 18, अरविन्द विल्स, अमन कोविल, फस्ट क्रॉस स्ट्रीट, श्रीनिवास नगर, पैरुंगालाथुर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600063
1397	लौकिक समाज पार्टी	द्वारा-चित्रा कॉन्वेंट स्कूल, ग्राम - देवपार (वीरसिंहपुर), पोस्ट - मदनपुर, तहसील - बरहज, जिला - देवरिया, उत्तर प्रदेश- 274205
1398	लिवरल डेमोक्रेटिक पार्टी	ग्राम- शान्तिपुर (मिर्जा), पोस्ट ऑफिस- मिर्जा, पुलिस स्टेशन- पलाशवरी, जिला- कामरूप, असम-781125
1399	लिवरल पार्टी ऑफ इंडिया	6/12, सर्वप्रिय बिहार, नई दिल्ली- 110016
1400	लिवरल सोशलिस्ट पार्टी	विपक्ष गुरुद्वारा साहिब, H. No. 82, एमआईटीसी कॉलोनी, वाय पास रोड, सिरसा, हरियाणा - 125055
1401	लिवरल कांग्रेस पार्टी	प्रथुर (V), गुंडीमेडा गांव, ताडेपल्ली मंडल, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश-522501
1402	लोग जन पार्टी - सेक्यूलर	शिनपुरी, नवचोतना पथ, अतिसाबाद, पटना, बिहार- 800002
1403	लोग पार्टी	मकान सं० 33/2, स्टेनले रोड, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211001
1404	लोहिया संयुक्त समाजवादी पार्टी	एच-व्लाक, हाउस नं० - 359, सैंक्टर - 9, ओल्ड विजय नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।

1405	लोहिया जनता दल	वार्ड क्रमांक स.04, एन.एच. 31, स्कूल गुलाबबाग, बाढ़, पटना, बिहार-803213
1406	लोक अधिकार लहर पंजाब पार्टी	ऑपोजिट सिविल हॉस्पिटल, तलवंडी साबो, जिला बठिंडा, पंजाब-151302
1407	लोक आवाज दल	होलिंग नं० 20/11, सर्किल नं० 264, अम्बेडकर चौक, विष्णुपुरी, पटना - 800002, बिहार।
1408	लोक बन्धु पार्टी	1/4908 खसरा नं० 192/193/179, गली नं०-6, बलवीर नगर एक्स, शाहदरा, दिल्ली-110032
1409	लोक भलाई पार्टी	5-एफ एफ, राजगुरु नगर, फिरोजपुर रोड, लुधियाना, (पंजाब)।
1410	लोक भारती	ए/702, वैदन्त उन्नत नगर नं. 2, गोरेगांव (पश्चिम) मुंबई- 400062.
1411	लोक चेतना दल	ग्राम - पकड़ी जलाल, पोस्ट - शुभंकरपुर, जिला - मुजफ्फरपुर, बिहार - 843113
1412	लोक दल	केन्द्रीय कार्यालय, 8, माल एवेन्यू, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
1413	लोक एकता पार्टी	एस-8/188, सुधाकर रोड, खजुरी कैण्ट, वाराणसी-221 002, उत्तर प्रदेश।
1414	लोक गठबंधन पार्टी	नं०-बी - 16-ए, बेसमेंट ऑफ अलिशा अपार्टमेंट (अतरौला हाउस, 27/6, राम मोहन राय मार्ग) मदन मोहन मार्ग, कृषि भवन के नजदीक, 3 वे रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226001
1415	लोक हित राष्ट्रीय विकास पार्टी	ग्रैन मार्केट, लोंगोवाल, जिला - संगरूर, पंजाब ।
1416	लोक इंसाफ पार्टी	बी -XXVII/208/403- डी/5, गुरु रामदास कॉम्प्लेक्स, दुगरी रोड, लुधियाना, पंजाब - 141001 ।
1417	लोक जन समाज पार्टी (भारत)	ग्राम रेहरा, पो० निपनियां, थाना परसा मलिक, तह० नौतनवां, जिला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश - 273164
1418	लोक जन संघर्ष पार्टी	ग्राम- जमुनहा, विकास खण्ड बांकेगंज, पोस्ट- सौंखिया, जिला- लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश- 262802
1419	लोक जन विकास मोर्चा	कचहरी रोड, थाना-कोतवाली, पोस्ट-रौंची-834001, झारखण्ड।
1420	लोक कल्याण पार्टी	नंबर 4 एफ / 403, अकाशरथ बी / एच रत्न ऑप। सी.जी.रोड, अहमदाबाद, गुजरात - 380009
1421	लोक मानवाधिकार पार्टी	सी. 32/27-16ए, विद्याविहार कॉलोनी, छिन्नपुर, वाराणसी-221002, उत्तर प्रदेश।
1422	लोक निर्माण दल	2, अराधना इन्कलेव, सुखपुर मार्ग, फेस-II, दिल्ली ।
1423	लोक परिवर्तन पार्टी (डी.सी.)	भापरा रोड, पुलिस चौकी के सामने, जी.टी. रोड, समालखा, जिला-पानीपत हरियाणा।
1424	लोक रक्षा पार्टी	ग्राम द पोस्ट ऑफिस - सिरसा, जिला - इटावा उत्तर प्रदेश ।
1425	लोक राष्ट्रीय पार्टी सेकुलर(एस)	अबन्तीबाई नगर, भोगांव, जिला-मैनपुरी, उत्तर प्रदेश- 205262
1426	लोक साहस पक्ष	एच. नं. 6307, कटारे कॉम्प्लेक्स, मुख्य रास्ता, जितूर, जितूर पुलिस स्टेशन जवन्ल, जितूर, हनुमान मंदिराजल्ल. जितूर, परभणी महाराष्ट्र-431509
1427	लोक समाज पार्टी	बी-1756, गली नं. 25, प्रथम पुस्ता, सोनिया विहार, दिल्ली- 110090
1428	लोक साम्यां पार्टी	प्लॉट नं० 179, रामचंद्रपुर आर.सी. ठकुरानी, पोस्ट-हरिदेवपुर, कोलकाता- 700104
1429	लोक संघर्षशील पार्टी	प्रीमिर्सन नं० 10020864894, शास्त्रीनगर, चोटिला, ता० चोटिला, जिला-सुरेन्द्रनगर गुजरात- 363520
1430	लोक सत्ता पार्टी	फ्लैट नं.801, श्रीनिवास टाघर्स, आईटीसी काकतीय होटल के पास, बेगमपेट, हैदराबाद- 500016, तेलंगाना ।
1431	लोक सेना पार्टी	अहमद नगर रोड, मकान नं.-1-4-2956, गुलशन नगर, बालेपीर, बीड, महाराष्ट्र-431122
1432	लोक सेवा दल	पोस्ट बधिया, तहसील लखीसराय, बिहार-811302.
1433	लोक शाही पार्टी (सेकुलर),	187-एच, 6/2, जीवन नगर, आश्रम चौक के नजदीक, महारानी बाग बस स्टैंड के सामने, नई दिल्ली - 110014
1434	लोक शक्ति पार्टी (लोकतांत्रिक)	मकान नं.2, तृतीय तल, शम्भुपुर खास दिल्ली-110092

1435	लोक स्वराज्य पार्टी	प्रेमलता गोबिंदराव ब्राम्हंकर,वाई नं.-5,गाँव एवं पोस्ट-सगाडी,तहसील-सकाला,जिला-भंडारा महाराष्ट्र- 441802.
1436	लोक विकास मंच	शॉप नं0-159,दूसरी मंजिल,शॉपिंग सेंटर,आर-थर्ड सिनेमा के पास,सेक्टर-21,गाँधीनगर,गुजरात ।
1437	लोकतांत्रिक जनता पार्टी	टी-43,ग्रांड फ्लोर,पंजाबी बस्ती,बलजीत नगर,नई दिल्ली-110008
1438	लोकहित अधिकार पार्टी	94,एच.आई.जी. ब्रिज विहार,गाजियाबाद,उत्तर प्रदेश-201011
1439	लोकजागर पार्टी	प्लॉट नं. 17,मैफिल,सन्जार्ग नगर,हुडकेथर रोड,जिला- नागपुर, महाराष्ट्र- 440034
1440	लोकजन सोशलिस्ट पार्टी	द्वारा वर्षा नेचुरल,ग्राम व पोस्ट- फूलपुर बाजार,तहसील - पिंडरा, जिला- वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221205.
1441	लोकप्रिय राष्ट्रवादी पार्टी	ग्राम- मदायना,पोस्ट - सिकरारा,पीपल चौकी,आगरा रोड,तहसील - फतेहाबाद,आगरा,उत्तर प्रदेश-283111
1442	लोकप्रिय समाज पार्टी	प्रजापति धर्मशाला मंदिर, श्री कालका जी, नेहरू पैलेस, नई दिल्ली-110019.
1443	लोकप्रिय समता पार्टी	अल्फा ट्योरियल,सुधा डेयरी के पीछे,कटारी हिल रोड शांतिबाग,न्यू करीमगंज,पी.एस-सिविल लाइन,पी.ओ.-करीमगंज,जिला-गया,बिहार-823001
1444	लोकराज्य जनता पार्टी	कार्यालय नं0 1001ए/1बी,प्लॉट नं0 58,ए वार्ड,लक्ष्मीटेक कॉलोनी साने गुरुजी वसाहत,कोल्हापूर,जिला-कोल्हापूर,महाराष्ट्र- 416012
1445	लोकराज्य पार्टी	ए-115/35/1, एन-9, शिवनेरी कॉलोनी, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर चौक, सिडको, औरंगाबाद, महाराष्ट्र-431001
1446	लोकसंग्राम	एच0 नं0 1321, लेन नं0 4, धुले-424001.
1447	लोकशाही एकता पार्टी	202,वाई वर्धमान गैलेक्सी, नवीवाड आई, बंद। दादी सेठ अगियारीलेन, जे.एस.एस. सड़क, मुंबई 400002, महाराष्ट्र
1448	लोकशाही निर्माण पार्टी	नं. 6, प्राइम रोज,एचीन पार्क,दीपक हॉस्पिटल के पीछे,मीरा भयंदर रोड,मीरा रोड, जिला- थाने,महाराष्ट्र- 401107
1449	लोकशाही पार्टी	नंबर बी-705,ओमकार वेदा सीएचएस, नियर अंबेडकर कॉलोनी, एकनाथ घडी मार्ग, परेल पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र - 400012.
1450	लोकशाही सत्ता पार्टी	"पंचवटी" बोराडीपा, रामजी मंदिर के पास, बावला, तहसील - बावला, जिला - अहमदाबाद, गुजरात -382220 ।
1451	लोकशक्ति विकास पार्टी	उदंतपुरी (किलापर),बिहारशरीफ,नालंदा,बिहार-803101
1452	लोकशासन आन्दोलन पार्टी	259, गुहा गांव, तालुक -रहुरी, जिला -अहमदनगर महाराष्ट्र -413705
1453	लोकशासन पार्टी ऑफ इंडिया	सं0 नं0 67, प्लॉट सं0 25, प्रतिक बिल्डिंग, फ्लैट नं0 3, विद्यानगर, पुणे-411032, महाराष्ट्र।
1454	लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी	म.स. 568,सेक्टर-3,अर्बन एस्टेट, कुरुक्षेत्र-136118, हरियाणा
1455	लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी	इ-1, 21/7, न्यू राजेन्द्र नगर, डाकघर-रविग्राम,रायपुर, छत्तीसगढ़।
1456	लोकतंत्र जागृत पार्टी	सी-410,सुमेल बिजनेस पार्क 7,निकट सोनी नौ चली राखियाल,अहमदाबाद,गुजरात - 380023
1457	लोकतंत्र कल्याण पार्टी	ग्राम-खिरीकोन,पोस्ट-तार,थाना-अगीआर्व बाजार,प्रखंड-पीरो,जिला-भोजपुर,बिहार- 802207.
1458	लोकतंत्र विकास पार्टी	ग्राम व पोस्ट शहपुर बम्हैटा,थाना कविनगर,जिला-गाजियाबाद,उत्तर प्रदेश- 201009
1459	लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी	सविता सदन, धूमनगर (कचहरी टोला), पोस्ट- बेल्वाग (बेतिया), थाना-नौतन, जिला- पश्चिम चंपारण, बिहार: 845438
1460	लोकतांत्रिक जनता पार्टी (सेक्यूलर)	मेन रोड, फिरोजपुर, पोस्ट-ऑफिस आन्देर, जिला-सिवान, बिहार-841231,
1461	लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी	मकान सं0 - 107, केशर कालोनी हल्दीनी,गेटर नोएडा, जिला- गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश- 201306 ।
1462	लोकतांत्रिक जनता दल	मकान नं. 861 पी, सेक्टर-15, पार्ट - II, गुरुग्राम, हरियाणा - 122001

1463	लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी	एस- 25/51ए-9बी-1, गौतम बिहार कॉलोनी, सरसौली, जिला- बाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221002
1464	लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी	बैंक्स कॉलोनी, लक्ष्मीसागर, वाई नंबर 01, विजन स्कूल के पास दरभंगा, बिहार - 846009
1465	लोकतांत्रिक मान्यतावादी पार्टी	दुकान नं० 5, एस० डी० 366, शास्त्री नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
1466	लोकतान्त्रिक पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)	न० 103, (सकिल न० 189, होलिडिंग न० 101/1, 94/86), भीतरी बेगमपुर, पटना सिटी, पटना, बिहार-800009
1467	लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी पार्टी	ई-2, ओल्ड सोसाइटी, सैजपुर रेलवे स्टेशन के पास, सैजपुर बोधा, अहमदाबाद, गुजरात- 382245
1468	लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी	सी - 32, आनंद निकेतन, नई दिल्ली - 110021
1469	लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी	27-ए, डी.डी.ए. फ्लैट्स, माता सुन्दरी रोड, नई दिल्ली-110002.
1470	लोकतांत्रिक समता दल	डी०-104, दारोगा प्रसाद राय पथ, पटना-800001, बिहार।
1471	लोकतांत्रिक सरकार पार्टी	द्वारा पी० कै० खरिया, एडवोकेट, शताब्दी चैम्बर, नं०-1, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मांडला-481 661, मध्य प्रदेश।
1472	लोकतांत्रिक सर्वजन समाज पार्टी	बी-103, सपना अपार्टमेंट, रामनगरी, आशियाना नगर, पटना-800025 बिहार।
1473	लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी	नं०-5, एच० आई० जी०-160, 100 फीट रोड, नेहरू एन्क्लेव, आगरा, उत्तर प्रदेश - 282001
1474	मा तेलंगाना पार्टी	8-2-540/4, रोड नं० 4, बंजारा हिल्स, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।
1475	मौं थरम पार्टी	302, दूसरी मंजिल, इन्वेस्टिव सान्ची एलीट, डोड्डाथोगौर, ओप. कृष्णा मिस्ट, अपार्टमेंट प्रगति नगर, चिक्का थोगुरु, डोड्डाथोगौर, बेंगलुरु, कर्नाटक - 560100.
1476	मानववादी जनता पार्टी	ग्राम- दोगी, पोस्ट- गोरी, थाना - छबिलापुर, वाया - राजगीर, जिला- तालन्दा, बिहार- 803116
1477	मध्य प्रदेश जन विकास पार्टी	नया वाई क्र.- 72, मकान नं०-4872, प्लॉट नं.- 123, फेस- 2, स्टार सिटी, कटंगी रोड, जबलपुर, मध्य प्रदेश।
1478	मध्य प्रदेश नव निर्माण सेना	2983, प्रिंस कालोनी, न्यूकंचनपुर, आधारतल, जबलपुर-482004, मध्य प्रदेश।
1479	महाभारत राष्ट्र पार्टी	330, ट्रेड स्क्वेयर, सफल परिष्कार, खोखरा सर्कल, मणिनगर पूर्व, अहमदाबाद, गुजरात- 380026
1480	महाभारत महाजन सभा	प्लॉट नं० 10, विवेकानंद नगर, इनर रिंग रोड, कोलाथुर, चेन्नई-600099, (तमिलनाडु)।
1481	महाजन मंडली पार्टी	मं० नं०-1-8-27/20, जी०एच०एम०सी०-1483, स्ट्रीट नं०-12, चिक्कापल्ली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500020
1482	महाजन राज्यम पार्टी	#7/347-2 पी०-ए०-3. सिम्हापुरी कालोनी, चौथी रोड, आर० टी० सी० बस स्टैंड के पास, कडपा - 516002, कडपा जिला, आन्ध्र प्रदेश।
1483	महाजना सोशलिस्ट पार्टी	द्वार नं० 1-14-297/1, बालामराई, रसूलपुरा, सिकन्दराबाद, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
1484	महाकौशल राष्ट्रीय पार्टी	जायसवाल कॉलोनी, छपरा, जिला-सिवनी, मध्य प्रदेश-480884
1485	महाक्रान्ति दल	ग्राम-83 अचहदपुर, पोस्ट- कोइलारी, तहसील व परगना- केराफत, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222148।
1486	महामुक्ति दल	ग्राम - ठसरॉव, डाक घर - इटार्य, तहसील - मडियाहूँ, जिला - जौनपुर, उत्तर प्रदेश।
1487	महान भारतीय संगठन पार्टी	ग्राम व पोस्ट- जंगराल, थाना- वागडोद, तहसील- सरस्वती, जिला- पाटन, गुजरात।
1488	महान दल	ए-218 डी, धीरज नगर एक्सटेंशन, एतमादपुर, निकट फौजी हॉल, सैक्टर-30, फरीदाबाद, हरियाणा।
1489	महान समतावादी पार्टी	म. न. 571, गली न. 10, आदर्श कॉलोनी बिहारीपुरा, निकट थिल्लूराम एकेडमी, विजयनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201009

1490	महानवादी पार्टी	ग्राम द पोस्ट - कुतुबपुर चनोरा, जिला - फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।
1491	महाराणा क्रांति पार्टी	म. नं०-698, वार्ड नं०-14, बाबा रामदेव मन्दिर के सामने, पुरानी आवादी, श्रीगंगानगर, राजस्थान
1492	महाराष्ट्र बहुजन सन्मान पार्टी	केसकरवाडी, पो. भालवणी, ता. पंढरपुर, जि. सोलापूर महाराष्ट्र- 413310.
1493	महाराष्ट्र बहुजन वंचित अघाडी	10 वी, करंजें तर्फ, प्लॉट नं. 7, सातारा, महाराष्ट्र-415002
1494	महाराष्ट्र जनकल्याण पार्टी	शॉप नं. 9, पुंजाजी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड, कल्लौजिन, कराल्जा (लाड), जिला-वाशिम, महाराष्ट्र- 444105.
1495	महाराष्ट्र क्रान्ति सेना	वार्ड नं. 20, मकान नं. 920, प्लॉट नं. 58, महावीर हाउसिंग सोसाइटी, नियर गुजराती भवन, इचलकरंजी, तहसील- हातकणगले, जिला- कोल्हपुर, महाराष्ट्र- 416115
1496	महाराष्ट्र लोकहितवादी पार्टी	मौजा लेंडवे पितळे, तहसील-मंगळवेढा, जिला - सोलापूर, महाराष्ट्र - 413305
1497	महाराष्ट्र परिवर्तन सेना (टी)	ग्राम - मांगवडगाव, तालुका - केज, जिला - बीड, महाराष्ट्र।
1498	महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष	सुखसागर रिपल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड, 101, सोई पूजा, प्रथम तल, 16वां रोड, मिनी पंजाब होटल के पास, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र- 400050
1499	महाराष्ट्र विकास आघाडी	गोविंदगज सदन, श्याम नगर, लातूर, महाराष्ट्र।
1500	महासंकल्प जनता पार्टी	शॉप नं. 22, सन साइन काम्प्लेक्स, रिफाइनरी रोड, पंचवटी गोरवा, बडोदरा, गुजरात- 390016
1501	महात्मा मक्कल मुनेत्र कझकम	पुराना नं. 56/11-एन, नया नं. 24, डॉ. अम्बेडकर नगर, रेलवे रोड, जिला- कांचीपुरम, तमिलनाडु- 631502
1502	महात्मा गांधी नेशनल लेबर पार्टी	3/366 जी, कुथुल स्ट्रीट, पारामाकुडी, रामानाथपुरम जिला, तमिलनाडु- 623707.
1503	महात्मा मक्कल सेवै पेरियक्कम	कार्यालय नं० - 45, सुभा अचिला नगर, हवाई अड्डा - पी.ओ., तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु - 620007
1504	महिला & युवा शक्ति पार्टी	मकान नं. 45, न्यू आवादी, सेक्टर- 23, तहसील- सोनीपत, जिला- सोनीपत, हरियाणा - 131001
1505	महिला मजदूर किसान पार्टी	गाव-रुकानपुर, पोस्ट-माधोगंज, तहसील-बिलगाम, जिला-हरदोई, उत्तर प्रदेश-241302
1506	महिला प्रधान पक्ष	1261, 16 मेन, 20 क्रॉस, ए ब्लॉक, सहकारा नगरा, बैंगलूर - 560092 कर्नाटक।
1507	महिला सशक्तिकरण पार्टी	यू0जी0एफ0 - 63, उपान प्लाजा, उत्तरठिया, रायबरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226025
1508	महिला स्वाभिमान पार्टी	ग्राम - गुमटी नं०-5, सराय करोरा, गोसाईगंज, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 227125
1509	मै ही भारत	2 ए "रायल", हेस्टिंग्स पार्क रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।
1510	मैदानी क्रान्ति दल	मुख्यालय - मस्जिद वाली गली, माजरा, देहरादून उत्तराखण्ड।
1511	मजदूर किसान अकाली दल	गाँव-75 जी बी, डाकघर-72 जी बी, बाया-रामसिंहपुर, तहसील-अनूपगढ़, जिला- गंगानगर, राजस्थान।
1512	मजदूर किसान यूनियन पार्टी	459/1, मो०-सरवट (वसन्त विहार), पो०-खास, जिला व शहर-मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश - 251001
1513	मजलिस बचाओ तहरीक	16-4-593/ए चेनेहलगुडा, हैदराबाद-500024, (आन्ध्र प्रदेश)।
1514	मजलिस मर्कज-ए-सियासी पार्टी	10-5-391/54/182/ए, भूतल, कशाई-घौंसिया अलीम, सैयद नगर, 95ए, विधायक कॉलोनी के सामने, रोड नं०-12, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश।
1515	मजलूम समाज पार्टी	ग्राम - मौदुखुर्द, तहसील - मवाना, जिला - मेरठ, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 250404
1516	मक्कल आलुम अरसियल	नं० 2, एन.एस.के. फस्ट स्ट्रीट, पेरम्बूर, तेलवायल नगर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600011

1517	मक्कल अरसियल काची	3/463, पालकार दुरैसांमी वट्टम, जी.पी. नियर, जी.पी. नगर, पालनंगकुप्पम गांव, इलागिरी पोस्ट, तिरुपथुर जिला, तमिलनाडु - 635601	पालिटेकनिक तालुक, चेन्नई
1518	मक्कल देसिय काची	137, कक्कन कोलोनी, नंगमबाक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु - 600034	
1519	मक्कल कूटामैपु काची	नं. 348ए, कैप रोड, एट्टुकडै बाजार, टी.एम.वी. बैंक के पास, एडालकुडी, कोट्टार पोस्ट, वैयीस्वरम गाँव, अगस्तीस्वरम तालुक, नागरकोईल, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु-629002.	
1520	मक्कल मसोथा काँची	नं. 480, आर.के.पी. कोम्पाउन्ड, थेथाकुडी, कथीरुप्पु पोस्ट, सिरकली तालुक, नागापट्टीनम- जिला, तमिलनाडु- 609109	
1521	मक्कल मेम्पत्तु कङ्गम	कार्यालय 2/4ए, नार्थ स्ट्रीट, वीरारेड्डेकुप्पम, पञ्जायपट्टीनम पोस्ट, कुड्डालोर जिला, तमिलनाडु- 606104	
1522	मक्कल मुन्नेत्र कांग्रेस	नं. 12, प्रथम क्रॉस स्ट्रीट, बालाजी नगर, पुदुचेरी- 605013.	
1523	मक्कल मुन्नेटरा काचि	62/77, पेस्मल पुरम, कामाराज नगर, 2 nd स्ट्रीट भवानी, जिला-इरोड, तमिल नाडु- 638301	
1524	मक्कल मुन्नेवा पेरावाइ	डोर नंबर 61E, पौडी रोड, कोलियानुर गाँव, जिला - चिलुपुरम, तमिलनाडु - 605103.	
1525	मक्कल नाला कङ्गम	नं० 30, वार्ड-2, नेताजी नगर, तातनावलासई, कोडुम्पली पोस्ट, तिरुपत्तूर, तालुक, जिला तिरुपत्तूर, तमिलनाडु- 635653.	
1526	मक्कल नलवाजहृषुक काँची	फ्लैट नं०-जो३, वैटरी फ्लैट्स, नं०-7 (पुराना नं० 3ए), कावेरी स्ट्रीट, गाँधी नगर, शालीग्रामम, चेन्नई, तमिलनाडु - 600093	
1527	मक्कल नीधि मय्यम	#नया 04 #पुराना 172, एन्डमस रोड, अलवरपेट, चेन्नई, तमिलनाडु- 600018	
1528	मक्कल नीति काँची-इंडिया	नं० 112ए३, वड्डाक्कु थिरु (प्रवीन कॉम्प्लैक्स), ग्रांड फ्लोर, त्रिची मेन रोड, थुराईमंगलम पोस्ट, तालुक व जिला - पैराम्बलुर, तमिलनाडु - 621220	
1529	मक्कल राज्यम काचि	नम्बर 1/427, कादुर मेन रोड, पोस्ट- पुदुचेटाकुडी, तालुक - कुन्नाम, जिला-पेरमबलुर तमिलनाडु- 621716	
1530	मक्कल शक्ति काची	न्यू नं० 41, पुराना नं० 15, बाजार लेन, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600 015, तमिलनाडु।	
1531	मक्कल सनानायगा कडियार्सु काँची	नं. 3/123, गंगाई अम्मन कोइल स्ट्रीट, साउथ मलायमक्कम गाँव, कुनराथुर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600069	
1532	मक्कल सेवई काची	नं. 10, बालाजी नगर, ऐर्नाडर, चेन्नई, तमिलनाडु- 6000057	
1533	मक्कल तिलागम मुन्नेत्र कलगम	डी. नं. 6/431, पुन्नायपुरम, कडायानल्लूर तालुक, टेन्क्वसी, जिला-तिरुनेलवेली, तमिलनाडु- 627855.	
1534	मक्कलाचची कचची	नं. 57, जगजीवनराम स्ट्रीट, पारुम्बूर, अलवारकुरीची, अम्बासुमुतीरम तालुक, तिरुनेलवेली- जिला, तमिलनाडु-627412	
1535	मक्कलाचची मुन्नेत्र कङ्गम	5/187, डॉ. जे.जे.स्ट्रीट, कास्पापुरम, अग्रमथेन, चेन्नई, तमिल नाडु - 600126	
1536	मालवा कांग्रेस	133, स्तेह नगर, सपना-संगीता रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश- 452001	
1537	मना देशम पार्टी	ए-1, प्रथम तल, अनंता साई आपर्टमेन्ट, विवेकानन्द नगर फौलोनी, कुकाटपली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश- 72	
1538	मन तेलंगाना राष्ट्र समायिका पार्टी	मिग ओग ब्लॉक प्रथम तल नंबर 6, बागलिंगमपल्ली, अपोलो फार्मसी के ऊपर, टीएसएसपीडीसीआई, कार्यालय और इलेक्ट्रिक सर्व-स्टेशन, सुंदराया विज्ञान भवन और पार्क के पास, हैदराबाद, तेलंगाना-500044	
1539	मानव अधिकार रक्षा पार्टी	36, दरियास्थान स्ट्रीट, ग्रांड फ्लोर, ऑफिस नं०-3, काटावाला बिल्डिंग (गोपमणि चेम्बर), मुम्बई, महाराष्ट्र - 400003	
1540	मानव आवाज पार्टी	मोहल्ला - नलापुर, वार्ड नं०-6, तारनौल, जिला - महेन्द्रगढ़, हरियाणा-123001	

1541	मानव एकता पार्टी	दादुसिंह कालोनी, प्लॉट नं० 53, सिरपुर, जिला-धुनिया (धुले), महाराष्ट्र।
1542	मानव हित पार्टी	भवन संख्या-575/1, सेक्टर-24, दयूवैल कालोनी, आगर रोड, एटा, उत्तर प्रदेश- 207001
1543	मानव जागृति मंच	552, बैंक कॉलोनी, देवली गांव, नई दिल्ली-110062
1544	मानव कल्याण मंच	सा० 6/186, एम० एक्स - 1, अकथा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
1545	मानव क्रान्ति पार्टी	न्यू सर्राफा बाजार, वाई नं. 11, नगर पंचायत खागा, जिला-फतेहपुर, उत्तर प्रदेश- 212655
1546	मानव मुक्ति मोर्चा	हमीदगंज वाई नं०-13, पत्थर मिल के सामने, डाक घर-मैदिनी नगर-822101, जिला-पालामू (झारखण्ड)
1547	मानव समाधान पार्टी	21, सूखी सेवनियां, पोस्ट-सूखी सेवनियां, तहसील-हुजूर जिला-भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
1548	मानव संघर्ष पार्टी	हाउस संख्या-54, ग्राम और पोस्ट-मनियां, ब्लॉक-भदोरा, जिला - गाजीपुर, उत्तर प्रदेश- 233001
1549	मानव पार्टी	जी-23, यूरेका टावर्स, किट्टूर चेन्नम्मा सर्किल, हुबली-580029, (कर्नाटक)।
1550	मानवाधिकार कांग्रेस पार्टी	एच. नं. 26, जोशी टोला खोरी टाउन-1, पी.एस. खोरी, तहसील-लखीमपुर, जिला-खोरी, उत्तर प्रदेश-262702
1551	मानवाधिकार जनशक्ति पार्टी	जे-6/7-बी-डी, पुलिस स्टेशन के समीप, जैतपुरा वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221001
1552	मानवतावादी क्रान्ति दल	मानव भवन, कुल्लीखेड़ा, अहममऊ, पोस्ट - अर्जुनगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
1553	मानवतावादी समाज पार्टी	638/307, ग्राम-जरहरा, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
1554	मांग समाज पार्टी	ग्राम-पहदुल्लम (पहदेवाजीत), पोस्ट-रतनपुर, थाना हलधरपुर, सदर मऊ, जिला-मऊ, उत्तर प्रदेश-221706
1555	मणिपुर डेमोक्रेटिक पीपुल्स फ्रंट	लैरिक रेंगबाम लैंकई (साऊथ), 33 के० वी० इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन के सामने, के० एम० टावर के पास, तिरुपति लेन, पूर्व इम्फाल - 795010 मणिपुर।
1556	मणिपुर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट	कोइजम अपार्टमेंट, वीआईपी कॉलोनी, 107/109 बाबूपारा, इम्फाल वेस्ट, मणिपुर- 795001
1557	मणिपुर पीपुल्स पार्टी	पीपुल्स रोड इम्फाल- 795001, मणिपुर।
1558	मनिथा उरिमईगल कलागम	14/41, गुड्स शैड स्ट्रीट, मदुरै - 625 001 तमिल नाडु।
1559	मनीथनेया जनान्यागा कौची	124, कामराजार रोड, मौला कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, इलायंगुडी, जिला - शिवगंगई, तमिलनाडु - 630702
1560	मनीथानेया मककल काची	तीसरी मंजिल, सं० 6, वडा मराइकोयेर गली, चेन्नई-600001, तमिलनाडु।
1561	मन्निन मैथरगल कडागम	नम्बर-62, वाई-4, स्थानमपट्टु, कामराज स्ट्रीट, मनमथी (पी.ओ.) तिरुवारूर (टीके), चैंगलपेट्टु जिला, तमिलनाडु-603103
1562	मनुवादी पार्टी	201, धिरहाना, पांडेगज, सुभाषमार्ग, लखनऊ-226004, (उत्तर प्रदेश)।
1563	मानवाधिकार नेशनल पार्टी	12, द्वितिय तल, स्वागत कॉम्प्लेक्स, रामबाग रोड, मणीनगर, अहमदाबाद, गुजरात - 382443
1564	मानवीय भारतपार्टी	ग्राम व पोस्ट- रामपुर नदी, तहसील- मडियाहु, जनपद - जौनपुर, उत्तर प्रदेश - 222105
1565	मारालैंड डेमोक्रेटिक फ्रंट	सेहा-796901, छिम्तुईपुई जिला, (मिजोरम)।
1566	मराठवाडा जनता पक्ष	मौजे पाखर सांगवी, गट नं०-39, सत तुकाराम विद्यालय के पास, तालुक व जिला - लातूर, महाराष्ट्र - 413512
1567	मरूमलार्ची दविड मुन्नेत्र कडगम	'न्यागम,' नं० 141, रुक्मणि लक्ष्मी पति सलाई, इगमोरे, चेन्नई-600008, (तमिलनाडु)।
1568	मरूमलार्ची जनता काची	62/5, पिल्लैयार कोविल स्ट्रीट, पप्पिरेड्डीपट्टी- पोस्ट व तहसील, धर्मापुरी जिला, तमिल नाडु- 636905
1569	मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (यूनाईटेड)	#1-B-742/2/3, वाग निगमपल्ली, अचाय नगर, हैदराबाद-500044, तेलंगाना
1570	माक्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (रेड फ्लैग)	इर नं.- 828, द्वितीय तल, एरोमा बिल्डिंग, पुडुक्कट- पोस्ट ऑफिस, थिरूर - जिला, केरल- 680301.

1571	माक्सवादी जनता पार्टी	33, कुन्दन पुरा, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश - 251002
1572	मातृ भूमि विकास पार्टी	मार्फत श्री काशीनाथ त्रिपाठी, अस्पताल रोड, मऊ चिबौ, बांदा-210209, (उत्तर प्रदेश)।
1573	मातृभूमि सेवा पार्टी	ए- 118, दुर्गा विहार, देवली के पास, नई दिल्ली-110062.
1574	मौलिक अधिकार क्रांति पार्टी	एच. नंबर-402, तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 2-3, गली नंबर-3, फ्रेंड्स एन्क्लेव, शाहबेरी, ग्रेटर नोएडा एक्सपैंशन गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201009
1575	मजदूर दलित किसान महिला गरीब पार्टी (हिन्दुस्तानी)	गद्दी अशरफ खान, जसमई रोड, फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश
1576	मजदूर एकता पार्टी	नं. बी-2/208, नन्द नगरी, शहादरा, दिल्ली- 110093
1577	मजदूर किरायेदार विकास पार्टी	प्लॉट नं. 116, म्युनिसिपल नं. 500/3ई/4, ब्लॉक नं. 30, गली नं. 6, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली- 110032
1578	मजदूर विकास दल	क्वाटर नं. प्लॉट-ई/124, फेज-1, छिन्द, राउरकेला, जिला- सुन्दरगढ़, ओडिसा-769015
1579	मीनवर मक्कल मुन्नानी	नं0-51, ओल्ड नं0-24, तम्यु लेन, रॉयपुरम, चेन्नई, तमिलनाडु - 600013
1580	मेघ देशम पार्टी	मेघवंश भवन, ई-70 बी, बजरंग विहार तृतीय, हरमाडा घाटी, जयपुर, राजस्थान ।
1581	मेघालय डेमोक्रेटिक पार्टी	मिशन कम्पाउंड, मावखार, शिलांग-793001 (मेघालय)।
1582	मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल	मकान सं. 531/62, मिण्डिया टोला, बड़ा चांदगंज, प्रताप सिंह मार्ग, थाना- अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226024
1583	मेरा भारत महान पार्टी	ईन्दरा नगर, ब्लॉक-3, पानिहाटी, पोस्ट-सोदपुर, जिला-24 परगना, कोतकाता, पश्चिम बंगाल-700110
1584	मेरा गाँव मेरा देश पार्टी	मकान नं0-142, गाँव - इस्लामपुर, पोस्ट - साऊथ सिटी-II, गुडगाँव, हरियाणा - 122018
1585	मेरा बतन पार्टी	डी. न. 23-4-227/5, अशोक स्तंभ के पास, सुल्तान शाही, हैदराबाद, तेलंगाना - 500065.
1586	मेरकु तमिलागम काची	डी.नं.4/387, संजय गार्डन, थयमपलयम, मुथियानेरिचल (पीओ), कंगायम वाया तिरुप्पुर (टीके), तिरुप्पुर जिला, तमिलनाडु - 638701
1587	मेधा पार्टी	13 ई/10ए, यजीव नगर (सुनुरखाना), डाकखाना-तेलियरगंज, जनपद - इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
1588	एम.जी.आर. मक्कल काची	नं. 6,4 क्रॉस स्ट्रीट, पहली मुख्य सड़क, गोपालपुरम पूर्व, पट्टाभिराम, चेन्नई, तमिलनाडु- 600072.
1589	मिहिर सेना	नागर्स च्याइस, एस-47, साउथ साइड, जी0टी0 रोड, जी.टी. रोड, लाल कुआ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
1590	माइनोरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी	13, हाइड्रे रोड काम्प्लेक्स, मोमिनपुरा, नागपुर - 440018, महाराष्ट्र।
1591	माइनोरिटी पीपल्स पार्टी	पीपी न.-55, 56, दाग न.22, 23, ग्राम-दिंगारति, मौजा-लहरिधाट, पोस्ट- लहरिधाट, थाना- लहरिधाट, जिला-मोरिगाव, असम- 782127
1592	मिशन ओल इंडिया इंडिपेंडेंट जस्टिस पार्टी	रूम नं० :2, जीवदानी चाल, कुंभार पाड़ा, विरार (ईस्ट), विरार, महाराष्ट्र-401305
1593	मिशन एकता पार्टी	म0 नं0 790/12, सलारा मोहल्ला, रोहतक, हरियाणा- 124001
1594	मिशन गरीब परिवर्तन पार्टी	आर-7, साइड-5, (यूपीएसआईडीसी) कासना, इंडस्ट्रियल एरिया, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201308
1595	मिशन नया दिगंत पार्टी	होल्डिंग न0 1275, खंडोघोष, पुरख-खंडोघोष, जिला-पूरव वर्धमान पश्चिम बंगाल-713142
1596	मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा	सुपौल बाजार, कालेज रोड, वनदेवी नगर, बिरौल, दरभंगा, बिहार-847203
1597	मिथिलांचल विकास मोर्चा	महुआर, गौड़ा बौराम, पोस्ट - आसी, जिला - दरभंगा, बिहार - 847203

1598	मिथिलावादी पार्टी	ग्राम-पलियार, पोस्ट-रांटी, थाना-राजनगर, वार्ड नंबर-08, हनुमान मंदिर के समीप, मधुबनी विहार-847211
1599	मिजोरम पिपुल्स कॉफ्रेस	जनरल हेडक्वार्टर्स, ट्रेजरी स्क्वायर, आइजोल-796001, (मिजोरम)
1600	मो दल	कार्यालय - मुकुर प्रेस प्रेमाईजेज, भाषाकोस लेन, नीम चौरी, पोस्ट-चांदनी चौक, पी.एस.- लाल बाग, जिला - कटक, ओडिशा - 753002.
1601	मोडरेट पार्टी	ग्राम-खखडी (मगहरा चौराहा), पोस्ट-बालेपुर कलां, जिला-देवरिया, उत्तर प्रदेश ।
1602	मॉडर्न सिटीजन पार्टी	ग्राम-रानीचक, थाना-गढपुरा, जिला-वेगूसराय, बिहार-848204
1603	मॉडर्न पीपल पार्टी	मकान नंबर 5-109-3/बी/1, तीसरी मंजिल, जुवली हिल्स रोड, अपोजिट, जे.आर.सी., राय दुर्गा, हैदराबाद, तेलंगाना- 500033
1604	मूल भारती (एस) पार्टी	मं० नं० 25, खूनी मसित के पास, मोगा, मेहला सिंह मोगा-142001, जिला-फरीदकोट, (पंजाब) ।
1605	मूलजन शक्ति पार्टी	मकान नं.394, गली नं.18, विश्वकर्मा मंदिर के पास, करन विहार, करनाल, हरियाणा- 132001
1606	मूलनिवासी समाज पार्टी	गोव-मघईपुर, डाकखाना-महाराजगंज, जनपद-आजमगढ़-276137, उत्तर प्रदेश ।
1607	मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज ऑफ इण्डिया	परसपुर-कुडवार, सुल्तानपुर-228155, उत्तर प्रदेश ।
1608	मदर इंडिया पार्टी	खसरा नं०-143, कुरे के बाद बना नं०-143/3, ग्राम- जौन समाना, परगना व तहसील - दादरी, जिला - गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश ।
1609	मदर लैंड नेशनल पार्टी	सर्वे नं. 20+21, डुप्लेक्स नं. 05, नोमान डुप्लेक्स, इकबाल एवेन्यु के पास, नियर कैनल, फतेहवादी, अहमदाबाद, गुजरात- 380055
1610	मौलिक अधिकार पार्टी	बिरौली-मोतीनगर, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश-224201.
1611	मूलनिवासी पार्टी ऑफ इंडिया	ग्राम व डाक- बसन्तपुर, जिला- मुर्शिदाबाद, एस.डी. व पी.एस. भुमकल, पश्चिम बंगाल- 742406.
1612	मूलनिवासी अधिकार पार्टी	एस.-96, यू.पी.एस.आई.डी.सी. सेक्टर-5, जगदीशपुर, जिला-अमेठी उत्तर प्रदेश- 227817
1613	माई इंडिया पार्टी	447/265, द्वितीय तल, पूनामल्ली हाई रोड, अंमजीकरे, चेन्नई, तमिलनाडु- 600029
1614	नाडालुम मक्कल कट्टी	7/330, भू तल, दुवारगा नगर, मनाली न्यू टाउन, चेन्नै, तमिलनाडु- 600103.
1615	नाम इन्दियर पार्टी	73एफ/1ए, पोल्पेट्टई, थूथुकुडी, तमिलनाडु- 628002
1616	नाम तमिलार कांची	द्वार नं० 7, प्लॉट नं० 8, हॉस्पिटल रोड, सैन्थिल नगर सिन्ना पोर्र, चेन्नै- 600 116 तमिल नाडु ।
1617	नारी नर रक्षक पार्टी	राज लक्ष्मी निवास, ककराली रोड, ग्राम-अनेग, बेहटा, अब्दुल पुर, प्राथमिक पाठशाला के पीछे, तहसील-हरदोई, जिला-हरदोई, उत्तर प्रदेश-241001
1618	नव भारत निर्माण सेवा पार्टी	प्लॉट नं.145/245/1141/1356, खाना नं.50/4873, हाथी पथर लेन, त्रिनाथ मंदिर के पास, रानीगुडा फार्म, थाना, जिला-रायगडा, ओडिशा-765001
1619	नागालैंड कांग्रेस	मकान नं० - 202, फैलोशिप कॉलोनी, आई एम सी हॉल के पास, दीमापुर, नागालैंड - 797112
1620	नागरिक अधिकार पार्टी	नंदलालपुर, पोस्ट - नंदलालपुर, बाया - मथुरापुर, जिला - भागलपुर, बिहार- 813222
1621	नागरिक अधिकारशक्ति सेवा पार्टी	ए-63, जनता जीवन कैम्प, तिगरी, खानपुर, दिल्ली-110062
1622	नागरिक चेतना पार्टी	सर्वोदय नगर, टीचर्स कॉलोनी पिलखुआ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश ।
1623	नागरिक एकता पार्टी	3/305, विशाल खड, गोमती नगर, लखनऊ-226010, उत्तर प्रदेश
1624	नागरिक सेवा पार्टी (आर)	4, तायल विहार कॉलोनी, गेट नं० - 2, ऐशबाग रोड, हैदरगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226004
1625	नागरिक विकास पार्टी	728, एबीसी, एकता नगर, प्रोफेशनल कोरियर के सामने, मोदी हुण्डाई शो- रूम के पास, सातवली, वसई रोड, वसई (पूर्व),

1626	नई क्रान्ति पार्टी	बाबू मून्युजयनाथ मंदिर, कुम्हारन टोला प्रथम, गोला गोकर्णनाथ, जिला- लखीमपुर-खोरी, उत्तर प्रदेश- 262802
1627	नैतिक पार्टी	314, सिटी सेंटर निकट प्रेस क्लब, हजरतगंज लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
1628	नवी भारतीय एकता पार्टी	वार्ड नं०-1, मोहल्ला-हरिजन वाला, किठौर मेरठ, उत्तर प्रदेश ।
1629	मलवजहिककडगम	कथिरयन इल्लम, 94/2, फलवै चेट्टी स्ट्रीट, चिन्तहपत, चेन्नई, तमिलनाडु- 600002
1630	नम इंडिया नाम इंडियार कौची	मकान सं० 9/8, फ्लैट सं०-3, स्वागता अपार्टमेंट, चेलप्पा स्ट्रीट, ओट्टेरी, चेन्नई तमिल नाडु- 600012
1631	नमाधू मक्कल कौची	नं० 3, पिल्लायार कैल स्ट्रीट, कस्बा, वेल्लोर-632001, तमिलनाडु ।
1632	नमदु कोन्गु मुनेत्र कलगम	5एफ संजीत प्लाजा, तिरु वी.का. स्ट्रीट, तिरुपुर रोड कांगेयम, तिरुपुर जिला, तमिलनाडु- 638701.
1633	नम्मा कांग्रेस	नं० 98, वर्तु मेन रोड, बैंगलोर पूर्व, बैंगलोर-560087 कर्नाटक।
1634	नारायणी सेना	निवास-ग्राम, पोस्ट-मालीपुर, जिला-अन्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश ।
1635	नारी पंचायत पार्टी	प्लाट नंबर-79, पॉकेट-4, सेक्टर-23बी, द्वारका, नई दिल्ली-110 077
1636	नर्मदाखण्ड नवनिर्माण सेना	मकान नंबर 20, गांव-लाखी, पोस्ट-छांटा, तहसील और जिला-डिंडीरी, मध्य प्रदेश-481880
1637	नशा मुक्त भारत पार्टी	तेजस्वी हाउस, विवेक विहार कॉलोनी, फरुखाबाद रोड, नई मंडी, इटावा, उत्तर प्रदेश- 206001
1638	नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी	हाउस नं. 99, वार्ड नं. 39, गंगोत्री, गंगा विहार, आर.पी.एस. रोड, दानापुर, जिला-पटना, बिहार- 801503
1639	नेशनल अधिकार इंसाफ पार्टी	मकान नं. - 230, गली नं०- 7, एस० ए० एस० नगर, अमोहर रोड, श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब
1640	नेशनल अमन पार्टी	मो०- पंजाबियान, नगीना, जिला - बिजनौर, उत्तर प्रदेश - 246762
1641	नेशनल अपनी पार्टी	डी-1, 242/9, मेन सर्कुलर रोड, सोनिया विहार, दिल्ली - 110094
1642	नेशनल आवासी यूनाइटेड पार्टी	मकान नं. - 62, प्रियदर्शनी लेन, पाटा बोहड़ी, जम्मू एवं कश्मीर- 180002
1643	नेशनल बैकवर्ड (मूल), दलित, माइनॉरिटीज क्रांति दल	1st ई-17, जय नारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर, राजस्थान - 334003
1644	नेशनल ब्रह्मचर मुक्त पार्टी	576/2, पंजाबियान-5, खुर्जा, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश- 203131
1645	नेशनल ब्लैक पैन्थर पार्टी	दुधन क्र.1, हिल पार्क, तिरुपति अपार्ट., कोकणीपाडा, कुरार गांव, मुम्बई, महाराष्ट्र - 400097
1646	नेशनल कन्फेडरसी ऑफ इंडिया	63, साउथर्न एवेन्यू, फ्लैट नं०-9, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700029
1647	नेशनल दलित दल पार्टी	7/398-8, बालिजापल्ली (एचसी), रेवेन्यू वार्ड नं. 7, मनौर (एसओ), सजामपेट मण्डल, कडपा - जिला, आन्ध्र प्रदेश- 516126
1648	नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट	जंग बहादुर यादव का मकान, गांव - मौलानीपुर बाजार, पोस्ट - तरवाँ, तहसील - लालगंज, जिला - आजमगढ़, उत्तर प्रदेश ।
1649	नेशनल डेमोक्रेटिक मिशन	सी-63, प्रताप नगर, हरि नगर, नई दिल्ली- 110064
1650	नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी	सेन्ट्रल ऑफिस-चंगानाचेरी-2 कोट्टायम जिला, (केरल) ।
1651	नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी (भारतीय)	83, मुहल्ला- उस्ताद, जम्मू, जम्मूलोचन कम्यूनिटी हॉल के निकट, जम्मू एण्ड कश्मीर- 180001
1652	नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी (सेक्युलर)	टीसी 28/1628, पुल्लामाडॉम कम्पाउन्ड, श्रीकण्ठेश्वरम, तिरुवन्नतपुरम, केरल- 695023
1653	नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ साउथ इंडिया	21/7, नवीन फ्लैट्स, मीनाक्षी स्ट्रीट, पेराम्बुर, चेन्नई तमिलनाडु- 600011
1654	नेशनल डेमोक्रेटिक पीपुल्स फ्रंट	सी-4डी, 42बी, जनकपुरी, नई दिल्ली ।
1655	नेशनल डेवलपमेन्ट पार्टी	हाउस नं०-ए-8-2, मुल्लानी कॉलोनी, बीदर-585 401, कर्नाटक ।
1656	नेशनल इक्चल पार्टी	एस एच 15/83, 3डी, विवेकपुरम भरलाई, शिवपुर वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221003.

1657	नेशनल एक्स सर्विसमैन पार्टी	ए-4, विश्वा प्रइज अपार्टमेंट, नुक्कमलयम मैन रोड, पेन्न्बक्कम, चेन्नई-600100
1658	नेशनल फेडरल पार्टी	म. नं० 80/3ए. ग्राउंड फ्लोर, वसंत गाँव, वसंत विहार, नई दिल्ली - 110057
1659	नेशनल फिफ्टी फिफ्टी फ्रंट	भकान संख्या- 77, गार्डन सिटी कॉलोनी, पोस्ट- शहामात गंज, जिला- बरेली, उत्तर प्रदेश- 243005
1660	नेशनल फ्यूचर पार्टी	देवरिया हाउस, जी.पी.ओ. के पीछे पुरानी मण्डी, अजमेर, राजस्थान।
1661	नेशनल इंकलाब पार्टी	E1/576, गली नंबर-12, (मजार के पास), 33 फूटा रोड, नेहरू विहार, मुस्तफाबाद, दिल्ली- 110094.
1662	नेशनल जागरण पार्टी	भकान संख्या-14, मौंटेसरी स्कूल लेन, निकट वाले मारुति ओटो मोबाईल्स, बोरिंग रोड, पटना, बिहार-800001.
1663	नेशनल जन दल	एच.नं. 1/19, हौसिलनगर, एम.एच. कुदूसी, थाना-कोतवाली नगर, फैजाबाद, जिला- फैजाबाद, उत्तर प्रदेश-224001
1664	नेशनल जनहित कांग्रेस (ए बी)	043ए/ 5 प्यारे लाल बिल्डिंग, सरकारी कालेज के पास, महारौली रोड, गुडगांव, हरियाणा ।
1665	नेशनल जनमंडल पार्टी	प्लॉट नं०-एफ-2, (फर्स्ट फ्लोर) प्लॉट नं० 105-106, अलकापुरी योजना, गाँव निवारु, निवारु रोड, जयपुर, राजस्थान-302012
1666	नेशनल जनसत्ता पार्टी	तेजाजी चैच्या वाली ढाणी मु० पो०-खोरी, तहसील-शाहपुरा, जिला-जयपुर-303103 राजस्थान ।
1667	नेशनल जनता पार्टी (इंडियन)	प्लॉट नं०-385, खाता नं०- 105, ग्राम - मोहम्मदपुर हरी, पोस्ट व थाना - भगवानपुर, जिला - वैशाली, बिहार - 844114
1668	नेशनल लेबर पार्टी	डी-22, ऑफिस नं० 11, डी-ब्लॉक, पांडव नगर, दिल्ली-110092 ।
1669	नेशनल लोकमत पार्टी	ग्राम - जिसौरी, डाकखाना - मुंडाली, जिला - मेरठ, उत्तर प्रदेश।
1670	नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी	46, गुलिस्ता कॉलोनी, लखनऊ-226001, (उत्तर प्रदेश)।
1671	नेशनल महा सभा पार्टी	माँ कृपा, अमरटीप सोसाइटी, अंबिका चौक, दीसा, बनावसकांठा - 385535, गुजरात.
1672	नेशनल नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	596-ई-डी/एस, आजाद कुटिया, वारा-2, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश - 208027
1673	नेशनल नव क्रान्ति पार्टी	डी. नं० - 1-236, गाँव - गंगावरम, मंडल - गुरजाल, जिला - गुदर, आन्ध्र प्रदेश- 522415 ।
1674	नेशनल ऑरगनाइजेशन काँग्रेस	नं० 1, जीवनानन्दम, सलिया, के. के. नगर, चेन्नई-6000 78, (तमिलनाडु) ।
1675	नेशनल पार्टी	रुदेन बंदोयू-202524, (उत्तर प्रदेश) ।
1676	नेशनल पीस पार्टी सेक्यूलर	रसूलपुर ब्युर, पोस्ट अवधन, तहसील चायल, जनपद-कौशांबी, -उत्तर प्रदेश -212218
1677	नेशनल पीपुल्स काँग्रेस	भकान नं. 3-6-200, फ्लैट नं. 105, अरुणोदया अपार्टमेंट, स्ट्रीट नं. 15, हिमायतनगर, हैदराबाद- 500029 आन्ध्र प्रदेश
1678	नेशनल प्रजा शक्ति (जनता) पार्टी	म.न.16-1-159, चिन्तादरपल्ली (वी), हलवाडा (एम), महबूबनगर (जिला) तेलंगाना राज्य, पिन-509334
1679	नेशनल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया	एन-51/1, फ्लैट नं. 2, अपर ग्राउंड फ्लोर, राजपुर खुर्द, हरगोविन्द एन्कलेव, तहसील- हौज खास मेहरौली, नई दिल्ली- 110068
1680	नेशनल रिपब्लिकन काँग्रेस	होलिडिंग नं. 223, हाउस नं. 6, वार्ड नं. 26, प्रगति पथ पर 'स्थित, राजधानी मस्जिद के पास, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006.
1681	नेशनल समाजवादी काँग्रेस	नं.42, नायडू लेआउट, कुवेम्पु नगर, बैंगलोर, कर्नाटक-560014
1682	नेशनल सेक्यूलर कांफ्रेंस	एम०आई०एस०एफ०ए, कोटुवली (पी० ओ०), कोट्टिकोड डी टी., केरल-673572.
1683	नेशनल सोशलिस्ट पार्टी (युनाइटेड)	फ्लैट नं. 6, पथम तल, साई कृपा हाउसिंग सोसाइटी, 45/6, हॉस्पिटल कॉलोनी, तातेगांव, डभडे, तालुका- मायल, जिला- पुणे, महाराष्ट्र- 410507
1684	नेशनल टार्गेट पार्टी	नं. 158/ए, तेहखण्ड ओखला फेज-1, नई दिल्ली-110020.

1685	नेशनल टाइगर पार्टी	सेन्ट्रल हेड आफिस-सरोजनगर, पोस्ट आफिस-कातगीगंज, वाया/थाना-कहलगांव, जिला-भागलपुर, बिहार- 812303.
1686	नेशनल युनियनिस्ट जमींदार पार्टी	129, नई धान मण्डी, श्रीगंगानगर, राजस्थान-335001
1687	नेशनल योमेन्स पार्टी	एच.नं.2-247, श्री साई नगर, (वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल के पास), जीलेगूडा सरर नगर, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500097
1688	नेशनल वर्ल्ड लीडर पार्टी	दूसरी मंजिल, एटीएम के सामने, नयी माग, बेरासिया रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश - 462038.
1689	नेशनल वर्ल्ड लाईफ पंचतत्व पार्टी	पाटीदार कौलानी, भीलखेड़ी रोड, शुजालपुर मंडी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश ।
1690	नेशनल यूथ पार्टी	फ्लैट नं० ए-202, यूरो अपार्टमेन्ट, सैक्टर-5, राजेन्द्र नगर, गाजियाबाद, (उत्तर प्रदेश) ।
1691	नेशनलिस्ट चेरिटी काँग्रेस	बिशोप होटल, गाम्बियल कम्पाउन्ड, पाताविलाई थकाले-629175, जिला-कन्याकुमारी, तामिलनाडु ।
1692	नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया	जागो बिस्या, होल्डिंग नं. -4719, ग्राम- हल्गाचा, डाकघर- बानीपुर, थाना संकरैल, जिला-हावड़ा, पिन-711304
1693	नेशनलिस्ट जनशक्ति पार्टी	अमिनव निवास, रापतपुर, बेलघाट, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश - 273404 ।
1694	नेशनलिस्ट जस्टिस पार्टी	नं. 1525/1, गली नं. 33, प्रीत नगर, न्यू शिमला पुरी, लुधियाना, पंजाब- 141003
1695	नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रन्ट	एस-8, दिव्या मॉल, टॉक राड, लाल कोठी, जयपुर (राजस्थान) ।
1696	नेशनलिस्ट पावर पार्टी	एल. -1 1100/2, गली नं० 25, संगम विहार, नई दिल्ली- 110062.
1697	नेशनलिस्ट तृणमूल कांग्रेस पार्टी	ए9/124, कल्याणी थाना तथा पोस्ट ऑफिस-कल्याणी, जिला-नाडिया, पश्चिम बंगाल- 741235.
1698	नेचर मेनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी	वाई नं. 1, कथुआ (जम्मू और कश्मीर) ।
1699	नव भारत डेमोक्रेटिक पार्टी	चिरावाल एवं एसोसिएट, एफ 6/35, यूनाईटेड अपार्टमेन्ट्स, ईस्ट स्ट्रीट, पुणे- 411001 महाराष्ट्र ।
1700	नव भारत जागरण पार्टी	गोलेच्छा बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन के सामने, फलींदी, जिला-ओधपुर, राजस्थान- 342301
1701	नव भारत राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी	बी- 100, न्यू अशोक नगर, नई दिल्ली- 110096
1702	नव चेतना पार्टी	मोहल्ला - जगतनगर, कस्बा व पोस्ट - भोगाँय, जिला - मेनपुरी, उत्तर प्रदेश - 205262 ।
1703	नव हिन्द पार्टी	130, गाँव-दरबारपुर, पोस्ट-अजरका, तहसील-मुंडावर, अलवर, राजस्थान-301401
1704	नव जनक्रान्ति पार्टी	बी - 11/42, अहता रोहिला, गौरीगंज, वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221001
1705	नव भारत नेशनल पार्टी	सर्व सं०-627, भैरव गुट्टा, ग्राम-रवाल्कोले, मंडल-मेदचल, जिला-रंगा रेड्डी, आन्ध्र प्रदेश ।
1706	नव प्रजा राज्यम पार्टी	पुराना म० नं० 10-30 नया म० नं० 11-54, हरिजन-बाड़ा (पी व एम) थूतनूर, जिला - आदिलाबाद, आन्ध्र प्रदेश - 504311
1707	नवा समाज पार्टी	मकान नं. 5-7, बुद्धाराम ग्राम, गोपालपेटा मण्डल, वनापथी जिला, तेलंगाना स्टेट।
1708	नवा सोशलिज्म पार्टी	डोर नं० 18-6-35बी, फेस्ट फ्लोर, सुन्दरैय नगर, तिरुपति आंध्र प्रदेश-517501
1709	नवभारत सेना	नंबर 14/15, चामुंडेश्वरी बिल्डिंग, तीसरा क्रॉस, चौथा मेन रोड, चमराजपेट, बेंगलुरु, कर्नाटक-560018
1710	नवम दिशा दल	4/684, विभव खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010
1711	नवरंग कांग्रेस पार्टी	डी.सं. 866/1, पेडवडलापुडी गाँव, मंगलगिरी मंडल, गुंटूर जिला, आन्ध्र प्रदेश- 522302
1712	नवतारम पार्टी	डोर नं० 26-37, सुब्बायाथोटा, चिलकलुरीपेट, जिला - गुंटूर, आंध्र प्रदेश - 522616

1713	नवयहुजन समाजपरिवर्तन पार्टी	185, सह्याद्रीनगर, जी - वाई, लोनावला, तहसील - मावल, जिला - पुणे, महाराष्ट्र - 410401
1714	नवभारत एकता दल	धीमान भवन, नगरोटा सूरियां, तहसील- ज्याली, जिला- कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश- 176027
1715	नवभारत पार्टी	538क/409आदर्शपुरम, त्रिवेनीनगर-3, लखनऊ, उत्तर प्रदेश -226020
1716	नवभारत समाज पार्टी	ग्राम-परसपुर, पो.-बुद्धनपुर, थाना-भुदकुकुडा, तहसील-जखनिया, जिला-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, भारत, पिन कोड-275203
1717	नवीन समाजवादी दल	133/4सी/1सी, तेलियरगंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1718	नवीन भारत निर्माण मंच	पीपलवाडी खाड़की, गांव व डाकघर-कसोर जिला-आनंद, गुजरात ।
1719	नवजयान संघर्ष मोर्चा	डी/711, टाउनशिप, भवनाथपुर, गढ़वा, झारखण्ड-822112
1720	नवलोक समाज पार्टी	24वी, रेणुका बाग, नयी अवधेशपुरी कर्मयोगी, आगरा, उत्तर प्रदेश- 282010.
1721	नवनिर्माण पार्टी	प्लॉट नं. 1588-पी, सेक्टर- 5, अर्बन एस्टेट, तहसील- थानेसर, केडीबी रोड, जिला- कुरुक्षेत्र, हरियाणा- 136118
1722	नवोदय जनतांत्रिक पार्टी	खसरा नंबर 31/23 और 49/3/81, गुप्ता निवास, गली नंबर-45, बी-ब्लॉक, कौशिक एन्क्लेव, पुरारिक, दिल्ली-110084
1723	नवोदयम पार्टी	डी० नं० 4-96/2, राम मन्दिर के पास, नल्लाकावरी स्ट्रीट, इटुकरु गाँव, गुन्दुर रुल मण्डल, जिला-गुन्दुर आन्ध्र प्रदेश ।
1724	नवसर्जन भारत पार्टी	मकान सं.- 492, फलफलिया, कृष्णा पेट्रोल पंप के सामने, वाघधरा रोड, दादरा, दादरा एवं नागर हवेली- 396193
1725	नवयुग निर्माण पार्टी	सी - 2, रूम नं० 401, शगुन रेसिडेंसी, माछावंशी फलिया, दादरा, दादरा नगर हवेली- 396193
1726	नवयुग पार्टी	1-शाउंड फ्लोर, बेगमपुर, मालवीय नगर नई दिल्ली-110017
1727	नवयुग प्रगतिशील मोर्चा	आदर्श नगर, पोस्ट-पाकुड़, जिला-पाकुड़, झारखण्ड-816107
1728	नवयुवक आत्मनिर्भर पार्टी	एट-सी/ओ बयीता कंवर, 213 रेलवे ऑफिसर्स कॉलोनी, विपरित कनकपुरा, जयपुर, राजस्थान- 302012
1729	नवा पंजाब पार्टी	52-ई, हीरा नगर, पटियाला, पंजाब- 147001
1730	नया भारत पार्टी	8- बापु सच्ची मण्डी, नगर पालिका रोड, सुमेरपुर, राजस्थान - 306902
1731	नया दौर पार्टी	ए-406 डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024
1732	नया सवेरा पार्टी	प्लॉच नं.0 जे-2-530/8, जे-2 ब्लॉक, गुप्ता कॉलोनी, संगम विहार, नई दिल्ली- 110062.
1733	नौथी निजयथी पार्टी	डोर नं० 36-178ए, पदमावति नगर, कल्याणापूरम, नारायणावतम मंडल, जिला- चित्तूर, आन्ध्र प्रदेश- 517581
1734	नेहरू जनहित कॉंग्रेस	सैनीपुरा मोहल्ला, वाद शाहपुर, तहसील व जिला-गुडगाँव, हरियाणा ।
1735	नेताजी आदर्श पार्टी	298, कुट्टीयानी, 28- थोडुपुड़ा, इडुक्की जिला, केरल- 685584
1736	नेताजी कॉंग्रेस सेना	रंगा प्लेस, शाउंड फ्लोर, एस.नं.48/2/10, वाघजल नगर, अम्बेगाँव खुर्द, फतराज- पो.ओ. पुणे-411046, महाराष्ट्र
1737	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राष्ट्रीय आजाद पार्टी	मो० गायत्री नगर, कस्बा व पोस्ट-बांदा, जिला-शाहजहाँपुर, पिन कोड-242402, उत्तर प्रदेश ।
1738	नेताजी मक्कल कद्विच	नंबर 6/33, रामकृष्ण गली, गांधी नगर, सलियामम्, चेन्नई, तमिलनाडु-600093
1739	न्यू भारतीय क्रान्ति पार्टी	ग्राम- सुंगुलपुर, पोस्ट व थाना- खेतासराय, तहसील-शाहगंज, जिला-जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222139.
1740	न्यू जनरेशन पीपल्स पार्टी	नं. 30-सी1, अंबु नगर, ईडरपलायम, पोस्ट. कोयम्बर, तमिलनाडु- 641025
1741	न्यू इण्डिया पार्टी	म० नं० 20-3-314, विधानगर गोदावरीखानी-505209, जिला-करीमनगर, (आन्ध्र प्रदेश) ।
1742	न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी	दुकान नंबर बी/6, उर्वी कॉम्प्लेक्स, नरोदा बेथक, नरोदा अहमदाबाद-382350, गुजरात
1743	न्यू लेबर पार्टी	रूम नं०. 8/249, पैरुम्बिल्लिशेरी, पी.ओ - चेपु, जिला - तृसूर, केरल- 680561.

1744	न्यू लाइफ पीपुल्स पार्टी	नं० 15/16, जूडी फ्लैट्स, नं० 13 रोसरी चर्च रोड, संथोम, चेन्नई-600004 तमिलनाडु ।
1745	न्यू मदर लैंड पार्टी	एफ-111, साउथ सिटी, रायबरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226025
1746	न्यू राष्ट्रीय समाज पार्टी	मकान नं. 167/2/5/एफ/4, पहली मंजिल, ब्रम्हानन्द नगर, ताडाली रोड, कामतधर, भिवंडी, जिला- ठाणे, महाराष्ट्र - 421305
1747	न्यु सोशलिस्ट मूवमेंट	104, महाराणा प्रताप कॉम्प्लेक्स, अपोजिट एल्लोसब्रिज पो० औ०-एल्लोसब्रिज, अहमदाबाद-380 006, गुजरात ।
1748	निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल	मकान नं. 105टी, मोहल्ला- जंगल सालिकराम, बाइपास रोड, संग्राम चौक, पादरी बाजार, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश- 273014
1749	निर्मल भारतीय पार्टी	27, सहजानन्द बंगलो, मोटेरा, अहमदाबाद, गुजरात- 380058
1750	निर्धन समाज पार्टी आफ इण्डिया	11 ए राजीव विहार (बन्दीबाबा मन्दिर के पास), मछरिया, नौबस्ता, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश - 208011 ।
1751	निर्जातिता समाज बिप्लबी पार्टी	गाँव-दुर्गापुर पो०-हरीताला (बगुला), पी०एस०-हंसखली जिला-नदिया-741502 पश्चिम बंगाल ।
1752	निर्मल इण्डिया पार्टी	सा० 6/8 एच -15, सत्संग नगर, बेनीपुर, पहाडिया, चारणसी - 221007 उत्तर प्रदेश
1753	निस्वार्थ सेवा राष्ट्र सेवा पार्टी	मकान नं. 56, इन्दलपुर, नैनी, पोस्ट- डन्डी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211008
1754	निज गोयन्कर रिवुलेशन फ्रंट	मकान नं. 9/222, पेट्रोंग, बायना वास्को-डा-गामा, गोवा ।
1755	नूरी पार्टी	102, कदोदरा-बरदोली रोड, सूरत, गुजरात ।
1756	नार्थ बंगाल पीपल्स पार्टी	ग्राम-रबिन्द्रापल्ली, पोस्ट-मोहनवती, थाना-रायगंज, जिला-उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल- 733134
1757	नार्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट पार्टी	सागोलबंड टेलाउकाकपाम लेइकाई, इम्फल पश्चिम, मणिपुर- 795001
1758	नार्थ ईस्ट सोशियल डेमोक्रेटिक पार्टी	मायली मावदतबाकी, डांग नांगपाथा, शिलोंग- 793008 जिला ईस्ट खासी हिल्स मेघालय ।
1759	न्याय पार्टी	नं. 319, स्वामीपाड़ा, बुढाना गेट, मेरठ सिटी, उत्तर प्रदेश-250002
1760	न्याय सत्ता पार्टी	ग्रांड फ्लोर, मकान नंबर 303, गली नंबर 12, चंदन विहार, वेस्ट संत नगर, बुराडी रोड, दिल्ली-110084
1761	न्यायधर्मसभा	प्रगति विहार, जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार, उत्तराखण्ड- 249408
1762	न्यायवादी जनता पार्टी	कंचनपुर चौराहा (बागी रोड), ग्राम सकरामउ, पोस्ट-मऊ आइमा, जिला-प्रयागराज, उत्तर प्रदेश-212507
1763	ओडिशा जन मोर्चा	प्लॉट सं० -17, ग्राम नखोर, डाकघर गोपीनाथपुर, जिला-खुर्द, भुवनेश्वर-751002, ओडिशा
1764	ओडिशा जनता पार्टी	एटी-छपरिया, पीओ-बगडा, पीस/जिला-कैदपाड़ा, भुवनेश्वर, ओडिशा-754212
1765	ओडिशा कल्याण पार्टी	प्लॉट नं. 44 (प्रथम मंजिल), सत्यनगर, पी.ओ.-सत्यनगर, थाना-खारवेल नगर, नगर-भुवनेश्वर, जिला-खुर्दा, ओडिशा-751007
1766	ओडिशा प्रगति दल	खतियान नं.- 99/180, प्लॉट नं.- 420/1360, बुनदामल, पोस्ट ऑफिस- बढमाल, थाना- कटरबाग तहसील- झारसुगुड़ा, जिला- झारसुगुड़ा, ओडिशा- 768202.
1767	ओडिशा प्रजा दल	नवीन भवन छडासिंह, पोस्ट-बडानागाना, वाया-अहिमागडी, जिला-देनकानल, ओडिशा- 759014
1768	ओजस्वी पार्टी	फ्लैट संख्या-38, प्लॉट संख्या-36, अंजता अपार्टमेंट, पटपड़गंज, दिल्ली-110092 ।
1769	वन इंडिया वन पीपल पार्टी	14/916, वडक्कनचेरी अंगडी, सीटि लाईट शोपिंग कॉम्प्लेक्स, सेकन्ड फ्लोर, वडक्कनचेरी, केरल-678683
1770	वन इंडिया वन पोलिसी पार्टी	अरक्कल टोंवर, क्रिस्टोफर नगर, ओल्लुर गांव, त्रिशूर तालुक, त्रिशूर जिला, केरल - 680306
1771	वन इंडिया पार्टी	डी-46 ए, कृष्ण विहार, दिल्ली- 110086
1772	ऑपेन पीपल्स पार्टी	पवार हाउस, साईबाबा मंदिर के पास, मंगल रघो नगर, टिसगाँव रोड, कल्याण (ई), जिला-ठाणे, महाराष्ट्र-421306
1773	उड़ीसा कम्युनिस्ट पार्टी	एम. एल. ए. कॉलोनी, यूनिट-4 भुवनेश्वर, (उड़ीसा) ।

1774	उडीसा सोशलिस्ट पार्टी	म्यूनिसिपल कम्पाउण्ड, चौधरी बाजार, कटक-753009 (उडीसा) ।
1775	आवर महात्मा नेशनल पार्टी	न. 62(द्वितीय तल), पिल्लैय्यर कोईल स्ट्रीट, कामराज स्ट्रीट, गांधीनगर, के. के. नगर पोस्ट, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु - 620021
1776	पचाई तमिझागम कोंची	12/143, इदिथाकरई, हरिजन कॉलोनी, विजयापति, राधापुरम(तालुक), तिरुनेलवेली (जिला), तमिलनाडु- 627104
1777	पच्चासी परिवर्तन समाज पार्टी	गाँव एवं पोस्ट-मोहरी खुर्द, मोहनलालगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226305
1778	पहाडी पार्टी	ग्राम-तल्ली बागी, पट्टी-सारज्यूला, पोस्ट-भागीरथपुरम, विकास खण्ड-चम्पा, जिला-टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड-249145
1779	पंच पार्टी	कैलाश चन्द्र मीना खोदकी धानी गांव, ग्राम व पोस्ट- रैसना, तहसील- नदोती, जिला- करूली, राजस्थान- 322215
1780	पंचपौनिया समाज पार्टी	गांव और पोस्ट -आँटा मुजीब नगर, वाई नंबर 8, पी0एस0- हाथीदा, जिला-पटना, बिहार- 803303
1781	पंथर्स रिपब्लिकन पार्टी	'आनंदवन', महात्मा फुले नगर, पीर बाजार, उस्मानपुरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र-431005
1782	पारडाइज पार्टी	कविता अपार्टमेंट, श्रीनिकेतन रोड, पोस्ट-बोलपुर, जिला-बीरभूम, पश्चिम बंगाल- 731204
1783	परम दिग्विजय दल	मकान नं० - 7/297/7, विकास नगर, सेक्टर-7, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
1784	पर्यतीय प्रजातांत्रिक पार्टी	39/ए, लेबॉग कार्ट रोड, नियर माहेश्वरी पेट्रोल पम्प, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल- 734301.
1785	परचम पार्टी ऑफ इण्डिया	1-रहमत बानो मार्केट, मेडिकल कॉलेज रोड, सिविल लाइन्स, अलीगढ़-202002, उत्तर प्रदेश ।
1786	परिसरा बंधु पार्टी	नम्बर 281, जनानी, बी.सी.सी. लेआऊट दुसरा स्टेज बस स्टैंड के सामने, विजयनगर, बेंगलूरु, कर्नाटक-560040
1787	परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया	मोनु रावत, पोहरी बाईपास, इंटरसिटी बस वालों के पीछे वाली गली, राजपुरा, सर्कुलर रोड सर्किट हाउसिंग तिराहा, तहसील व जिला- शिवपुरी, मध्य प्रदेश- 473551
1788	परिवर्तन राजनीती पार्टी	डी-41/28/जी. एफ. गली नम्बर-2, डी-ब्लाक, ईस्ट विनोद नगर वाई मयूर विहार फेज-2, दिल्ली-110091
1789	परिवर्तन समाज पार्टी	गंडे वाली सड़क, लश्कर, ग्वालियर-474001, (मध्य प्रदेश) ।
1790	पार्टी फार डेमोक्रेटिक सोशलिज्म	183, जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068, (पश्चिम बंगाल)।
1791	पश्चिम बंगा राज्य मुस्लिम लीग	129, कोल्लिन स्ट्रीट कोलकाता-700016, (पश्चिम बंगाल)
1792	पश्चिमांचल विकास पार्टी	क्वार्टर नं० 10 ई, सेंट जोसेफ स्कूल के सामने, साखीपारा, जिला-सम्बलपुर, उडीसा- 768001
1793	पश्चिमांचल निर्माण पार्टी	श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, द्वारकाधाम शहर के पीछे, ग्राम - शिवया जनपद मेरठ, जिला - मेरठ, यू.पी. -250110
1794	पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास पार्टी	म० सं० - 1, कसाना निवास, ग्राम - मोरना, सेक्टर - 35, नोएडा, जिला - गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश - 201308
1795	पाशुमपोन मक्कल कडगम	नं० - 102, एल. बी. रोड, अड्डयार, चेन्नई, तमिलनाडु- 600020.
1796	पथिक जनशक्ति पार्टी	सी/ओ राजकुमार, पी.ओ. - सिधानी, तहसील-टोहाना, जिला-फतेहाबाद, हरियाणा-125133
1797	पथिक स्वराज पार्टी	सी/30 रविन्दर सिंह देवधर, पुत्र श. बलवीर सिंह देवधर, गांव और पोस्ट-बिहटा, सील-अंवाला कैंट. जिला-अंवाला, हरियाणा-133101
1798	पट्टरी व्यापारी पार्टी	गोडा-गोरखपुर, सेक्टर-22, भूखंड संख्या सी-5/23, गोडा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273209.
1799	पैट्रियाटिक पार्टी ऑफ इण्डिया	4/28 विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010, उत्तर प्रदेश।
1800	पट्टालि मक्कल कोंची	नंबर 10, तिलक स्ट्रीट, टी. नगर, चेन्नई-17

1801	पीएस अण्ड फ्रिडम पार्टी	सीटीएस नंबर 5214, फ्लॉट नंबर 180, नगर परिषद कॉलोनी, कोथलज रोड, परिवल मॉलजवळ, महाराष्ट्र - 431124
1802	पीस पार्टी	जोहरा काम्पलेक्स, बड़हलगंज, पी०- बड़हलगंज, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
1803	पीजेन्ट्स एण्ड वर्क्स पार्टी ऑफ इण्डिया	हरि खारडे नियास, महात्मा फुले रोड, नयगांव दादर, मुम्बई (महाराष्ट्र)।
1804	पैदल पार्टी	डी नं० 18-131 (ए), ग्राम - कादुरि चारी पालेम, पोदिलि मंडल, जिला - प्रकाशम, आन्ध्र प्रदेश - 523240
1805	पेडारीकम निरुमुलना पार्टी	डी. नं० 66-1-3/ए. एस. अचूथापुरम, काकीनाडा-533004, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश।
1806	पहचान पीपल्स पार्टी	हनीफ मंजिल, चंदन चौक, रानी खेड़ा दरवाजा, निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ़ राजस्थान-312601
1807	पीपुल लिबरेशन पार्टी	4/611, पुष्पजंथी रोड, चौथा ब्लॉक, मोगापीर ईस्ट, चेन्नई, तमिलनाडु - 600037
1808	पीपल प्रोटेक्शन पार्टी	डी.न. 7-97/2, श्रीनगर कॉलोनी, सन रेज स्कूल, पसुममुला रोड, कुंतलूर, हयातनगर, रंगारेड्डी जिला तेलंगाना - 501505
1809	पीपुल्स एक्शन पार्टी	363, वैनागढ़, प्रेम नगर, झांसी, उत्तर प्रदेश-284003।
1810	पीपल्स जस्टिस पार्टी	मकान संख्या 120/209, (120/096बी), वार्ड - हजरतगंज, रामतीरथ, बेलदारितेन, लोकभवन के पीछे, तालबांग, लखनऊ उत्तर प्रदेश- 226001.
1811	पीपल्स लिबरल पार्टी	104/01, ग्राम गंगाणा, ग्राम पंचायत बोरानाडा, तहसील - लूणी, जिला - जोधपुर, राजस्थान - 342012
1812	पीपुल्स पार्टी	ए-23, सुभाष नगर, रुड़की, जिला- हरिद्वार, उत्तराखण्ड
1813	पीपल्स पार्टी ऑफ लिबर्टी	ए.पी 12/129, एम.एम.भवन, मदाधिलचीरा, अनंद - पी.ओ. नेदुमंगाडु, तिरुवन्नतपुरम, केरल - 690521
1814	पीपल्स पार्टी ऑफ इण्डिया (सेक्यूलर)	डुप्लेक्स-38, सलेथ्री बिहार, चन्द्रशेखरपुर, भुवनेश्वर-751021, उड़ीसा।
1815	पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब	7112, वार्ड नं० 2, मलोट रोड, गीतदरबाहा (मुक्तासर), पंजाब-152101.
1816	पीपल्स युनियन पार्टी	धर्मावत हाउस, हाउस नं. 1015, शुक्तावर पेठ, तिलक रोड, सवरगेट, पुणे-411002, महाराष्ट्र
1817	पीपुल्स डेमोक्रेटिक अनाइन्स	रागैलांग, इम्फाल-795001, मणिपुर
1818	पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी	मास बिल्डिंग, अरनाकुलम उत्तर, पी०-कोचीन-18, (केरल)।
1819	पीपुल्स ग्रीन पार्टी	19सी/1, जीवन ज्योति अपार्टमेंट्स, वार्ड नं० 1, महरीली, नई दिल्ली-110030।
1820	पीपुल्स गार्जियन	डी-302, ब्लू हिन्स, नगर रोड, पुणे (महाराष्ट्र) - 411006
1821	पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)	111, आस्था कॉम्प्लेक्स, दहेज बाईपास रोड, नंदेयाल, तालुका एवं जिला- अरुच, गुजरात- 392001
1822	पीपल्स रिप्रेजेंटेशन फॉर आईडेंटिटी एंड स्टेटस ऑफ मिजोरम (प्रिजम) पार्टी	16-अपर रिपब्लिक, आइजोल, मिजोरम- 796001
1823	पीपुल्स रिपब्लिकन पार्टी	साप्ताहिक जयश्रीम, आनंद टाकिज के सामने, सीताबादी, नागपुर-440012 (महाराष्ट्र)।
1824	पीपुल्स रिसर्जन्स एंड जस्टिस अलायन्स	मकान नं. 156, खोमद्रम सेलुन्गबम लेयकई, थांगमेईबंद, पी.ओ./पी.एस-लांफेल, इम्फाल वेस्ट, मणिपुर- 795004
1825	पीपुल्स रूलिंग पार्टी	फ्लॉट नं०-74, गांधी नगर, चकाली गुन्टा, एटुकुरु रोड, कम्मा सैशशाह ग्राउण्ड, रेवेन्यु वार्ड-32, गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश-522003
1826	पेरियार अम्बेडकर मुनेत्र कडगम (पी.ए.एम्.के.)	एमआईजी नंबर-8, डॉ. बी.आर.अम्बेडकर हाउस, टीएनएचबी, बरगुर, पी.आर और तालुक, कृष्णागिरी जिला, तमिल नाडु-635104
1827	पेरुन्थात्ताईवर मक्कल कोची	एन आर डी टॉवरस, प्रथम एवेन्यू, अशोक नगर, चेन्नई-600083 तमिलनाडु।
1828	फूलन जनता पार्टी	ग्राम- मोहम्मदपुर कंध, पोस्ट - इमलो, विकास खण्ड धर्मापुर, तहसील - सदर, जिला - जौनपुर, उत्तर प्रदेश - 222180

1829	फूले भारती लोक पार्टी	मेन गुरुद्वारा रोड, बाबा बकाला, जिला-अमृतसर, पंजाब-143201.
1830	पिछडा सामान्य अल्पसंख्यक व्यापारी किसान पार्टी	मकान नं. 402 ख, नगला खंदारी, अलीपुर पट्टी, थाना च तहसील- भोगाँव, जिला-मैनपुरी, उत्तर प्रदेश ।
1831	पिछडा समाज पार्टी यूनाईटेड	मदरिया काम्पलेक्स, मुक्त नगर, पुलगाँव रोड, पटनाभपुर, दुर्ग, छतीसगढ़ -491001
1832	पिछडा समाज पार्टी	मोहल्ला जती, नगीना, जिला-बिजनौर, उत्तर प्रदेश ।
1833	पिछडावर्ग महापंचायत पार्टी	मो. जामालपुर, (करहौ रोड), पोस्ट- मोहम्मदाबाद मोहना, जिला- मऊ, उत्तर प्रदेश- 276403
1834	पॉलिटिकल ऐसशियल और ऐक्यूरेट कौंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स पार्टी	डोर नं0 24-21, वैस्या स्ट्रीट, पाँच रोड जंक्शन, अमेरिकन हॉस्पिटल रोड, नरसीपट्टनम, जिला - बिजाग, आन्ध्र प्रदेश - 531116
1835	पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी	म. न.796, जौ-3, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-1, साहिबाबाद, थाना साहिबाबाद, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश- 201005
1836	पॉलिटिकल शोषित मानवतावादी नेशनल दल	4-सी, ए.आई. अपार्टमेंट, वजीरहसन रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001
1837	पॉलिटिकल टीम इंडिया	मकान नं.182, असल कोर्टयाड, दहतोरा शास्त्रीपुरम, आगरा, उत्तर प्रदेश- 282007
1838	पॉन्डिचेरी पीपुल्स राइट्स पार्टी	#1, सुब्रमनियर कोइल स्ट्रीट, कुवायारपालयम, पंडीचेरी-605013
1839	प्रबिहा लोग पार्टी	ग्राम-पिपरा तिवारी, पोस्ट-सखवनिया, जिला-खुशीनगर, उत्तर प्रदेश-274402
1840	पूर्ण स्वराज मंच	मकान नं. 1/328, ग्वाल टोली, फतेहगढ़, जिला- फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश- 209601
1841	पूर्व सैनिक आल इंडिया दलित एंव निर्बल वर्ग विकास पार्टी	प्लॉट संख्या-96, ग्राम हांसा पुर निकट झुनझुनवाला डिग्री कॉलेज, द्वारिकापुरी, डाभासेमर, जनपद अयोध्या, उत्तर प्रदेश-224001
1842	पूर्वांचल पीपुल्स पार्टी	12/391, गली नं0 - 12, ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
1843	पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस	प्लॉट नं0 157-158, पॉकेट ई-20, सैक्टर-3, प्रथम तल, रोहणी, दिल्ली-110085.
1844	पूर्वांचल शोषित समाज अपना दल पार्टी	मकान न: 739, देवरिया खास, ओल्ड वाई न: 6, न्यू वाई न: 11/749, सी.सी. रोड, हनुमान मंदिर की पश्चिमी और भगवान चौराहा की पश्चिमी और, पोस्ट & तहसील- देवरिया, जिला-देवरिया, उत्तर प्रदेश-274001
1845	पोदुवुडमै कटचि	नंबर 1259, पैरुमाल कोविल स्ट्रीट, कृष्णापुरम, कांडिगै, कन्तिगैपेर पोस्ट, उथुकोट्टई तालुका, तिरुवल्लुर जिला, तमिलनाडु - 601102
1846	प्रबल भारत पार्टी	ग्राम- अण्डहरा, पोस्ट+थाना- परसौनी, जिला-सीतामढ़ी, बिहार- 843325
1847	प्रबुद्ध भारत प्रजासत्तक पार्टी	ए/101, पंचशील नगर, सेवा संघ नं0 - 3, नियर अनिक डिपोट, सायन(पूर्व), मुम्बई, महाराष्ट्र - 400022 ।
1848	प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी	एम0डी0-26-17/6, एस0आर0टी0आर0एम0सी0एच0 चेन्नई रोड, अम्ब्याजोगई, जिला-वीड-431517, महाराष्ट्र ।
1849	प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा	मकान नं. - 130ए/3ए, तेलियरगंज, भूसावाली गली, पोस्ट - तेलियरगंज, जिला - प्रयागराज, यू.पी. - 211004
1850	प्रगतिशील जनता अधिकार पार्टी	4 - का.गांव और पोस्ट - भुवल चक, पी.एस. - जमानिया, जिला - गाजीपुर, उत्तर प्रदेश - 232336.
1851	प्रगतिशील जनता पार्टी	वजरंग विहार कॉलोनी, दीघा आशियाना रोड, थाना-राजीव नगर, पोस्ट-आशियाना नगर, पटना-800025, बिहार
1852	प्रगतिशील नेयर पार्टी	एस. 21/127-के, सुभाषनगर कॉलोनी, मलदहिया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221002
1853	प्रगतिशील लोक मंच	ईश्वर सदन, सोनकर फार्म, धौलाखेडा, पो0 ओ0 - अर्जुनपुर (हनुमन्ती), जिला - तैनीताल, उत्तराखण्ड ।
1854	प्रगतिशील मगही समाज	मकान नं0-605/334, वाई नं0-44, मोहल्ला-माइनपुर (अक्षयवट), थाना-सिविल लाईन्स, जिला -गया, बिहार।
1855	प्रगतिशील मानव समाज पार्टी	गांव-वारी (नईपुरवा) पो0 दशरथपुर-221304, जिला-भदोही, (उत्तर प्रदेश) ।

1856	प्रगतिशील समाज पार्टी	58/12/1 डी, नवादा, सरकुलर, रोड, राजापुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1857	प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया)	सीपी- 1, चिह्नान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010.
1858	प्रहर जनशक्ती पक्ष	मकान सं.- 1634, ग्रामपंचायत- बेलोरा, तहसील- चांदुरबाजार, जिला- अमरावती, महाराष्ट्र- 444704
1859	प्रजा अधिकार पार्टी	डोर नं. 4-107-1, एस. सी. कॉलोनी, पंचलिंगाला ग्राम, कर्नूल मण्डल, कर्नूल जिला, आन्ध्र प्रदेश-518004
1860	प्रजा कांग्रेस पार्टी	डी-6/6154/6, वसंत कुंज, नई दिल्ली - 110070
1861	प्रजा एकता पार्टी	मकान नं. 15-9-86 से 88, श्रीनिवासा निलयम, महाराजगंज, लोकालिटी-गौलीगुडा घमन, जिला-हैदराबाद, तेलंगाना - 500012
1862	प्रजा क्रिपा पार्टी	शॉप नम्बर -2, हरी ओम अपार्टमेंट, ब्लॉक सी-33/124-125, ओपीपी चोपडा वोट, उल्हासमगर महाराष्ट्र-21003
1863	प्रजा पालना पार्टी	मकान सं. 64-डी-8ए/1, ट्रेजरी कॉलोनी, काकीनाडा, ईस्ट गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश- 533004
1864	प्रजा परिवर्तन पार्टी	नं. 9/228, पहला मैन, तीसरा क्रॉस, (जयभीम पेट्रोल बंक के पीछे) ननजप्पा लेआउट, अनेकल टाऊन, बैंगलोर शहरी जिला, कर्नाटक- 562106
1865	प्रजा प्रस्थानम पार्टी	श्री बालाजी रेजिडेंसी, डोर नं. 1-116-3, प्लॉट नं. एमआईजी-48/12, जीएफ-1, एमवीपी कॉलोनी, विशाखापट्टणम-530017.
1866	प्रजा राज पार्टी	287/264/1, मेरठ बुलन्दशहर रोड, हापुड - 245101 उत्तर प्रदेश ।
1867	प्रजा सत्ता पार्टी	1-91/24, राघवेन्द्रा नगर, पार्वतापुर (ग्राम), ग्रा.पं. - घटकेसर मण्डल, रंगारेड्डी जिला, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500098
1868	प्रजा सेना पार्टी	एच. नंबर 4-3-167 गजुलपेट, मंटपल्ली टाउन और मंडल, जिला- जगितल, तेलंगाना- 505325
1869	प्रजा सेवा अंकित पार्टी	2-2-16ए/1, आरटीसी कॉम्प्लेक्स के बगल में, पीठापुरम, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश-533450
1870	प्रजा सेवा पार्टी	डी.नं. 3-1सी, रामचन्द्रापुरम ग्राम, ताडा (पी), साथयायेदु (एम), चित्तूर-जिला, आन्ध्र प्रदेश- 524401
1871	प्रजा शक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी	सर्वे नं.-1073, वसंत वाडगो, निकट के-7 सकिल, गाँधीनगर, रंधेजा रोड, गाँधीनगर, गुजरात- 382026
1872	प्रजा शान्ति पार्टी	382, अपराजिता कॉलोनी, अमीरपेट, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।
1873	प्रजा वेलुगु पार्टी	म.नंबर 5-21, पुल्नामिडी (विलेज), नवाबपेट, विकाराबाद जिला, तेलंगाना-501111
1874	प्रजा विजय पक्ष	प्रथम माला, एच एच आई-08, अमीनव एवेन्यु, झाडेथर चौक डी. झाडेथर, तहसील भरुच, जिला-भरुच, गुजरात-392011
1875	प्रजा रैयता राज्य पक्षा	मकान सं०- 937, मंजूलाथा नगर, केन्गेरी रोड, तयाराकेरे, बैंगलुरु साउथ, कर्नाटक - 562130
1876	प्रजा स्वराज पार्टी	मकान नं. 7-2-104/11, प्लॉट नं. 11, श्रीकृष्ण नगर, चित्तलकुंदा चेक पोस्ट, एल.बी.नगर, हैदराबाद, तेलंगाना राज्य - 500003
1877	प्रजामहाराष्ट्र पक्ष	निकट परीजात भवन, तीसरी मंजिल, माथुर नगर, तुलिंग रोड नालासोपारा (पूर्व), ता०- वसई, जिला - पालघर, महाराष्ट्र- 401209
1878	प्रजामंडल पार्टी	बर्थवात निवास, शीतला माता मंदिर मार्ग, लोअर भक्तियाना, श्रीनगर, गडवाल, उत्तराखण्ड - 246174
1879	प्रजाराज्या समिथी	6-3-143, दुर्गासागडडा, करीमनगर, तेलंगाना-505001
1880	प्रजासत्तक भारत पक्ष	मु०-शिलेश्वर, पो०-भादस, ता०-मुलशी, जिला - पूणे - 412108, महाराष्ट्र
1881	प्रजासलक लोकराज्य पार्टी	ग्राम च पोस्ट - परासी, तहसील - मनगवा, जिला - रीवा मध्य प्रदेश - 486111

1882	प्रजासत्ताक समाजवादी भारत पार्टी	मकान नं० - 1-7-281, यादव निवास, राजनगर, पोस्ट - यशवंत नगर, पावडेवाडी नाका, जिला - नांदेड, महाराष्ट्र - 431602
1883	प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी	श्री राम सदन - 40, सरायपित्थू औशिक, नयागाँव (केशरूआ), सीतापुर रोड, हरगाँव, जनपद - सीतापुर, उत्तर प्रदेश ।
1884	प्रजातन्त्र आधार पार्टी	46, पुरानी फौजदार की चाली, मेम्को चार रास्ते के पास, नरोडा रोड, अहमदाबाद - 382345 गुजरात ।
1885	प्रजातंत्र कांग्रेस पार्टी	स्टेशन चौक, मुख्य डाकघर के सामने, रायगढ़, छत्तीसगढ़
1886	प्रजातंत्र पार्टी ऑफ इंडिया	मकान नं. 33, मोहल्ला- बम्हाघेरा, टाउन व थाना- रामनगर, जिला- नैनीताल, उत्तराखण्ड
1887	प्रजातांत्रिक जनसेवक दल	मुजफ्फरा बागडपुर, तहसील एवं जिला - हापुड, उत्तर प्रदेश- 245101.
1888	प्रजातांत्रिक जनसेवक पार्टी	मकान सं.- 88, निवहारा-इकहारा, तहसील- करहल, पोस्ट- वरनाहल, जिला- मैनपुरी, उत्तर प्रदेश- 205264
1889	प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी	गाँव- हकीमाबाद, तहसील - आस्टा, जिला - सिहोर, मध्य प्रदेश।
1890	प्रजातांत्रिक समाजवादी पार्टी	सी-17, यादव नगर, ग्राम - समयपुर, दिल्ली - 110042 ।
1891	प्रजावाणी पार्टी	मकान नं. 11-83-लिंगडीवरी भावनाअमु, विनायक नगर, कुजाकुजा रोड, सूर्यपेट, तेलंगाना - 508214
1892	प्रपंच तेलुगु भाषा परिरक्षण पार्टी	मं० सं० 5-19, चिमनगुटपल्ली गाँव, वनपथी मंडल, वनपथी जिला, तेलंगाना-500089
1893	प्रवासी निवासी पार्टी	महा महल विल्डींग, टी.सी-1/1502/7, पजहाया रोड, मेडिकल कॉलेज पी.ओ. जिला- तिरुवनंतपुरम, केरला-695011
1894	प्रवृत्ति पार्टी	980, प्रकाश पब्लिक स्कूल के पास, पालम गाँव, नई दिल्ली-110045
1895	प्रेम जनता दल	म. नं० - 1-4-524/ए/7/1, भोलकपुर, बादी मस्जिद के पास, मुशौराबाद, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश।
1896	प्रेम वाहिनी दल	ग्राम व पोस्ट- अंतरपाडा, वाया- वालीपदर, जिला- गंजाम, ओडिशा ।
1897	प्रिज्म	टॉप फ्लोर, 4-सी.एच.एच.ए - 30, विज्ञान नगर, कोटा- 324005 (राजस्थान)।
1898	पृथक बस्तर राज्य पार्टी	8, सीनियर एच० आई० जी०, सेक्टर-3, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़।
1899	पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी	मकान नं. 45-ए, ग्राम- किरतपुर, पोस्ट- पिंडरा, तहसील- पिंडरा, थाना- फुलपुर, जिला- वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
1900	प्रोफेशनल पार्टी ऑफ इंडिया	मकान नं. 91, ब्लॉक- डी-1, श्याम विहार, नजफगढ़, नई दिल्ली- 110043
1901	प्राउटिस्ट ब्लॉक, इंडिया	द्वारा श्री रमेश कुमार, एच.एन.ए-37 (खसरा नं. 2167/845), हर्षरूप कॉलोनी, फतेहपुर बेरी, नई दिल्ली- 110074
1902	प्राउटिस्ट सर्व समाज	सेवा निकेतन कम्पाउण्ड, आगरा रोड, एटा, उत्तर प्रदेश
1903	पब्लिक अधिकार सोशलिस्ट इंडियन पार्टी	5/200, सेक्टर-एच, जानकीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226021
1904	पब्लिक मिशन पार्टी	सीता कुंज, गोदावरी अपार्टमेंट के सामने, आशियाना दीघा रोड, घटना, बिहार- 800014
1905	पब्लिक पार्टी	"इकबाल महल", 234ए, अटाला, इलाहाबाद - 211003 उत्तर प्रदेश।
1906	पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी	14ए/57, पहला तल, इन्डु, ई.ए. करोलबाग, नई दिल्ली- 110005
1907	पब्लिक उत्थान पार्टी	म.स. 236, फतेहगढ़, फतेहगढ़, पी.स.- खरगपुर, तहसील-गोंडा, पावर हाउस के पास, जिला - गोंडा, उत्तर प्रदेश - 271204
1908	पुडुचेरी डेवलपमेंट पार्टी	नं० - 51, सेक्टर क्रॉस, सेल्वा नगर, उरुवाईयार, पुडुचेरी - 605110 ।
1909	पंजाब डेमोक्रेटिक पार्टी	958-मटौर सेक्टर-70, एस.ए.एस. नगर, सिडिकेट बैंक से सटा हुआ, पंजाब- 160070
1910	पंजाब एकता पार्टी	बी- XII/46, ग्राम - फरीदकोट, वाई नं० - 10, पार्ट-2, तहसील - फरीदकोट, हरिन्दर नगर, जिला - फरीदकोट, पंजाब- 151203
1911	पंजाब किसान दल	H.No.47, ग्राम - सराय मुगल, तहसील-राजपुरा, जिला-पटियाला, पंजाब-140417
1912	पंजाब तेवर पार्टी	ग्राम और डाकखाना-आधनियों, तहसील-मलोत, जिला-मुक्तसर, पंजाब ।

1913	पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी	मोहिंदर बाग गांव सिसवान में स्थित है, गुरुद्वारा शीश महल साहिब के पास, डाकघर मुल्लांनपुर गरीबदास, तहसील खरड, जिला मोहाली, पंजाब-140901
1914	पंजाब लोकहित पार्टी (बिर्मी)	भगवानपुरा, देहली रोड, लुधियाना, पंजाब-141120
1915	पंजाब नेशनल पार्टी	157, युनीवरसिटी ऐनकलेव फेज-1, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय क्षेत्रीय परिसर के पास, लाधेवली, जालंधर, पंजाब-144009
1916	पुन्नगई देशम पार्टी	3/588, मुख्य बाजार, पेयकुलम, अशिराथपुरम - पोस्ट, साध्यान्कुलम - तालुक, थूथुकुडी - जिला, तमिलनाडु - 628 613
1917	पुराची भारतम	नं. 54, नेशनल हाईवे, पूनामल्ला, चेन्नई-56 (तमिलनाडु)।
1918	पुरातचिकारा थोडिललार कौची	नं० 3, करिकालन ईस्ट, प्रथम गली, (एस. पी. हॉस्पिटल के पीछे, अंजाप्पर हॉटेल), अदमबक्कम, चेन्नई, तमिल नाडु।
1919	पूर्वांचल नवनिर्माण पार्टी	ग्राम- सिरिहिरा, पोस्ट- सेवापुरी, थाना- कपसेठी, जिला- वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221403
1920	पूर्वांचल जनता दल	ग्राम व पोस्ट - जनाड़ी, जिला-बलिया, उत्तर प्रदेश।
1921	पूर्वांचल जनता पार्टी (सेक्युलर)	फ्लैट नं. 2, डी.डी.ए. फ्लैट्स, पॉकेट-1, फेज-1, सेक्टर- 12, द्वारका नई दिल्ली- 110078
1922	पूर्वांचल क्रान्ति पार्टी	यादवगंज, पोस्ट - सिकरारा, जनपद - जौनपुर, उत्तर प्रदेश।
1923	पूर्वांचल महसंचायत	नं०- 601 डी, शिप्रा सन सिटी, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
1924	पूर्वांचल राज्य जनोदोलन	एस्पी टावर, बुद्धपुरम, बडेबन, ग्राम संभा- महुवा नगर, बायीं पास चौराहे के पास, जनपद- बस्ती, उत्तर प्रदेश - 272001.
1925	पुथिया मक्कल तमिल देशम काट्टि	डी.नं.-6/58 साउथ स्ट्रीट, मुत्थुलक्ष्मीपुरम, मेगल्लिणापुरम, तालुक-तिरुचंदूर, जिला- थूथुकुडी, तमिलनाडु-628210
1926	पुथिया तमिलागम	132, न्यू एम.एल.ए. हॉस्टल, गवर्नमेंट एस्टेट, चेन्नई - 600 002 (तमिलनाडु)।
1927	पिरामिड पार्टी ऑफ इण्डिया	2-1-83, कोला स्ट्रीट, तिरुपति- 517501, (आन्ध्र प्रदेश)।
1928	कौमी एकता दल	भवन सं०-228, मो०-अस्तुपुरा, तहसील - सदर, जनपद - मऊ, उत्तर प्रदेश।
1929	कौमि इतेहाद रिपब्लिकन पार्टी	47/1, चेमुनियपेटा, रेवन्यु वार्ड नं० 47, बिसाई हरि टावर, नागाराजउपेटा कडापा, आन्ध्र प्रदेश- 516001
1930	रचनात्मक जन मोर्चा	मकान संख्या - 752, खसरा नं०-146, साउंड फ्लोर, निकट कन्या विद्यालय, बुराडी गांव, नई दिल्ली- 110084
1931	रेडिकल डेमोक्रेट्स	घर क्रमांक 4-9-771/पी70, पवनगिरि कॉलोनी, हयातनगर, हैदराबाद, तेलंगाना - 501505
1932	रेडिकल पार्टी ऑफ इंडिया (अम्बेडकरिस्ट)	मकान नंबर 7-1371, कमरा नंबर 2, मदनपुर (गांव), कोठापटनम (मंडल), प्रकाशम (जिला), आंध्र प्रदेश-523280
1933	रहबर पार्टी	वार्ड नं० 2, मोहल्ला कच्ची मस्जिद, रायसेन, तहसील व जिला रायसेन, मध्य प्रदेश।
1934	रायजोर दल	हाउस नंबर 1, चिडियाघर-नरंगी रोड, मॉडर्न स्कूल के पास, मथघरिया, पी.एस.- नूनमती, जिला कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-781020, असम
1935	रायता भारत पार्टी	सेक्टर नं. 31, फ्लैट नं. 31/ए, नवानगर, बागलकोट, कर्नाटक - 587101
1936	राजस्थान डेमोक्रेटिक फ्रंट	नम्बर 761, मात्सा गाँधी दस्तकर नगर, नायला, जयपुर, राजस्थान- 303012
1937	राजस्थान जन सत्ता	ग्रामीण कन्या छात्रावास, वाटर वर्क्स के पास, सादुलपुर, गुरु-331023, राजस्थान।
1938	राजस्थान जनता पार्टी	ग्राम- नैथला, पोस्ट- निठारी, तहसील- मालाखेड़ा, जिला- अलवर, राजस्थान- 301001
1939	राजस्थान नवनिर्माण पार्टी	मकान नं. 4एफ, प्रथम तल, रामलाल सदन, सिविल एयरपोर्ट रोड, पाबूपुरा, जोड़पुर, राजस्थान- 342001
1940	राजस्थान राज पार्टी	जैन नसियाँ रोड, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान-302029
1941	राजस्थान विकास पार्टी	43, चौद बिहारी नगर, खातीपुरा रोड, जयपुर-302012 (राजस्थान)।
1942	राजलोक पार्टी	बी-123, स्ट्रीट नं. 8, कमल विहार, बुरारी, दिल्ली-110084.

1943	राजनैतिक चेतना दल	प्लॉट नं. 78, खाता संख्या- 93, ग्राम- सिकरिया, पोस्ट- सुघड़ी, थाना- गोविन्दपुर, जिला- नवादा, बिहार- 805126
1944	राजनैतिक क्रान्ति दल	मकान नं. 55, चाडुजई द्वितीय, निकट पुराना ओवर ब्रिज, जिला- शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश- 242001
1945	राजनैतिक विकल्प पार्टी	204- शाही भवन, डाक बंगला, पटना - 800001, बिहार ।
1946	राज्य स्वराज पार्टी	931, इंदिरा नगर, देहरादून, उत्तराखंड- 248006
1947	राज्याधिकार पार्टी	एच-नं. 10-4-ए / 390, एडुडागोट्टा, ईस्ट मैरीडपल्ली, सिकन्दराबाद-17, आन्ध्र प्रदेश ।
1948	रक्षक जन मोर्चा पार्टी	अराजी नं - 813/म.न. - 180ए, गिरजा नगर, नई पी ए सी लाइन, देहली सुजानपुर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश - 208015
1949	रक्षका सेना	नं. 604, वायुनन्दा लेआऊट, हैब्यल, कैम्पापुरा, बंगलोर - 560024, कर्नाटक।
1950	रानी चैन्नमा पार्टी	वक्कलागेरी दयामघनकट्टी, गडग-582101, कर्नाटक ।
1951	रानी लक्ष्मीबाई क्रांतिकारी पार्टी	शॉप नं. 06, राहुल बाजार, कमिश्नियल काम्प्लेक्स, प्रथम तल, सीताबर्डी, नागपुर, महाराष्ट्र- 440012
1952	राष्ट्र भक्त दल	बाबा बजरंगदास जी की बगीची खाटीपुरा रोड, झोटवाडा, जयपुर - 302012, राजस्थान।
1953	राष्ट्र धारक दल	90(4) वजीरवाग, चौरसिया काम्प्लेक्स के बगल में, बहराईज, जिला-बहराईच, उत्तर प्रदेश- 278101
1954	राष्ट्र हिय पार्टी	706/707 एम.के हाईट्स सीएचएस, वी विंग, सी.टी.एस.नं. 621, एल.वार्ड आफिस के सामने, एस.जी. वार्ड मार्ग, कुर्ली (पश्चिम), मुम्बई-400070 महाराष्ट्र ।
1955	राष्ट्र मंगल मिशन पार्टी	कामधेनु कृपा, काचो माद, पिलाजी गंज, श्रीराम चौक, मेहसाना, गुजरात-384001
1956	राष्ट्र निर्माण पार्टी	डी 25 डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-110024 ।
1957	राष्ट्र सामान्य प्रजा पार्टी	डोर नं0-3-44, अथवेली, मेडचल, तेलंगाना-501401
1958	राष्ट्र समर्पण पार्टी	वार्ड संख्या-4, प्रोपर्टी संख्या-040000225, ओल्ड प्रोपर्टी संख्या डब्लू 4-448(ओल्ड 225), सावनेर, तालुक-सावनेर, जिला-नागपुर, महाराष्ट्र- 441107.
1959	राष्ट्र सेवा दल	85/40, ऑफिसर फ्लैट, देली रोड, पटना-800001, बिहार ।
1960	राष्ट्र शक्ति	1112, एस /5, टैगोर गार्डन बस स्टैंड के पास, यमुना नगर-135001, जिला यमुना नगर, हरियाणा ।
1961	राष्ट्र उदय पार्टी	खसरा नं. 10, आतिथि विहार कॉलोनी, नजदीक सिटी आई.टी.आई., उत्तरधौना, चिनहट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001
1962	राष्ट्र वाहिनी पार्टी	412, एस के श्याम हाईट्स, संपत हिल्स, विचौली मर्दाना, इंदौर, मध्य प्रदेश- 452016
1963	राष्ट्र विकास झुंझेश पार्टी	दूसरी मंजिल, अपोलो एन्क्लेव, जैन देरासर के सामने, मोटेरा क्रॉस रोड, महेसाणा, गुजरात - 384002
1964	राष्ट्रहित चिन्तक विपक्ष पार्टी	प्लॉट नं0-177-ई/2, वार्ड नं0-2, महारौली, नई दिल्ली-110030
1965	राष्ट्रवादी भारत पार्टी	एटी-511/5, अनंतपुर, वार्ड नंबर-10, गायत्री नगर, हुजूर रोवा, रीवा, मध्य प्रदेश-486001
1966	राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी	वेगारिया का खेडा, पो0आ0-बरवान कलां, काकोरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
1967	राष्ट्रवादी जनता पार्टी	अनील भारती भवन, 43-ए, सुखवीर नगर, कराला, नई दिल्ली-110081.
1968	राष्ट्रवादी क्रान्ति दल	इन्दु निवास, गाँव देवी रोड, पोयसर, कांदिवली (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र- 400101.
1969	राष्ट्रवादी लोकतान्त्रिक पार्टी (इंडिया)	35वी, सैनिक एन्क्लेव, सेक्टर- 1, मोहन गार्डन, नई दिल्ली- 110059
1970	राष्ट्रवादी पार्टी (भारत)	ग्राम- ककराना, पोस्ट- धौलाना, जिला- हापुड, उत्तर प्रदेश- 245301
1971	राष्ट्रवादी प्रताप सेना	ग्राम-नारायणपुर वासका पो0ओ0 धौलाना, जिला-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
1972	राष्ट्रवादी विकास पार्टी	217/2 फ्लोर, देवकी टावर, चन्द्र नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201 011
1973	राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी	एम.एम.एस., 1/84, सेक्टर - ए, अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

1974	राष्ट्रवादी चेतना पार्टी	मकान सं. 16एफ/एफ, के.एच.सं0 28/10, रियाल गार्डन, नागलोई, नई दिल्ली-110041
1975	राष्ट्रवादी इंसान पार्टी	18/84/6सी, पुरा दलेल, तिलक नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
1976	राष्ट्रवादी जन चेतना पार्टी	ए-69, विक्रम नगर सेक्शन-1, चौपाटी गार्डन के पास, एल.एच. रोड, सूरत, गुजरात-395010
1977	राष्ट्रवादी जन कांग्रेस	संतोष भवन, रोड नं0-1 एक्स्टेंशन, राजवंशी नगर, पटना, बिहार - 800023
1978	राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी	158/33ए-1, गंगा प्रसाद रोड, असार कॉम्प्लेक्स, मौलवीगंज, लखनऊ उत्तर प्रदेश-226018
1979	राष्ट्रवादी जनताराज पार्टी	ए-404, अबजिबापा लेक थ्यू, अपोजिट आर ए एफ गेट, निरंत चौकदी, वस्तराल, अहमदाबाद, गुजरात - 382418
1980	राष्ट्रवादी जनलोक दल	934/1, नियर चंडी, मोटामाद, एट व 'पो.ओ- चालम, टी.ए- विसनगर, जिला- मेहसाणा, गुजरात- 384310
1981	राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी (सत्य)	हरसरु, शिवमंदिर के पास, तहसील-हरसरु, जिला-गुडगाँव हरियाणा- 122505
1982	राष्ट्रवादी जनसंघ	पकड़ी गांधीनगर मोड, (कतीरा रोड), जैन कॉलेज पूर्वी गेट के पास, कतीरा, आरा, नवादा, जिला-मोजपुर, बिहार-802301
1983	राष्ट्रवादी जनविकास पार्टी	मकान सं. 7-जी-27, जयहर नगर, श्री गंगानगर, राजस्थान- 335001
1984	राष्ट्रवादी जनवादी मंच	मकान नं-160, जोधी का पूरा, आजमगढ़ नगर, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश ।
1985	राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल	H.No. 73, मोहल्ला - रायसाहब, तहसील - सिरौली, गौसपुर, जिला - बाराबंकी, उत्तर प्रदेश - 225415.
1986	राष्ट्रवादी माइनोरिटी पार्टी	ग्राम-कदमपुरा, वार्ड-9, पोस्ट ऑफिस-कदमपुरा, जिला-सुपौल बिहार-852134
1987	राष्ट्रवादी परिवर्तन पार्टी (एल. बी.)	एल. सी. युनिट नं0 4-467, नत्सर जोहड़, पतराम गेट, भिवानी, जिला- भिवानी, हरियाणा - 127021
1988	राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया	ग्राम- कल्याणपुर, पोस्ट- बड़हनगंज, तप्पा कस्या, परगना - चिल्लूपार, जनपद- गोरखपुर, उत्तर प्रदेश- 273402
1989	राष्ट्रवादी प्रजा दल	सी-2/60, राम पार्क-1 लोनी, जिला- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102
1990	राष्ट्रवादी समाज पार्टी	16/17, सिविल लाईन्स, पदम अपार्टमेंट के पास, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
1991	राष्ट्रवादी श्रमजीवी दल	512/695न, पहली गली, निशातगंज, लखनऊ उत्तर प्रदेश-226007
1992	राष्ट्रवादी युवा पार्टी	आरसी हाउस, प्रगति नगर, चकमोहब्बत, पो.ओ- भीखनपुर, थाना-अहियापुर, जिला- मुजफ्फरपुर, बिहार- 842004
1993	राष्ट्रीय बहुजन पार्टी	729/4, अंबेडकर चौक, ग्राम - नलेगांव, तालुक - धारूर, जिला - लातूर, महाराष्ट्र- 413524
1994	राष्ट्रीय आदर्श मैम्बर पार्टी	ग्राम व पोस्ट- उदयपुरा बीच का मुहल्ला, तहसील- राजनगर, थाना- खजुराही, जिला- छतरपुर, मध्य प्रदेश- 472339
1995	राष्ट्रीय आदिवासी बहुजन पार्टी	प्लॉट नं0-4, पुष्पक नगर, जुनवाही रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़) पिन नं0- 490 020
1996	राष्ट्रीय आम पार्टी	पार्टी कार्यालय 19ए, दूसरी मंजिल, ओम हीरा पन्ना मॉल, न्यू लिंक रोड, ओसिवरा, अंधेरी (वेस्ट), मुम्बई, महाराष्ट्र - 400053
1997	राष्ट्रीय आमजन पार्टी	बी-225, ओल्ड मिनाल, जे.के.रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश- 462023.
1998	राष्ट्रीय आदर्श पार्टी	पितृशाला खुर्द, चन्दरबनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
1999	राष्ट्रीय अहिंसा मंच	132/1, महात्मा गाँधी रोड, कोलकाता - 700 007
2000	राष्ट्रीय एकता मंच पार्टी	डी-197, कुँवर सिंह नगर, नांगलोई, दिल्ली - 110041
2001	राष्ट्रीय अम्बेडकर दल	अम्बेडकर भवन, बुद्ध विहार, सेन्ट्रल जेल रोड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
2002	राष्ट्रीय अंत्योदय कांग्रेस	एस.एस. III/800, सैक्टर - 1, कोपरखैरणे, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र - 400709
2003	राष्ट्रीय अन्याय निवारण सेना	138, जहागिरदारवाडी, पोस्ट- शिंगौली, तहसील व जिला- उस्मानाबाद महाराष्ट्र- 413501
2004	राष्ट्रीय अपना दल	मकान नं0 232/81/4डी, तिलक नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।

2005	राष्ट्रीय आरक्षक मंच	4586, विजयनगर, 2 nd स्टेज, देवराज मोहल्ला, मैसूर, कर्नाटक- 570017.
2006	राष्ट्रीय आर्य राज सभा	769/2, विजय पार्क, झांग कोलोनी, रोहतक - 124001, हरियाणा ।
2007	राष्ट्रीय अनुनय युवा पार्टी	प्लॉट नं. 291, फ्लैट नं. 301, शिवनगर- 1, मुरलीपुरा, जयपुर, राजस्थान- 303328
2008	राष्ट्रीय आजाद मंच	गाँव व पोस्ट - शाहजादपुर, तहसील- नारायणगढ़, जिला- अम्बाला, हरियाणा ।
2009	राष्ट्रीय बैकवर्ड पार्टी	1/44, शान्ति नगर, एटा-207001, उत्तर प्रदेश।
2010	राष्ट्रीय बहुजन कॉंग्रेस पार्टी	टी ए - 137/3 तुंगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110019.
2011	राष्ट्रीय बहुजन हिताय पार्टी	सी.-158, कैप्टन सतीश मार्ग, ऋषि नगर, रानी बाग, नई दिल्ली -110034.
2012	राष्ट्रीय बहुजन क्रान्ति दल	ग्राम - दत्तावली गेसपुर, जय भीम नगर, गढ़ रोड, निकट मैडिकल कॉलेज, तहसील - मेरठ, जिला - मेरठ, उत्तर प्रदेश ।
2013	राष्ट्रीय बाल्मिकी सेना पक्ष	जगदगुरु महर्षि बाल्मिकी स्वामी मंदिर मार्ग, सी.एम.ई. राम नगर घोषखेल, पुणे - 411031 (महाराष्ट्र) ।
2014	राष्ट्रीय बन्धुत्व पार्टी	554, मम्फोर्डगंज, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश ।
2015	राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी	श्रीशिपमा विल्डिंग, एमिटी विश्वविद्यालय गेट नं.1 के सामने, निजामपुर, मल्हौर, पी.एस- चिनहट, तहसील-सदर लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226028
2016	राष्ट्रीय भागीदारी समान पार्टी	गाँव-गढी (मेहन्दा मोड), तहसील-हॉसी, जिला-हिसार, हरियाणा-125033
2017	राष्ट्रीय भाईचारा विकास पार्टी	सीपी - 15, रिको झुझुनू, राजस्थान - 333001
2018	राष्ट्रीय भारतीय अखण्ड पार्टी	मकान नं०-14, ग्राम व पोस्ट - बेहटा, विकास खण्ड - मसौली, थाना - सफदरगंज, जिला - बाराबंकी, उत्तर प्रदेश ।
2019	राष्ट्रीय भारतीय जन जन पार्टी	नियर ए.पी.एस, विसाहडा, दादरी (गौतम बुध नगर) उत्तर प्रदेश - 203207 ।
2020	राष्ट्रीय बुजुर्ग शक्ति पार्टी	मकान नं०-144, गाँव-मांगावास, डाकखाना-पलडा, तहसील-वैरी, जिला-झज्जर, हरियाणा
2021	राष्ट्रीय बुन्देलखंड विकास पार्टी	1/965, मानसरोवर पार्क, रामजी लाल की बगीची, नियर रेलवे लाइन फाटक, जी.टी. रोड, जी.टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली- 110032
2022	राष्ट्रीय चाणक्य पार्टी	फ्लैट नं. 726एफएफ, ब्लॉक-ए, सेक्टर- म्यू-11, गेटर नोएडा, जिला- गौतमबुध नगर, उत्तर प्रदेश- 201310
2023	राष्ट्रीय कॉंग्रेस (बाबू जगजीवनराम)	वाडें सं० 45, मोहल्ला - बलदेवपुरी, जनपद - मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश ।
2024	राष्ट्रीय कॉंग्रेस (जे०) पार्टी	सैंधरी, पोस्ट - हरथला, वाया-पाकवडा, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश ।
2025	राष्ट्रीय दल युनाइटेड	जी- 3/792, वाडें नं.- 69, दुगो अपार्टमेंट, शालीमार गार्डन, एक्सटेंशन- 1, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201005
2026	राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक फ्रन्ट	मकान नं०-397, ग्राम- सोनारी, पोस्ट - सोनारी (रामगंज), थाना - पीपरपुर, तहसील- अमेठी, जनपद- अमेठी, उत्तर प्रदेश - 228159
2027	राष्ट्रीय देशज पार्टी	दुंगरी टोली, अरगोडा, सेन्ट फासिस स्कूल, पोस्ट-हारमू, जिला-रांची, झारखण्ड, पिन - 834012
2028	राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी	मकान नं०-330/6, नया बाजार, ताहन, जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश- 173001
2029	राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष नव भारत पार्टी	108, शंकर शाह नगर, जवलपुर (मध्य प्रदेश) ।
2030	राष्ट्रीय एकता पार्टी	हाउस नं.83, ग्राउंड फ्लोर, गली नं.4, चांद मस्जिद की पास, जाफराबाद, दिल्ली - 110053
2031	राष्ट्रीय एकता पार्टी (सैक्यूलर)	भवन नं० 543, मोहल्ला- उपादियान, वाडें नं० 14, किठौर, जिला- मेरठ, उत्तर प्रदेश।
2032	राष्ट्रीय गण संघ	एटी-68/1, खुदीराम सारणी, नामवौगी, बालुरघाट, पोस्ट - बालुरघाट, थाना-बालुरघाट, जिला-दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल - 733101
2033	राष्ट्रीय गरीब दल	110, रामनगर, पानीपत, हरियाणा ।
2034	राष्ट्रीय गरीब उत्थान पार्टी	ग्राम- नसोपुर, पो- नगपुर, तहसील- जलालपुर, थाना- जलालपुर, जनपद- अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश- 224149 ।

2035	राष्ट्रीय गरिमा पार्टी	ब्लॉक-14, कस्तूरबा नगर, चैतकं ग्लिज के पास, भोपाल - 462001, मध्य प्रदेश ।
2036	राष्ट्रीय जनरल पार्टी	वाई नं0 11, आदर्श नगर, कलेक्ट्रेट रोड, बक्सर, बिहार - 802101 ।
2037	राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी	सारखेल हाऊस, तिफरा, बिलासपुर - 495223, छत्तीसगढ़ ।
2038	राष्ट्रीय ग्राम विकास पार्टी	62, सिविल लाईन्स, रुड़की, जनपद - हरिद्वार, उत्तराखण्ड ।
2039	राष्ट्रीय हिन्दू एकता दल	गाँव- नगला भाजा, पोस्ट- मिर्घौली, थाना-विष्णुगढ़, तहसील-छिबरामऊ, जिला-कन्नौज, उत्तर प्रदेश- 209721
2040	राष्ट्रीय हिन्दुस्तान शक्ति दल	आई- 26/1, गली नं. 10, ब्रह्मापुरी, दिल्ली- 110053
2041	राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी	गाँव-मुमताज नगर, पोस्ट-मुमताज नगर, तहसील सोहाचल, नजदीक सम्राट मेडिकल सेक्टर, थाना-कैट, जिला-अयोध्या, उत्तर प्रदेश- 224001.
2042	राष्ट्रीय इन्डीपेंडेंट मोर्चा	माईनिंग रोड, किओझार (ओ.एस.एम. ई. लेडीज हॉस्टल के सामने), पोस्ट/द्वारा : किओझारगढ़, जिला : किओझार - 758001 ओड़िसा ।
2043	राष्ट्रीय जागृती पार्टी	रीषभ इंस्टीट्यूट, चिरैयाटोड पुल, चौधरी पेद्रोल पम्प, कंकरबाग, पटना, बिहार - 800020
2044	राष्ट्रीय जागरूक पार्टी	मकान संख्या- बी- 7/209, सट्टा बाजार, कोट कपूरा, जिला- फरीदकोट, पंजाब - 151204
2045	राष्ट्रीय जयहिन्द पार्टी	आदर्श नगर, झुंकर, थाना-सदर, जिला-रांची, झारखण्ड-8340041
2046	राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी (यूनाईटेड)	मकान नं0 - 710, नया पूर्वा, डिग्री कॉलेज चौराहा, कचहरी रोड, लिबर्टी शोरूम के सामने, जिला - रायबरेली, उत्तर प्रदेश ।
2047	राष्ट्रीय जन आवाज पार्टी	एम.आई.जी.-23, विवेणी कॉम्प्लेक्स, टीटी नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश- 462003
2048	राष्ट्रीय जन गौरव पार्टी	470, परमानतपुर, (सपना आइस फैक्ट्री के पीछे), पोस्ट- कचहरी, तहसील- सदर, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222002
2049	राष्ट्रीय जन जन पार्टी	C/O परथुराम सिंह, नैली निवास, शिव नगर, रोड नंबर-1, फोर्ड हॉस्पिटल के पीछे, थाना-राम कृष्णा नगर, पो-राम कृष्णा नगर, खेमनीचक, जिला पटना, बिहार - 800027
2050	राष्ट्रीय जन कल्याण पार्टी	जी - 290, ओल्ड सीमा पुरी, दिल्ली - 110095.
2051	राष्ट्रीय जन कल्याण पार्टी सेक्युलर	खाता-187, खसरा-869, थाना-150, तौजी नं.-525, ग्राम व पोस्ट- चौदली, थाना-बेल्दौर, जिला-खगड़िया, बिहार- 852161
2052	राष्ट्रीय जन कर्मठ पार्टी	II-F-110, नेहरू नगर, निकट गणेश हॉस्पिटल, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001
2053	राष्ट्रीय जन मंच	ग्राम व पोस्ट- गुहा, जिला- जालौन, उत्तर प्रदेश- 285122.
2054	राष्ट्रीय जन सागर पार्टी	वॉटर बॉक्स के पीछे, नारेड़ा रोड, तहसील व जिला- बारां, राजस्थान- 325205
2055	राष्ट्रीय जन सहाय दल	112, न्यू कमांड प्लेस, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
2056	राष्ट्रीय जन सहयोग पार्टी	प्लॉट नं. ए-40, गायत्री पुरम, शोभित यूनिवर्सिटी, पल्लवपुरम, फेस-2, मोदी पुरम, सिटी- मेरठ, उत्तर प्रदेश- 250110
2057	राष्ट्रीय जन समर्थन पार्टी	ए-122बी, ग्राउन्ड फ्लोर, हरि नगर, नई दिल्ली- 110054
2058	राष्ट्रीय जनशौर्य पार्टी	खसरा नं.-3250, पुलिस लाइन मेन गेट के सामने, अजमेर, राजस्थान-305001
2059	राष्ट्रीय जन उत्कर्ष पार्टी	हट सर्वे नं. ए/ईई-126, गझधर बांध, लांडी गली, रत्नाबाई चॉल, एस.बी.पाटील मार्ग, साताकूड़ा (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र-400054
2060	राष्ट्रीय जन विकास पार्टी	मुहल्ला-सुन्दरपुर छट्टी पोखर, पोस्ट-लालबाग, जिला-दरभंगा, बिहार- 846004
2061	राष्ट्रीय जनाधार पार्टी	596 एस. के.- 04/01/01, सुमिरन खेड़ा, आदर्श विहार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
2062	राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी	61, मंगला पुरी फेस- 1, पालम, नई दिल्ली - 45.
2063	राष्ट्रीय जनाधिकार सुरक्षा पार्टी	गाँव - कृष्णापुर, पोस्ट - धोपाहाट कृष्णापुर, जिला - 24, परगना (दक्षिण), पश्चिम बंगाल ।
2064	राष्ट्रीय जनहिता पार्टी	न0 140, विद्यारन्यापुरा, नर्सिपुरा, मेन रोड, वैंगलौर, कर्नाटक- 560097
2065	राष्ट्रीय जननायक जनता पार्टी	आर. जैड-3284/37, तुंगलवागवाड एक्सटेंशन, नई दिल्ली- 110019
2066	राष्ट्रीय जनसचेतन पार्टी	सेनारपुर, सुकान्ता नगर (मिलानपाली) (शिव मन्दिर के पास) पो0 आफिस व पुलिस स्टेशन - सोनारपुर, कोलकाता - 700150, पश्चिम बंगाल ।

2067	राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी	109-एफ, नजीम पुरा, भूड, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश - 203001
2068	राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी	वी.पी.ओ. - खनक, मकान नं० - 627बी, निकट पंचायत घर, आदर्श कॉलोनी, तहसील - तोशाम, जिला - भिवानी, हरियाणा - 127040
2069	राष्ट्रीय जन-जागरण मोर्चा	राज मंजिल, वाई नं० 12, गोपालगंज, पोस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट - गोपालगंज, विहार ।
2070	राष्ट्रीय जनक्रान्ति मोर्चा	ग्राम - बभने आलमनगर, पोस्ट - प्रतापपुर, जिला - चतरा, झारखण्ड ।
2071	राष्ट्रीय जनक्रान्ति पार्टी	5/24 एच - 10 (आर०), आई०टी०आई० रोड, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश - 202001
2072	राष्ट्रीय जनमंच (सेकुलर)	गांव बेलापुर, तालुक-श्रीरामपुर, जिला-अहमदनगर, महाराष्ट्र-413715
2073	राष्ट्रीय जनमत पार्टी	ग्राम - फतुहा, पोस्ट-हनुमानगंज, जिला-इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
2074	राष्ट्रीय जनमोर्चा	सी-69/10, गली नं०-10, सी ब्लॉक, मुस्तफाबाद, दिल्ली - 110094
2075	राष्ट्रीय जनप्रिय पार्टी	एच -II - 76/डी, एल.डी.ए. कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ - 226012, उत्तर प्रदेश ।
2076	राष्ट्रीय जनराज पार्टी	28-ए, विशाल कुंज, दहतोरा रोड, बोदला, आगरा, उत्तर प्रदेश- 282007
2077	राष्ट्रीय जनसभा पार्टी	कोण्डागांव, फारेस्ट कॉलोनी वाई, जिला- कोण्डागांव, छत्तीसगढ़- 494226.
2078	राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी	यू.के. साहनी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कमरा नं०-101, प्रथम तल, ग्राम- राजोपट्टी, जिला- सीतामढ़ी, बिहार-843302
2079	राष्ट्रीय जनसंचार दल	600/279/031एन, सुमित नगर, फरीदीपुर, रिंग रोड दुबग्गा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226101
2080	राष्ट्रीय जनसंघर्ष स्वराज पार्टी	अपर चुटिया, रांची, झारखण्ड - 834001
2081	राष्ट्रीय जनसरदार पार्टी	ग्राम-जिगिना खुर्द, पो. कुथिया, पी.एस.बांसी, जनपद-सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश-27215
2082	राष्ट्रीय जनसेना पार्टी	दुकान नं. 101, मदीना कॉम्प्लेक्स, कुंभारटेक, शिरपुर, जिला- धुले, महाराष्ट्र।
2083	राष्ट्रीय जनसेवा - सेकुलर पार्टी	428, ब्राह्मण वाडा, पुराना वाई नं०- 23, बल्लभगढ़ - 121004, जिला - फरीदाबाद, हरियाणा ।
2084	राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी (एकलव्य)	पोस्ट व गांव - बिजहोल, तहसील और जिला - पानीपत, हरियाणा - 132103.
2085	राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी (सेक्युलर)	417-ए, जैना टावर-111, ए-1 ब्लॉक, जनकपुरी, नई दिल्ली- 110058
2086	राष्ट्रीय जनशक्ति समाज पार्टी	मुहल्ला- थोक, वाई नं. 4, पुरानागंज, निकट रेलवे स्टेशन, मिश्रिख, जिला- सीतापुर, उत्तर प्रदेश- 261001
2087	राष्ट्रीय जनशांति पार्टी	52/2, स्कूल वाई चौक, जी.जी.आई.सी. के पीछे, प्रतापगढ़ - 230001, उत्तर प्रदेश ।
2088	राष्ट्रीय जनसुराज्य पार्टी	मकान नं. 953/सी, गरीबा मैदान, भंडारा रोड, वगडगंज, नागपुर (पूर्व), महाराष्ट्र- 440008
2089	राष्ट्रीय जन-स्वाभिमान पार्टी	नं.1 वी, 223, एमआईजी, आवास विकास कॉलोनी, रुकुनपुर, शिकोहाबाद, जिला- फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश-283135
2090	राष्ट्रीय जनता पार्टी	निकट शिव मन्दिर कालोनी, सौरा, जाहिदाबाद, सैक्टर - 115, नोएडा, जिला - गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश ।
2091	राष्ट्रीय जनता सेना	27, ज्ञान विहार, निर्माण नगर डीसीएम, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान-302019
2092	राष्ट्रीय जनतांत्रिक भारत विकास पार्टी	गोविन्द चिकित्सालय, परसिया मोड़, रसूलपुर, रसडा - बलिया, उत्तर प्रदेश ।
2093	राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा	ग्राम-राजपुर, पोस्ट-धर्मशाला थाना-परैया, जिला-गया, बिहार-824236
2094	राष्ट्रीय जनउत्थान पार्टी	ए-655-56, आवास विकास, हंसपुरम (कैनल रोड), नौवस्ता, कानपुर नगर - 208021, उत्तर प्रदेश ।
2095	राष्ट्रीय जनविकास पार्टी (डेमोक्रेटिक)	मनोरमा सदन, इन्द्रपुरी सिपारा, पोस्ट आफिस- डेलवाँ, थाना- वेरूर, जिला- पटना, बिहार- 800020.
2096	राष्ट्रीय जनवादी पार्टी (क्रान्तिकारी)	9/168, इन्द्रानगर, पानी टंकी के पास लखनऊ - 226016.
2097	राष्ट्रीय जनवादी पार्टी (सोशलिस्ट)	1/73, शिव कटरा, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश-208007
2098	राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी	788-ई/24, यूनियन बैंक के सामने, नजदीक पुरानी कचहरी, रोहतक रोड, सोनीपत - 131001, हरियाणा ।

2099	राष्ट्रीय कल्याण पक्ष	904, अटलान्ता टावर, इन्कलाब सोसायटी गुलबाई टेकरा, अहमदाबाद - 380006, गुजरात।
2100	राष्ट्रीय कर्मयोग पार्टी	गाँव च पोस्ट - सुल्तानपुर, तहसील - नीलोखेड़ी, हरियाणा - 132116.
2101	राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी	मकान नंबर 54 के, वाई नंबर 4 (नया), वाई नंबर 8 (पुराना), आलवीय नगर, चित्तबड़गाँव, मिडिल स्कूल के पास, तहसील और जिला-बलिया, उत्तर प्रदेश-221713
2102	राष्ट्रीय किसान बहुजन पार्टी	अजिंक्य राजवाड़ा भवन, शासकिय तंत्रनिकेतन के सामने, तुलजापूर रोड, निदुरे नगर, उस्मानाबाद, तालुक और जिला - उस्मानाबाद, महाराष्ट्र - 413501
2103	राष्ट्रीय किसान कौंग्रेस पार्टी	मकान नं० 1-11-602 रमामाता आंबेडकर नगर, गुरु गोविंद सिंघजी स्टेडियम के पास, ता. जि. नांदेड, महाराष्ट्र।
2104	राष्ट्रीय किसान मजदूर पार्टी	इन्क-127, पहला तल, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048
2105	राष्ट्रीय किसान पार्टी	गाँव च पो-धानीघा, तहसील च जिला - महेन्द्रगढ़, (हरियाणा)।
2106	राष्ट्रीय किसान समाज पार्टी (यूनाईटेड)	मौहल्ला - पटेगंज कांठ, पोस्ट - कांठ, तहसील - कांठ, जिला - मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश - 244501
2107	राष्ट्रीय किसान श्रमिक पार्टी	शम- तखत खेड़ा, पोस्ट- आकमपुर (बिहार), भगवन्त नगर, जनपद- उन्नाव, उत्तर प्रदेश- 209864
2108	राष्ट्रीय कौमी एकता पार्टी	लिमडा लेन, मकरानी पाडा, जामनगर - 361001, (गुजरात)।
2109	राष्ट्रीय क्रान्ति पार्टी	लोधी प्रजापीठ, लोह पुरुष डा. साक्षी नगर, थिकोहाबाद रोड, जिला एटा - 207001, उत्तर प्रदेश।
2110	राष्ट्रीय क्रान्तिकारी दल	गोपाल नगर, मेन सुखपुर रोड, नजफगढ़, नई दिल्ली - 110043.
2111	राष्ट्रीय क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी	मकान सं०-65/25 के, छितयापुर रोड, ताल-कुँआ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2112	राष्ट्रीय कृषक दल	प्लॉट नंबर 177, मकान नंबर-एसए-4/ए-5बी, दौलतपुर, पोस्ट खजूरी (पांडेपुर), जिला-याराणसी, उत्तर प्रदेश-221002
2113	राष्ट्रीय लोक दल	406, वी.पी. हाउस, रफ़ी मार्ग, नई दिल्ली-110001
2114	राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी	मकान नं. 31, ग्राम- कमसड़ी, पोस्ट ऑफिस - असावर, तहसील- मुहम्मदाबाद, जिला- गाजीपुर, उत्तर प्रदेश- 233225
2115	राष्ट्रीय लोक मोर्चा	आशीर्वाद भवन, मोहल्ला मजार गली, शेखपुरा, पो.बी.बी कॉलेज, पी.एस.शास्त्री नगर, पटना, बिहार-800014
2116	राष्ट्रीय लोक प्रजा राज्य पार्टी	बरकाती अपार्टमेंट, नार्मल चौक, बिजली ऑफिस के सामने, खुरमपुर, जिला- गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273001
2117	राष्ट्रीय लोक सर्वाधिकार पार्टी	म. नं० -630, ग्राम- पसींदा, बौद्ध विहार मंदिर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
2118	राष्ट्रीय लोक सेवक पार्टी	सम्पत्ति स.39/34 ए.निकट साहबा बस अड्डा, जिला हनुमंगढ़, राजस्थान-335501
2119	राष्ट्रीय लोक तन्त्र दल	ग्राम मोहल्ला - नगला कशी तहसील - धौलाना, जिला - हापुड, उत्तर प्रदेश - 245301
2120	राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी	जे-1201, आदित्य मेगा सीटी, वैभव खण्ड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201014
2121	राष्ट्रीय लोकराज पार्टी	भवन सं०-73/382, मोहल्ला - वनखण्डी टीला, (सहकारी बैंक के पीछे), मथुरा, उत्तर प्रदेश- 281001
2122	राष्ट्रीय लोकसत्ता पार्टी	नं.-287/3, मंगलपांडे नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250001
2123	राष्ट्रीय लोकशक्ति पार्टी	अर्जुन नगर कालोनी, गोला गोकर्णनाथ, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश - 262802
2124	राष्ट्रीय लोकस्वराज पार्टी	पद्मा फॉर्म, गाँव - छप्परा खेड़ा, नजदीक बालाजी मंदिर फूसगढ़, करनाल, हरियाणा
2125	राष्ट्रीय लोकवादी पार्टी	ए/6ए, शाउण्ड फ्लोर, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली - 110015
2126	राष्ट्रीय महा जनशक्ति दल	कमरा नं०-17, एम. नरेश मुन्ता चौक, जयहिन्द नगर, पाईप लाइन, खार पूर्व, मुम्बई - 400 051. महाराष्ट्र।

2127	राष्ट्रीय महाजन शक्ति पार्टी	मकान नं. 843/39, शिव उत्सव वाटिका, न्यू रेलवे स्टेशन मार्ग, अदर रोड, भिण्ड, मध्य प्रदेश- 477001
2128	राष्ट्रीय महान दल	108/60, आवास विकास कॉलोनी, ग्राम तैमूरपुर, पोस्ट-बिजनौर, जिला- बिजनौर, उत्तर प्रदेश ।
2129	राष्ट्रीय महान गणतन्त्र पार्टी	गाँव - अड़डा छिनपारई, पोस्ट - छिनपारई, नौड़ील, मथुरा, उत्तर प्रदेश - 281203
2130	राष्ट्रीय महाशक्ति पार्टी	5, रुपायातन एस. वी. रोड । विले पार्ले पश्चिम, मुम्बई-400056, महाराष्ट्र ।
2131	राष्ट्रीय महास्वराज भूमि पार्टी	एटी-3ए, प्रथम तल, धारावी विवेकानंद को.ओपी.हाउसिंग सोसाईटी एल.टी.डी., प्रभाकर कुंटे नगर, 90 फीट रोड, कुंवारवाड, धारावी, महाराष्ट्र, मुंबई-400017
2132	राष्ट्रीय महिला जनशक्ति पार्टी	ग्राम सभा-सैंता जिगिनियाँ, पोस्ट-काँटा गुलजारपुर, ब्लॉक-फतेहपुर, जिला-उन्नाव, पिन-909801, उत्तर प्रदेश ।
2133	राष्ट्रीय महिला पार्टी	340, स्याले नगर, रामपुर रोड, सी.वी.गंज, जिला- बरेली, उत्तर प्रदेश-243502
2134	राष्ट्रीय मजदूर कृषक पार्टी	एटी-एनएच-28, तेनुआ, हरैया, बस्ती, उत्तर प्रदेश-272155
2135	राष्ट्रीय मजदूर विकास पार्टी	मकान सं. 502, यमुना रोड, प्रथम तल, ग्राम- मेहंदीपुर, तहसील व जिला- सोनीपत, हरियाणा- 131001
2136	राष्ट्रीय मानव एकता काँग्रेस पार्टी	गुरुद्वारा के सामने, स्टेशन रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
2137	राष्ट्रीय मानव पार्टी	मकान नं. 29/124, पहली मजिल, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली, दिल्ली-110008
2138	राष्ट्रीय मानव सम्मान पार्टी	मकान नं 0-1485, किदवाई नगर, भारद्वाजपुरम, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश - 211005
2139	राष्ट्रीय मानव सेवा पार्टी	खाता नं. 60, खसरा नं. 03, मौजा नं. 82, श्रीनगर हाऊस, समूखिया मोड, नियर न्यू पुलिस लाइन बांका, जिला-बांका, बिहार-813102
2140	राष्ट्रीय मानव विकास पार्टी	मकान नं. 249, ग्राम- साथलपुर, पो.ओं- द्वारसी, तहसील- हसनपुर, ब्लॉक- गंगेश्वरी, जिला- अमरोहा, उत्तर प्रदेश- 244242 ।
2141	राष्ट्रीय मंगलम पार्टी	19/23, वेस्ट मोती बाग, स्ट्रीट नं - 3, सराय रोहिल्ला, दिल्ली - 110 035.
2142	राष्ट्रीय मराठा पार्टी	शिवनेरी सिंहगड विल्डिंग, श्रीनगर (शिवनगर) कॉलोनी, बिंदर रोड, उदगीर, जिला - लातूर, महाराष्ट्र - 413517
2143	राष्ट्रीय मार्क्सवादी दलित लहर पार्टी	ग्राम- छाँकरवाडा, तहसील- वैर, जिला- भरतपुर, राजस्थान ।
2144	राष्ट्रीय मताधिकार पार्टी	ग्राम-पो0 - अरेराज, वार्ड नंबर 11, शिव मंदिर से पूर्व, गायत्री ट्रेडर, जिला-पूर्वी चंपारण, बिहार-845411
2145	राष्ट्रीय मतदाता पार्टी	मोहल्ला - सैय्यदवाड़ा, कस्बा - मलिहाबाद, जिला - लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
2146	राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी	ब्लॉक वी. संत नगर, गली नं 57, घुमरी रोड, दिल्ली - 110009.
2147	राष्ट्रीय मजदूर किसान पार्टी	आकाश भवन, आई0डी0बी0आई0 बैंक के सामने, मेन रोड दादरी, सूरजपुर, गेटर नोएडा, विकास खण्ड- विसरख, तहसील- सदर, जनपद-गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश ।
2148	राष्ट्रीय मजदूर किसान प्रजातान्त्रिक पार्टी	अशोक ऐयन्यू गांव - लालगंज, थाना - सदर, जिला - राँची, झारखण्ड।
2149	राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी	मकान नं 0 - 57, ग्राम-मानेसर, मोहल्ला - मोहन पट्टी, जिला - गुडगाँव, हरियाणा - 122050.
2150	राष्ट्रीय नागरिक पार्टी	मकान नं. 725, खसरा नं. 40, गाँव- मैदानगढ़ी, नई दिल्ली- 110068
2151	राष्ट्रीय नारायणवादी विकास पार्टी	नारायण भवन, पिकोराभट्ट, नन्द नगर, जनपद-बस्ती, उत्तर प्रदेश-272129
2152	राष्ट्रीय नौजवान दल	20/575, डी0डी0ए0 फ्लैट, दक्षिणपुरी, नई दिल्ली - 110062
2153	राष्ट्रीय नव निर्माणभारत पार्टी	के-33, एफ/एफ, ए.वी. लाजपत नगर - II, नई दिल्ली- 110024
2154	राष्ट्रीय नव प्रभात पार्टी	110/2, लक्ष्मीपुरम, निकट आर.वी.एम. स्कूल, गांधीनगर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश-251 001
2155	राष्ट्रीय नवजागरण पार्टी	सीनियर एम.आई.जी-2, सह्याद्री परिसर, भदभदा रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश-462003.

2156	राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी	प्लॉट नं. 145, पैगम्बरपुर, पोस्ट-रसूलगढ़, थाना-सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221007
2157	राष्ट्रीय पोंवर पार्टी	101, आश्रम एवेन्यू, बी/एच, कोचरब आश्रम, पानडी क्रॉस रोड, ऐलीसब्रीज, अहमदाबाद, गुजरात - 380006
2158	राष्ट्रीय प्रगति पार्टी	गढ़ पर, नारदीगंज रोड, नवादा, पोस्ट य जिला - नवादा - 805 110, बिहार।
2159	राष्ट्रीय प्रजा कॉंग्रेस (सेक्यूलर)	12-11-113, ए. बी. नागेश्वर राव स्ट्रीट, आर्य पुरम राजमुन्दरी (आन्ध्र प्रदेश)
2160	राष्ट्रीय प्रतिभा पार्टी	मकान नं० 119, श्री राम कॉलोनी, होशंगाबाद रोड, मिसरोद, भोपाल, मध्य प्रदेश-462047
2161	राष्ट्रीय रक्षा दल	मार्फत, होटल पंकज, सैक्टर - 22ए, घंटीगढ़।
2162	राष्ट्रीय रक्षक मोर्चा	31, अलकापुरी, न्यू हाईकोर्ट के पीछे, सिटी सेंटर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश - 474011
2163	राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी	2/36, रुचि खण्ड-1, शारदा नगर योजना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226012
2164	राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी	डी- 26, मीरदर रोड, नई दिल्ली- 110002.
2165	राष्ट्रीय सभ जनशक्ति पार्टी	रुतनचक नया टोला, पोस्ट-हथुआ, जिला-गोपालगंज बिहार-841436
2166	राष्ट्रीय सदभावना पार्टी	ग्राम- राधोपुर नरसंझा, पोस्ट- बाजितपुर, थाना- पातेपुर, जिला- वैशाली, बिहार-843110
2167	राष्ट्रीय साफ नीति पार्टी	ग्राम व पोस्ट- मन्नेहरपुरा, तहसील- बस्सी, जिला- जयपुर, राजस्थान- 303301
2168	राष्ट्रीय सहारा पार्टी	जंगरा मार्किट दुन्दहारा, गुडगांव, -122016, हरियाणा।
2169	राष्ट्रीय सहयोग पार्टी	एफ- 130/4, ग्रांड फ्लोर, गौतम नगर, नई दिल्ली- 110049
2170	राष्ट्रीय समाधान जनमोर्चा	11, प्रकाश नगर, एमपीईबी अधिकारी कॉलोनी, गोविन्दपुरा, भोपाल, मध्य प्रदेश - 462023.
2171	राष्ट्रीय समाज दल (आर)	मकान सं. 193, बार्ड सं. 7, शास्त्री नगर, कोराव, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश-212306
2172	राष्ट्रीय समाज पक्ष	द्वारा एल. इब्ल्यू. काले, 17- रघुनाथ दादोजी स्ट्रीट, चौथी मंजिल, हैन्डलूम हाउस के पास, फोर्ट, मुम्बई - 400001, महाराष्ट्र।
2173	राष्ट्रीय समाजहित दल	मुहल्ला-देवी मंदिर कॉलोनी (डीएम कॉलोनी), पेट्रोल पम्प के बगल में, दीघा, पटना, बिहार-800011
2174	राष्ट्रीय समाजवादी अपना दल	ग्राम - बासूपार (बनकंट) निकट शिवा नरसिंह होम, पो - जीयनपुर, जनपद - आजमगढ़, उत्तर प्रदेश ।
2175	राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रान्ति पार्टी	बी-37/162, के. पी. गिरी कॉलोनी, बिरदोपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
2176	राष्ट्रीय समाजवादी लोक अधिकार पार्टी	ए.टी.-ग्राम सिलाट, पोखरिया पोस्ट, बाया बिरौली (आर.ई.), जिला-समस्तीपुर, बिहार-848113
2177	राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी (सेक्यूलर)	ए /104, राजश्री एवेन्यू, बी./एच., इन्कम टैक्स के पीछे, दिनेश हाल के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380009, गुजरात।
2178	राष्ट्रीय समाजवादी स्वाभिमान मंच	प्लॉट नं. 33/34, लक्ष्मी नगर, रिसाली, भिलाई, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़ -490006
2179	राष्ट्रीय समानता दल	8/440, त्रिलोक पुरी, दिल्ली - 110091.
2180	राष्ट्रीय समरसता पार्टी	सी- 133, डी.डी.ए फ्लैट्स, न्यू रणजीत नगर, पटेल नगर, नई दिल्ली- 110008
2181	राष्ट्रीय सम्राट सेना पार्टी	हाऊस नं० 3115, एस. जी. नगर, दीघा, ऐरोली, नई मुंबई, महाराष्ट्र- 400708.
2182	राष्ट्रीय समता पार्टी (सेकुलर)	मकान नं० - 27, ग्राम - बीरपुर सिंघाड़ा, पोस्ट - सिंघाड़ा, जिला - वैशाली, बिहार-800011
2183	राष्ट्रीय समता विकास पार्टी	मकान सं. 227/111, विष्णुपुरी भूतेश्वर, पोस्ट- कृष्णानगर, जिला- मथुरा, उत्तर प्रदेश-281004
2184	राष्ट्रीय संविधानवादी पार्टी	ग्राम-रमपुरा, पोस्ट- हैदरपुर, जनपद-औरैया, उत्तर प्रदेश- 206129
2185	राष्ट्रीय सनातन पार्टी	एच.एन. 108-ए, जी/एफ के.एच.नं. 60, 30 फुटा रोड, न्यू सभापुर गुजरात, करावल नगर, दिल्ली-110092
2186	राष्ट्रीय संगैल पार्टी	सिमडेगा भवन, डंगराटोली चौक के नजदीक, ओपोजिट लनवीर पेट्रोल पम्प, पुरुलिया रोड, रांची, झारखण्ड- 834001
2187	राष्ट्रीय संगम दल	7वीं, ख्योरा, नवावगंज, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 208002

2188	राष्ट्रीय संस्कृति पार्टी	24 डी-1, गडरियन पुरवा, रतनपुर पनकी, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश-208017
2189	राष्ट्रीय सत संदेश पार्टी	263, बनारस निवास, मित्रनगर, लातूर, तालुक व जिला-लातूर-413512, महाराष्ट्र ।
2190	राष्ट्रीय संयुक्त पार्टी	5/36, रेलवे रोड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नजदीक, जनपद - फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश -209625 ।
2191	राष्ट्रीय संयुक्त समाज पार्टी	एन 8/236-आर-53-1, गणेश धाम कॉलोनी, नैवादा, सुन्दरपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221004.
2192	राष्ट्रीय सर्व मंच संगठन	1-क्यू-13, तिलक नगर, भीलवाड़ा, राजस्थान- 311011
2193	राष्ट्रीय सर्वजन पार्टी	124/3, मदक खाना खुशीपुरा, झांसी-284001, उत्तर प्रदेश।
2194	राष्ट्रीय सर्वांगीन विकास पार्टी	खसरा नं. 608, ग्राम - पसौदा, मेन वजीराबाद रोड, नियर गैरीमांजलि पब्लिक स्कूल, विपक्ष राजेंद्र नगर, गरिमा गार्डन, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201005.
2195	राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी	खसरा नं. 496/1, मेन वजीराबाद रोड, ग्राम- पसौदा, तहसील- लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
2196	राष्ट्रीय सर्वोदय पार्टी	ए - 412, ए0जी0 कॉलोनी, थाना - शास्त्री नगर, जिला - पटना, बिहार - 800025
2197	राष्ट्रीय सर्वग समाज पार्टी	ग्राम- सखेला, पोस्ट - गौराबादशाहपुर, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश - 222133.
2198	राष्ट्रीय सर्वग दल	दुबे का पड़ाव, अलीगढ़ - 202001, (उत्तर प्रदेश)।
2199	राष्ट्रीय सैक्युलर काँग्रेस	आशोर्वाद् अपार्टमेन्ट, मथुरा द्वारका रोड, सकुन्तला पथ, 5 वीं बयई लेन, दीसपुर, गुवाहाटी-6, असम ।
2200	राष्ट्रीय सैक्युलर मजलिस पार्टी	वाई नं.36, गांव-बिहार शरीफ, वडी दरगाह, नालंदा, बिहार-803101
2201	राष्ट्रीय शहरी विकास पार्टी	म0 नं0 8/69(40,40ए) पुराना किला, वायू बनारसी दास नगर, कैण्ट रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226001
2202	राष्ट्रीय शक्ति पार्टी (इण्डिया)	80-ए, मुनिरका गाँव, नई दिल्ली-110067
2203	राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी	गांव - लोहवन, पोस्ट - लोहवन, लक्ष्मी नगर - बलदेव रोड, जिला - मथुरा, उत्तर प्रदेश
2204	राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी	थर्ड.एच.-2, नेहरू नगर, राकेश मार्ग, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201001
2205	राष्ट्रीय सूर्य प्रकाश पार्टी	द्वारा श्री पन्ना लाल, पुत्र श्री मोले शंकर, थाना-अवागढ़, जलेसर रोड, कस्बा व डाकखाना-अवागढ़, जिला-एटा, उत्तर प्रदेश ।
2206	राष्ट्रीय स्वाभिमान संघ पार्टी	A - 104, साधवी टॉवर, सामने हल्केश, मीरा-भायंदर रोड, मीरा रोड ईस्ट, महाराष्ट्र - 401107.
2207	राष्ट्रीय स्वराज्य सेना	03, दहिसर संकेत बिल्डिंग, शिव बल्लभ क्रॉस रोड, रावलपाड़ा, दहिसर (पू), मुंबई, महाराष्ट्र - 400068
2208	राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी	ग्राम व पो0 - पिपरिया, वाई नं0 नं0 3, थाना - मोहनियाँ, बिहार- 821105
2209	राष्ट्रीय तीसरा विकल्प पार्टी	1372/12, न्यू गडौरा, वेहसा, कानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226002
2210	राष्ट्रीय ओलगा कौन्सिल	3, रशद नगर, गोरखपुर रोड, आजमगढ़ - 276001, उत्तर प्रदेश।
2211	राष्ट्रीय उन्नती पार्टी	पास्ताव सख्या 12-ए, ब्लॉक-के 4, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, प्रथम पुस्ता, सोनिया बिहार, दिल्ली- 110059
2212	राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी	कैलाश इंडस्ट्रीयल इस्टेट के सामने, एस.आर.ए. बिल्डिंग नं0 1, रूम नं0 207, 90 फीट रोड, विक्रोली, मुंबई-400079
2213	राष्ट्रीय उत्तराखण्ड पार्टी	124/98, हरिद्वार रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
2214	राष्ट्रीय वंचित पार्टी	मकान नं0 - 525(नया), 204(पुराना), पल्लन बाजार सदर, मकन्दुगंज, जिला - प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश - 230001 ।
2215	राष्ट्रीय विकल्प पार्टी	ग्राम-पिपरीली, पोस्ट-जहाँगीराबाद, जनपद-वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
2216	राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी	प्लॉट सं0 58, न्यू कालोनी, तिलमापुर, आशापुर, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
2217	राष्ट्रीय विकास मोर्चा	557, पाना उद्यान, नरैला, दिल्ली-40 ।
2218	राष्ट्रीय विकास पार्टी	195, मेन अशोका इन्क्लेव, फरीदाबाद, हरियाणा

2219	राष्ट्रीय विकासवादी जनता पार्टी	ग्राम व पोस्ट- हरिहरपुर बैकवारी, जिला- बहराइच, उत्तर प्रदेश- 271870
2220	राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी	एफ-25, प्रोफेसर कालोनी, कमलानगर, आगरा-282005, उत्तर प्रदेश ।
2221	राष्ट्रीय युवा जनअधिकार पार्टी	दुकान नंबर-1, श्रीमन्नाथ शॉपिंग सेंटर, बड़े स्वामीनारायण मंदिर के बगल में, बोरिसाना, टीए -कलोल, जिला-गांधीनगर-382721
2222	राष्ट्रीय युवा अधिकार दल	एटी- जी-67, राजीव नगर, बेगमपुर, पाल अस्पताल के पास, नई दिल्ली-110086
2223	राष्ट्रीय युवा मोर्चा दल	ग्राम-बलेजी, पोस्ट-फेफना, जिला-बलिया, उत्तर प्रदेश-277503
2224	राष्ट्रीय युवा समाज पार्टी	18- मुस्कान मंजिल, रसुलाबाद, रहमत डुप्लेक्स के सामने, शाह-ए-आलम, अहमदाबाद, गुजरात- 380028
2225	राष्ट्रीय युवा स्वाभिमान पार्टी	काब्रे टाऊनशिप, सावता मैदान के सामने, जुनीवस्ती मेन रोड, बडनेरा जिला-अमरावती महाराष्ट्र- 444701.
2226	राष्ट्रीय आम जन सेवा पार्टी	सी-90, खसरा नं. 770, मदनपुर, खादर एक्सटेंशन, तहसील- महारौली, नई दिल्ली- 110076.
2227	राष्ट्रीय अटल जनता पार्टी	नियर रिंग रोड क्रसिंग, 7, साकेत विहार, खुरम नगर साई गेस्ट हाउस, पहली मंजिल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226022
2228	राष्ट्रीय हिन्दू समाज पार्टी	हाउस नं. नया जुगौर आंशिक, तेह-लखनऊ जिला- लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226028.
2229	राष्ट्रीय इन्साफ पार्टी	604, अनुभव ईलेक्ट्रो, उद्यान-2, रायबरेली रोड, लखनऊ - 226025, उत्तर प्रदेश .
2230	राष्ट्रीय नव निर्माण पार्टी	जयमादेवी पैंथो स्ट्रीट, ओल्ड ब्रह्मपुर, पोस्ट - ब्रह्मपुर, थाना - बड़ा बाजार, जिला - गंजम, ओडिशा-760009
2231	राष्ट्रीय सदावहार पार्टी	72- तुलसी मंडी, होटल महारानी, महारानी चौक, पोस्ट- गुलजारबाग, थाना- आलमगंज, पटना सिटी, जिला- पटना, बिहार- 800007.
2232	रायलसीमा काँग्रेस पार्टी	5/62, पैड्डुरु रोड, गालीवीडु कस्बा, गालीवीडु पोस्ट एवं मण्डल, वाई.एस.आर. कडपा जिला, आन्ध्र प्रदेश - 516267
2233	रायलसीमा परिरक्षण समिति	डोर नं. 70-125-बी-71, हाईवे के निकट, कल्लुर, कर्नूल टाउन, आन्ध्र प्रदेश - 518003
2234	रायलसीमा प्रजा समिति	मकान नं. 5-54, चौदेशरी बाजार, पोस्ट एवं मंडल-कोडुमूर, कर्नूल जिला, आन्ध्र प्रदेश- 518464
2235	रायलसीमा राष्ट्र समिति	डोर नं. 22/160, वसन्थपेटा, कडप्पा डिस्ट्रिक्ट, प्रोद्दतुर - 516 360, आन्ध्र प्रदेश ।
2236	रीयल डेमोक्रेसी पार्टी	37, अक्षर डायमंड मार्केट, सरदार चौक, मिनी बाजार, वराह रोड, सूरत, गुजरात - 395006 ।
2237	रिफार्मस पार्टी ऑफ इंडिया	1-10-50, बैप्टिस्ट पेठा, एलुरु- 534001, आंध्र प्रदेश
2238	रिजनल डेमोक्रेटिक सेकुलर काँग्रेस	लोअर लम्पेयरिंग, पोस्ट - लाबन, जिला - ईस्ट खासी हिल्स, शिलांग - 793004, मेघालय ।
2239	रिपब्लिकन बैकवर्ड काँग्रेस	प्लाट सं०-04, गली सं०-1, वार्ड सं०-1, एम. सी. - कालोनी, चरखी दादरी, जिला भिवानी, हरियाण ।
2240	रिपब्लिकन बहुजन सेना	305, शाहू स्मृति बिल्डिंग, थर्ड फ्लोर, महात्मा फुले नगर, मीनाताई ठाकरे उद्यान के पीछे, ठाणे (वेस्ट), महाराष्ट्र - 400606
2241	रिपब्लिकन पक्ष (योरिपा)	ईसा हटमेंट्स, 8-9, आजाद मैदान, मुम्बई महा नगर पालिका के सामने, किला, मुम्बई-400001, (महाराष्ट्र) ।
2242	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया	सतनाम मैनसन, तीसरा मंजिल, बिल्डिंग नं. 245, पी डिमेंलो रोड, रोल नं. 1393, म्यूनिसिपल को-आपरेटिव बैंक के ऊपर, जीपीओ के अपोजिट, मुंबई -400001
2243	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)	नं. 3/4, ईसा हटमेंट, आजाद मैदान, फोर्ट, मुंबई, महाराष्ट्र-400001
2244	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)	मुकुन्द निवास, इंडिया नगर, लादुर-413512(महाराष्ट्र) ।

2245	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (कर्नाटक)	कार्यालय नं.- 49/1, बी. नागासंद्र, यमलूर पोस्ट, बैंगलूर, कर्नाटक- 560037.
2246	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (खोद्यागडे)	गीता विला, ईस्ट मारेड पल्ली, सिकन्दराबाद, (आन्ध्र प्रदेश) ।
2247	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (राष्ट्रीय)	मकान नं0-67, 68, गली नं0-15, ब्लॉक - 28, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली - 110032
2248	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (रिफॉर्मिस्ट)	बी-12/704, विजय पार्क, कासारवाड़ावली, जी.बी. रोड, ठाणे (पश्चिम), महाराष्ट्र - 400615
2249	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (शिवराज)	10, सोलई स्ट्रीट, अयानावरम, चेन्नई-600023, (तमिलनाडु) ।
2250	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (सोशल)	प्रोपर्टी नं. 2618, वार्ड नं. दुकुम-2, (पुराना वार्ड 1 सी), समता कॉलोनी, एसटी वर्कशॉप के सामने, ताड़ोवे रोड, चन्द्रपुर, महाराष्ट्र- 442401
2251	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भारत	नं. 2001, पहली ए-मेन रोड आठवां क्रॉस, जैमुनी राव सक्लिन (ओटागेयर) एम.सी. लेआउट, विजयनगर, बैंगलूर, कर्नाटक- 560040.
2252	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एकतावादी	बी-9/667, देव नगर, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005
2253	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए)	1/16, संजय कॉम्प्लेक्स, टी. टी. नगर, भोपाल-462003, (मध्य प्रदेश) ।
2254	रिपब्लिकन सेना	शॉप नं0-6, न्यू निर्मल सोसाइटी, 189, दोले पाटील रोड, अक्षय कॉम्प्लेक्स समीर, पुणे, महाराष्ट्र - 411001
2255	रिवोल्यूशनरी कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (रसिक भट्ट)	84-आशुतोष मुखर्जी रोड, कोलकाता-700025, पश्चिम बंगाल ।
2256	रेवोलुशनरी गोवन्स पार्टी	घ.क्र.2385/ए, नागझरवाडा, विचोलिम, उत्तर गोवा, गोवा- 403504
2257	रिवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	शहीद सरवण सिंह चीमा मेमोरियल ट्रस्ट भवन, 352/1, फगवाड़ी मोहल्ला, गढ़ा, जालंधर, पंजाब - 144022 ।
2258	रेवोल्यूशनरी पार्टी	एस एच-3/40, आर.एस. विश्वनाथपुरी कालोनी, नवलपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221003
2259	रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)	टीसी 24/113, पनविला, थाईकाडु पो. आ., तिरुवनन्थापुरम, पिन कोड-695014
2260	रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ केरल (बोल्शेविक) आर. एस. पी. बी	केरला स्टेट कमिटी कार्यालय, फ्यूचर सेंटर, शाहदरा, समाजम रोड, चेट्टाकुलंगरा, तिरुवनन्तपुरम (केरल)
2261	राइट इंडिया मूवमेंट पार्टी	सेंट्रल मेल बॉक्स, श्री दी एम के हाइट्स, फ्लॉट नं0 402, नं0 32-10-32, वैक्कटेशरा कॉलोनी, वार्ड नं0 65, शीला नगर, विशखपट्टणम, आन्ध्र प्रदेश- 530012
2262	राइट पार्टी ऑफ इंडिया	ग्राम व पोस्ट - उत्तर बहीरगाछी, पी.एस. - नाकाशीपाडा, जिला - तदिद्या, पश्चिम बंगाल - 741126
2263	राइट टु रिकॉल पार्टी	एफ-001-ए, सुपथ-2 कॉम्प्लेक्स, जुना वाडज वस स्टेन्ड के सामने, आश्रम रोड, अहमदाबाद, गुजरात- 380013
2264	ऋषिवादी कम शील युवा परमार्थी पार्टी	237/2, गली नं.-23, गांधी कॉलोनी, मुजफ्फर नगर, उत्तर प्रदेश-251002
2265	राइजिंग पीपल्स पार्टी	मकान नं0-202, भूल्ल, फैलोशिप कॉलोनी, दीमापुर, नागालैंड- 797112
2266	रोटी कपडा और मकान पार्टी	ब्लॉक डी, बाबा कॉम्प्लेक्स, हर्ष नगर इटावा, उत्तर प्रदेश- 206001.
2267	रॉयल इंडिया पीपल्स पार्टी	कमरा नं. 35/549 (10/37/153), आदम बाजार चिल्डिंग, थीसूर, केरला - 680001.
2268	रायथु विद्या पार्टी	8-16-93/1, सौभाग्य कॉलोनी, श्रीराम नगर, चित्तलकुन्टा, हैदराबाद, तेलंगाना- 500074
2269	रेनु राजयम पार्टी (ए. पी.)	D. No. 32/86-7-8, गढ़ानीडा गंगम्मा स्ट्रीट, देवुली कडपा, कडपा शहर, कडप्पा जिला, ए.पी. - 516002
2270	साफ पार्टी	547/229, जलालपुर, राजाजी पुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226017
2271	साथ साहकार विकास पार्टी	483, धानापुर रोड, देव बरियाड-7, देवगढ़, बारिया दाहोड, ता. देवगढ़, जिला-दाहोड, गुजरात- 389380

2272	सब जन विकास राष्ट्रीय पार्टी	शोप/हाउस ऑफ नबी रसूल अंसारी पुत्र मोहम्मद हुसैन, गांव व पोस्ट-बारागाँव, वाया खरासारा, जिला-बलिया, उत्तर प्रदेश-277302
2273	सब्याथ पार्टी	दुकान नं. - 3, लक्ष्मी निवास बिल्डिंग, एम. एन. रोड, कुरला (पश्चिम), मुंबई - 400070, महाराष्ट्र ।
2274	सभी जन पार्टी	ई-1/32, दीनदयालपुरम, तौधकपुर रोड, नौबस्ता, कानपुर, उत्तर प्रदेश- 208021.
2275	सबका दल यूनाइटेड	ग्राम व पोस्ट- सैरपुर, रायथा रोड, ब्लॉक- चितहट, जिला- लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226201 ।
2276	सबकी पार्टी	बी-1/1, सेक्टर-जी, जानकीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
2277	सबसे अच्छी पार्टी	मकान संख्या- 222, अमीपुर नंगौला, माजरा- हैदरनगर, तहसील व जिला- हापुड, उत्तर प्रदेश।
2278	सबसे बड़ी पार्टी	41/48, पॉकेट- 2, मयूर विहार, फेस-1, दिल्ली- 110091
2279	सचो सच पार्टी	डी-2/2406, एकता नगर, पी.ओ जवाला आटा मिल्स, अमृतसर, पंजाब 143003
2280	साझा हक पार्टी	मकान सं. 29/9/3, 29/8/2/3, वीपीओ महीलपुर, तहसील- गढ़शंकर, जिला- होशियारपुर, पंजाब- 144527
2281	साझा-पंजाब पार्टी	शांति नगर, डंडारी कलां, लुधियाना, पंजाब - 141001 ।
2282	सदान विकास पार्टी	नॉर्थ ऑफिस पारा, गौरी शंकर नगर, मकान नं.-276, दोरन्डा, राँची, झारखण्ड ।
2283	साहेब जन पार्टी	गैलेक्सी होटल के सामने, गली नं05, कांचन नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-204101
2284	सैनिक जनकल्याण विकास पार्टी	दुकान नं. 4/5/6/7, भूतल, बिल्डिंग को 'सरस्वती प्रसाद अपार्टमेंट' रोड परांका, गजानन महाजन मंदिर, कल्याण पश्चिम-421301, महाराष्ट्र
2285	सैनिक समाज पार्टी	317, शिवा डिस्पोजल कॉम्प्लेक्स, संयुक्त यात्रा बस अड्डा रोड, चन्द्रभागा, आदर्श ग्राम, ऋषिकेश, जिला-देहरादून, उत्तराखण्ड-249201
2286	सजग समाज पार्टी	मोहल्ला- नासही, पोस्ट- जफराबाद, तहसील/सदर/जिला- जौनपुर उत्तर प्रदेश- 222180
2287	सकाला जनुला पार्टी	नं.7-23/1, एम.बैंकटायपलेम, खम्मम ग्रामीण, खम्मम जिला, तेलंगाना-507003
2288	सामान्य प्रजा पार्टी	डी0 नं0 48-11-10/4, अशोक नगर, एम.वी.एस. ज्वेलर्स के सामने, असीलामेट्टा, दिशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश - 530016
2289	समग्र उत्थान पार्टी	मकान नं. बी/9, विवेकानन्द पार्क मार्ग, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना, बिहार- 800013
2290	समग्र विकास पार्टी	1147/8 (157), पी0 एन0 शर्मा रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250001
2291	समैक्या तेलुगु राज्यम	डी. नं. 1-39-बी (क्रम सं. 1025ए), घायापुरम गाँव, वजाकरूर मंडल, अनन्तपुर जिला, आन्ध्र प्रदेश - 515842
2292	समैक्यांध परिरक्षण समिति	मकान नं. 8-3-580/1, येल्लारडुडुगुडा, अमीरपेट - 500073, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।
2293	समाज अधिकार कल्याण पार्टी	ऑफिस नं.822-823, आठ वॉ तल, मैसर्स बाजवा डेवलपमेंट लिमिटेड, सन्नी बिजनेस सेक्टर, न्यू सन्नी एन्कलेव, सेक्टर - 125, मोहली, पंजाब
2294	समाज भलाई मोर्चा	134/17-सी, मिलाप नगर, होशियारपुर, पंजाब - 146001
2295	समाज परिवर्तन पार्टी	ग्राम-सतारपुर, पोस्ट-करोरा, तहसील-मछलीशहर, जनपद-जौनपुर, उत्तर प्रदेश।
2296	समाज रक्षक पार्टी (भारतीय क्रांती)	ग्राम-केन, पोस्ट-कनवार, तहसील-सिराथु, जनपद-कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश- 212217
2297	समाज सत्ता दल	मकान सं. -74, पडारा कांगल (बौलिया), निकट प्राइमरी स्कूल, पडारा कांगल, तहसील-संदर, जिला - मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश - 231001.
2298	समाज सेवा पार्टी	मकान नं. 27, बहरामगढ़, तहसील- बुढाना, जिला- मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश.
2299	समाज सेवक पार्टी	568अ/223 सेक्टर-7, नियर पुराना भारत गैस गोदाम, गीतापल्ली, आलमबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।

2300	समाज शक्ति पार्टी	मकान नं० सी-5/382, न्यू रिसेटलमेंट कॉलोनी, भलसवा, दिल्ली-110042
2301	समाज सुधारक पार्टी	मकान सं. 723/2, मंगल पाण्डेय नगर, सेक्टर-2, विश्वविद्यालय रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250004
2302	समाज विकास क्रांति पार्टी	विद्यालय निवास, खिड़ीपाडा, दर्गा रोड, मुलुंड कॉलोनी, मुलुंड (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र-400082
2303	समझदार पार्टी	ग्राम - माहरी (बडौली), पी.ओ. - माहरी, जिला - बलिया, उत्तर प्रदेश - 221716
2304	सामाजिक नवनिर्माण पार्टी	6, फरीदीनगर, पिकनिक स्पोर्ट रोड, घनश्यामकुंज, इंदिरानगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226016
2305	सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी	बी - 172, टी.डी.आई. सिटी, फतेहाबाद रोड, आगरा, उत्तर प्रदेश-282006.
2306	सामाजिक प्रगतिशील पार्टी	भगत सिटी कॉलोनी, बिलंदरपुर रोड, खेजरोली, तहसील-चोमू, जिला-जयपुर, राजस्थान-303803
2307	सामाजिक संघर्ष पार्टी	मकान नं० 59, गली नं० 2, गुरु अर्जुन देव नगर, तरन तारन रोड, अमृतसर, पंजाब-143002
2308	समाजतांत्रिक पार्टी ऑफ इण्डिया	40/1, बी० रोड०, बामनगाछी, हावड़ा-711006, पश्चिम बंगाल।
2309	समाजवादी आम जनता दल	बेलातल रोड, लाया पैलेस के पीछे, चार्ड नं.-2, नौगोंव, जिला-छतरपुर, मध्य प्रदेश-471201
2310	समाजवादी आन्दोलन पार्टी	ग्राम-पोस्ट-दौलतपुर गौहावर बिल्लौच, तहसील-चांदपुर, जिला-विजनाौर, जिला-वाराणसी, उत्तर प्रदेश-246734
2311	समाजवादी फॉरवर्ड ब्लॉक	7-5-14/बी, वैकटेश्वर कॉलोनी, महबूब नगर, तेलंगाना - 509001
2312	समाजवादी जन परिषद	जय माल्हा प्रसाद, रैती बुन्देर रोड, महंगिरि, ठाणे (पश्चिम) - 400601, (महाराष्ट्र)।
2313	समाजवादी जनता पार्टी (चन्द्र शेखर)	1 एक्सटेंशन 358, मोहन गार्डन, रामा पार्क रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली - 110059
2314	समाजवादी जनता पार्टी (कर्नाटक)	कमरा संख्या-21, द्वितीय तल, हमीद शाह कॉम्प्लेक्स, नं.-2, कव्चनपेट, मेन रोड, उल्सूर गेट, पुलिस स्टेशन के पीछे, बंगलौर-560002, कर्नाटक।
2315	समाजवादी जनकान्ति पार्टी	ए-454, शास्त्री नगर, दिल्ली- 110052.
2316	समाजवादी लोक परिषद	कुसुमपुरम कॉलोनी, नन्थुपुर रोड, पोस्ट - कुरथील, थाना - परसा बाजार, पटना बिहार-804453
2317	समाजवादी समाज पार्टी	गार्ड नं. - 13, लोहिया नगर, नगर पंचायत - सलेमपुर, जनपद - देवरिया, उत्तर प्रदेश - 274001
2318	समान आदमी समान पार्टी	ग्राम- अमिलवान, पोस्ट ऑफिस- खुटार, थाना माडा, जिला- सिंगरौली, मध्य प्रदेश-486886.
2319	समान अधिकार पार्टी	62/271, नगला काछियान, (मुस्तफा क्वार्टर कॉलोनी) आगरा कैंट, आगरा, उत्तर प्रदेश।
2320	समान भागीदारी पार्टी	538ख/404, दीनदयाल नगर, खदरा, सीतापुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226020
2321	समान्या मक्कल ताला काची	एस.एफ.न. 1172/12 ए, करूर चार्डपास रोड, इन्दिरा नगर, इरोड, तमिलनाडू-638002
2322	सामान्य जनता पार्टी (लोकतांत्रिक)	नं० - 17, मकान नं० - 29, बसावना दुर्गा (कोरम्मा कैम्प), गंगावती, जिला - कोप्पल, कर्नाटक - 583227
2323	समर्थ भारतवर्ष पार्टी	39ए- डी.डी.ए फ्लैट्स (पुराना), चिल्ला, मयूर विहार, फेस-1, दिल्ली- 110091
2324	समर्थ किसान पार्टी	प्रबंधक- मदर टेरेसा कान्वेंट स्कूल, ग्राम व पोस्ट - मनौरी, तहसील - चावल, जनपद - कौशांबी, उत्तर प्रदेश।
2325	समता क्रांति दल	प्लॉट नं. 3547/3875, मौजा गौतम नगर, नगर, गार्गे छाका, टेम्पल रोड, ओल्ड उन, भुवनेश्वर-751002, ओडिसा।
2326	समता पार्टी	220, चिठ्ठलभाई पटेल हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
2327	समता समाधान पार्टी	ई-1/150, अरेरा कालोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश।
2328	समता संघर्ष पार्टी	55बी, राधेपुरी एक्सटेंशन-1, दिल्ली - 110051

2329	समतामूलक समाज पार्टी	194, कांशी सदन, ए.बी.रोड, ग्राम व पोस्ट- रेन्हट, ब्लैड सर्वे नं.-299/01/1(एस), पटवारी रेन्हट, तहसील-घाटीगाँव, जिला-गवालियर, मध्य प्रदेश-475330
2330	समाथुवा मक्कल कड़गम	139- टी.एच. रोड, कलादीपेट, थिरुवोतियूर, चेन्नई तमिल नाडु-600019
2331	संभाजी ब्रिगेड पार्टी	साई कॉम्प्लेक्स, गाला नं.7, नवा मोढा, हिंगोली, तालुका एवं जिला-हिंगोली, महाराष्ट्र-431513
2332	संविधान बचाओ पार्टी	24/ए/2, एस.डी.मुखर्जी लेन, डाकघर-रिसडा, थाना-रिसडा, जिला-हुगली, पश्चिम बंगाल-712248
2333	समदर्शी समाज पार्टी	ग्राम- मानिकापुर मजरे सराय पाण्डेय, पोस्ट- जौरास, परगना व तहसील- हैदरगढ़, जिला- बाराबंकी, उत्तर प्रदेश ।
2334	समनक जनता पार्टी	सर्वे नंबर 120, प्लॉट नंबर 9, भावसार चौक के पास, अनिकेतनगर, तराडा, (केडी.); मालेनगांव रोड, नांदेड, टी.के. और जिला - नांदेड, महाराष्ट्र - 431605.
2335	सामूहिक एकता पार्टी	13/51, परमट, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 208001
2336	सम्पर्क विकास पार्टी	शाप न.3, नंदकिशोर अपार्टमेंट, निकट चंद्रनगर बस स्टॉप, नारायणनगर, पाली, अहमदाबाद, गुजरात-380007
2337	सम्पूर्ण समर्पण पार्टी	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल नगर, भुजौली कॉलोनी, प्लॉट नं. ई.डब्ल्यू.एस- 209-210, देवरिया, उत्तर प्रदेश-27400
2338	सम्पूर्ण भारत क्रांति पार्टी	डब्ल्यू जेड- 150, ग्राम- बुढेला, विकासपुरी, नई दिल्ली- 110018
2339	सम्पूर्ण समाज पार्टी	म.नं. 464, ग्राम व पोस्ट- गैरवाह, थाना- सरपतहाँ, तहसील- शाहगंज, जनपद- जौनपुर, उत्तर प्रदेश-223103
2340	समरस समाज पार्टी	राजी जरई, मौजा - घामडी, तहसील - सोहना, जिला - गुडगाँव, हरियाणा ।
2341	सम्राट अशोक सेना पार्टी	मकान नं. 1546, ग्राम व पोस्ट- बेलसर, तहसील- तरबगंज, जिला- गोण्डा, उत्तर प्रदेश-271401
2342	सम्राट मिहिर भोज समाज पार्टी	एफ-64/सी9/197, सेक्टर-40, नोएडा, (नियर साईनाथ मंदिर), जिला-गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201303
2343	समुद्धा ओडिशा	201, सीतलकुंज अपार्टमेंट, प्लॉट नं.0 एम 63, मधुसूदन नगर, भुवनेश्वर-751001, उड़ीसा।
2344	समस्त समाज पार्टी	70, ए आर मैकेनिकल वर्क्स, शिवनगर-2, मौजा गद्दीवाला, निकट बी एस वूलन मिल, पानीपत, हरियाणा-132103
2345	समता दल (प्रगतिशील)	मकान सं०-480, गाँव - तिसाड़ी, तहसील व जिला - मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250002
2346	समता समाजवादी कांग्रेस पार्टी	के - 56/114-7 (रानीफाटक), असनगंज, चाराणसी, 221 001, उत्तर प्रदेश
2347	समता विकास पार्टी	मकान हरभजन जांगडे, वाई नं० 17, मण्डीदीप, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश ।
2348	समतावादी रिपब्लिकन पार्टी	108, रामपुरम, पी.ए.सी. रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश 1/
2349	समुगा मक्कल काची	न. 3, मुदालियर गली, बलाम गाँव, काँचीपूरम जिला, तमिल नाडु - 602105
2350	सम्यक् परिवर्तन पार्टी	ग्राम - जानकी नगर, रानीपुरवा स्कूल के पीछे, विकास खण्ड - झंझरी, निकट मण्डे नाला पुल, पोस्ट - बस स्टाप, जनपद - गोण्डा, उत्तर प्रदेश
2351	सम्यक पार्टी	ग्राम व पोस्ट- माण्डा, जिला- इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-212104
2352	सनातन संस्कृति रक्षा दल	ग्राम - तराँव, पो: थाना एवं तहसील - कोराँव, जिला - इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
2353	संगठित जनता पार्टी	नं.177, शिवा खण्ड, विश्वकर्मा नगर, दिल्ली-110095
2354	संघर्ष पार्टी ऑफ इंडिया	मकान सं. 314, शान्ति निकेतन, डी0 एम0 रोड, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश - 203001
2355	संघर्ष समाज पार्टी	मकान नं०-44, ग्राम - ढका, पोस्ट - अखा, तहसील - आँवला, जिला - बरेली, उत्तर प्रदेश - 243001
2356	संघर्ष सेना	11, साईराज कॉम्प्लेक्स, पंडित नाका, शाहपुर, ता. शाहपुर, जिला. ठाणे, महाराष्ट्र - 421601
2357	साँझी विरासत पार्टी	506, चन्द्रलोक कॉलोनी, गली नंबर- 3, मंडोली रोड, शाहदरा, दिल्ली- 110093

2358	संख्यानुपाती भागीदारी पार्टी	नए विग्रहपुर, मौठापुर, (वस स्टैंड) पटना-800001, बिहार
2359	सन्मान राजकीय पक्ष	56, तिरुपति नगर, तोहारा, तालुक व जिला - यवतमाल महाराष्ट्र - 445002
2360	संयोगवादी पार्टी	मकान नं.3, पहली मंजिल, कमशियल 1, परस तिएरिया, सेक्टर 137, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201304.
2361	संयुक्त भारत पक्ष	रत्नम बंगलो, नजदीक मीनताई ठाकरे गार्डन, एम्.आई.डी.सी.रोड, बदलापुर (पूर्व), तालुका-अम्बरनाथ, ठाणे, महाराष्ट्र-421503
2362	संयुक्त जनादेश पार्टी	356/225/257, अशोक नगर, काले पहाड, आलमनगर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226017.
2363	संयुक्त किसान विकास पार्टी	ग्राम- सुरौन्धा, पोस्ट- बड़की बसौली, थाना- डुमरांव, जिला- बक्सर, बिहार- 802119
2364	संयुक्त क्रांति पार्टी	वाई नं.-3, लांजी, बालाघाट, मध्य प्रदेश - 481222
2365	संयुक्त समाज मोर्चा	92-सी, बार्ड नंबर 13, भगवानपूरा रोड, समराला, लुधियाना, पंजाब-141114
2366	संयुक्त समाजवादी दल	11, जोन्स लाइन्स, आगरा-282004, उत्तर प्रदेश ।
2367	संयुक्त संघर्ष पार्टी	शोरूम नंबर 10, निचला भूतल, हाई ग्रांड रोड, नाभा, उप-तहसील-जीरकपुर, मोहाली, जिला-एस.ए.एस. नगर-140603 (पंजाब)
2368	संयुक्त विकास पार्टी	ग्राम - सारसौल, पोस्ट ऑफिस - मुली, थाना - अरनियाँ, तहसील - खुर्जा, जिला - बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश ।
2369	सपाक्स पार्टी	144, विद्यानगर, होशंगाबाद रोड भोपाल, मध्य प्रदेश- 462004
2370	सर्व साँझी पार्टी	सागर हस्पिटल, नियर पीर बाबा मादी शाह जी, बस्सी ख्वाज, होशियारपुर, पंजाब-146001
2371	सरदार पटेल सिद्धान्त पार्टी	ग्राम- नैवादा, पोस्ट- बहुला, तहसील- पट्टी, जिला- प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश- 230135 ।
2372	सरदार वल्लभभाई पटेल पार्टी	1, ओलेकर हाऊस, दत्तापेडा रोड, बोरीवली पूर्व, मुम्बई - 400 066
2373	सर्व आदि दल	फर्स्ट हाउस, बार्ड 14, गोवर्धन, रावतभाटा, अपोजिट पंजाबी ढाबा, बिरगांव, रायपुर चिलासपुर राजमार्ग, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़-492001
2374	सर्व जन पार्टी (भारत)	ई-734, कृष्णा मंदिर के पीछे, शकरपुर, दिल्ली- 110092
2375	सर्व जन सर्व समाज पार्टी	2/248, टी एफ, सुभाष नगर, नई दिल्ली - 110027
2376	सर्व राज्य पार्टी	548घ/17, तेजी खेड, तालकटोरा रोड, मानक नगर, जे.आर.पी.एफ. के पास, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226011.
2377	सर्व समाज पार्टी	46, राजीव नगर, मण्डी चौक, गढमुक्तेश्वर, हापुड, उत्तर प्रदेश- 245101
2378	सर्व सम्भाव पार्टी	यादव भवन, पुवार्यो रोड, ग्राम व ब्लॉक- बान्दा, तहसील- पुवार्यो, जिला- शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश।
2379	सर्व विकास पार्टी	गाँव - प्रतीत नगर, एन0 एच0 - 58, पोस्ट ऑफिस के नजदीक, रैवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड -249205
2380	सर्व हित पार्टी	602-बी, खसरा सं0 298/199, 298/207, 298/209, मौहल्ला बॉस, सुनार वाली गली, ग्राम - घिठोरी, नई दिल्ली - 110030
2381	सर्व जन समाज पार्टी (नन्द किशोर चावला)	चावला प्रोपर्टीज, लक्ष्मी विहार, कैमरी रोड, हिसार, हरियाणा ।
2382	सर्व जनता पार्टी	सेन्ट्रल पार्टी ऑफिस #17, जावाली (ग्राम), पिलगिरी (पोस्ट), शिमोगा (तालुका), जिला- शिमोगा-577 227, कर्नाटक।
2383	सर्व समाज जनता पार्टी	ग्राम व पोस्ट- औरिल (खपडियाचक), तहसील- फूलपुर, जिला- आजमगढ़ उत्तर प्रदेश- 223222
2384	सर्व समाज जनहित पार्टी	घूरीपुर (जखौं) म ज्ञानपुर रोड गोपीगंज, तहसील-ज्ञानपुर, जिला-भदोही, उत्तर प्रदेश- 221304
2385	सर्व समाज कल्याण पार्टी	विजराज भवन, ग्राम - सिंघारपुर, पो. - अहमदपुर, मथुरा रोड, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश ।
2386	सर्व सुरक्षा पार्टी	ग्राम व पोस्ट- तिलखवार, जिला - करछता, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।

2387	सर्वधर्म पार्टी (मध्य प्रदेश)	120/1, अशोकन गार्डन, तहसील - नजूल, जिला - भापाल - 462023, मध्य प्रदेश
2388	सर्वजन हिताय पार्टी	70/59, लीडर रोड, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश - 211003
2389	सर्वजन कल्याण लोकतांत्रिक पार्टी	कॉफेड, मीन भवन, तृतीय तल, न्यू पुनाईचक, वेस्ट बोरिंग कैनाल रोड, पटना, बिहार - 800023
2390	सर्वजन समाज पार्टी (डी)	ग्राम व पोस्ट आफिस - वाडला बांगर, तहसील-गुरुदासपुर, जिला-गुरुदासपुर, 143511 पंजाब।
2391	सार्वजनिक आदर्श सेना	20/1, दूसरा मेन, 8 क्रॉस, चामुंडी ले आउट, विधवारणयापुर, बैंगलुरु-560097
2392	सरवर पार्टी	ग्राम व पोस्ट-बसंतपुर, कैम्पियरगंज, जनपद- गोरखपुर, उत्तर प्रदेश - 273158
2393	सर्व भवन्ति सुखिनः पार्टी	ग्राम व पोस्ट - ममदर, तहसील व थाना - रामपुर नैकिन, जिला - सीधी, मध्य प्रदेश।
2394	सर्वहारा दल	केवला फरियट्टा, बाया - गिधौर, जिला - जमुई, (बिहार)।
2395	सर्वहारा विकास पार्टी	मकान नं० 102, जंगल मातादीन, आर्यपुरम कॉलोनी, पोस्ट - पदारी बाजार, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश - 273014
2396	सर्वहित समाज सेवा पार्टी	मकान नं० - 177, ग्राम व पोस्ट - शाहजहाँपुर बैजना, थाना - दादों, जिला - अलीगढ़, उत्तर प्रदेश - 202133।
2397	सर्वजन आवाज पार्टी	नं० 528, ब्लॉक-बी, प्लैटिनम हाइट्स, सेक्टर-18बी, द्वारका, नई दिल्ली-110078
2398	सर्वजन लोक शक्ति पार्टी	टी.ए. 184/2, तुंगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली- 110019
2399	सर्वजन नवयुग विकास पार्टी	ग्राम+पो० - बिसुनपुर, बेदौलिया, थाना-जन्दाहा, जिला-वैशाली, बिहार-844505
2400	सर्वजन समता पार्टी	774, गीतांजलि विहार, वार्ड नंबर 28, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201102
2401	सर्वजन सनातन पार्टी	म. नं०-बी-1/148, ए-1ए, अस्सी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221005
2402	सर्वजन सेवा पार्टी	163/200/1, सलारी का हता, चिकमण्डी, मौलवीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-18
2403	सर्वजन सुखाय पार्टी	अड्डा निहाल, मानिकपुर वि.सु. तहसील इटावा, मेन रोड, एन.एच.-2, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश-206001
2404	सर्वलोकहित समाज पार्टी	16/94, ए-ब्लॉक, बाबा कॉलोनी, बुराडी, दिल्ली-110084
2405	सर्वोदय भारत पार्टी	बी - 19, सेक्टर - 'O', अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2406	सर्वोदय कर्नाटक पक्ष	"अनिकेतन", प्रथम तल, एस.जे.एम. समुदाय भवन, कालीदास रोड, गाँधीनगर, बैंगलोर - 560 009, (कर्नाटक)।
2407	सर्वोदय प्रभात पार्टी	बी-3/231, नंद नगरी, दिल्ली-110093
2408	सर्वप्रिये समाज पार्टी	मोहल्ला- अशोक नगर शहरिया, विष्णुपुरम कॉलोनी, जिला- इटावा, उत्तर प्रदेश- 205001
2409	सर्वसमाज न्याय पार्टी	ओशन टावर पर नं० 101, कॉमिश्नल कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नंबर 1152/53, झोटवाडा रोड, जयपुर, राजस्थान- 302012.
2410	सर्वशक्ति दल	डी-60, देव नगर, मुरलीपुरा, सीकर रोड, जयपुर, राजस्थान- 302039
2411	सर्वश्रेष्ठ दल	ग्राम - शाहदाऊदपुर उर्फ ककोरगहना, पो. एवं तहसील - सदर, जिला - जौनपुर, उत्तर प्रदेश।
2412	सशक्त भारत पार्टी	मकान नं० 345, पराशर भवन, जटों का मोहल्ला, पोस्ट-कन्चौज, तहसील-भदोसर, जिला- चित्तौड़गढ़ राजस्थान- 312613
2413	साथी और आपका फैसला पार्टी	प्लॉट नं०- 2005, ग्राम - चमरहरा, महनार रोड, जिला - वैशाली, बिहार - 844507
2414	सत्ता कल्याण पार्टी	नं० डी-144, परस प्रभु सोसाइटी, निकट सोनल पार्क, इसानपुर, जिला- अहमदाबाद, गुजरात-382443
2415	सत्तरी युवा मोर्चा	एच नं० - 48, कनकिरे, गुलेली, सत्तरी, गोवा।
2416	सत्तातन्त्र मयकल कच्ची	1-3/1020 बी, ग्रीन गार्डन, यूडयोरियल पुन्गा रोड, विनायकम्पट्टी, जिला-सेलम, तमिल नाडु- 636008.

2417	सत्य बहुमत पार्टी	ए-112, प्रताप नगर, गली नं. 15, मयूर विहार फेस-1, दिल्ली-110091
2418	सत्य क्रान्ति पार्टी	म0 नं0 - 176 ई, शिवपुर, सहवाजगंज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश ।
2419	सत्य शिखर पार्टी	मकान सं0 - 70-ए, ग्राम - नरहरपुर (शंकरपुर), पोस्ट ऑफिस - मियागंज, जिला - फैजाबाद, उत्तर प्रदेश - 224208
2420	सत्या विकास पार्टी	बी-7, सैलजा अपार्टमेंट, निकट सुगम फ्लैट, वासना अहमदाबाद, जिला- अहमदाबाद, गुजरात-380007
2421	सत्यनिष्ठ जन सेवक पार्टी	मकान नं.128, वाई नं.5, ललित नगर, एसडीएम निवास के सामने, तहसील व पोस्ट- सुन्दर नगर, जिला-मण्डी, हिमाचल प्रदेश-175019
2422	सत्यावादी रक्षक पार्टी	बी/501, योगी पूजन अपार्टमेंट, अक्षर फार्म रोड, विधा नगर, गुजरात-388120
2423	सौराष्ट्र जनता पक्ष	मकान संख्या- 6/3/116, हिम्मत लाल परमार रोड, वादिपारा, सुरेन्द्र नगर, गुजरात-363001
2424	सवर्ण समाज पार्टी	ईस्ट ऑफ स्टेडियम, नन्द हाईवेयर, सिरमौर रोड, रोवा-486001, (मध्य प्रदेश) ।
2425	सेक्यूलर एलाइंस ऑफ इण्डिया	केशवानी कॉम्पलेक्स, प्रथम तल, नवजीवन कॉन्फेरेटिव बैंक लि0, चोपडा कोर्ट ग्रांच, उल्हास नगर, 421003, महाराष्ट्र ।
2426	सेक्यूलर डेमोक्रेटिक कांग्रेस	नं. 958/डी, वाई नं. 13, (पुराना नं. 722/डी, वाई नं. 10), कैलाकम पुलिस स्टेशन के पास), पी.ओ.- कैलाकम ग्राम पंचायत, जिला- कन्नूर, केरल- 670674
2427	सेकुलर इंकलाब पार्टी	मकान नं.202, राजीव गार्डन, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102
2428	सेक्युलर नेशनल द्रविड पार्टी	काडक्कायूर विल्डिंग, थुमपारा नगर, मुन्डाक्कल, कोल्लम शहर, कोल्लम-691001, केरल ।
2429	सेक्यूलर पार्टी ऑफ इंडिया	मं. नं. 122-ए, रामविहार, ओल्ड जानीपुर, जम्मू-180007, (जम्मू व कश्मीर) ।
2430	सेक्युलर रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी	एडम स्टार कॉम्पलेक्स, कमरा नं. 132, पहली मंजील, द्वितीय ब्लॉक, थोडुपुड़ा, इडुक्की जिला, केरल।
2431	सहजधारी सिख पार्टी	622/9, टेलीफोन एक्सचेंज के पास, रायकोट, जिला लुधियाना, पंजाब ।
2432	सर्व भलाई पार्टी	मकान सं. 625, नया आजाद नगर, सुल्तान विंड रोड, अमृतसर पंजाब- 143001
2433	सर्विस अद्वेयार्ड विथ इंटीग्रिटी देसम पार्टी	प्लॉट नं-29, फेज-1, मेन रोड, नियर पुलिस स्टेशन, वनास्थालिपुरम, हैदराबाद तेलंगाना - 500070
2434	सर्विस क्लास पार्टी	एचआईजी, 4/305, चिनीत खंड गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010
2435	सेवा दल	532, (ओपोजिट 126-आर), सी.आर.कॉलेज रोड, माडल टाउन, रोहतक-124001, हरियाणा
2436	सेवा साम्राज्य पार्टी	द्वयुनाईक तांडा, आनंदवाडी, ता0 - पालम, जि0 - परभणी, महाराष्ट्र - 431536
2437	शक्ति सेना (भारत देश)	सिमी भवन, नेशनल हाईवे 43, कास लेन तिराहा, देवपुरी, रायपुर छत्तीसगढ़- 492015
2438	शक्तिमान समाज पार्टी	फ्लाट नं.-133, कौशलपुरी फेस-II, ग्रामर स्कूल के पास, पोस्ट-खोजपुर, जिला- अयोध्या (फैजाबाद), उत्तर प्रदेश- 224001.
2439	शाने हिन्द फोरम	बी-111/1, बी- ब्लॉक, अशोक विहार फेज-1, नई दिल्ली- 110024
2440	शंकरनाद पार्टी	चैंबर नंबर-6, चुनाव कार्यालय रोड, सिविल कोर्ट, कपांड कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 208001
2441	शान्ति मोर्चा	एक्स-919, चांद मौहल्ला, गंधी नगर, दिल्ली - 110031
2442	शाइनिंग इंडिया पार्टी	वार्ड नं. - 6, पोस्ट - देशनोक, जिला - बीकानेर, राजस्थान - 334801
2443	शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) (सिमरनजीत सिंह मान)	ग्राम-किला, यस हरणाम सिंह-पो. आ. तेल्लानिमा, जिला-फतेहगढ़ साहब, पंजाब- 140406.
2444	शिरोमणि अकाली दल (संयुक्त)	प्लाट नं.92, सेंक्टर-82, एयरपोर्ट रोड, साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहली), पंजाब- 140308.

2445	शिरोमणि अकाली दल (टकसाली)	नं. 30, गुरु हर राय अवेन्यु, खालसा कॉलेज के सामने, अमृतसर, पंजाब- 143001
2446	शिरोमणि लोक दल पार्टी	भवन संख्या - 108, कृष्ण मंदिर के निकट, दाना मंडी के सामने, जी.टी. रोड, अमृतसर, पंजाब ।
2447	शिवराज्य पार्टी	फ्लैट नं. बी/102, डेक्कन अपार्टमेंट, यूनियन पार्क, पाली हिल, खार (पश्चिम)- 400052
2448	शोषित इंकलाब पार्टी	मुरलीचक, जगदेव पथ, नजदीक जगदेव स्मृति अपार्टमेंट्स, डाकघर - बी.वी. कॉलेज, पटना, बिहार- 800014
2449	शोषित समाज दल	सेंटर ऑफिस:- दक्षिणी मंदिरी, पटना-800001, (बिहार) ।
2450	शोषित संदेश पार्टी	गिर्द बड़गाँव, संद रविदास नगर, भदोही, उत्तर प्रदेश ।
2451	श्रम शक्ति पार्टी	जे-1749, जे- ब्लॉक, जहाँगीरपुरी, दिल्ली- 110033
2452	श्रमजीवी पार्टी	1-6-48, ओल्ड अलवाल, पोस्ट बोल्लाराम, सिकन्दराबाद - 500010, आन्ध्र प्रदेश ।
2453	श्री जनता पार्टी	मान्डा सदन, द्वारिका नगर, रीवा, मध्य प्रदेश-486001
2454	शुभा कर्नाटक	'ह्राउस नं. 1262, कुस्तगी रोड, फस्ट क्लास, गजेन्द्रगड, जिला-गडग- 512114, कर्नाटक ।
2455	सिक्किम नेशनल पीपल्स पार्टी	द. जॉर्ज, एम.जी. मार्ग, गंगटोक, ईस्ट सिक्किम-737101
2456	सिक्किम राज्य मंच पार्टी	बंगॉंग बाजार, पी.टी.सी. रोड, पोस्ट ऑफिस- बंगॉंग, थाना - रवांगला, दक्षिण सिक्किम, सिक्किम- 737134
2457	सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी	सेन्ट्रल पेन्डम, सजॉंग वाई नं.- 3, पोस्ट ऑफिस- अपर पेन्डम, थाना- रॉंगपो, पूर्व सिक्किम- 737132
2458	सिक्किम यूनाईटेड फ्रंट	सापकोटा बिल्डिंग, असम लिंजे सोराने, पी.ओ- असम लिंजे, पी.एस- रानीपूल, पूर्व सिक्किम- 737135
2459	सिरुप्पानमई मक्कल नाला कोची	नं. 16ए, 9वीं क्रॉस स्ट्रीट, अन्ना नगर, पामल, कोचीपुरम जिला, चेन्नई तमिलनाडु- 600075
2460	स्मार्ट इंडियंस पार्टी	ग्राम पंचायत- घाना खमरिया, जैन बिल्डिंग के सामने, जयलपुर, मध्य प्रदेश- 482005
2461	समस्त भारतीय पार्टी	डब्ल्यू-6/5, डीएलएफ सिटी, फेज-III, गुडगाँव-122002, हरियाणा ।
2462	सोशल एक्शन पार्टी	मइलाकल हाऊस, रान्नी, पठानामट्टिट्टा जिला, पिन-689072, (केरल) ।
2463	सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इण्डिया	सी-4, हज़रत निजामुद्दीन रोड, नई दिल्ली-110013
2464	सोशल जस्टिस पार्टी ऑफ इंडिया	मकान नं. 2-97, चिनाराविराला गाँव, हयातनगर- मंडल, रंगा रेड्डी- जिला, तेलंगाना स्टेट- 501505
2465	सोशल मूवमेंट पार्टी	प्रधान कार्यालय- 539, लेन नं. 29, राजपुरा मगोत्रिया, जम्मू, जम्मू एण्ड कश्मीर- 180001
2466	सोशलिस्ट जनता पार्टी	एक्स. बी-1, साह विकास अपार्टमेंट, पटपडगज, दिल्ली-110092
2467	सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया)	लोहिया मजदूर भवन मकान सं0 41/557, डॉ. तुफेल अहमद मार्ग, नरही, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
2468	सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी	स्टेट कमेटी ऑफिस, द्यूटर्स, लेन, स्टैच्यू, त्रिवेन्द्रम-695001, (केरल) ।
2469	सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉन्स्युलिस्ट)	48- लेनिन सराणी (पहली मंजिल), कोलकाता-700013, पश्चिम बंगाल.
2470	सोशलिस्ट वर्क्स पार्टी	प्लॉट नं. 218, विनायक एनक्लेव के पीछे, ग्राम - कोलथिया, पोस्ट - आईगिनिया, जिला-खोर्दा, भुवनेश्वर, ओडिसा - 751019
2471	सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक पार्टी	पोस्ट वाक्स नं. 1089, जनरल पोस्ट ऑफिस, श्रीनगर-190001, जम्मू व काश्मीर ।
2472	सोनांचल संघर्ष वाहिनी	भूमि सं0 597, विकास नगर, रावटसंगज वाई नं0 12, पुराना वाई-6 जिला-सोनभद्र, उत्तर प्रदेश- 231216
2473	साउथ इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक	63, मुनिसीपल आयम रोड, (42/4-68सी), अरापालयम, कनमईकरई मेन रोड, मदुरई, तमिलनाडु - 625016

2474	स्वप्रादी जन आधार पार्टी	एमआई-344, डबल स्टोरी, पहली मंजिल, बर्रा-2, कानपुर शहर, उत्तर प्रदेश-208027
2475	स्टार अल्ट्रास्टिक हामेनेटेरियन यूनिटी पार्टी	तहसील रोड, गौरीगंज, जिला-अमेठी, उत्तर प्रदेश-227409
2476	स्टेट समविभाजन पार्टी	मकान संख्या - 56, गाँव - सोनखाम, ता. - नेर, जिला - यवतमाल, महाराष्ट्र - 445102।
2477	स्टेट्समैन इंडिया पार्टी (इन्टेलिक्चुअल)	33, अण्णाभऊ साठे नगर, रमाबाई कॉलोनी, व्ही. एन. नाइक मार्ग, पूर्व दुतगति महामार्ग, घाटकोपर (पू.), मुंबई, महाराष्ट्र-400084
2478	स्टुडेंट्स युनाइटेड फार नेशन पार्टी	डी.नं. 12-464/4, बी- ब्लॉक, टाडेपल्ली, जिला- गुन्डूर, आन्ध्र प्रदेश -522501
2479	सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी (सुभांस पार्टी)	एफ-10, पटेल नगर-111, जिला- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201003
2480	सुदेशी मस्कल नीधि काची	नं. 24/38, एफएफ2, कुट्टी ग्रामिणी स्ट्रीट, राजा अन्नामलैपुरम, चैन्नई, तमिलनाडु-600028
2481	सुधारवादी पार्टी	मो. पिऊनी बाग, वाई नं.-32, बेतिया, पोस्ट-बेतिया, थाना- बेतिया-नगर, जिला- पश्चिम चम्पारण, बिहार- 845438.
2482	सुहेलदेव भारतीय समाज-पार्टी	ग्राम: मीरन गंज, पो - रामपुर रसडा, जिला- बलिया, उत्तर प्रदेश - 221712.
2483	सुहेलदेव पार्टी	ग्राम व पोस्ट - फुलेश, जिला - आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, पिन - 223224
2484	सुमिति मुक्ति मोर्चा	प्लॉट नं. 347(एलआर) 391(आरएस), खेतान नं.- 2194(एलआर), मोजा- पंचनई, एरिया 5 डिसमिल, पोस्ट- माटीगारा, जिला- दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल- 734010
2485	सुनहरा भारत पार्टी	बिल्डिंग नंबर #बी-17, 2173/2ए/1ए, जम्सू कॉलोनी, अब्दुल्लापुर रोड, लुधियाना, पंजाब-141003.
2486	सुन्दर समाज पार्टी	ग्राम व पोस्ट - नांगोई, तहसील-खारसिया, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़-496 665।
2487	सुनहरा पंजाब पार्टी	319, सेक्टर-9, चंडीगढ़-160009
2488	सुपर नेशन पार्टी	57/1, थाथावल्ली गांव, कुरुमभगेरी पोस्ट, तिरुपतुर तालुक, बेल्लोर जिला, तमिलनाडु-635653
2489	सुपर पावर इण्डिया पार्टी	78, ऊपरी भूतल, ब्लॉक-ए, एनआरआई सिटी सेंटर, परी चौक, ग्रेटर नोएडा, जिला, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201310
2490	सुपर रेंजर्स पार्टी	शाप नं. 51, थर्ड फ्लोर, स्कन्दा शॉपिंग मॉल, बिहाइंड कोल्स मेमोरियल चर्च के, कर्नूल, आंध्र प्रदेश-518001
2491	सुपर स्टार्स मस्कल कलगम	डी. नं. 26, एच.पी. ले आउट, द्वितीय गली, गांधी नगर, तिरुपुर, तमिल नाडु- 641603
2492	सुप्रीम जीरो पार्टी ऑफ भारत	वाई नं. 6, होल्डिंग नं. 222, ऊपरी शाही, खोरधा म्यूनिसिपलिटि, पोस्ट/थाना/जिला- खोरधा, ओडिशा- 752056
2493	सुराज सेवा दल	ग्राम - रामडी जसुवा, पो0 - फतेहपुर, तहसील - हल्द्वानी, जिला - नैनीताल, उत्तराखण्ड
2494	सुरक्षा समाज पार्टी	मोहल्ला - तरकापुर (सोनकर वस्ती), भवन संख्या - 1102/1, वाई संख्या - 7, पो0 व तहसील - सदर, जनपद - मीरजापुर, उत्तर प्रदेश - 231001
2495	सूर्य जनसेवा पार्टी	#2, सेकेंड फ्लोर, 5 क्रॉस, अंजना नगरा, वैंगलोर कर्नाटक- 560091
2496	सूर्य रेवती प्रजा पार्टी	मकान नं. 54, ए.पी.आर. प्रणव एनटीलिया, वाचुपल्लया, हैदराबाद, तेलंगाना- 500090
2497	सुशासन पार्टी	हाउस नं. 558, गांव व पोस्ट-बडसी, तहसील-बवानीखेड, जिला-भिवानी-127032, हरियाणा।
2498	स्वतंत्र भारत सत्याग्रह पार्टी	शाप नं. 7 व 8, अपर शाउन्ड फ्लोर, भगवती आर्कड, जवाहर रोड नं. 5, उधना उद्योग नगर, उधना, सूरत, गुजरात - 394210।
2499	स्वाभिमान जनता दल	निर्भय कोल्ड स्टोर, खलवाईनगर, डुमरांव, बक्सर, बिहार- 802119
2500	स्वाभिमान पार्टी	31/666 न्यू शान्ति नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़, -492001

2501	स्वाभिमानी पक्ष	जयसिंगपुर, जिला - कोल्हापुर, महाराष्ट्र-416 101
2502	स्वच्छ भारत पार्टी	साई बाबा मंदिर भोज्यावास, भोंकरोटा, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान ।
2503	स्वच्छ स्वस्थ स्वावलम्बीजन पार्टी	मकान संख्या 108, पयागीपुर, निकट आई.टी.आई. के सामने, सुलतानपुर, उत्तर प्रदेश-228001
2504	स्वदेश जन सेवक पार्टी	जे.पी.नगर, नई बस्ती, प्रेमचक उर्फ उमरगंज, बलिया, उत्तर प्रदेश-277001
2505	स्वदेशी एकता मंच	बी-3/253, विनय खण्ड-3, गोमती नगर, गोमती नगर रेलवे स्टेशन के सामने, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010
2506	स्वदेशी हिन्द पार्टी	ग्राम व पोस्ट-हलिसा, मथुरा रोड क्रासिंग के पास, तरहसील एवं जिला-हाथरस, उत्तर प्रदेश-204101
2507	स्वाधीन स्वराज पार्टी	213/63, महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश-200001
2508	स्वाधीनता पार्टी	भूतल, स्वर्गीय सुरेश प्रसाद, कॉलेज गेट के पास, पूरब बाजार, चार्ड संख्या 30, सहरसा, बिहार-852201
2509	स्वराज (जे)	जंगल सुहास कुंवारी (महावीर छपरा), पोस्ट आफिस-महावीर छपरा, पुलिस स्टेशन-बेलीपर, तह-0-सदर, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश ।
2510	स्वराज भारतीय न्याय पार्टी	एच.नं.सी-50, मेन 20 फुटा रोड, गीत नगर, शाहदरा, दिल्ली-110094
2511	स्वराज इंडिया	यूनिट 109, प्रथम तल, एम.एम. हाउस, 59 रानी झांसी रोड, नई दिल्ली - 110055
2512	स्वराज जनता पार्टी	बी-79-बी, गली नं.7, फेज-1, शिव विहार, करावल नगर, दिल्ली-110094
2513	स्वराज क्रांति पार्टी	बी-31, दूसरा तल, टेजेन्द्रा कोम्प्लेक्स, सी.एम.सी. के सामने, ओडव रोड, ओडव, अहमदाबाद, गुजरात-382415
2514	स्वराज पार्टी (लोकतांत्रिक)	मकान नं०-17, ग्राम - मोगलपुरा, ग्राम पंचायत - मोगलपुरा, पो० ऑ० - बख्तिवारपुर, जिला - पटना, बिहार - 803212
2515	स्वराज्य लोकशाही पार्टी	स्वराज्य भवन, 301, 302 कुंदरा, चेम्बर्स, संवेती अस्पताल के बगल में, शिवाजी नगर, पुणे, महाराष्ट्र-411005
2516	स्वराज्य निर्माण सेना	मकान नं० 396/1, इंदिरा वसाहत, उत्तम नगर, पुणे, महाराष्ट्र - 411023
2517	स्वराज्य पार्टी ऑफ इंडिया	बी-33, सेंटर-सी, अलीगंज, लखनऊ-226024, उत्तर प्रदेश ।
2518	स्वराज्य राष्ट्र निर्माण सेना	एच. नंबर 797, चार्ड नंबर. 01, पोस्ट- कोरेगाँव, भीमा, तालुक- शिरूर, जिला पुणे, महाराष्ट्र-412216
2519	स्वराज्य सेना (महाराष्ट्र)	नं. 586, मुहल्ला- मासुई, पोस्ट- टाका, तहसील- औंसा, जिला- लातूर, महाराष्ट्र- 413520
2520	स्वराज्य शक्ति सेना	एटी-64, ग्रीन्स, 101, बी विंग, पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल के बगल में, टैगोर रोड, सांताक्रूज पश्चिम मुंबई-400054
2521	स्वर्ण भारत पार्टी	जी-249 पालम विहार, गुडगाँव, हरियाणा - 122017
2522	स्वर्णिम भारत इन्कलाब	एल.जी. - 22, सनराईज टावर, 579, एम. जी. रोड, इन्दौर, मध्य प्रदेश।
2523	स्वतंत्र भारत पक्ष	"राही", खोकादपुरा, औरंगाबाद-431001, (महाराष्ट्र) ।
2524	स्वतंत्र इंडियन लेबर पार्टी	खसरा नं० 916, गाँव - धिलावल, गढ़िया, पो० - भोपल पट्टी, पी.एस० - मऊ दरवाजा, जिला- फर्रुखाबाद, उत्तरप्रदेश - 209625
2525	स्वतंत्र जनताराज पार्टी	811/1, सिविल लाइन आंशिक, चार्ड नं० - 52, झांसी, उत्तर प्रदेश- 284001
2526	स्वतंत्रता पार्टी (जन)	195, सेंट मेरीस रोड, आलवारपेट, चेन्नई, तमिलनाडु- 600018
2527	स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी	12-एच, ट्रैफिक कोतवाली के सामने, दरियागंज, नई दिल्ली-110 002.
2528	स्वतंत्र समाज पार्टी	ग्राम व पोस्ट - लेभरी, थाना-दरौली, प्रखण्ड/अंचल-मैरवा, सिवान-841239, बिहार ।
2529	स्वतंत्रता अभिव्यक्ति पार्टी	नं०-2, महावीरनगर, अपोजिट कल्याण मिल, नियर चेतना होटल, नरोदा रोड, सैजपुरा-भोगा, अहमदाबाद, गुजरात-382345
2530	स्वयम कृशी पार्टी	नं.-17/बी, नल्जप्पा काम्प्लेक्स, याऊण्ड फ्लोर, कनकपुरमेन रोड, बनावकरी, शकाम्बरी नगर, बैंगलुरु कर्नाटक- 560070
2531	स्वयं शासन पार्टी	चैबर नंबर 10, राव सुभा राम ब्लॉक, कोर्ट नंबर 21, गेट नंबर 2, जिला-गुडगाँव

		हरियाणा-122018
2532	तमिल मनीला काँग्रेस (मूपनार)	नं०-4, अशोक रोड, अलवरपेट, चेन्नई - 600018.
2533	तमिल मानिला काची	नं०-74, जरमियाह रोड, वेपेरी, चेन्नई, तमिलनाडु - 600007
2534	तमिल मानिल मुरपोक्कु द्रविड कजगम	नं. 27, प्रथम तल, गुडीयातम रोड, रेलवे काल्याण मण्डम के समाने, काटपाडी, चेन्नई- जिला, तमिलनाडु- 632007
2535	तमिल नाडु इलैंगयर काची	नं.- 23, गणेश एवेन्यु, शक्ति नगर, पोस्टर, चेन्नई, तमिल नाडु- 600116
2536	तमिलनाडु पीजेन्ट्स एण्ड वर्क्स पार्टी	नं० 1, जयाम्मल रोड, तेनामपेट, चेन्नई-600018, (तमिलनाडु) ।
2537	तमिल तेलुगु नेशनल पार्टी	पुराना नं. 4/51, नया नं. 197, पैरुमाल कोइल स्ट्रीट, टी.इडियार पोस्ट, तिरुकोइलुर तालुक, विल्लुपुरम जिला, तमिलनाडु- 607203
2538	तमिल थायग मक्कल मुन्नेत्र कंचची	नंबर 61/2, दूसरी मंजिल, 5 वीं मेन रोड, सी.आई.टी. नगर, नंदनम, चेन्नई, तमिलनाडु- 600035
2539	तमिलागा मक्कल द्रविड मुन्नेत्र कजगम	3-196, पोस्ट - वेन्चरपट्टी, वेन्चरपट्टी, तालुक व जिला - डिंडिगुल, तमिलनाडु - 624008
2540	तमिलागा मक्कल मुन्नेत्र कजगम	563-शान्ति कॉलोनी, एन.के.बी. नगर, पलायमकोटाई, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु।
2541	तमिलगा मक्कल नाला काची	2/272, ए राजपालयम मेन रोड, कुवलैकन्नी (पीओ), तेनकासी जिला, तमिलनाडु- 627753
2542	तमिलगा मक्कल तन्नुरीमई काची	मकान नं. 4ए, महालक्ष्मी नगर, कोर्ट के निकट, कटनाचमपट्टी गांव, रासीपुरम तालुका, नामक्कल जिला, तमिलनाडु- 637408
2543	तमिलह स्ताभन काँग्रेस	26/1. 33इ, हेनरी रोड, नीसामोनी नगर, नागरकोईल, तमिल नाडु- 629001
2544	तमिलार देशीय मुन्नेई	119/ए, डिपोलाईन, सी.पन्नावरम, चेन्नई, तमिलनाडु - 600043
2545	तमिलार मक्कल कांची	ग्राम - दुमबलाअल्लीडेम, पोस्ट ऑफिस - गेंडीगानहल्ली, तालुक - पालकोड, जिला - धर्मोपुरी, तमिलनाडु - 635205
2546	तमिलनाडु महात्मा गांधी मक्कल कांची	9-2/1 सी, तेट्टीविलय वीडू, श्री देवीकुमारी महिला कॉलेज के पास, कुलीतुरै, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु - 629163.
2547	तमिलनाडु मक्कल नालवडुपु पेरीयक्कम	नंबर 6 ए, 10 वीं क्रॉस स्ट्रीट, थिरुवेंगदा नगर, थिरुनिन्नवुर, थिरुवल्लूर जिला, अवधी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, तिरुवल्लुर संसद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडु- 602024.
2548	तमिलनाडु मक्कल उरीमई कांची	43, वी.ओ.सी. नगर, किचीपलायम, सलेम, तमिलनाडु- 636015
2549	तमिलनाडु तेलुगु मक्कल काची	मकान नं०-1/803, करपगम विश्वविद्यालय के सामने, पोलाची मेन रोड, कोयमबदूर, तमिल नाडु - 641021
2550	तामिजागा मूरपोक्क मक्कल काच्चि	82/1, 5वीं स्ट्रीट, पदमनाभा नगर, अडयार, चेन्नई - 600 020 तमिलनाडु।
2551	तमिझाग वाझावुरीमई कांची	13-6-54, पिलैयार कोयल स्ट्रीट, समराजापेट्टई पोस्ट, मेचेरी नेतुर तालुक, सलेम जिला, तमिल नाडु - 636451
2552	तमिजर देसम काचि	27/44, कुडी स्ट्रीट पेरिया, कोठमंगलम रामजी नगर, तिरुचि पश्चिम तालुक, पिराटियुर पश्चिम गांव, तिरुचिरापल्ली जिला, तमिलनाडु- 620009
2553	तरंग पार्टी	के.एच.पी./55/26, योगेन्द्र विहार नौयस्ता, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 208021
2554	ताराराणी पक्ष	घाई नं. 6, मकान नं. 2067, धानगर माल (शिवनगर), कोरोची, तहसील- हातवगंगले, जिला- कोल्हापुर महाराष्ट्र- 416109
2555	तीन एक पार्टी	कार्यालय - पोडलगुडा, पी.ओ. माझीगुडा, जिला - नवरंगपुर, ओडिशा - 764059.
2556	तहरिक इकलाव पार्टी	अनसर नगर, अब्दुल राशीद मंजिल, ताजोद्दीन बाबा नगर, नियर इलाही मस्जिद, लानुर, महाराष्ट्र- 413520
2557	तेजस जनकल्याण पार्टी	26ए, मेट्रल रोड (गोल्फ ग्रीन), जादवपुर, कोलकाता, (केएमसी वाई नंबर- 095) पश्चिम बंगाल - 700032.
2558	तेलंगाना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	म० नं०-3-4-760/19, नारायणगुडा फलाईओवर ब्रिज के बाजू में, बरकतपुरा, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500027

2559	तेलंगाना द्रविड़ प्रजला पार्टी	डी. नं. -1-158/1, ग्राम-सीथमपेट, मंडल-हसनपल्ली, जिला-हसनमकोटा, तेलंगाना-506371
2560	तेलंगाना इटि पार्टी	14-70, वी.टी. कॉलोनी, पोस्ट व मंडल- नकरेल, जिला- नलगोंडा, तेलंगाना - 508211
2561	तेलंगाना ज़ागीर पार्टी	मकान नं. 4-32/1, मुनुगानूर -गोंय, अब्दुल्लापुरमेट- मण्डल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना स्टेट- 501511
2562	तेलंगाना जन समिति	मकान नं. 7-1-215/ई, बलकमपेट, नेचर केयर हॉस्पिटल के पास, हैदराबाद, तेलंगाना- 500016
2563	तेलंगाना कार्मिका रैतु राज्यम पार्टी	गोंय - बैरानपल्ली, पोस्ट - सिद्धापुर, मंडल - हसनपल्ली, जिला - वरंगल, तेलंगाना ।
2564	तेलंगाना लेबर पार्टी	म. न. 8-2-293/82/बी.जे.आर./ए/1, सी.जे.आर. नगर, फिल्म नगर, जुबिली हिल्स, मंडल - शेखपेट, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500096
2565	तेलंगाना लोकसत्ता पार्टी	प्लॉट संख्या-46, फ्लैट संख्या-201, गनरौक टीचर्स कॉलोनी, त्रिमुलधेरी, सिकन्दराबाद- 500015 आन्ध्र प्रदेश ।
2566	तेलंगाना माइनोंरिटीज ओबीसी राज्यम	17-3-4, रियाल बाज़ार, याकूतपुरा, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500 023
2567	तेलंगाना प्रगति समिति	एडीआर एस्टेट हाउस नं0-2-22-295, दूसरी मंजिल, भाग्यनगर कॉलोनी, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, केपीएचबी सेन रोड, कुकतपल्ली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500072
2568	तेलंगाना प्रजा समिति (किशोर, राव और किशन)	मकान नं0 10-4-108, गिरमाजीपेट, वरंगल-506002 आन्ध्र प्रदेश ।
2569	तेलंगाना प्रजा शक्ति पार्टी	मकान नं.- 3-5-233, प्रथम तल, कोटा गली, शिवाजी नगर, अपोजिट आंध्र बैंक, आर.आर.चोब्रास्थी, निजामाबाद, तेलंगाना - 503001
2570	तेलंगाना प्रजा जीवन रैतु पार्टी	मकान नंम्बर 10-157/1, मलकाजगिरी, मेडचल-मलकाजगिरी जिला, हैदराबाद, तेलंगाना-500047
2571	तेलंगाना प्रजला पार्टी	मकान नं.- 12-13-830/15, गोकुलनगर, स्ट्रीट नं. 1, तारनाका, सिकन्दराबाद, तेलंगाना- 500017
2572	तेलंगाना राज्य समिति	डोर नं0 1-4-177/148 एंड 149/201, ओल्ड अलयाल सिकंदराबाद, हैदराबाद, तेलंगाना- 500010.
2573	तेलंगाना राष्ट्र पुनःनिर्माण समिति	म. नं0 1-3-186/ए, विद्यानगर, भोजगिर, जिला - नलगोंडा, आन्ध्र प्रदेश - 508116
2574	तेलंगाना रिपब्लिकन पार्टी	मकान सं.- 2-134, तानेदारपल्ली गांव, मरिगुड़ा मंडल, नल्लगोंडा जिला, तेलंगाना- 508245
2575	तेलंगाना सकलाजनुला पार्टी	म0 नं0 4-2-99, एन एफ सी (न्यूक्लियर फ्यूल कारपोरेशन कॉलोनी), बंदलागुडा जागीर (गांव) व (पोस्ट), राजेन्द्र नगर मण्डल, रंगा रेड्डी, जिला-500086, आन्ध्र प्रदेश।
2576	तेलंगाना स्टूडेंट्स यूनाईटेड फॉर नेशन पार्टी	मकान संख्या 3-85, बोरमपेट ग्राम, कुतुबुल्लापुर मंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना- 500043
2577	तेलंगाना युवा शक्ति	फ्लैट नं. 404, मकान संख्या- 2-2-25/ए/1, जीलानी मिडोस अपार्टमेंट्स, अंबेरपेट, हैदराबाद, तेलंगाना- 500013
2578	तेलंगाना इंडिपेंडेंट पार्टी	मकान नं. 5-2-13, तिरुमाला नगर, मौलाली, आर.आर. डिस्ट्रिक्ट, कपरा सकल, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश- 500040
2579	तेलुगु बहुजन पार्टी	8/160-ए, मितापालेम स्ट्रीट, गुड्डूर, एसपीएसआर नेल्डोर डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश - 524101
2580	तेलुगु कांग्रेस पार्टी	8-2-38, अपोजिट जी.पी. ऑफिस, भवानीनगर, वेमुलायाडा, कन्नौज नगर जिला, आन्ध्र प्रदेश-505302
2581	तेलुगु जनता पार्टी	नं. 70-7/16/2ए, रामन्नाययापेटा, टी.एस.आर.नगर, रोड नं. 2, काकीनाडा अर्बन मंडल, जिला- इ.जी., आन्ध्र प्रदेश-533003
2582	तेलुगु प्रजा पथम पार्टी	4-96/25/3, जीएफ - 103, चिनामुसिदिवाड़ा, रेवेन्यू वार्ड 70, विशाखापटनम् जिला, आन्ध्र प्रदेश- 530051

2583	तेलुगु राज्याधिकार समिती पार्टी	13-56, संजीव नगर, कांचिकचेरला, एनटीआर जिला, आंध्र प्रदेश-520018
2584	तेलुगु राष्ट्र शक्ति पार्टी	302, जीवीआर, रेसिडेन्सी, जीवीआर टावर के साथ में, गन्नावरम, जिला- कृष्णा, आन्ध्र प्रदेश-521101
2585	तेलुगु सेना पार्टी	3-6, पाठा अगंदी बाजार, देवापुर, वेलमपेल्ली कासीपेटा, जिला मंचेर्याल, तेलंगाना-504218
2586	तेलुगु विजयम पार्टी	फ्लैट नं. 306, श्रीनिवासा टॉवर्स, केरला होटल के समीप, इब्राहिमपट्टणम, विजयवाड़ा, कृष्णा जिला, आन्ध्र प्रदेश- 521456.
2587	थक्कम कच्ची	1/2755, नेहरू स्ट्रीट, (ओल्ड आने थेरेसा स्ट्रीट), वी.पी. सिंह नगर, पंमाथुकुलम, चेन्नई, तमिल नाडु-600052
2588	तमिलागा मक्कल सुयथिरा कलगम	19/1, सेलप्पा काउडर स्ट्रीट, वेलयावुथमपलायम, पी. पुगलुर तालुक, करूर - जिला, तमिलनाडु - 639117
2589	तमिज़ देसिया मुनेत्र कल्लगम	नंबर 143-ए, मेला वीठी, मेन रोड, तिरुप्पन्दल-पोस्ट, थिरुविदैमरुथुर-तालुक, तंजावुर जिला, तमिलनाडु, पिन-612504
2590	तमिज़ पेरारसू कच्ची	3/6, पारी स्ट्रीट (एक्स.), चून्नेमैडू, चेन्नई, तमिलनाडु- 607203
2591	यमिजगा द्रविड काची	नंबर 32/217, गांधी रोड, पश्चिम तांबरम, तांबरम (टीके), चेंगलपट्टूर जिला, चेन्नई, तमिलनाडु-600045
2592	थमिज़ग मुनेत्र कांग्रेस	नं० 91, पुन्नुसामी नगर, तृतीय गली, पेराम्बर, डिबिजन 68, चेन्नई - 600011, तमिलनाडु ।
2593	तमिलग पैंप्पलर मक्कल कच्ची	नंम्बर-72, नेवेली मेन रोज, पार्वतीपुरम, वडलूर पोस्ट, कुरिन्चिपाडि तालुक, कडलूर जिला, तमिलनाडु- 607303
2594	तमिज़ार मुन्नेत्रक कल्लगम	2/5, तिरुवाल्लूर सलाए, पेस्माल नगर, मोगाप्पेयर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600037.
2595	दि अगणी पार्टी	अनमोल हाउस, लीची बगान, पंखातोली, पो. - रमना, जिला-मुजफ्फरपुर बिहार-842002
2596	दि फ्यूचर इंडिया पार्टी	सं० - 2/191 वी, नेताजी स्ट्रीट, एलीट स्कूल के सामने, एम० ए० नगर, रेडहिल्स, चेन्नई, तमिलनाडु - 600052
2597	द इम्पेरियल पार्टी ऑफ इंडिया	190, श्रीनगर मेन, इन्दौर - 452001, मध्य प्रदेश ।
2598	द इंडियन एस्पिरेशन पार्टी	ऑफिस यूनिट नं.- 205, पेनिन्सुला प्लाजा, ए/16, वीरा इंडस्ट्रियल एस्टेट, वीरा देसाई रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र- 400053
2599	दि लोक पार्टी ऑफ इंडिया	कमरा नं० 7, बिल्डिंग नं० 61, प्रथम तल, द्वितीय लेन, एम. आर रोड, कामाथिपुरा, मुम्बई - 400 008 महाराष्ट्र
2600	दि नेशनल रोडमैप पार्टी ऑफ इंडिया	बो-145, न्यू अशोक नगर, दिल्ली- 110096.
2601	द प्लुरल्स पार्टी	सुखवासो कॉम्पलेक्स, तीसरी मंजिल, वेस्टर्न होटल के सामने, प्लॉट नं-130, दानापुर-खगौल रोड, पोस्ट-दानापुर, जिला-पटना बिहार-801503
2602	दि पब्लिक वेलफेअर पार्टी	सोनापुर कॉम्पलेक्स, आल्हाद नगर, वाई नं० - 14, जिला कॉम्पलेक्स हाई स्कूल के पूर्व में, गडचिरोली, महाराष्ट्र- 442605
2603	दि रिलीजन ऑफ मैन रिवाल्विंग पोलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया	कवितीर्थ, कवितानगर, पो०-बोंगाय, जिला-24-परगनास (उत्तर)-743235, (पश्चिम बंगाल)।
2604	थर्ड व्यू पार्टी	203, हिल व्यू, प्लॉट नं०-85, लूलानगर, माऊट कार्मेल कोनवेंट स्कूल के नजदीक, पुणे-411040 (महाराष्ट्र)।
2605	थोडीललार पार्टी	नं० 28 ए, मेट्टु स्ट्रीट, लेमलीचेरी, कोमपेट, चेन्नई-600044 तमिलनाडु ।
2606	तृणमूल तमिल नाडु कांग्रेस	189/1, अमरावती स्ट्रीट (नियर फाइव रोड्स), रेड्डीयार गांव, जिला - सतेम - 636004 तमिल नाडु ।
2607	टिपरा मोथा पार्टी	खतियान नं. 1201, मौजा-जिरानिया, रेवेन्यू सर्कल-जिरानिया, आर.एस. प्लॉट नंबर। 1493/7543, सी.एस. प्लॉट नंबर। 471,468/पी, खुमुलचंग, त्रिपुरा-7

2608	तिपरालैण्ड स्टेट पार्टी	ओल्ड कालीवाडी रोड, कृष्णानगर, अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा- 799001.
2609	टीपू सुल्तान पार्टी	56/2, आतार हाउस, नियर कर्वाला बेस, रेविवार पेठ, अंबाजोगाई, जिला-बीड, महाराष्ट्र- 431517
2610	टोला पार्टी	मकान सं०-56, गार्ड सं०-14, अंधुवा पट्टी, होडल (पलवल), हरियाणा।
2611	टोटल विकास पार्टी	श्री-95ए-1, आर डी सिटी, सेक्टर - 52, गुडगांव, हरियाणा - 122011
2612	त्रिपुरा पीपुल्स पार्टी	8/9, जेल आश्रम रोड, धलेश्वर, अगरतला, त्रिपुरा- 799007
2613	डूथ, इक्वलिटी, जस्टिस अप्लाएंग सर्विस दल	बी-35 आनंदलोक, श्रीजी बाबा विद्यालय के पास, पोस्ट - कृष्णा नगर, गोवर्धन मार्ग मथुरा, तह० व जिला - मथुरा, उत्तर प्रदेश-281004.
2614	तुलुवर पक्ष	डोर नं०-2-139(5), कोयोरु क्रॉस लैला गांव, वेल्थिंगडी, दक्षिण कन्नड़, कर्नाटक- 574214.
2615	ट्वेंटी 20 पार्टी	बिल्डिंग नम्बर IV/172, ऐकरनाडु पंचायत, कदायिरुप्पू पी.ओ, मुनाथुनाडु तालुक, एरनाकुलम जिला, केरल- 682311
2616	उदारवादी समरसता पार्टी	मकान नं० 133/1, हरिजन दस्ती, गाँव समयपुर, दिल्ली- 110042
2617	उदय भारतम पार्टी	ए-13, सेक्टर 44, गौतमबुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301
2618	उदय चन्द्रा देशम पार्टी	नं०-27, कामराज नेदुचलाई, ओल्ड पेरुगल, चेंन्नई, तमिलनाडु-600063
2619	उदीयमान डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया	4/3C, ओरिएंट रो, ग्रांड फ्लोर, कोलकाता-700017
2620	उजाला पार्टी	ई-26, गली नं.9, नियर वाटर टैंक, सुभाष विहार, भजनपुरा, दिल्ली- 53
2621	ऊलागा मयंकल काची	नं. 15/24ए, मेथुकुम्मल जंक्शन, मेथुकुम्मल पोस्ट, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु- 629172
2622	उलजयपाली मयंकल काची	74, शान्ति नगर, प्रथम गली, एस० एस० नगर पोस्ट, चेंन्नई-600062, तमिलनाडु ।
2623	उम्मीद पार्टी ऑफ इंडिया	ग्राम- शिशु, गाँव / पी.ओ. - शिशु, गार्ड - 12, तहसील - दान्तेरामगढ़, पी.एस. - रानोली, जिला- सीकर, राजस्थान - 332405.
2624	युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्ट सेकुलर	539/13 शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश
2625	युनाइटेड गोअंस डेमोक्रेटिक पार्टी	पहली मंजिल, कासा डोस अलिया, डोस, गोमंत विद्या निकेतन के पीछे, एक्सडे फारिया रोड, माडगांव (गोवा) - 403601 ।
2626	यूनाइटेड गोअन्स पार्टी	शॉप नं०-7, म० नं०-18/5/6, ग्रामीलो अपार्टमेंट, डोन्ड्रीम, तेलिगो, तिसवाडी, गोवा ।
2627	युनाइटेड इंडिया पार्टी	4-2-256/के/1, भीमनिपट्टम एन.टी.पी.सी, रामागुन्दम (मण्डल), करीमनगर, तेलंगाना - 505215
2628	युनाइटेड नागा डेमोक्रेटिक पार्टी, नागालैण्ड	वाडे नं. 7, एगापे स्कूल के पास, चुमुकोडिमा - 797103, दीमापुर-797112 (नागालैण्ड)
2629	युनाइटेड नेशनल पार्टी	गांव - शांतीनगर, मौजा - सन्तपुरा, पोस्ट - गौसली, तहसील - बाह, जिला - आगरा, उत्तर प्रदेश ।
2630	यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट	सिटी रेजेंसी बिल्डिंग, आर. के. बी. रोड, डिब्रुगढ़, असम-786001
2631	यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ भारत पार्टी	डोर नं. 6-9-1373ए डिफेंस कॉलोनी, ए.पी.एच.बी. पोस्ट ऑफिस के निकट, तिरुपती कंचीमातम हॉस्पिटल के बगल में, आन्ध्र प्रदेश- 517501
2632	यूनाइटेड रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया	80/81, सी.ए.एच. कॉलेज बाय-पास रोड, मेलवीशरम, गलाजा तालुक, जिला- वेल्डोर, तमिलनाडु- 632509.
2633	यूनाइटेड सेक्यूलर कॉंग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया	2/104 बी, कुर्ना जयहिंद बुद्धविकास, एस० आर० ए० गृहनिर्माण संस्था मर्यादित नेहरू नगर, कुर्ना (पूर्व), मुंबई - 400024, महाराष्ट्र ।
2634	युनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी	बी 41-एच/6, ब्राइट स्ट्रीट, दूसरा तल, पोस्ट- सर्कस एवेन्यू, थाना- कराया, कोलकाता, पश्चिम बंगाल- 700017
2635	यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया पार्टी	नं. 10/116, मथागनेरी, साउथ स्ट्रीट, सेम्मीकुलम(पोस्ट), वडाकनकुलम (बाया), तालुक - राधापुरम, जिला - तिरुनेलवेली, तमिलनाडु - 627116
2636	यूनिवर्सल ब्रदरहुड मूवमेंट	57-डी, साथुर मेन रोड, कोविलपट्टी, जिला - तुचुकुडी, तमिलनाडु - 628501

2637	यूनिवर्सल फैमिली पार्टी	दाओबुंगखोक, पुलिस स्टेशन-पटसोई, पोस्ट ऑफिस-लांगजिंग, मणिपुर, इम्फाल वेस्ट-795113
2638	यूनिवर्स सिटीजन पार्टी	15-5-122, वनय निलाया, अपोजिट कर्नाटक लॉ एंड फार्मसी कॉलोनी, ध्यानमंदिर राज, रामपुरे कॉलोनी, बीदर कर्नाटक- 585401
2639	अबल एवं रूरल पार्टी	मकान संख्या 660/7/पी.003, गौरा बाग, कुर्सी रोड, (फूल बाग), लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226026
2640	उरिमई मीटप्पू कडगम	न्यू नं० - 10ए, कृष्णा स्ट्रीट. ईरमवुलियूर, वेस्ट तमिळारम, चेन्नई-600045, जिला-कांची, तमिलनाडु ।
2641	उत्कल भारत	प्लॉट नं० 296/2624, स्थान - गोविन्दा प्रसाद, ईस्ट कनाल रोड, टविन ग्रीज के सामने, पो० ओ० - जी. जी. पी. कॉलोनी, भुवनेश्वर - 751010, उड़ीसा ।
2642	उत्कल समाज	आनन्दायन, प्लॉट नं० 567/2 कानन विहार, फेस - 2, भुवनेश्वर - 751031 उड़ीसा ।
2643	उत्कृष्ट पार्टी	प्रथम तल, राकेश क्लथ हाऊस, मेन बाजार, ग्राम- नारौत मेहरा, तहसील व जिला- पठानकोट, पंजाब
2644	उत्तमा प्रजाकिया पार्टी	7/ए, 1st क्रॉस, 3rd स्टेज, 3rd फेस, 6th ब्लॉक बीएसके, बीएसके 3rd स्टेज, कथिरिगुप्पे, बैंगलुरु, कर्नाटक- 560085
2645	उत्तर भारतीय विकास सेना	201/202, द्वितीय तल, सुकुमार कॉर्नर, 127- जे.पी. रोड, दाऊद बाग लेन, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र- 400058
2646	उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेवा	मकान नं. 3, सेक्टर 15-ए, जिला- गौतमबुद्धनगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश- 201301
2647	उत्तर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी	552/2, राजेन्द्र नगर, सेंकंड स्ट्रीट, लखनऊ - 226004, (उत्तर प्रदेश) ।
2648	उत्तर जनशक्ति सेना	म० न० 66, 67, शिवपुर. कॉलोनी, (अनचटगरी लेआउट), नियर राजधनी कॉलोनी, गोकुल रोड, हुबली कर्नाटक- 580028
2649	उत्तर कर्नाटक पार्टी	नं. 25, 4 क्रॉस, एम. एस. आर. नगर, बैंगलुरु, कर्नाटक- 560054
2650	उत्तर राष्ट्र तेलंगाना पार्टी	मं० नं० 4-32/बी, गांधीनगर, ब्रह्मानपल्ली, जकानपल्ली, जिला - निजामाबाद, तेलंगाना- 503224.
2651	उत्तराखंड जन समर्थन पार्टी	अमृत कौर रोड सिविल 17, नयू रोड देहरादून, उत्तराखंड-248001
2652	उत्तराखंड जनता पार्टी	प्लॉट नं. 6, प्रकाश एन्क्लेव, शिमला रोड, सेवलाकलां जिला देहरादून उत्तराखंड-248001
2653	उत्तराखण्ड जनएकता पार्टी	18 एफ, सेक्टर-3 वी, निकट सी ब्लॉक, टाईप-11, नई टिहरी उत्तराखण्ड- 249001
2654	उत्तराखण्ड जनशक्ति पार्टी	सुशीला बर्थवाल निवास, निकट दूरदर्शन प्रसार भारती कार्यालय, हरिद्वार बाई-पास रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड- 248001
2655	उत्तराखण्ड क्रान्ति दल	रोचिपुरा, पो० ओ० माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
2656	उत्तराखण्ड क्रान्ति दल (डेमोक्रेटिक)	85/12 - वी, नाश विला रोड, देहरादून - 248001, (उत्तराखण्ड)।
2657	उत्तराखण्ड परिवर्तन पार्टी	साह भवन, वीर चन्द्रा सिंह, गढ़वाली मार्ग, गैरसेन, जिला - चमोली, उत्तराखण्ड ।
2658	उत्तराखण्ड प्रगतिशील पार्टी	13, सुभाष रोड, (सेन्ट जोसेफ स्कूल के पिछले गेट के सामने), देहरादून -248001, उत्तराखण्ड ।
2659	उत्तराखण्ड रक्षा मोर्चा	मकान नं० 1, ग्राम-नौका (दौडावाला), पोस्ट-मोथरौवाला, विकासखण्ड-रायपुर, जिला-देहरादून, (उत्तराखण्ड)
2660	उत्तराखंड समानता पार्टी	33, गंगोत्री विहार, लेन नं० - 1, नेहरूग्राम रोड, देहरादून, उत्तराखंड - 248005
2661	उत्थान राष्ट्रीय विकास पार्टी	गणपति स्मार्ट सिटी, फ्लैट नं. 507, सतलज टॉवर-4, बाईपुर सिकंदर, आगरा, उत्तर प्रदेश-282001
2662	उज्जैनपालर मुन्नेत्रा कजहगम	18, एम. जी. आर नगर, वेंकटरमण, सलैय, चोल्नई, पल्लम, के. के. नगर, चेन्नई, तमिलनाडु-600078
2663	यडा तमिलनाडु मुन्नेत्रा कच्ची	नंबर 209/42, श्री अय्यप्पा नगर, कालिअम्मान कोइल स्ट्रीट, विरुगम्बाक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु-600092

2664	वैचारिक क्रान्ति पार्टी	एफ-11,12,13, ईश्वरी दयाल कॉम्प्लेक्स- 92, गौतम बुद्ध मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2665	वैदिक समाजवादी पार्टी	आर्य शिव नगर, जयंतीपुर रोड बर्फ खाने के बिहाइंड मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश-244001
2666	वालामाना तमिझागम कोंची	एच-982, 23rd स्ट्रीट, 13 मेन रोड, अन्नानगर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600040
2667	वलीमई वलरची इंडियन्स पार्टी	411डी, गौंदची पालायम, वादामुगम वेल्लूड, ईरोड जिला, तमिलनाडु- 638112.
2668	वाल्लारासु पार्टी	एच. नंबर-6(23), मोसक्यू स्ट्रीट, मायलापोरे, मायलापोरे, चेन्नई, तमिलनाडु- 600004.
2669	वंचित ऑल इंडिया शोषित यथार्थवादी पार्टी	मकान नंबर 42ए बार्ड नंबर-46, इंदिरा नगर, नियर पैदलीगंज, नाला रोड, थाना- इतारामंडल, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273009
2670	वंचित बहुजन अघाड़ी	सर्वे नं. 858ब/2 'आकाश' भिगवण रोड, रानडे पैट्रोल पम्प के पीछे, अशोक नगर, बारामती, जिला - पुणे, महाराष्ट्र - 413102
2671	वंचित समाज पार्टी	सकिल- बाँकीपुर, राजस्य सकिल- 13, बार्ड- 36, मोहल्ला- पम्प हाउस गली तालाब पार, लालजी टोला, थाना- गाँधी मैदान- पटना, जिला- पटना, बिहार- 800003
2672	वंचितसमाज इसाफ पार्टी	39, आर्दश नगर, द्वारा - डोंग शेख महली रोड, मथुरा, उत्तर प्रदेश ।
2673	चन्दे भारत पार्टी	गद्योपुर मथिया, निकट आईटीआई विद्यालय, पोस्ट-गद्योपुर, मझगावा, जिला-अयोध्या, उत्तर प्रदेश-224001
2674	चन्देरिपब्लिक पार्टी	555, नीती खण्ड-3, निकट पीपल चौक, इंदिरापुरम, जिला-गजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201014
2675	वास्तविक भारत पार्टी	प्लॉट नं.-16, चाणक्यपुरी, मिनाल रेजिडेंसी, गेट नं.-1 के पास, जे.के.रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश-462041
2676	वसुधैव कुटुम्बकम् पार्टी	बार्ड नं.-07, होल्डिंग नं. 1050 तथा, मोहल्ला- साहेबदादगंज, जिला- दरभंगा, बिहार ।
2677	वसुंधरा जन विकास दल	खाता नं0 - 39, 59, प्लॉट नं0 - 32, 35 तथा 36, मौजा तथा थाना नं0 - 371, न्यू थाना नं0 - 27, एन.एच - 2, शिव सागर, जिला - रोहतास, बिहार - 821111 ।
2678	वीरथ थियागी विश्वन्थदास थोड़िला लालकर काची	मणिकावसागर आरंभ, नंबर 1/9, चेंगम से तिरुवन्मलाई मुख्य सड़क, करियामंगलम गाँव और पोस्ट, चेंगम तालुक, तिरुवन्मलाई जिला, तमिलनाडु- 606709
2679	वेनुकावदिनावर्गाला महिला रायट् पार्टी	डोर नं.- 3-110ए, चक्रयापालेम गाँव, कोलिपारा मंडलम, गुंदूर जिला, आन्ध्र प्रदेश।
2680	विचार जागृति कांग्रेस पक्ष	डोर नं0 - 275, हेबालु गाँव व पोस्ट, देवांगिरी तालुक व जिला कर्नाटक ।
2681	विदर्भ माझा पार्टी	237, पोस्ट- उबली, लहसील- कलमेश्वर, जिला- नागपुर, महाराष्ट्र ।
2682	विदर्भ राज्य अघाड़ी	प्लॉक नं. 4, दफ्तरी कॉम्प्लेक्स, दादाजी धुनीवाले मठ के विपरीत, नागपुर रोड, ग्रामपंचायत नलवाडी, जिला- वर्धा, महाराष्ट्र
2683	विद्यार्थुला महिलाला रैतुला महासेना पार्टी	डोर नं. 74-6/1-1ए, वीएसआर रोड, अयाप्पानगर, पाटामाता, विजयवाडा, आन्ध्र प्रदेश।
2684	विचारथुल राजाकिया पार्टी	मकान नं.- 11-13-624/4, फ्लैट- 402, आई.बी.नगर, सूरनगर (एम), कॉलोनी, रोड नं. 3, रंगारैड्डी- जिला, आन्ध्र प्रदेश- 501505
2685	विडियल वलरची पेरनि	37-बी, कीलतेरु, इच्छीकामालैपट्टी, के. सातानूर (पोस्ट), तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु- 620021.
2686	विडियल तेंडुम इंदियरगल पार्टी	10/2032, साउथ तिरुपाचेट्टी, पोस्ट - तिरुपाचेट्टी, तालुक - तिरुपुवनम, जिला - शिवगंगे, तमिलनाडु - 630610
2687	विदुथलाई चिरुशईगल काची	नं0 - 16, चिन्नईया गली, टी - नगर, चेन्नई - 17, तमिलनाडु ।
2688	विदुथलाई कलाम काची	डी. नं. 2-48, बोदीनाईकेनपट्टी ओरपुरम बार्ड-2, बोदीनाईकेनपट्टी (पी), सिंगालंडापुरम वाया, रासीपुरम (टीके), नामक्कल जिला, तमिलनाडु- 637412
2689	विदुथलाई मक्कल मुन्नेत्र कजगम	नं0 - 11, कविलार स्ट्रीट, देवानामपट्टीनम, कुड्डलोर जिला, तमिलनाडु ।

2690	विजय भारत पार्टी	मकान नं. 402, तीसरी मंजिल, प्लॉट नं. 2-3, गली नं. 3, फ्रेन्ड्स एन्क्लेव, शाहदेरी, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201009
2691	विजय भारत मकल (पीपुल) पार्टी	70, द्वितीय तल, ग्रेड बाजार स्ट्रीट, अम्बूर - 635802, जिला - वेल्लोर, तमिलनाडु
2692	विजया जनता पार्टी	नं 9, ओम साई शक्ति निलाया, भारथिनागरा, हुनासामारानाहल्ली पोस्ट, जाला हुवाली, बैंगलुरु नार्थ तालुक, बैंगलुरु कर्नाटक- 560058
2693	विकास इंडिया पार्टी	टी-192, गली नं 0-2, गौतमपुरी, दिल्ली- 110053
2694	विकास इस्पात पार्टी	मकान नं. 23, वाई नं. 10, महमूदपुर परगना, पी.सी.एफ. गोदाम के पास, तहसील- सदर, जिला- फतेहपुर उत्तर प्रदेश- 212601
2695	विकास मंच	भूरा चौक, पोस्ट ऑफिस & तहसील- नोखा, जिला- बीकानेर, राजस्थान- 334803
2696	विकास पार्टी	सत्याग्रह मार्ग, दारुल सफा कम्पाउंड, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) ।
2697	विकासशील इंसान पार्टी	घर अपना अपार्टमेंट, वाई नं. 38, फ्लैट नं. 604, फेज - 03, अभियंता नगर, रंजन पथ, पो.ओ.- दानापुर कैन्ट, पी.एस-रूपासपुर, जिला-पटना, बिहार- 801503
2698	विकासशील जनता पार्टी	फस्ट फ्लोर, (ग्रुण्ड फ्लोर आर्युवेदिक चिकित्सालय), चौहान मार्केट, बेहटा चौराहा, तालगंज, नियर हनुमान मंदिर, वैश्यारा, राय बरेली, जिला-बरेली, उत्तर प्रदेश- 229206
2699	विलेजर्स इंडिया पार्टी	तलपली पाडा (दुर्गामदफ चौक के पास) जिला-बोलनगीर ओडिशा- 767001
2700	विध्य जनता पार्टी	मकान नं-एम.आई.जी.-1-86, पदमघर कॉलोनी, रीवा इन हुजूर, तहसील ओफ रीवा, जिला-रीवा, मध्य प्रदेश-486001
2701	विराज जन पार्टी	मकान नंबर 21, शिव विहार, मौनावाला, जयपुर, राजस्थान- 302034
2702	वीर के वीर इंडियन पार्टी	प्रयम तल्ला, बी-2, सारथी कम्पलेक्स-2, मनेकपुरा, बिलियारोड, अमरेली, गुजरात- 365601.
2703	विशाल जनता पार्टी	नं.1/4649/183, बुद्ध बाजार गली, सब गली नं.8, मंडोली रोड, न्यू मार्केट शाहदरा, दिल्ली- 110092
2704	विशाल पार्टी ऑफ इंडिया	गांव - चौहडा, डाकघर - डगाम, तहसील - गढ़शंकर, जिला - होशियारपुर, पंजाब - 144527
2705	विश्व शक्ति पार्टी	बी -10/144, प्रदीप विहार, नथ्यपुरा मोड़, दिल्ली - 110084
2706	विश्व आदर्श भारत पार्टी	मकान नं. 251, मेगा पैथोलोजी, कोर्ट के पीछे, सूख विलास कॉलोनी बड़वानी, तहसील- बड़वानी, जिला- बड़वानी, मध्य प्रदेश- 451551
2707	विश्व बंधुत्व पार्टी	ग्राम-घूरीपुर, पोस्ट-चटौनाडीह, थाना-कादीपुर, जिला-सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश-228175.
2708	विश्व भारत पार्टी	एच.नं 0-5-6-160-बी, कृष्ण नगर एनटीपीसी, ज्योतिनगर, रामगुंडम, पेदापल्ली- जिला, तेलंगाना-505215
2709	विश्व हिन्दुस्तानी संगठन	3/105, आनन्दनगर, 100 फुट रिंग रोड, सटेलाइट वेंजलपुर, अहमदाबाद, गुजरात ।
2710	विश्व जागृति पार्टी	74/16ए, परमहंस मार्ग, शिपरा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान- 302020
2711	विश्वा जना पार्टी	डोर नं. 4-122, पद्मावती नगर, थोगाटावरी स्ट्रीट, पोदालाकुर, जिला- एसपीएसआर नैलोर, आन्ध्र प्रदेश।
2712	विश्व जन सामाज्यम पार्टी	एम.आई.जी.-74, म.नं 015-13-VII-एम-74, फेज-VII, कैपीएचबी कॉलोनी, कुक्कटपल्ली, हैदराबाद, तेलंगाना- 500085.
2713	विश्व मानव समाज कल्याण परिषद	ग्राम व पोस्ट - चन्दापुर, वजीरगंज, जनपद - गोण्डा, उत्तर प्रदेश।
2714	विश्व शांति पार्टी	प्लॉट नंबर III-एफ/621, सेक्टर-III-एफ, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201010
2715	विश्व तमिल कझागम	डोर नं 70/2, ब्लॉक नं 01, राजीव नगर, कथमपट्टी, सलेम वेस्ट (टीके), जिला-सलेम, तमिलनाडु - 636005
2716	विश्वनाथ प्रताप जनता दल	वाई नं 0-02, मालवीय नगर, भारतीय स्टेट बैंक के सामने मेन रोड, माधौगढ़, जनपद जालौन, उत्तर प्रदेश- 2285123
2717	विजन इंडिया पार्टी	16-216, शिव गिरी कॉलोनी, मुनापेट, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश-524003
2718	विश्व भारत पीपल्स पार्टी	18/9, पूंगा नगर, इरूपूर, कोयमटूर, तमिलनाड- 641103

2719	विवासायीगलमकल मुन्नेत्र कोंची	403, एसआरपीके कॉम्पलेक्स, उदयपुरपलयम, थालावडपट्टी- पोस्ट, अतुर- तालुक, सिलम-जिला, तमिलनाडु - 630102
2720	वोआईस ऑफ लेबर पार्टी (जम्मू और काश्मीर)	खसरा नं. 539, गांव- आति, पोस्ट- फतेहपुर, तहसील व जिला- राजौरी, जम्मू और काश्मीर- 185131
2721	वोटर्स इंडिपेन्डेंट पार्टी	नं. 903, प्रथम तल, छठा ब्लॉक, 80 फीट रोड, कोरामंगला, इजीपुरा, वाई नं. 148, बेंगलोर, कर्नाटक- 560095
2722	वोटर्स पार्टी इण्टरनेशनल	मकान नं0 385, गली नं0 12/3, वज़ीराबाद गांव, दिल्ली-110084
2723	व्यवसायी किसान अल्पसंख्यक मोर्चा	ग्रह संख्या - 12, महाराजगंज, जमुई, जिला - जमुई, बिहार - 811307
2724	व्यवस्था परिवर्तन पार्टी	बौद्ध डायमण्ड, तालुक पंचायत रोड, कोर्ट के सामने, पोस्ट व तालुक- घोघा, जिला- भावनगर, गुजरात।
2725	वतन जनता पार्टी	3/4/7 ए, मुगलपुरा, अयोध्या, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश ।
2726	वाजिब अधिकार पार्टी	ग्राम व पोस्ट - पोहरी बेला, ब्लॉक - घनश्यामपुर, जिला- दरभंगा, बिहार - 847427 ।
2727	वैल्फेयर पार्टी ऑफ इण्डिया	ई - 57/1, अबूल फजल एनक्लेव-1, जामिया नगर, नई दिल्ली - 110025.
2728	वेस्ट बंगाल सोशलिस्ट पार्टी	42 - आनन्द पतिर रोड, कोलकाता - 700014, पश्चिम बंगाल ।
2729	वाई. एस. आर. तेलंगाना पार्टी	401-ए, तीसरी मंजिल, सिद्धार्थ श्रावती अपार्टमेंट, नंबर 8-3-169/35, प्लॉट नंबर 35, सिद्धार्थ नगर, युसूफगुडा, तेलंगाना, हैदराबाद-500038
2730	यैकिकुथा संकशेमा राष्ट्रीय प्रजा पार्टी	डी नं0 7-1-500, एन जी ओ कॉलोनी, वाए एस आर स्टीट, सिद्धावातम रोड, बडवेल - 516227, वाए एस आर जिला, आन्ध्र प्रदेश ।
2731	यंग इंडिया पार्टी	सर्किल नं. 28, होल्डिंग सं. 128/113, आर्य कुमार रोड, मछुआटोली, थाना- कदमकुआं, जिला- पटना, बिहार -800004
2732	यंग इंडिया टेंग्रेस पार्टी	येलम गल्ली, तुगाव (एच), ता0 भालकी, जि0 बिदर, कर्नाटक ।
2733	यंग इंडिया युनाइटेड पार्टी	हाऊस ऑफ मदन मोहन मिश्रा, गांव- मंगलपुरवा, पोस्ट- पारसा, गाँदारी, ब्लॉक- हलधारमड, तहसील- कनल गंज, जिला- गोण्डा, उत्तर प्रदेश- 271126
2734	यंग सीनियर रिच कॉमन पीपुल किंग्स पार्टी	फ्लैट नंबर 403, (दरवाजा नंबर 54-9-2398), चौथी मंजिल, सवीर टावर्स, वैकटेश्वर कॉलोनी, मेन रोड, गुंदूर, आंध्र प्रदेश-522001
2735	यंग स्टार इम्प्रावमेंट पार्टी	34, ग्रांड फ्लोर, दूसरा मेन रोड, 11वीं क्रॉस रोड, सिंगासंदरा, सुभाष नगर, बी - ब्लॉक, बेगुल गांव, होयली, बेंगलोर-560068, कर्नाटक.
2736	यूथ एण्ड स्टूडेंट्स पार्टी	आर. पी. एस्टेट्स, 4/1, पूनामाली हाई रोड, कोयमबेदू, चेन्नई -600107.
2737	यूथ इंडिया पीस पार्टी	असेसमेंट नं.- 18, ग्राम- काठा नं.- 215, यशवंतपुर हुबली, बेंगलोर नार्थ तालुक, बेंगलोर, कर्नाटक- 560022
2738	यूथ सोसलिस्ट पार्टी	मकान नं0 - 248, सिंहोरा गोविन्द (गोविन्द नगर), पोस्ट व थाना - कटघर, तहसील व जिला - मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश- 244001 ।
2739	वाई. एस. आर. बहुजन पार्टी	28/434, रामेश्वरम, पोदुतुर -516360, जिला-कडपा, आन्ध्र प्रदेश ।
2740	युग क्रांति दल	मकान नं.192, गली नं.1, वाई नं.1, प्रजावी कॉलोनी (धर्मपुर), समस्तीपुर टाऊन, बिहार- 848101
2741	युग निर्माण पार्टी	बी-84, द्वितीय तल, घडोली डेयरी फार्म, मयूर विहार फेज-III, दिल्ली- 110096.
2742	युग परिवर्तन पार्टी	म नंबर -2179, मोतीराम कॉलोनी, नियर मोहित पब्लिक स्कूल, नूरवाला, पानीपत, हरियाणा- 132103
2743	युग तुलसी पार्टी	मकान नं. 5-9-296, फ्लैट नं. 310, प्रसाद अपार्टमेंट, गनफाउन्डरी, एबीडस, हैदराबाद, तेलंगाना- 500001.
2744	युवा आम दल आदमी विकास	अपा सिटी, फेज-2, सेक्टर-सी, ग्राम-मिश्रातिया स्टेट, पोस्ट-मिश्रातिया, निकट-जेल रोड, जिला-बस्ती उत्तर प्रदेश- 272001
2745	युवा अनुभव पार्टी	मकान नं0 - 393, आई, हरिनिमा, राजीव नगर, पश्चिमी चशारतपुर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।

2746	युवा भारत आत्मनिर्भर दल	एफ/49/1ए, अयोध्या नगर, शिव मंदिर के पास, एन-7, सिडको, औरंगाबाद, महाराष्ट्र-431003
2747	युवा भारत राष्ट्रसेवा पार्टी	एलजीएफ-128, गौतम नगर, नई दिल्ली-110049
2748	युवा भारत सेव मेरिट सेव नेशन दल	मकान नंबर-33, ग्राम-उचेठा, परगना-भदोही, जिला-संत रविदास नगर, उत्तर प्रदेश-221301
2749	युवा बिहार सेना	मकान नं0 17, बटुकेश्वर दत्ता लेन, न्यू जयकानपुर, पटना बिहार-800001
2750	युवा जनकल्याण पार्टी	दुकान नं. 6, लक्ष्मी आशीर्वाद को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, प्लॉट नं.-23, सेक्टर- 25, कामोठे, जिला- रायगढ़, महाराष्ट्र - 410209
2751	युवा जनक्रान्ति पार्टी	कस्बा-केराफत, मो0 -शेखजादा द्वितीय, जनपद -जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।
2752	युवा जनता पार्टी	भवन सं0-91/1, ग्रान्ट गंज, मैत मार्किट महोबा, जिला - महोबा, उत्तर प्रदेश - 210427
2753	युवा कर्नाटक पक्षा	# 66, आनेपुरा - गांव, निधारसंगला -पोस्ट, मालूर- तालुक, कोलार जिला, कर्नाटक-563137
2754	युवा क्रान्तिकारी पार्टी	आर्दश नगर, रोड नं. 1ई, समस्तीपुर, बिहार- 848101
2755	युवा पार्टी	1-8-1-83, गैरेज नं0-83, ग्राउंड फ्लोर, वागलिंगम्पल्ली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
2756	युवा पार्टी (डेमोक्रेटिक)	प्लॉट नं0-63, गुल्फा सोसाइटी, पंच फलिया, दाभोलिगम, कटरगम, सूरत, गुजरात-395004
2757	युवा समृद्धि दल	फ्लैट न.101 अनिल रेसिडेंस, भगवत नगर में, रोड, पटना-800026, बिहार
2758	युवा सरकार	161, वनमाली पार्क सोसायटी, हरीकृष्णा चौक, धर्माकुल आश्रित रोड, पुना -सिमाडा, सूरत-394211, गुजरात ।
2759	युवा शक्ति संगठना	भांगडिया बाड़ा, तिलक बाई. चिमूर, तहसील - चिमूर, जिला - चन्द्रपुर, महाराष्ट्र ।
2760	युवा स्टार पार्टी	ग्राम-अकहा, पोस्ट-जयंती ग्राम ईसापुर, थाना-भगवानपुर, जिला-बेगूसराय, बिहार-851112
2761	युवा तरंग पार्टी	8-1-32/4, नजदीक हनुमान मंदिर के पीछे, बाई नं0-1, गतैगुदेम, गाँव-पलवांचा-मंडल, वट्टादरी कोठगुदेम- जिला, तेलंगाना-507115
2762	युवा तेलंगाना पार्टी	प्लॉट नं. 143 & 144, रॉक टोऊन कालोनी, अलकापुरी, मन्सूराबाद, एल.वी. नगर, हैदराबाद-500068, तेलंगाना ।
2763	युवा वाहिनी पार्टी	डी- 95, एल डी ए कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226012
2764	युवा विकास पार्टी	सेरावां, अतरामपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।

सारणी-1 (ख)
असूचीबद्ध पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल (प.अ.रा.द.)*

क्रम सं.	पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के नाम	मुख्यालय का पता
1.	आर्थिक समानता पार्टी	189, बी ब्लॉक, गली नं० 4/6, करावल नगर, दिल्ली-110094.
2.	अ-चिक नैशनल कॉंग्रेस (डेमोक्रेटिक)।	डाकोपगरे (ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के सामने) तुरा, वेस्स गारा हिल्स, मेघालय-794101
3.	अजेय भारत पार्टी	ए-14, मोहन एस्टेट्स, मथुरा रोड, नई दिल्ली ।
4.	अखंड भारत महासंघ सर्वहारा क्रांतिकारी पार्टी	सनकूल, कोटा-1, (राजस्थान) ।
5.	अखिल भारतीय आजाद लोकहित कॉंग्रेस पार्टी	खाडी मौहल्ला, खटीको का चौक, भिवानी, हरियाणा ।
6.	अखिल भारतीय दलित उत्थान पार्टी	ए-201/2, गली नं० 1, विकास मार्ग, शक्करपुर, दिल्ली-110092.
7.	अखिल भारतीय क्रान्ति दल	7 प्रेम कॉलनी, प्रगति पथ, प्रथम तल, कल्याण नगर, हनुमान मन्दिर के पीछे, टोंक रोड, जयपुर-302011, राजस्थान ।
8.	अखिल भारतीय रिवान्युशनरी शोषित समाज दल	वैशाली नगर, सिद्धेश्वर वेस, स्था० और० पो०-लादुर, जिला-लादुर - 413512 (महाराष्ट्र) ।
9.	अखिल भारतीय नागरिक सेवा संघ	प्लॉट नं० 98, रतन लाल नगर, कानपुर - 208022, उत्तर प्रदेश ।
10.	अखिल जन विकास दल	50 ए / 1ए, नाहरपुर, राव एस. के. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सेक्टर - 7, रोहिणी, दिल्ली-85.
11.	ऑल इंडिया अम्बेडकर मककल मुन्नेत्र कडगम	104, चालाजा रोड, तीसरी मंजिल, अरीवु मनी आरंगम, ट्रिप्लीकेन, चेन्नई, तमिलनाडु-600002
12.	ऑल इंडिया बाबू जगजीवन राम बाबा साहेब नेशनल कॉंग्रेस	सी-22, बेसमेंट, चिराग एनकलेव, नई दिल्ली-110048
13.	ऑल इंडिया क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक एण्ड बैकवर्ड पीपुल्स पार्टी	ब्लॉक ए-1, फ्लैट-2, कोलकता - 700054, (पश्चिम बंगाल)
14.	ऑल इंडिया दलित वेलफेयर कॉंग्रेस	फ्लैट नं० 44, सेक्टर बी-4, नरेला, दिल्ली
15.	ऑल इंडिया लोकराज पार्टी	गांव-मेहरबान, तहसील और जिला- लुधियाना (पंजाब)

16.	ओल इण्डिया महिला डेमोक्रेटिक फ्रंट (ए०आई०एम०डी०एफ०)	मकान नं० 6-1-57/62 सचिवालय रोड, सैफाबाद, हैदराबाद-500004, आंध्र प्रदेश
17.	ओल इंडिया मुत्ताहिदा कौमी महज	मकान नं० 19-2-23/एम/जे/5/ई, प्रथम तल, बहादुरपुरा, मक्का कोलोनी, हैदराबाद-500053 आन्ध्र प्रदेश ।
18.	ओल इंडिया रक्षा पार्टी	पोस्ट बॉक्स सं०- 136, मुख्य डाक घर, करनाल-132001, हरियाणा ।
19.	ओल इंडिया ट्राइव्स एण्ड माइनॉरिटीज फ्रंट	चिंडरूश हिल एनेक्सी, शिमला-2, (हिमाचल प्रदेश) ।
20.	ओल जे एण्ड के पीपुल्स पैट्रियाटिक फ्रंट	जवाहर नगर, हाऊस नं०-97, पुलिस स्टेशन, राघ-बाघ, श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर) ।
21.	अल्पजन समाज पार्टी	डाक बंगला मार्केट परिसर, प्रथम तल, दुकान सं०-28, डाक बंगला मार्केट, पो. ओ. - सासाराम, थान-सासाराम, जिला - रोहतास, बिहार - 821115
22.	अम्बेडकर क्रान्ति दल	शान्ति होम्योपैथिक स्टोर, आर्य समाज चौक, बदायूँ, उत्तर प्रदेश ।
23.	अम्बेडकर प्रगतिशील रिपब्लिकन दल	डा०लोहिया कोलोनी, शाहजहाँपुर, पिन-242001, (उत्तर प्रदेश) ।
24.	एंटी रिजर्वेशन पार्टी ऑफ इंडिया	हाऊस नं० 1184, सैक्टर-21-बी, चण्डीगढ़ ।
25.	आर्य सभा	7, जन्तर-मन्तर रोड, नई दिल्ली-110001.
26.	असम गण परिषद् प्रगतिशील	प्रधान कार्यालय-जी. एस. रोड, उल्हारी, गुवाहाटी-781 007, असम ।
27.	अति पिछड़ा जन दल	ग्राम: रामपुर बाकली, पो० एच जिला- बिजनौर, उत्तर प्रदेश ।
28.	आवामी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया	बुखारा, बखशीबाबा रोड बिजनौर-246701, (उत्तर प्रदेश) ।
29.	बारथा समुदाय मुनेत्र मुन्तानी	400/12 प्रथम तल टाऊनशिप कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कामराजर नगर, मेन रोड अवाडी चेन्नई-600 071, तमिलनाडु ।
30.	बहुजन शक्ति पार्टी (आर)	सूरज भवन आर.टी.-136ए, धर्मपुरा एकरा, तजफगांव नई दिल्ली- 110043
31.	बहुजन किसान दल	किसान भवन बृजम बिहार, सन्तुलन रोड, मुनफारनगर, उत्तर प्रदेश ।

32.	बहुजन लोकतांत्रिक पार्टी	जी-161, जे. जे. कॉलोनी, वजीरपुर, दिल्ली -110052.
33.	बहुजन शक्ति	माइन्स रेस्यू स्टेशन कैम्पस, पोस्ट-धनसार, जिला-धनबाद, झारखण्ड ।
34.	बाम पार्टी	538के/780, त्रिवेणी नगर-II, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
35.	बारक वैली टेरीटोरी डिमांड कमेटी	स्वराज भवन, सिलेहर रोड, पो० अ०, थाना और जिला-करीमगंज, पिन-788711, असम ।
36.	बेगमपुरा सांझा फ्रंट	193, न्यू रसीला नगर, बस्ती दनिश्मंदन जालंधर, पंजाब ।
37.	भारत महाशक्ति पार्टी	11ए, डी.डी.ए फ्लैट्स, प्रियदर्शिनी विहार, लक्ष्मी नगर दिल्ली 110092.
38.	भारत बचाओ पार्टी ऑफ इण्डिया	एस-528, ग्रेटर कैलाश पार्टी-1, नई दिल्ली -110048.
39.	भारत देशम् पार्टी	मकान सं. 8-3-270/1, नेहरू नगर, नवी लाइन, मेन रोड, गुंदुर-522 001, आन्ध्र प्रदेश ।
40.	भारत जन पार्टी	324, कैलाश नगर, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) ।
41.	भारत विकास पार्टी (सेक्यूलर)	खसरा नं० - 21/25, नजदीक एच. पी. पेट्रोल पम्प, उपकार प्रोपर्टीज, ए-ब्लाक, हिमगिरी इन्क्लेव, बुराड़ी, दिल्ली -110084
42.	भारतीय द्रविड़ मंचकल काची	2036, 15वीं मेन रोड, अन्ता नगर पश्चिम, चेन्नई-600 040, तमिलनाडु ।
43.	भारतीय जन शब्द	331 (311), वाई नं. - 1, कालरा हाउस, मण्डेला, पोस्ट ऑफिस, वेला नाडु तिरुवनन्तापुरम - 695 543, केरल ।
44.	भारतीय युवथा, समथा, राष्ट्रीयता कांग्रेस पार्टी	फ्लैट नं. जी-1, भूतल, ए. आर. के. रेजिडेन्सी प्लॉट नं. 304, सर्वे नं. 153, 154, 163 व 143, बोदूपल, ग्राम एवं ग्राम पंचायत - धटकेसर (मंडल), जिला- रंगारेड्डी, हैदराबाद - 500038, आन्ध्र प्रदेश ।
45.	भारतीय अष्ट जन पार्टी	151, सी. सेक्टर, दूसरी मंजिल, कमरा नं० 203, इन्दरपुरी, भोपाल - 462022 (मध्य प्रदेश) ।
46.	भारतीय आवाज पार्टी	मिलन कमेटी सेवा संघ, संतोष नगर बेहराम बाग, जोगेश्वरी पश्चिम, मुम्बई - 440102, महाराष्ट्र ।
47.	भारतीय बेरोजगार मजदूर किसान दल	बंसल गांव, पो. अ०. - धेघाट, पट्टी-मल्ला, चौकोट, जिला - अल्मोडा (उत्तराखण्ड) ।

48.	भारतीय बौद्धिक विचार पार्टी	गाँव-बल्लानगला पट्टी पो० शाहपुर खेडी तह० - धामपुर जिला-बिजनौर उत्तर प्रदेश ।
49.	भारतीय कॉंग्रेस (एम)	16, बतरा कालोनी, एम. टी. एक्स सोनीपत, हरियाणा ।
50.	भारतीय जन किसान पार्टी	1080C बाबाजी का बाग तिलक रोड, बनुआ घाट, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
51.	भारतीय जन समाजवादी पार्टी	ए - 62, जे० जे० कॉलोनी, खानपुर, नई दिल्ली - 110062
52.	भारतीय लोक कल्याण दल	ऐरिया/पोस्ट/तहसील-विकायुर, जिला-फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) ।
53.	भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी (गांधी-लोहियावादी)	सत्यवती निवास, राम दास पथ, मौठापुर चौ. ऐरिया, पटना-800001, बिहार ।
54.	भारतीय मानवता विकास पार्टी	133/4, कुतब एन्क्लेव फेस-11, नई दिल्ली- 110016
55.	भारतीय परिवर्तन पार्टी	70-ए, डी.डी.ए. फ्लैट्स, पाण्डव नगर, मेट्रो स्टेशन शादीपुर के पास, नई दिल्ली- 110008.
56.	भारतीय पूर्वांचल पार्टी	ई-68, प्रेमचन्द कॉलोनी, पांडेयपुर (1), वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
57.	भारतीय राष्ट्रीय जनहित पार्टी	सी-2968, सपना कॉलोनी, लखनऊ-226017, (उत्तर प्रदेश) ।
58.	भारतीय राष्ट्रीय स्वदेशी कॉंग्रेस पक्ष	308, रामनगरी, 2/सी तीसरा तल अलन्दी रोड भोसरी, पुणे-411039, महाराष्ट्र ।
59.	भारतीय समाज कल्याण पार्टी भारत	रवेन्द्र इन्वेंट्रॉनिक्स, पुरानी चुंगी, आगरा रोड, हाथरस, जिला अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) ।
60.	भारतीय सर्वकल्याण कान्ति दल	2/643/सी, रामाबाग कॉलोनी, रामघाट रोड अलीगढ़-202 001 (उत्तर प्रदेश) ।
61.	भारतीय शक्ति सेना	शक्ति सेना भवन, बैरियर नं० 6 औद्योगिक क्षेत्र बहादुराबाद, हरिद्वार - 249 402 उत्तराखण्ड ।
62.	भारतीय श्रमिक दल	एल-238 विकास प्राधिकरण कानोली इंदिरा नगर राय बरेली (उत्तर प्रदेश) ।
63.	भारती समाजवादी मोर्चा	3/1108 देहरादून चौक रायनपुर 247001 (उत्तर प्रदेश) ।
64.	भारती लोक तहर पार्टी	136, अजीत नगर अमृतसर (पंजाब) ।

65.	भारतीय देशभक्त संघ (ब्रजेश)	शॉप नं० -1, खसरा नं० 1494, नेहरू इन्कलेव, बैंक वाली गली, अलीपुर, दिल्ली- 110036.
66.	भारतीय गणतंत्र पार्टी	मकान नं. 5, गंगाधाम, कुन्दन नगर, बाग मुगलिया, होशंगाबाद रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश ।
67.	भारतीय गोरखा जनशक्ति	26/2, एच.डी. लामा रोड दार्जिलिंग-734101, (पश्चिम बंगाल) ।
68.	भारतीय हरित क्रान्ति दल	गांव व पौ० सोन्टा, बायां -अलीपुर, खेरी, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश ।
69.	भारतीय हिन्द एकता दल	डिफेन्स कालोनी, अनिल शहीद नगर, इज्जतनगर, नैनीताल रोड, बरेली - 243122 उत्तर प्रदेश ।
70.	भारतीय जन सनमति पार्टी	ग्राम- हरौला, सेक्टर -5, नोएडा, उत्तर प्रदेश ।
71.	भारतीय जन काँग्रेस (राष्ट्रीय)	113/70 बी, नाल बहादुर शास्त्री नगर, पटना -800023, (बिहार) ।
72.	भारतीय जनता की एकता पार्टी	प्लॉट संख्या 29-ए एण्ड 30ए, खसरा नं० 20/1/1, गांव राजापुरा खुर्द दिल्ली, कालोनी मोहन गार्डन, आर-III, ए-2, नई दिल्ली -110059
73.	भारतीय स्वर्ण समता पार्टी	201-सी, गोयल एन्कलेव, फैजाबाद रोड, चिनहट लखनऊ 3. प्र.
74.	बुद्धिविवेकी विकास पार्टी	आर(यू)- 9, द्वितीय तल, पीतमपुरा, दिल्ली - 110088.
75.	चंडीगढ़ विकास पार्टी	मकान नं० 230, सेक्टर 9-सी, चंडीगढ़ - 160009.
76.	छत्तीसगढ़ नव निर्माण सेन	सी० आर० 12, आर० डी० ए० बिल्डिंग, गुरुनानक मार्किट, शारदा चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़।
77.	चिल्ड्रन फ्रंट पार्टी ऑफ इंडिया	703-704, देवथा प्लाजा, 132, रेजीडेंसी रोड, बैंगलुरु - 560025, कर्नाटक ।
78.	डेमोक्रेटिक इन्साफ पार्टी	डी-62, जी. टी. बी. नगर (करौली), इलाहाबाद, (उत्तर प्रदेश) ।
79.	डेमोक्रेटिक जनता दल (जे. एण्ड के.)	344 ई. पी. किस्टेन कॉलोनी (शहीदी चौक), जोगी गेट, जम्मू (जम्मू व कश्मीर) ।
80.	देसिया फारवर्ड ब्लाक	नं० 5, एम० पी० एवेन्यू मजेस्टिक कॉलोनी, शालीग्रामम, चेन्नई - 800093, तमिलनाडु ।

81.	एकता क्रान्ति दल यू. पी.	मार्फत-सत्यपाल सागर, अमनजय, जलाल नगर, छोटी लाइन के सामने शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) ।
82.	फेडरल कॉंग्रेस ऑफ इण्डिया	होलम्बी थुर्ट, गांव व पो-होलम्बी कला, दिल्ली - 110082
83.	फार्वर्ड ब्लॉक (सोशलिस्ट)	टेम्पल स्ट्रीट, पो. ओ. व जिला - जलपाईगुडी - 735101 (पश्चिम बंगाल)।
84.	गरीब जनता पार्टी	राजिन्दर नगर, मेन बाजार, पो. ओ. - विजय नगर, बटाला रोड, अमृतसर (पंजाब)।
85.	ग्रामोचल पार्टी	3/ए. सत्य नगर, सेन्ट्रल स्कूल के सामने, भुवनेश्वर- 7, उड़ीसा ।
86.	गुजरात युवा विकास पार्टी	मार्फत दरबार कृषा ट्रान्सपोर्ट, बस स्टेशन के पास, वाडनगर-384355, जिला-मेहसाना (गुजरात) ।
87.	हरित प्रदेश पार्टी	मकान नं० - 349, ग्राम व पोस्ट धिलसूरी, जिला - बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश - 203205
88.	हरियाणा जनता पार्टी	गांव व पोस्ट - रीसानु, तहसील व जिला - पानीपत, हरियाणा - 132103
89.	हरियाणा सामाजिक न्याय पार्टी	कोठी, नं०-239, सेक्टर -7, अर्बन एस्टेट, कुरुक्षेत्र-136118, हरियाणा ।
90.	हिन्द एकता मिशन	ग्राम-तेइवावर, पोस्ट-कौवरागहनी, तहसील-फूलपुर, जिला-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश ।
91.	हिन्द मीर्चा	समाज सुधार आश्रम, सिरसापुर, दिल्ली
92.	हिन्द रक्षा सेना	डब्ल्यू जेड 13 वीं प्रथम तल मुखराम पार्क एक्सटेंशन, तिलक नगर, नई दिल्ली - 110018
93.	हिन्द राष्ट्रीय एकता पार्टी	प्लॉट नं० 104, अंगुरी पैलेस बजाराबाद रोड पासुन्डा गरिहा गाईन साहिबाबाद गाजियाबाद यू.पी.0-201005
94.	हिन्द स्वराज्य गणतन्त्र पार्टी	एस-41 पचशील पार्क नई दिल्ली - 110017
95.	हिन्दुस्तान ऐक्शन पार्टी	156 डल्हा नगर, लोनी गाजियाबाद-201102 उत्तर प्रदेश ।
96.	हिन्दुस्तान पीपुल्स पार्टी (राजपाल)	85ए मोहित नगर, अन्तापुर, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश
97.	हिन्दुस्तानी गरीबवादी पार्टी	61, अण्णान चैन्स, विकास मार्ग, वीर सावरकर ब्लॉक शकरपुर, दिल्ली - 110092

98.	हिन्दुस्तान सुरक्षा पार्टी	नार्थ-इस्ट जोन, बरपेटा रोड, हरिस्ट लोज के पास वाई नं० 6, जिला बरपेटा, (आसाम) ।
99.	इंडियन फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी	1, बलवन्त राय मेहता लेन, के. जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001.
100.	इंडियन सेक्युलर काँग्रेस	202, पाकेट-बी, एस.एफ.एस. (डी.डी.ए. फ्लैट्स), सुखदेव विहार, नई दिल्ली - 110025.
101.	इण्डियन वोटर्स वेल्फेयर पार्टी	नं०-608, 14वीं मेन, गोकुल प्रथम स्टेज, बैंगलोर-560054, कर्नाटक ।
102.	इंडियनस फ्रंट	37-12-62, एन०जी०जी०ओ०एस० कॉलोनी, पी० आर० गार्डन्स, विशाखापट्टनम-530007, आन्ध्र प्रदेश ।
103.	इष्टतन्त्र परिषद	ग्राम-दिव्यसिंहपुर, खाता संख्या - 638, प्लॉट नं. 1343, पोस्ट-रायगुरुपुर, थाना - गदिसागोडा, जिला - पुरी, ओडिसा
104.	जे०एण्ड०के० सिटीजन्स पार्टी	हीरा बिल्डिंग, अबी गुजर, लाल चौक, श्रीनगर(जम्मू और कश्मीर) ।
105.	जगत तेलुगु मुन्नेत्र कडगम	नं० 33, हात्स रोड, पी. ए. टावर, एफ-9 ओर 10, एगमोर, चेन्नई-600008, तमिलनाडु ।
106.	जय जनता जनार्दन पार्टी	मोहल्ला-मनोहरीगंज, मर्दन नाका शहर बाँदा, परगना व जिला-बादा, उत्तर प्रदेश ।
107.	जय समाज भारतीय समाज पार्टी	टाउन एरिया सादात, पोस्ट - सादात, जिला - गाजीपुर, उत्तर प्रदेश ।
108.	जम्मू एण्ड कश्मीर नैशनल युनाइटेड फ्रंट	पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग, अम्फला चौक, करन नगर, जम्मू तवी - 180005, जम्मू व कश्मीर ।
109.	जम्मू और कश्मीर सेव श्रीनगर फ्रंट	नायब मुफ्ती आजम मंजिल, तेलबल रोड, हत्यक क्रॉसिंग, श्रीनगर - 190006 जम्मू और कश्मीर ।
110.	जम्मू एण्ड कश्मीर अवामी लीग	बी - 24, इन्द्रानगर, श्रीनगर - 190001 (जम्मू व कश्मीर) ।
111.	जम्मू एण्ड कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट	कुर्सू राजबाग, श्रीनगर - 190008, कश्मीर ।
112.	जम्मू एण्ड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट (सेक्युलर) ।	राजबाग, लिटिल एन्जल्स स्कूल के पास, श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर ।
113.	जन एकता पार्टी	147/5, आई० टी० आई० के पीछे, शमशेरपुर पोंटा सहिब हिमाचल प्रदेश ।

114.	जन लोकमत पार्टी	2, हसरत बिल्डिंग, आध्यात्मिक नगर, रेलवे फ्लाई ओवर के नीचे, डासना, गाजियाबाद - 201302 उत्तर प्रदेश ।
115.	जन शक्ति संगठन	एए - 14, चंदन घन, फेज - 1, मथुरा उत्तर प्रदेश - 281001.
116.	जन हितकारी पार्टी	ए/13 - 14, इंडस्ट्रियल एस्टेट, रसूलगढ़ भुवनेश्वर - 751010, उड़ीसा ।
117.	जन उत्थयन मंच	मार्फत डोलफिन इंजिनियरिंग कम्पनी, 39, शेक्सपियर सरणी, कोलकाता - 700017, पश्चिम बंगाल ।
118.	जनादेश पार्टी	राधे निवास, जरीमरी, जगताप वाडी, कुर्ला अंधेरी रोड, मुंबई - 400072
119.	जननायाह मुन्नेत्रा कडगम	नं० 32, न्यु टेक्क गली, नूगमयक्कम, चेन्नई - 600034, तमिलनाडु ।
120.	जाथिया तेलुगु अभिवृद्धि सेवा समुहम	नं० 171, केशवईगुंटा, निकट - एस० जी० एस० आर्ट्स कॉलेज, तिरुपति - 517501 जिला - चित्तूर, आंध्र प्रदेश
121.	झारखण्ड जन मोर्चा	द्वितीय मंजिल, अजमेरी टावर, मल्लाह टोली, रांची - 834001, झारखण्ड ।
122.	झारखण्ड जनाधिकार मंच	भुवनेश्वरी लोक, काली मंदिर रोड, वर्धमान कम्पाउन्ड, राँची - 834001, झारखण्ड ।
123.	झारखण्ड यतांचल गोंग्रेस	5, रातू रोड, राँची - 834005, झारखण्ड ।
124.	कैवियनगोर मुन्नेत्र कडगम	श्री विश्वेश्वर भवनम, 76, मिलर्स रोड, किलपोक, चेन्नई - 600010 (तमिलनाडु) ।
125.	कामगार समाज दल	सक्रात नं० 9/237 मोहल्ला : रायडोपुर, पोस्ट एवं जिला -आजमगढ, उत्तर प्रदेश ।
126.	कर्नाटक क्रांति दल	नं० 240, शिक्काटीन्थ मेन, सिक्काथ कास, फस्ट फेज, II स्टेज वी टी.एम. (ई डब्ल्यू एस) लेआउट, बंगलौर - 560076 (कर्नाटक) ।
127.	कर्नाटक तमोद्वार मुन्नेत्र कडगम	नं० 6, II फ्लोर, चिक बाजार रोड क्रॉस शिवाजी नगर, बंगलौर - 560051, (कर्नाटक) ।
128.	केरला जलपक्षम	पुरा - 36, श्यामला निवास पूजापुरा पी० ओ० थिरुवनन्थपुरम - 695012
129.	किसान गरीब नागरिक पार्टी	203 मरकज व्यू द्वितीय तल 24, अपोजिट कैरिट सिनेमा, जोगेश्वरी पश्चिम, मुम्बई - 400103 महाराष्ट्र ।

130.	किसान मजदूर बहुजन पार्टी : ३६५	जे-1/2, दली बाग कॉलोनी, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ।
131.	किसान व्यवसायी मजदूर पार्टी	प्रकाश भवन, नरही बाजार, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
132.	कौमुनाडु जननायगा कौची	"इराई अरुल" नं० - 24, मेथा लेआउट, लक्ष्मीपुरम, पीलामेडु (पो.ऑ.), कोयमबदूर, तमिलनाडु - 641004
133.	कोसल पार्टी	जी. एम. कॉलेज रोड, सम्बलपुर - 768004, (उड़ीसा) ।
134.	क्रान्ति दल	132, बाबूगंज, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ।
135.	क्रान्ति परिषद्	म० नं० 2019, मिस्त्रीखान रोड, नाहरगढ़ रोड, जयपुर (राजस्थान)।
136.	क्रांतीसेना महाराष्ट्र	5-ए, ज्योतिसदन शितलादेवी, टेंपल रोड, माहिम, मुम्बई, महाराष्ट्र।
137.	लेबर एण्ड जॉब सीकर्स पार्टी ऑफ इण्डिया	66, रोयेपेट्टा हाई रोड, मायलापोर, चेन्नई-600004, (तमिलनाडु)।
138.	लाल मोर्चा	आर० जेड० सी० - 113, विष्णु गार्डन, ख्याला, नई दिल्ली - 110018.
139.	लट्टिन काँग्रेस	बवाली, पोस्ट-खाश, जिला-मेरठ-250621, (उत्तर प्रदेश)।
140.	लोक परित्राण	"सौभाग्य" 12-13 तिलक नगर-॥ महामन्दिर, जोधपुर - 342 010, राजस्थान।
141.	लोको संमिलोन	पोस्ट ऑफिस-जलेश्वर, जिला-गोलपारा, असम।
142.	लोकसेना	63/एच०/एस०, मदलमोहन बर्मन एस्टेट कोलकता-700007, पश्चिम बंगाल।
143.	लोकतांत्रिक चेतना पार्टी	मुमताज मंजिल, आजाद नगर, बादा, उत्तर प्रदेश।
144.	लोकतांत्रिक जनता फ्रंट	ई०-13/307, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जवाहर पार्क, विकास मार्ग, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
145.	महागुजरात जनता पार्टी	ए-203, सत्यमेव-1, एस.जी. रोड, हाई कोर्ट के सामने, अहमदाबाद गुजरात।
146.	महाकौशल विकास पार्टी	"शान्ति कुटीर" 281, संजीवनी नगर, जबलपुर (मध्य प्रदेश)।
147.	महानायक सरदार पटेल संघ	52/98, द्वितीय तल, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली-110019.

148.	मक्कल काँग्रेस वजहापटियार	18, तेलुगु ब्राह्मण स्ट्रीट, वेलाचेरी, चेन्नई-600 042, तमिलनाडु।
149.	मक्कल देसिया जननायका काची	245/6, आर. के. मुट्ट रोड, माइलापोर, चेन्नई-600 004, तमिलनाडु।
150.	मक्कल मरुमलाची मुनेत्र कडगम	नं० 13ए, प्रथम तल, थियागाराजन नगर, कोडुगईयुर, चेन्नई - 600118 तमिलनाडु।
151.	माता पार्टी	5-4-719, कैटलमण्डी, नामपाल्ली, हैदराबाद-500 001, आन्ध्र प्रदेश।
152.	मणिपुर पीपुल्स पार्टी (डेमोक्रेटिक)	क्वार्टर नं० 1, टाईप-4, बाबूपाड़ा इम्फाल-795001, (मणिपुर)।
153.	मर्यादी दल	ग्राम चौरकरवाडा, तहसील- वैर, जिला- भरतपुर, राजस्थान।
154.	मातृ भक्त पार्टी	रघुनाथ फार्म, ग्राम व पोस्ट-कुण्डली, सोनीपत, हरियाणा।
155.	एम जी आर थॉडरकल काचची	नं. 18/33ए, वट्टाविलई, कप्पिवारी पोस्ट, कन्याकुमारी, जिला- 629156, तमिल नाडु।
156.	मिजोरम काँग्रेस पार्टी	हेडक्वार्टर्स- आइजोल, मिजोरम-796 001।
157.	नागा नेशनल पार्टी	हेडक्वार्टर्स अजा डेली ऑफिस, चर्च रोड, देवलाहलैंड, इम्फाल, (मणिपुर)।
158.	नेशनल जनव्रजन्ति दल	के-316, बस टर्मिनल के पास, कुतुब मीनार के सामने, एम.बी रोड, लाडो सरास, नई दिल्ली-110030.
159.	नेशनल प्रोग्रेसिव पार्टी	हाउस नं.1080, ब्लॉक-पी/1, सुलतान पुरी कलोनी, नई दिल्ली-110041
160.	नेशनल सेक्युलर पार्टी	सी-20/वी फर्स्ट फ्लोर, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110016
161.	नेशनल स्टुडेंट्स पार्टी	16/2 कर्णोतीशवराय पागोडा स्ट्रीट, मायलापोर, चेन्नई-600004, (तमिलनाडु)।
162.	नेशनल विकास पार्टी (इण्डिया)	बी-40/ए-11, गणपति पेराडाइज सेन्ट्रल स्पाइन विया धर नगर जयपुर-302023, राजस्थान।
163.	नव निर्माण नागरिक समिति	6/7/8 शंकरमत रोड, वासनगुडी, वरहोलर-560004, (कर्नाटक)।
164.	नव तेलंगाना पार्टी	म० नं० 8-2-598/बी, रोड नं० 8 बंजारा हिल्स हैदराबाद-500034

165.	नेताजी सुभाष पार्टी	शाजनवा, जिला-गोरखपुर, (उत्तर प्रदेश) ।
166.	न्यूज कांग्रेस	बाई महल, दूसरी मंजिल, वादिया गली, तारदेव, मुम्बई-400 034, महाराष्ट्र ।
167.	निस्वार्थ सेवा पार्टी	वेद आर्युवेदिक स्टोर, बस स्टैंड के पास, महेन्द्रगढ़, हरियाणा ।
168.	उड़ीसा गण परिषद्	ए/52, खरवेला नगर, यूनिट-III, भुवनेश्वर-751001.
169.	उड़ीसा मुक्ति मोर्चा	15, भौमा नगर, यूनिट- IV, भुवनेश्वर-751001, उड़ीसा।
170.	पहचान मंगलकारी पार्टी	एल-II 56, मदनगौर, दिल्ली-110 062 ।
171.	पश्चिमी प्रजातंत्र मोर्चा	386, शाहनूतन, मेरठ, उत्तर प्रदेश
172.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्वराज पार्टी	सरधना रोड, कंकड खारा, मेरठ (उत्तर प्रदेश) ।
173.	पैट्रियाट	28-अप्पुवु स्ट्रीट, कुड्डालोर पोर्ट, पिन-607003, तमिलनाडु ।
174.	पीपुल्स डेमोक्रेटिक कांग्रेस ऑफ इण्डिया	बोकरा, पोस्ट ऑफिस-बिराती, कोलकाता-700 051, पश्चिम बंगाल ।
175.	पीपुल्स पावर पार्टी	पो० बी० नं० 16, शिवाजी नगर पोस्ट ऑफिस, मुम्बई-400043, महाराष्ट्र ।
176.	प्लेन्स ट्राइबल्स काउन्सिल ऑफ असम	पी०ओ० व टी० ओ० कोकड़ाझाड, जिला-कोकड़ाझाड, (असम) ।
177.	प्रबुद्ध भारत पार्टी	7ए, हॉस्पिटल स्ट्रीट, प्रथम तल, कोलकाता- 700 072, पश्चिम बंगाल ।
178.	प्रजा भारत पार्टी	प्लॉट नं० 106, ब्लॉक 'ए', अर्चना अपार्टमेंट, ईस्ट मैरिडपल्ली, सिकन्दराबाद-500026 (आन्ध्र प्रदेश) ।
179.	प्रजा चैतन्य पार्टी	1-7-578/31/2, जेमनी कालोनी मुर्शिदाबाद, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।
180.	प्रजातान्त्रिक लोक एकता दल	3 कौटिल्य मार्ग, पटना-800 001, बिहार ।
181.	प्रोग्रेसिव पार्टी	बी ब्लॉक, गली नं० -5, शनि बाजार रोड, अमृत विहार, बुराड़ी, दिल्ली - 110084 ।
182.	प्रोग्रेसिव पिपुल्स पार्टी	मकान नं.-975, 976, श्याम कॉलोनी, बुढ़विहार फेस-II, कृष्णा मंदिर के पास, थाना - विजय विहार, दिल्ली - 110086 ।

183.	पुडुचेरी पडाईपली मक्कल काच्चो	सं० 4, फर्स्ट स्ट्रीट थैडल नगर, पुडुचेरी-605013.
184.	पंजाब पीपुल्स पार्टी	14, सेक्टर-28, अरुण विहार, नोएडा-201303 (उत्तर प्रदेश)
185.	पंजाब विकास कांग्रेस पार्टी	पंज पीर चौक, जालन्धर, पंजाब ।
186.	पंजाबी दल	मकान नं० बी.वी/30ए, रामगढ़िया गुरुद्वारा रोड, वरनाला-148101, जिला-संगरूर (पंजाब) ।
187.	पूर्वांचल गण परिषद्	मकान नं. 34, पाकेट 28, सेक्टर 24, रोहिणी, दिल्ली-110085.
188.	पूर्वांचल जनशक्ति पार्टी	श्री विश्वेश्वर आश्रम सन्तुवाभार, पोस्ट-बिहारी युजुर्ग, खजनी, गोरखपुर-273 212. उत्तर प्रदेश ।
189.	पूर्वांचल विकास पार्टी	हैल-131, गली नं. 5, महीपाल पुर एक्सटेंशन, नयी दिल्ली- 110037.
190.	पुथिया नीधि काची	6, नार्थ बोंग रोड, टी. नगर, चेन्नई-600017 (तमिलनाडु) ।
191.	कौमी जनता दल	9 वी त्रिलोकनाथ रोड, लाल बाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।
192.	राजस्थान देव सेना दल	बस स्टैंड के सामने, धमाई हवेली, दूध, जयपुर, राजस्थान ।
193.	राजदल हरियाणा	डी / एस 45, ब्रास मार्केट, वावल रोड, रेवाडी-123401, हरियाणा
194.	राष्ट्रसमर्पित जनसमूह	एच-101, ग्राउण्ड फ्लोर, चन्दु पार्क, कृष्णा नगर, नई दिल्ली-110051.
195.	राष्ट्रवादी समता पार्टी	195/187क, ग्राम-बलीपुर खुर्दवा, तहसील-गौरीगंज, जिला-अमेठी, उत्तर प्रदेश।
196.	राष्ट्रवादी स्वर्ण रक्ता पार्टी	प्लॉट नं० - 11, द्वितीय तल अवधपुरी खण्ड - 1, खरगापुर मार्केट गोमती नगर लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
197.	राष्ट्रीय अग्रणीय दल	ग्राम-खगौला, पोस्ट-रेसीपुर थाना-जन्सा जनपद-वाराणसी उत्तर प्रदेश।
198.	राष्ट्रीय आवामी दल	152 काजी टोला सैलानी रोड, ओल्ड सिटी, वरेली-243005 उत्तर प्रदेश ।
199.	राष्ट्रीय दल गोंची पार्टी	601 रोहिनी हाउस, 3- टालस्टाय मार्ग नई दिल्ली 110001

200.	राष्ट्रीय एकता विकास पार्टी	नूर मस्जिद के पास, मदाना मस्जिद ट्रांसफार्मर वाली गली, अशोक विहार, चार्ज नं० 42, लोनी, तहसील एवं जिला - गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
201.	राष्ट्रीय हमारा दल	22/191, दोली खार, मन्दोला, आगरा (उत्तर प्रदेश) ।
202.	राष्ट्रीय हिन्दुस्तान सेना, कर्नाटक	शिवा शक्ति, 141, न्यू बस स्टॉप के पीछे, वासवी नगर, हुबली - 580 030, कर्नाटक ।
203.	राष्ट्रीय हित काँग्रेस	712, जी- ब्लॉक, मिलिट्री रोड, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005.
204.	राष्ट्रीय इन्दिरा पार्टी	दत्तपुरा, सब्जीमण्डी के पास, मुरैना, मध्य प्रदेश ।
205.	राष्ट्रीय जन समानतावादी (अम्बेडकर)	71- बी, पॉकेट ए -3, कालकाजी एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110019
206.	राष्ट्रीय जनआन्दोलन पक्ष	'पोवराभवन' नं० 567 (38), 60 फीट रोड, गोकुल मथीकेरे लेआउट, बंगलौर - 560054, (कर्नाटक) ।
207.	राष्ट्रीय जनता जनार्दन पार्टी	सूरज का पुरवा, अतर्राकरत, पो० ऑ० अतर्रा जिला- बाँदा, उत्तर प्रदेश ।
208.	राष्ट्रीय जनहित पार्टी	कोठी नं० 75, सेक्टर - 17, पंचकुला- 134109. (हरियाणा)।
209.	राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी (सेक्स्यूलर)	फ्लैट नं० 153-154, वीर चन्द पटेल पथ, पटना- 800001 (बिहार)
210.	राष्ट्रीय कामगार पार्टी	बी डब्ल्यू-97, डी, शालीमार बाग, दिल्ली - 110088
211.	राष्ट्रीय कमजोर वर्ग पार्टी	केन्द्रीय कार्यालय - पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग, लाल बहादुर शास्त्री नगर, पोस्ट ऑफिस, (उच्च तल), पटना - 800023 (बिहार)।
212.	राष्ट्रीय क्रांतिकारी जनता पार्टी	407, दुर्गा चैम्बर्स, डी. बी. गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005.
213.	राष्ट्रीय लोक जागृति पार्टी	बैरक नं० - 27 के पास, बुद्ध विहार के सामने, धीम नगर, उलहासनगर - 421001, जिला-ठाणे, महाराष्ट्र।
214.	राष्ट्रीय लोक सेवा मोर्चा	206, लव कुश टावर, एकजीवीशन रोड, पटना 800001, बिहार।
215.	राष्ट्रीय लोकहित पार्टी	ए-40/35 ए, अमरपुर मढिया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।

216.	राष्ट्रीय मच्छुवा समाज पार्टी	रेलवे रोड, दादरी, तियर रावाजी फार्म हाउस, गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) ।
217.	राष्ट्रीय मानव अधिकार पार्टी	17/700, ग्राम- गोपालपुर, पो. आजादपुर (तिरुवारपुर), दिल्ली - 110009
218.	राष्ट्रीय प्रगतिशील प्रजातन्त्र पार्टी	3518, दरीवापन, शीला सिनेमा के सामने, पण्डितगंज, नई दिल्ली - 110055.
219.	राष्ट्रीय राजधानी कांग्रेस दिल्ली	8, नाथ मार्केट, नई सड़क, दिल्ली - 110006.
220.	राष्ट्रीय समाधान पार्टी	121-ए० आर० - 3/ए० -2, मंगल बाजार, मोहन गार्डन, नई दिल्ली - 110059.
221.	राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी "प्रगतिशील"	बी - 248, मोहन नगर, थारोपुर, मोरार ग्वातिर (मध्य प्रदेश)।
222.	राष्ट्रीय सर्वसमाज पार्टी (इंडिया)	प्लॉट नं०-256, मीतला धाम, रहीवासी संघ, जरी वर्गोस टर्मिट कम्पनी के सामने, जनरल ए. के. वैद्य मार्ग, मलाड (पूर्व), मुम्बई-400097, महाराष्ट्र ।
223.	राष्ट्रीय स्वर्ण शक्ति पार्टी	299, ग्राउन्ड फ्लोर, गगन विहार दिल्ली-110051
224.	राष्ट्रीय सिन्धी कांग्रेस	437/बी/1, रुबिया हाऊस, बी/एच. एलिस क्रिज शॉपिंग सेंटर, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 006, गुजरात ।
225.	रिपब्लिकन लेबर पार्टी	ब्लॉक-4, हाउस नं०-236, 7 वीं माइल चुमुकेडिया दीमापुर-797 103, पोस्ट बॉक्स - 354, नागालैण्ड ।
226.	रिपब्लिकन प्रेसिडियस पार्टी ओक इंडिया	उरुली-कंचन, पुणे-412202 (महाराष्ट्र) ।
227.	सामाजिक एकता पार्टी	22, हाउसिंग बोर्ड कोलोनी, सोनीपत-131001 (हरियाणा) ।
228.	सामाजिक जनतांत्रिक पार्टी	मुजाम राजा मार्केट सिनेमा रोड, गोपाल गंज नगर पालिका, पोस्ट - गोपालगंज-841428, जिला - गोपालगंज (बिहार) ।
229.	समाधान क्रांति दल	ग्राम - खजुरी कला, पोस्ट - खजुरी खुद कोरांच इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
230.	संगठन दलतकार पार्टी	पी- 205, वस्ती ख्याजा, मीर दद वेरन रोड, नई दिल्ली-110002
231.	सर्व समाज विकास पार्टी	वाग्वा रोड, सैलाई, पो. ओ. - सैलाई, जिला - फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।

232.	सर्वहारा समाज पार्टी	68-ए ब्लॉक, दारुलशफा, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।
233.	सर्वोच्च राष्ट्रीय विकास महापरिषद	सी - 90, डी डी ए फ्लैट, वैस्ट गोरख पार्क (न्यू जाफराबाद), शाहदरा, दिल्ली - 110032
234.	सत्य विजय पार्टी	101- सी, प्रेस हाऊस, 22, फिरोज गंधी प्रेस कॉम्पलेक्स, आगरा - मुम्बई रोड, इन्दौर - 452008, मध्य प्रदेश।
235.	सत्यवादी पक्ष	क्रमरा संख्या - 4-5, ओरायान कॉम्पलेक्स, होटल राजधानी के सामने, रेलवे स्टेशन रोड, औरंगाबाद - 431005, महाराष्ट्र।
236.	सेक्युलर डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी ऑफ इण्डिया	6-2-44/3ए, जम्मीबांदा स्ट्रीट, खम्माम-507001, आन्ध्र प्रदेश।
237.	शेतकरी विचार दल	49, ममता, आनन्दनगर को-ओप, हाउसिंग, गुलमोहर रोड, सावेदी, अहमदनगर-414001, (महाराष्ट्र)।
238.	शिरोमणि यूथ अकाली दल (कहलौ)	5/5051, शक्ति नगर, खंडवाला, चहार्ता, अमृतसर (पंजाब)।
239.	शोषित समाज अधिकार पार्टी	तहसील-कोल, थाना-गांधी पार्क, जूनपद-अलीगढ़, उत्तर प्रदेश-202001
240.	श्री भारत विकास पक्ष	220, श्री जी कॉम्पलेक्स, एतिसब्रिज पोस्ट आफिस के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380006 (गुजरात)।
241.	सिक्किम गोरखा प्रजातांत्रिक पार्टी	सिक्किम बिल्डिंग, डाक घर व थाना-सिंगटम, पूर्वी सिक्किम-737134, (सिक्किम)।
242.	सिक्किम हिमाली राज्य परिषद पार्टी	तुलसीकुंज बिल्डिंग, टेलिफोन एक्सचेंज के निकट, पो0आ0 - दारा गांव, 31-ए, नेशनल हाईवे टाडोंग बाजार, टाडोंग, गंगटोक-737102, सिक्किम।
243.	सिक्किम जन-एकता पार्टी	तिन्जीर, नामची, साउथ सिक्किम-737126
244.	सिक्किम लिबरेशन पार्टी	तिन्तेक, पूर्व सिक्किम, गंगटोक सिक्किम - 737134
245.	सिक्किम संग्राम परिषद्	देवराली बाजार, पो.ओ-ताडोंग, गंगटोक, सिक्किम-737102।
246.	सिंह जन सेना पार्टी	पद्मिक लाइब्रेरी के पास, वेरावल-362265, (गुजरात)।
247.	सरपंच समाज पार्टी	टी-47, ओल्ड नांगल, दिल्ली कैट-110010.
248.	सुराज पार्टी	6-81, ऑफिस बिल्डिंग, विशाल एस्टेट्स, ग्राम - अन्नाराम, मंडल - जिल्ला राम, जिला - मेडक, आंध्र प्रदेश - 502 313

249.	स्वराज दल	नं.-4, स्टाप, पाट्टर गुड्डा पोस्ट गाराहेहराम, पोर्ट ब्लेयर-744101, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह ।
250.	स्वर्ण युग पार्टी	नं. 26, "अम्मा", प्रथम मुख्य रोड डोलर कॉलोनी आर.एम.वी. द्वितीय स्टेज बैंगलोर-560094, कर्नाटक ।
251.	स्वतंत्र आदर्शवादी भारतीय क्रान्ति पार्टी	गांव व पोस्ट-लुटुही, यन्हा माहुली, जिला-संत कबीर नगर, खलीलाबाद, उत्तरप्रदेश ।
252.	तमिल मनिता कायदे मिल्लत लीग	579, अन्ना सलाई तेनामपेट चेन्नई-600006, तमिलनाडु ।
253.	तमिलीना विदियाल पुलिकल इयाक्कम	अन्नाई इन्लम, पल्लायन नगर, थर्ड स्ट्रीट, थेनी मेन रोड, मदुराई -- 625 016, तमिलनाडु।
254.	तमिलनाडु जननायक काँग्रेस	327, लोयड्स रोड, रोयापेट्टा, चेन्नई-600014, तमिलनाडु।
255.	तमिझार पार्टी	8/43, एम.टी.सी. रोड, मट्टुर डैम, 1, सलेम जिला, चेन्नई-600017, (तमिलनाडु)।
256.	थन्थई पेरियार द्रविड़ मुन्नेत्र कडगम्	23, अलगप्पन स्ट्रीट, थेन्काराय पेरियाकलम, जिला - थेनी, तमिलनाडु - 625601.
257.	टीपू सुल्तान नैशनल रिपब्लिक पार्टी	नं0 24, फर्स्ट मेन, 13वां क्रॉस, बापूजीनगर, मैसूर रोड, बैंगलूर-560026, कर्नाटक।
258.	त्रिकलिंगा कांग्रेस	पालांका कोलीगडिया, पोस्ट- गुनठनी बारयाना, जिला-जयपुर, पिन- 754024
259.	त्रिलिंगा प्रजा प्रगति पार्टी	बी-118, मधुरानगर एस.आर. नगर पोस्ट, हैदराबाद-500038, आन्ध्र प्रदेश।
260.	तृणामूल गण परिषद्	आनन्द प्लाजा कॉम्प्लेक्स चौथी मंजिल मणेशगुरी चरीएली, गुवाहाटी- 781006 असम ।
261.	यूनाइटेड वोडो नेशनलिस्ट लिग्रेशन फ्रंट	मार्फत देवरी बोरा रामभापुरी कहिलीपाडा गुवाहाटी, (असम) ।
262.	यूनाइटेड इंडिया पीपुल्स पार्टी	मन्जामाट्टम मूझूर पो. ओ. कोट्टायम, जिला (केरल) ।
263.	यूनाइटेड इंडियन डेमाक्रैटिक फाउन्डेशन	नं0 1205, ए-स्टेज राजाजी नगर, बैंगलूर-560010, (कर्नाटक) ।
264.	यूनाइटेड माइनोरिटीज फ्रंट, असम	उलूवरी, गुवाहाटी — 781007 (असम)
265.	यूनाइटेड पीपुल्स डेमाक्रैटिक पार्टी (संश्लिष्ट)	टैगोर एवेन्यू, इम्फाल, मणिपुर—795001.

266.	यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी ऑफ असम	एस. एस. रोड, लखटोकिया, गुवाहाटी—781001, असम
267.	यूनाइटेड रिजर्वेशन मूवमेंट काउन्सिल ऑफ असम	पो0 बॉ. नं0 2. पो0 — रेहाबाडी, गुवाहाटी — 781008, (असम) ।
268.	यूनाइटेड ट्राइबल नेशनलिस्ट्स लिवरेशन फ्रंट	देऊनगुरी, हरिसिंह, दारन—784510, (असम) ।
269.	उस संयुक्त पक्ष	नं0 46. पैलेस रोड, बंगलौर — 560001, कर्नाटक ।
270.	उत्तराखण्ड संस्कृति परिषद्	डी— 355, विनोद नगर (पश्चिम), दिल्ली — 110092
271.	उत्तराखण्ड सेना पार्टी	जय माता दी अपार्टमेंट, 10/1, नजदीक शंकर मंदिर, जुना कल्या, बेला रोड, कल्या, थाने (वेस्ट), महाराष्ट्र- 400605
272.	उत्तराखण्ड जनवादी पार्टी	53 — के राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
273.	विदर्भ विकास पार्टी	प्लॉक ए0 सेक्रेड फ्लोर, प्लूम चैम्बर्स, छिन्दवाडा रोड, नागपुर —13, महाराष्ट्र ।
274.	विदर्भ राज्य पार्टी	कामगार भवन, बैद्यनाथ चौक के पास, ग्रेट नाग रोड, नागपुर—3, महाराष्ट्र ।
275.	विधायक दल	एच0 आई0 जी0 — 205, सेक्टर—1, विकास नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
276.	विकास परिषद्	62 — ए. शास्त्री कॉलोनी, अम्याला कैन्ट—133001 हरियाणा ।
277.	विश्व विकास संघ	एफ—53/एफ —1, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली —110095 ।
278.	विवासायी अंभु काचौ	नं0 14, राघव नार्टन स्ट्रीट, उत्तरामेसूर - 603406, (तमिलनाडु) ।
279.	वार वैंट्रन्स पार्टी	ए/ 301 - 302, पले अपार्टमेंट आई. सी. कोलांती, बोंरीवाली (पश्चिम), मुम्बई - 400103, (महाराष्ट्र)।
280.	वेस्ट बंगाल प्रगतिशील इन्दिरा कोमेस	68 - वी ए. पी. सी. रोड कोलकता -700009 पश्चिम बंगाल ।
281.	यूशः दिगद	गाव काकनाची पो0 ओ0 भन्देरहाली जिला - हुगली पश्चिम बंगाल ।
282.	युवा जगृति दल	3-बी, प्रयोग फ्लैट्स, जिमखाना के पास सैक्टर-19, गांधीनगर -382 019 गुजरात ।

*आयोग के दिनांक 25.05.2022, 20.06.2022 और 13.09.2022 के आदेश के अनुसार इन पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों (प.अ.रा.द.) को सम्यक सत्यापन और नोटिस भेज दिए जाने के उपरान्त सूची से हटा दिया गया है। उन्हें भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के अंतरिम आदेश, जिसमें सामान्य प्रतीक का प्रत्याख्यान किया जाना शामिल है, के विरुद्ध प्रतिक्रिया देने का अवसर दिया गया है। सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ)/ रिटर्निंग अधिकारियों (आरओ) को सलाह दी जाती है कि यदि सूची से हटाया गया कोई पंजीकृत अमान्यताप्राप्त दल सामान्य प्रतीक के लिए संपर्क करता है तो आयोग के दिनांक 25.05.2022, 20.06.2022 और 13.09.2022 के आदेश में यथा अधिकथित यथोचित सम्यक तत्परता और प्रक्रिया का पालन किया जाए। चूंकि उनके पते 'अस्तित्व में नहीं हैं', इसलिए सूची से हटाए गए पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए सामान्य प्रतीक का दावा करने के लिए अपेक्षित प्ररूप क और ख अप्रवर्तनशील हो गए हैं।

सारणी-1 (ग)**निष्क्रिय पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल (प.अ.रा.द.)****

क्रम सं.	पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के नाम	मुख्यालय का पता
1.	आदर्श जनहित पार्टी	हाथी वाली गली म0 नं0-22, यार्ड नं0-9, आसफाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश - 283203
2.	आधुनिक विकासवादी पार्टी	डी-1/425, सेक्टर - एच, एल0डी0ए0 कोलोनी कानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
3.	अहिंसा दल	सिकरवार सदन, एल-1/108, 109 सेक्टर-बो, प्रियदर्शनी कोलोनी, सीतापुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
4.	एम्स पार्टी	आजाद चौक, पिपराही बाजार, पोस्ट-पिपराही, जिला-शिवहर, बिहार-843334 ।
5.	अखंड भारत नेशनल पार्टी	22-3-947/33/ए/1/1 मेगा सिटी नं. 125, पुरानी हवेली, सेटविन ऑफिस के सामने, हैदराबाद - 500002, आन्ध्र प्रदेश ।
6.	अखण्ड देशम पार्टी	6, द्वारिकापुरी, सेक्टर - 8, इन्दिरा नगर, लखनऊ - 226016 (उत्तर प्रदेश)
7.	अखण्ड झारखण्ड पीपुल्स फ्रंट	ग्राम व पो. आ. - गिद्धौर, जिला-जमुई, बिहार-811305.
8.	अखिल भारतीय अमन कमेटी	1/9986, वैस्ट गोरख पार्क, शाहदरा, दिल्ली-110032
9.	अखिल भारतीय अत्यंत पिछड़ा संघर्ष मोर्चा पार्टी	ट्रांसफार्मर लेन, उत्तरी नवादा, आरा, जिला-भोजपुर, बिहार-802301.
10.	अखिल भारतीय आजाद पार्टी	फौज्जारा तिराहा, नई सडक, शहजादपुर, जनपद - अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश ।
11.	अखिल भारतीय देश भक्त मोर्चा	पुरन्दरपुर, जी.पी.ओ.पटना, (बिहार) ।
12.	अखिल भारतीय मानव अधिकार दल	1602, डी.डी.ए. जनता फ्लैट्स, जी.टी.बी. एन्क्लेव, दिल्ली-110093.
13.	अखिल भारतीय मानव सेवा दल	ए-74, सेक्टर-12, नोएडा (उत्तर प्रदेश) ।
14.	अखिल भारतीय राम राज्य परिषद् (प्रेम बल्लभ व्यास) ।	श्री कृष्ण बोध धाम, 7, शंकराचार्य मार्ग, सिविल लाईन्स, दिल्ली-110054
15.	अखिल भारतीय लोक दल	ए - 1, मेन रोड, गोकल पुरी, लियर अग्रवाल रीट कॉन्स, शक्ति साई मन्दिर, दिल्ली - 110094
16.	अखिल भारतीय लोकतान्त्रिक काँग्रेस	एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) ।

17.	अखिलेन्द्रा महादेसम	डोर नं० 2-9-53, नवावपेट, मेडक - 502110, मेडक डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश ।
18.	ऑल इंडिया अस्थितानार मक्कल काची	एस. ओ. 24, थंगम कोलोनी, अन्नागार वीट, चेन्नई -40, तमिलनाडु
19.	ऑल इण्डिया बहुजन सम्मान पार्टी	107, टीकरी कलां, लई दिल्ली-110041
20.	ऑल इण्डिया मुक्ति दल पार्टी	प्लॉट नं० 158/1, म० नं० 37-93/55/1, रोड नं. 3, मथुरानगर, नेरेदमेड क्रांसिंग रोड्स, सिकन्दराबाद-500094, आन्ध्र प्रदेश ।
21.	ऑल इंडिया पार्टी फॉर द प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स	100 ए/5, 11 वां सैक्टर, 66 वी स्ट्रीट, पुनम बालम सलाई, के०के० नगर चेन्नई-600078
22.	ऑल इंडिया राजीव क्रान्तिकारी काँग्रेस	बी-58, गली नं.18, जितार नगर, नई दिल्ली- 110051
23.	ऑल इण्डिया सिंगाराबेलार मुन्नेत्र कडगम	शाय्या 2/305, सिंगाराबेलार नगर, नीलमकराई, चेन्नई-600041, तमिलनाडु ।
24.	ऑल इण्डिया तमिल मक्कल मुन्नेत्र कडगम	न० 25, धीरापांडी स्ट्रीट, पेराम्बूर, चेन्नई - 600039 तमिल नाडु ।
25.	ऑल इण्डियंस गांधी काँग्रेस	212, कालिका नगर, अंदरहल्ली मेन रोड, वैगलुरु-560058, कर्नाटक ।
26.	अम्बेडकर नेशनल मक्कल कांची	दरवाजा नं० 53, गांधी रोड (फार्मली पीरल लेन), थिन्नपनूर, जिला-चेन्नौर, पिन कोड-635601, तमिलनाडु ।
27.	अम्बेडकर समाज पार्टी	304, मन्दाकिनी एन्क्लेव अलकनन्दा, नई दिल्ली - 110019.
28.	आन्ध्र प्रदेश नवोदय प्रजा पार्टी	नं० 3-11, तुक्कुगुडा गांव, महेश्वरम मंडल मनखाल पोस्ट, रंगा रेड्डी जिला आन्ध्र प्रदेश ।
29.	अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण काँग्रेस पार्टी	ग्राम व पो० सरकडा विशनोई विकास खण्ड डिलारी, तह० ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश - 244401
30.	अति पिछडा पार्टी	गां० बडी पहाडी, पो० मोहनराय शाना-लहरी जिला-लालमन्दा-803118, बिहार।
31.	अति पिछडा वर्ग महासघ	3/1274, जानकीपुरम विस्तार रोड, जयपुर, उत्तर प्रदेश ।
32.	आजाद हिन्दुस्तान पार्टी	ई ब्लॉक-265 यादव नगर, नई दिल्ली -110042
33.	बहुजन समाज मुक्ति माचा	मकान नं० - बी-198 गली नं० - 11, भूतल, भजनपुरा दिल्ली-110053 ।
34.	बहुजन उदय भच	ग्राम-घालकपुर पोस्ट-जगत रसूलपुर जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश ।
35.	वेस्ट क्लास पार्टी	मकान नं० 94 मुहल्ला एलपल सदर-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश-276001

36.	भारत अभ्युदय पार्टी	6-6-35, अनुसूया निलयम, कवाड़ीगुडा मेन रोड, कवाड़ीगुडा, सिकन्द्राबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500380
37.	भारत भ्रष्टाचार मिटाओ पार्टी	मकान संख्या - नया नं० 4, भू-तल, बेगम विहार, ब्लॉक-ए, खसरा नं०-16/19, गोंव-बेगमपुर, नजदीक-भैरो मंदिर, दिल्ली-110086।
38.	भारत देशभक्त संगठन	19/460, इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226016
39.	भारत मंगलम परिषद्	जमो बाजार, हास्पीटल चौक, पो० आ० जमो बाजार, जिला सिवान, बिहार।
40.	भारत पुनर्निर्माण दल	के.जे. - 116, कवि नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
41.	भारतीय नेताजी पार्टी	3857, चौथा क्रॉस, गायत्री नगर, वंगलौर - 560021, (कर्नाटक)।
42.	भारतीय प्रजा शक्ति	सं० 931, 932, करमला मैदान, रेलवे स्टेशन क्रॉस रोड, चन्नापटना टाउन व तालुक, रामनगरा जिला, पिन कोड - 571501 कर्नाटक।
43.	भारतीय जागृति दल	आर. जेड 21-डी, गली नं० 4, सिडिकेट एन्क्लेव, निकट डाबड़ी मोड, दिल्ली - 110045
44.	भारतीय जनवादी पार्टी	ए-559, शास्त्री पार्क एक्सटेंशन, बुलन्द, मस्जिद, दिल्ली-110053.
45.	भारतीय क्रान्तिकारी दल	ए-5, प्रियदर्शनी विहार, नई दिल्ली-110092.
46.	भारतीय नवयुवक चेतना पार्टी	429/263, निकट अम्बर मैरिज हॉल, मौज्जम नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
47.	भारतीय रविदास पार्टी	मोहल्ला-कुंडगढ, पोस्ट-सदर, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश।
48.	भारतीय सत्य विजयी पार्टी	सी-120, बेगम विहार एक्सटेंशन, बेगमपुर, दिल्ली -110086.
49.	भारतीय उत्तम सेना	ग्राम व पोस्ट - खेड़ायाँ, थाना - आन्दर, जिला - सिवान, बिहार।
50.	भारतीय देशभक्त पार्टी	92/एच/2, प्रताप मार्केट, मुनीरका, (मार्फत सोमू प्रेस), नई दिल्ली-110067.
51.	भारतीय ग्रामवासी पार्टी	ग्राम - विक्रमपुर बाँसपार (मणि चौराहा), पो० - बैतालपुर, जिला - देवरिया, उत्तर प्रदेश
52.	भारतीय जन सेवा पार्टी	शरीफ मार्केट, हरदोई रोड, सिकरौरी, पोस्ट-काकोरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 227107
53.	भारतीय मजदूर किसान कांग्रेस पार्टी	डी-40, मेरठ रोड, औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद -121003, उत्तर प्रदेश।
54.	भारतीय नौजवान इन्क्लाव पार्टी	2/26, मन्डौली एक्सटेंशन, मन्डौली चुंगी, शाहदरा, दिल्ली- 110093.
55.	भारतीय नौजवान दल	मकान नं. 682, गली नं. 16, फेस -4, पुष्कर विहार, शिव विहार, करावल नगर, दिल्ली - 110094

56.	भारतीय प्रजातन्त्र निर्माण पार्टी	7/7/47-ए न्यू कॉलोनी लाल बाग, पोस्ट ऑफिस - फैजाबाद, उत्तर प्रदेश ।
57.	भारतीय राजनीतिक विकल्प पार्टी	ग्राम - नवाटोला बरियारपुर, पंचायत - चम्पापुर, वार्ड नं० 13, थाना - बख्तियारपुर, जिला - पटना विहार ।
58.	भारतीय सामाजिक न्याय मोर्चा	वार्ड नं० 3, विकास नगर, रायटसगंज, जनपद - सोनभद्र, उत्तर प्रदेश - 231216
59.	भारतीय सवैधानिक जनहित पार्टी	विक्रि गोल्ड फार्म गांव - सरायजोगा, पोस्ट-कान्हा, नवाबगंज उन्नाव, उत्तरप्रदेश।
60.	भारतीय सर्वसमाज पार्टी	लाल सिंह कचरी बाला, शनि बाजार वाली गली, टुण्डा नगर, जौहरी पुर, दिल्ली ।
61.	भारतीय शक्ति दल	डी - 236, विवेक विहार, दिल्ली - 110095 ।
62.	भारतीय शान्ति क्रान्ति पार्टी	1/80, रतन विहार, किराडी, नांगलोई, नई दिल्ली - 110041
63.	भारतीय श्रमिक पार्टी	79/4, जूही सफेद कॉलोनी, साकेत नगर, कानपुर नगर - 208014, उत्तर प्रदेश ।
64.	बुंदेलखंड एकीकृत पार्टी	बुंदेली सदन, ग्राम एवं पो० - सतारी, जिला - महोबा, उत्तर प्रदेश।
65.	बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा	श्री मुखलाल आइस फैक्ट्री भवन, इलीट चौराहा, झांसी - 284001, (उत्तर प्रदेश) ।
66.	क्रिश्चियन मुन्नेत्र कडगम	93 तैयप्पा मुदाली स्ट्रीट चेन्नई - 600001. (तमिलनाडु)।
67.	दलित समाज पार्टी	नव चेतना पथ, शिवपुरी पो. ऑ. - अनीशाबाद, पटना - 800002, (बिहार) ।
68.	दिल्ली परिवर्तन पार्टी	ई-37, टैगोर गार्डन एक्सटेशन, नई दिल्ली - 110027
69.	देश भक्त पार्टी	डी - 114, पीत विहार दिल्ली - 110092
70.	देसिया पातुकप्पु कडगम	'अरियागम' 33, रामकृष्ण स्ट्रीट, गांधी नगर, सालीगामम, चेन्नई - 600093 (तमिलनाडु) ।
71.	इलेचिया थीरविडा मुन्नेत्र कडगम	'इलेचियागम', 4-ए, हिन्दी प्रचार सभा स्ट्रीट, टी. नगर चेन्नई - 600017, तमिलनाडु।
72.	गांधीवादी राष्ट्रीय कांग्रेस	टीकरी कालोनी लक्ष्मी रोड, महोदिया, पोस्ट - महोदिया टाउन और जिला - मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) ।
73.	गरीब राज पार्टी	म० न० 748ए झारखण्डी कायस्थवाडा, सिक्कन्दाबाद जिला - बुलन्दशहर उत्तर प्रदेश ।

74.	गरीब समाज पार्टी (शोषित)	हाजीपुर मालीपुर रोड, निकट राम जानकी मन्दिर, शंकरगढ़, थाना व तहसील - जलालपुर, जिला - अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश - 224149.
75.	गरीब विकास पार्टी	प्रोफेसर कॉलोनी, बेलबनवा, मोतीहारी, बिहार - 845401.
76.	गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा	नॉर्थ ज्वाइंट, सिंगामरी, दार्जिलिंग-734 104, पश्चिम बंगाल ।
77.	हमारा दल	सी-112, सेक्टर-जी, एन० डी० ए० कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ -12 उत्तर प्रदेश ।
78.	हिन्द किसान मजदूर पार्टी	31/419, केला हाऊस, महाराणा प्रताप नगर, आगरा - 4 (उत्तर प्रदेश) ।
79.	हिन्दुस्तान नेशनल पार्टी	नं० 103/68, कॉलेज रोड, नंगनलूर, चेन्नई - 600114, तमिलनाडु ।
80.	हिन्दुस्तानी स्वराज पार्टी	69, अशोक मोहल्ला, नांगलोई, दिल्ली -110041.
81.	इंडियन बहुजन संदेश पार्टी (कांशीराम)	बी-525, मुक्त हरिकिशन नगर, नई दिल्ली ।
82.	इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन फ्रंट	मकान नं०-404, संजय कॉलोनी, अर्थला मोहन नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
83.	इंडियन जस्टिस पार्टी	5, पुसा रोड, तीसरी मंजिल, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005.
84.	इंडियन नेशनल यूनियन पार्टी	ए-44, पर्यावरण कॉम्प्लेक्स, सैदुला जैब, नई दिल्ली-30.
85.	इंडियन ओसैनिक पार्टी	के-316, एम.बी. रोड, लाडो सराय, नई दिल्ली - 110030
86.	इंडियन पीपुल्स काँग्रेस	79, लायर्स चैम्बर्स, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली - 110001
87.	इंडियन यूथ पार्टी	7/545, विकास नगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश ।
88.	इंकलाब पार्टी ऑफ इंडिया	मौहल्ला पश्चिमी लखपेड़ा, टाउन एवं पोस्ट-मोहम्मदी, जिला-लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, पिन-262804.
89.	इन्कलाब विकास दल	92, ग्राम-गावांडी, सरदार पटेल पार्क के पास, धौडा, दिल्ली ।
90.	जगन्मय नारी संगठन	सेक्टर-21/5, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
91.	जाग्रत भारत पार्टी	101, विधायक निवास, राजेन्द्र नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
92.	जय जवान जय किसान मजदूर काँग्रेस	इन्क्यू जैड-553-ए/3, सोनी कुंज, नांगल राय, नई दिल्ली-110046.
93.	जन अधिकार मंच	9 शिवराष्ट्र, झिंतमिल, दिल्ली - 110095.
94.	जन भावना पार्टी	सी - 103, गणेश नगर, पाण्डव नगर कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110092 ।

95.	जन एकता दल	घेर कटेयाज खान मस्जिद काले खान के पास, रामपुर, जिला - रामपुर - 244 901, उत्तर प्रदेश ।
96.	जन क्रांति स्वतंत्रता पार्टी	226/27 गली नं० - 6, बहावीर नगर, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश ।
97.	जन लोक कल्याण पार्टी	ग्राम तथा पोस्ट: दुगाडा तहसील - शामली जिला - मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश ।
98.	जन मोर्चा	1. तीन मूर्ति मार्ग नई दिल्ली - 110001.
99.	जन समर्थन दल	12. कृष्णा विहार, जवाला नगर, रामपुर, उत्तर प्रदेश ।
100.	जन संग्राम पार्टी	मकान नं. 482 सेक्टर-3ए, आवास विकास कॉलोनी, चोदला, आगरा-7 उत्तर प्रदेश।
101.	जन प्रिय	ए/2, कास्टेल-5, कार्नेवल रोड बंगलौर - 560025 (कर्नाटक) ।
102.	जनता विकास मंच	सी-216 आवास विकास कॉलोनी मीरा भवन प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश ।
103.	जनलोक राष्ट्रीय पार्टी	452. सेक्टर - 19, द्वारका नई दिल्ली ।
104.	जनसत्ता पार्टी	एल-14, महेंद्रा पार्क, आदर्श कॉलोनी, नई दिल्ली - 110003.
105.	जनशोषित समाज पार्टी	ए-618/7, गली नं०-8, भजनपुरा, दिल्ली - 110053.
106.	कामराजार अदितनार कडगम	6-ई, संस्थान कोइल स्ट्रीट, पुधुकोटिरुप्पु, नागोरकोइल - 629001 (तमिलनाडु) ।
107.	कन्नडनाडु पार्टी	54 ग्राउन्ड फ्लोर प्रसन्ता कॉलोनी, वसावेश्वर नगर, गोकुल रोड, हुबली - 580030 कर्नाटक ।
108.	कौंगू नाडु मुनेत्र कडगम	320. वेस्ट काम्पलेक्स कुमारन रोड, त्रिपुर - 641601, कोयम्बटूर (जिला), तमिलनाडु ।
109.	कोशी विकास पार्टी	मछली भवन डॉ अम्बेडकर मार्ग, गांव पो0 व जिला - खगड़िया बिहार - 851204
110.	लेबर समाज पार्टी	चेम्बर नं० 91, सिविल कोर्ट राजनगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
111.	लघुजन समाज विकास पार्टी	बडापुरा ललितपुर उत्तर प्रदेश।
112.	लेनिन कम्युनिस्ट पार्टी	20. भारतीय नगर, अन्तागप्पापुरम, कराईकुडडी-630003 तमिलनाडु।
113.	लोक जगहिल पार्टी	ग्राम - डानूपुर सुल्तानपुर पोस्ट - पैमपुर जतपद - कन्नौज उत्तर प्रदेश ।
114.	लोक शक्ति	83 लैडी एस्टेट, नई दिल्ली-110003
115.	लोक विकास पार्टी	41, विज्ञान विहार दिल्ली-110092

116.	लोकनायक पार्टी	172/3 सी, पूर्वी मोती बाग, सराय रोहिल्ला, दिल्ली - 110 007.
117.	भानीला कॉंगु पेरावाई	नं० 41, नारायणगुरु रोड, साईबाबा कॉलोनी, कोयम्बदूर-641011, तमिलनाडु।
118.	महा लोकतंत्र पार्टी	शॉप नं.4, बसन्त गंगा मार्केट, मकान नं. 762/648, पुराना कटरा, इलाहाबाद-211002, उत्तर प्रदेश।
119.	महिला अधिकार पार्टी	29-ए नहरपुर, सेक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली-110085.
120.	मानव समाज पार्टी	9538, गोशाला बारादरी किशनगंज, दिल्ली-110008.
121.	माक्सिस्ट कोअर्डिनेशन	टैम्पल रोड, पुराना बाजार, धनबाद, जिला-धनबाद, झारखंड-826001
122.	मोमिन कान्फेंस	47/26, चारिस प्लाजा, हुसैन गंज, विधान सभा मार्ग, लखनऊ-226001, (उत्तर प्रदेश)।
123.	मुसलसल ईमान समाज पार्टी	261, चक्की वाली गली, रेलवे रोड, बजरिया, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
124.	मुस्लिम नजलिस उत्तर प्रदेश	सुल्तान मंजिल, तकिया पीर जलील, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश)।
125.	नामाधु द्रविड इयक्कम	एस.सी.सी. एन्थनी पिल्लई इलम, न्यू नं० 41, ओल्ड नं० 18.7 कौंस स्ट्रीट, शिनाय नगर पश्चिम, चेन्नई-600030 (तमिलनाडु)।
126.	नेशनल लोकहिन्द पार्टी	सी-1375, राजाजीपुरम, लखनऊ-226 017, उत्तर प्रदेश।
127.	नेशनल सर्वसमाज पार्टी	मकान संख्या-66, खसरा सं०-1995, इकबाल कालोनी, निकट सना मस्जिद, ग्राम पसौन्डा, परगना नोनी, तहसील व जिला गजियाबाद, उत्तर प्रदेश -201001
128.	नेशनल वेलफेयर पार्टी	16, नेहरूजी नगर, करुप्पारायन, कोयल स्ट्रीट, समुन्दीपुरम साउथ, वीपुर - 641603, तमिलनाडु
129.	नेशनलिस्टिक तेलंगाना राष्ट्र समिति	23-6-431/1, गोवलिपुरा, हैदराबाद-500 265, आन्ध्र प्रदेश।
130.	नव युवक दल	ग्राम- टिकरा, पोस्ट-घुंघटेर, तहसील - फतेहपुर, जिला- बाराबंकी, उत्तर प्रदेश - 225302।
131.	नवभारत निर्माण पार्टी	30, डी. एस.आई.डी.सी. कॉम्प्लेक्स, माता सुन्दरी रोड, नई दिल्ली-110 002.
132.	नेलोपा (युनाइटेड)	वी. डी. ओ. बिल्डिंग, दुर्गा देवी मार्ग, शीश महल, हुसैनाबाद चौक, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।
133.	न्यूऑल इन्डिया कांग्रेस पार्टी	ए-138, मेन विकास मार्ग, शकरपुर, दिल्ली- 110092।
134.	न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया	द्वितीय तल, 9 ए/ 83, डब्ल्यू. ई. ए. करोलबाग, नई दिल्ली-110005।

135.	पाटी किसान मजदूर व्यापारी	रेलवे रोड, हाथरस जंक्शन, महात्मा प्राकृतिक चिकित्सालय, नंगला हीरा, हाथरस जंक्शन, महामाया नगर, हाथरस, उत्तर प्रदेश ।
136.	पीपुल्स डेमोक्रेटिक फोरम	सी-177, सेक्टर-जे, अलीगंज, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) ।
137.	पीपुल्स मूवमेंट ऑफ इण्डिया	9/215/15, योजना-3, आवास विकास कॉलोनी, झूमी इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश - 211019
138.	प्रगतिशील पार्टी	111, बादशाह नगर, लखनऊ, 226007 (उत्तर प्रदेश) ।
139.	प्रजा पार्टी	3-5-898/1, हिमायतनगर, हैदराबाद-500029 (आन्ध्र प्रदेश) ।
140.	प्रजातांत्रिक बहुजन शक्ति दल	टी-1, श्रीराम हाउस, 117 एच-2/52, पांडुनगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश ।
141.	प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी	गांव व पोस्ट - सूरजावाली (सलेमपुर), जिला-बुलन्दशहर-203001, उत्तर प्रदेश।
142.	पब्लिक डेवलपमेंट पार्टी	मुरलीपुर शेख सलाह तकिया, चिनहट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
143.	पूर्वांचल राज्य वनाओ दल	374, बक्शीपुर, उत्तर पावर हाउस के तजदीक, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश ।
144.	राष्ट्रवादी बहुजन क्रांति पार्टी	मौहल्ला - चिरंजीलाल, कल्या - अफजलगढ़, तहसील - धामपुर, जनपद - बिजनौर, उत्तर प्रदेश - 246722
145.	राष्ट्रवादी जनतांत्रिक पार्टी	अम्बर विला, 127/660 डब्ल्यू-1, साकेत नगर, कानपुर-208014 उत्तर प्रदेश।
146.	राष्ट्रवादी लेबर पार्टी	डी-12/104, सेक्टर-8, रोहिणी, दिल्ली - 110085
147.	राष्ट्रवादी सेना	मुख्य शाहदरा चौक, दिल्ली - 110032.
148.	राष्ट्रीय अमन सेवा	अमन हाउस संजय गांधी नगर रोड नं० 9, शिगाजी नगर सं० 2, गोवडी, मुम्बई महाराष्ट्र -400043
149.	राष्ट्रीय श्रामीण पार्टी	ग्राम - चकरशानपुर (केमराला) पो० आ० घोडी बछेरा (दादरी) जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश ।
150.	राष्ट्रीय हिन्दू सेना	158/1 देव नगर, जिला- फिरोजाबाद - 283203 उत्तर प्रदेश ।
151.	राष्ट्रीय जन ससद	शक्ति नगर पुराना जी.टी. रोड, खुरजा, जिला - बुलन्दशहर - 203131, उत्तर प्रदेश ।
152.	राष्ट्रीय जन सेवक पार्टी	गांव - तांगला जमानपुर, पोस्ट - पचली खुदे वागपत रोड, मेरठ उत्तर प्रदेश ।
153.	राष्ट्रीय जनरल पार्टी	ग्राम - विर्जापुर, पोस्ट - अहूकी, जिला - मथुरा, उत्तर प्रदेश।

154.	राष्ट्रीय जनसंघ	पुराना - 20, नया-35, विक्टोरिया पार्क, स्पोर्ट्स कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश ।
155.	राष्ट्रीय जनता कॉंग्रेस	12, सिटी फोर्ट रोड, नई दिल्ली - 110046.
156.	राष्ट्रीय जनतंत्र पक्ष	24, स्टार अपार्टमेंट्स, विद्या-बिहार मार्ग, सेक्टर - IX, रोहिणी, दिल्ली - 110085
157.	राष्ट्रीय लोक निर्माण पार्टी	एम - 12, मीर विहार, मदनपुर डबवास, दिल्ली।
158.	राष्ट्रीय लोकमंच	1303, नौरंग हाऊस, बी-ब्लॉक, 21- कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001
159.	राष्ट्रीय लोकशाही पार्टी	सर्वे नं० - 40/1, 40/2 एवं 40/3, मकान सं० - 411 एवं 412, ग्राम - बीड बुद्रुक, तालुक - कर्जत, जिला - रायगड, महाराष्ट्र
160.	राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समाज सेकुलर पार्टी	मकान 411, कृष्णबिहारी नगर, बांदा-सागर रोड यम तिराहा, जिला व तहसील - फतेहपुर, उत्तर प्रदेश ।
161.	राष्ट्रीय परिवर्तन दल	बी - 4 ए/25, राणा प्रताप बाग, दिल्ली - 110007.
162.	राष्ट्रीय पीस पार्टी	17जी/322, सेक्टर - 17, वसुन्धरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
163.	राष्ट्रीय प्रजातान्त्रिक पार्टी	मकान नं. 38, ग्राम - जानौर, पोस्ट कन्धीकला, जनपद-जौनपुर, उत्तर प्रदेश।
164.	राष्ट्रीय साधु विचार काउंसिल	रैदोपुर न्यू, ऑफिसर कोलोनी, न्याय मार्ग, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश ।
165.	राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी (यूनाइटेड)	9, कम्युनिटी सेंटर, अशोक विहार, फेस -II, दिल्ली - 110052.
166.	राष्ट्रीय समदर्शी देशभक्त दल	खुशकरी सदन, आनन्द नगर, मण्डी रोड तिराहा, कासगंज, काशीराम नगर, उत्तर प्रदेश।
167.	राष्ट्रीय साम्यवादी आर्यन पार्टी	570/20, दिराट नगर, आलम बाग, लखनऊ-226005, उत्तर प्रदेश।
168.	राष्ट्रीय संघर्ष पार्टी	फरीदाबाद, सुजानगंज, जौनपुर-222201, उत्तर प्रदेश।
169.	राष्ट्रीय सर्वजन समाज पार्टी	ग्राम व पो० - मानधाता, तहसील - सदर, जिला - प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश।
170.	राष्ट्रीय विकलांग पार्टी	114, डी. डी. ए. पॉकेट-2, सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली - 110045
171.	राष्ट्रीय युवा संघ	बी-117, गली नं. 6, पूर्वी विजोद नगर, दिल्ली-110091.
172.	राष्ट्रीय प्रजा चक्रव्यूह पार्टी	नं० 73, शान्तिनिकेतन, डी. के. हल्ली मेन रोड, पालार नगर, वीईएमएल नगर (पोस्ट), बंगारपेट (तालुक), कोलार (जिला), कर्नाटक - 563115 ।
173.	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (कान्यले)	ए, 703, सूर्याकिरण को. औप. हाऊसिंग सोसाईटी, प्लॉट नं. 12 एण्ड 13, सेक्टर-5, धनसौली, नवी मुंबई- 400701, महाराष्ट्र।

174.	गरीबजन समाज पार्टी	बी-8, न्यू साई प्लाजा, कंकरखेरा, सरधना रोड, मेरठ उत्तर प्रदेश-250004
175.	निवन्त्यूनतरी डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इण्डिया	5221, गली नं.-115, बी-ब्लॉक, सन्तनगर घुराडी, दिल्ली-110084
176.	सब समान पार्टी	मकान सं0 - 95 क, गांव सरसण्डा, पोस्ट - गोपरामऊ, तहसील व जिला - लखनऊ, उत्तर प्रदेश
177.	सदभावना पार्टी	कमरा नं. 14, प्रथम तल, लखनऊ होटल श्रीराम रोड, चौराहा अमीनाबाद, लखनऊ-226018, (उत्तर प्रदेश) ।
178.	शक्ति भारत देशम	सं. 2/56, वैरावन चेट्टी स्टोर, पाचोयाम्मन पाडीथुराई, मदुरै-625001, तमिलनाडु।
179.	सामाजिक इंसाफ पार्टी (राष्ट्रवादी)	मकान नं0 - 53, ग्राम - लहरी, पोस्ट - कुरियार, जिला - बस्ती, उत्तर प्रदेश ।
180.	सामाजिक न्याय पार्टी	एम-22, महावीर पार्क, मारिस रोड, अलीगढ़-202001, (उत्तर प्रदेश)।
181.	समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक	14, डॉ. विशंभर दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
182.	समाजवादी क्रान्ति दल	3/197, विधायक पुरम, विनय खण्ड, गोमती नगर लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
183.	समुगा समतुवा पडाई	4/388, राम गार्डन, अन्ना सालई, पालावाक्कम, चैन्नई- 600041, तमिलनाडु ।
184.	सनातन समाज पार्टी	रामानन्द नगर, बेगमपुरा अयोध्या, फैजाबाद, (उत्तर प्रदेश) ।
185.	संयुक्त समाज पार्टी	ग्राम व पोस्ट - खारी, जिला-बिजनौर, उत्तर प्रदेश
186.	सर्वजन कल्याण पार्टी	के-73 के सामने, हनुमान नगर, केकड़ावाग, पटना बिहार-800020
187.	सार्वजनिक क्रान्ति पार्टी	सूर्य लॉज रोड वेज आजमगढ़ उत्तर प्रदेश।
188.	सर्वजन महासभा	बी-36/40, कवीर नगर, दुर्गाकुंड, बाराणसी - 221 005 उत्तर प्रदेश ।
189.	सत्युग पार्टी	ग्राम-सूखा टोला, दुमरी पोस्ट-कसया, जिला-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश ।
190.	शिरान्ति अकाली दल (रिपब्लिक)	9 हर्षिकन नगर, गुरु तेग बहादुर नगर दिल्ली-110009
191.	शिवाजी कांग्रेस पार्टी	मकान नं. 31, पो0 खाकुटी तालुका-मालेगांव, जिला-नासिक महाराष्ट्र ।
192.	शक्ति समाज पार्टी	4/8, त्यागराज नगर (सफ्दरजंग बस टर्मिनल), नई दिल्ली- 110003
193.	श्रेष्ठतराष्ट्र पार्टी	ग्राम-जगसठ, पोस्ट-सरगासा, जतपश-खारी-लखामपुर उत्तर प्रदेश ।
194.	शिक्षित बेरोजगार सेना	चन्दन कुमार बहराइच खजूरावन मदयाहून, जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।

195.	सोशलिस्ट पार्टी (लोहिया)	सिद्दीकी विल्डिंग, 6122, बाडा हिन्दू राय, दिल्ली-110006.
196.	सोशलिस्ट पार्टी सेकुलर	505/506 भिलावां, लखनऊ कानपुर रोड, (अजन्ता अस्पताल के सामने), आलमबाग, लखनऊ -5, उत्तर प्रदेश ।
197.	सुखी समाज पार्टी	344 भौंझा, गाजियाबाद - 201001 उत्तर प्रदेश ।
198.	स्वराज पार्टी-यस (सुभाष चन्द्र बोस)	ग्राम बडाकधर सेमरीखान कोट, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश-272192 ।
199.	स्वराष्ट्र जन पार्टी	तरकापुर फुलवरिया, पोस्ट-सदर, जिला-मिर्जापुर-231001, उत्तर प्रदेश ।
200.	ताई नांडु पार्टी	44/15, कामराज रोड, शिवाजी नगर, बैंगलूर-560001, कर्नाटक
201.	तमिल देसियक काची	80 ए, चामुन्डी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सलेम-636007. (तमिलनाडु) ।
202.	तमिल मविला द्रविड मुन्नेत्र कडगम	द्वार नं० 296, अम्बेडकर स्ट्रीट उथुक्काडु गांव व पोस्ट, वान्जाबाद वाया कोचीपुरम तालुका व जिला, तमिल नाडु ।
203.	तामिजागा मक्कल जननायका काचि	वनाविल ईलम, संख्या 9 पूर्व सातवीं गली, पुडुकोट्टई-622001 तमिलनाडु ।
204.	थन्ली तेलंगाना पार्टी	प्लॉट नं०-50, रोड नं०-5, जुवली हिल्स, हैदराबाद-500033, आन्ध्र प्रदेश।
205.	दि ह्यूमेनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	34, लवीना, 52 ए, टैगोर रोड, सान्ताक्रुज (पश्चिम), मुम्बई-400054, (महाराष्ट्र)।
206.	उज्जययल राष्ट्र पार्टी	ग्राम - अहिरावाँ, पोस्ट - बेरुआ, तहसील - सण्डीला, जिला - हरदोई, उत्तर प्रदेश - 241304
207.	यूनाइटेड सिटिजन पार्टी	डी - 29, कोन्डली, दिल्ली-110096.
208.	यूनाइटेड कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	29 / 116 गली नं० -10, विश्वास नगर शाहदरा, दिल्ली-110 032.
209.	यूनाइटेड फ्रंट (पार्टी)	अबु फाखरुद्दीन प्लाजा, लंगर टोली चौराहा, बारी पथ, पटना-800004, बिहार ।
210.	यूनाइटेड नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी	डी-786, जैतपुर विस्तार, पार्ट - II, वदरपुर, दिल्ली-110 044
211.	उपेक्षित समाज पार्टी	एक-15, शमल सिंह मार्केट, गोल मार्केट के पास, नई दिल्ली-110011.
212.	उत्तर प्रदेश यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट	38 - रोगल होटल, विधान सभा भाग, लखनऊ उत्तर प्रदेश ।
213.	विकासशील समाज पार्टी	305 ए साहारा शॉपिंग सेन्टर, फैजाबाद रोड, इन्दिरा नगर लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226016
214.	वोर्स पार्टी	ए. 1/75, फ्रीडम इन्क्लेव, नव सराय, इग्नू रोड, नई दिल्ली - 110065 ।

215.	यूथ डेमोक्रेटिक फ्रंट	मकान सं0 1-10-63/5 प्लॉट सं0 44, चिकोटी गार्डन्स, बेगमपेट, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।
216.	यूथ फोर इक्विटी	पौ-४0ए द्वितीय तल साऊथ एक्सटेंशन -II, नई दिल्ली -110034 ।
217.	युवा जन जागृति पार्टी	315, फ्रीवे ट्रेड सेंटर आई.ओ.सी.पेट्रोल पम्प के सामने, नरोल-असलाही हाईवे, अहमदाबाद, गुजरात- 382427
218.	युवा क्रान्ति दल	बी - 667, अमन विहार, पोस्ट ऑफिस-मुल्तानपुरी, जिला- उत्तर -पश्चिम, नई दिल्ली-110 086.

**आयोग के दिनांक 13.09.2022 के आदेश के अनुसार निम्नलिखित दलों को निष्क्रिय घोषित कर दिया गया है।
 उनको व्यक्तिगत रूप से और सीईओ तथा ईसीआई की वेबसाइट के माध्यम से नोटिस तामील किया गया था।
 ईसीआई के उक्त अंतरिम आदेश द्वारा सामान्य प्रतीक की उनकी मांग पर विराम लगा दिया गया है। सभी
 सीईओ/आरओ को सलाह दी जाती है कि यदि कोई 'निष्क्रिय' दल सामान्य प्रतीक के लिए संपर्क करता है तो आयोग
 के दिनांक 13.09.2022 के आदेश में यथा अधिकथित यथोचित सम्यक तत्परता का पालन किया जाए। चूंकि उक्त
 दलों ने अपेक्षित सारवान परिवर्तनों, विशेष रूप से वर्ष 2014 से अपने पदाधिकारियों के विवरण को अपडेट
 नहीं किया है, इसलिए प्ररूप क और ख स्वीकार करने के आधार समाप्त हो गए हैं।

आदेश से,
 हस्ता/-
 (दिलीप के. वर्मा)
 प्रधान सचिव,
 भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

No.56/2024/PPS-III

New Delhi, Dated 27th March, 2024- 07 Chaitra, 1946 (Saka)

NOTIFICATION

WHEREAS, the Election Commission of India has decided to update its Notification No.56/2022/PPS-III, dated 15th May, 2023, specifying the names of registeredunrecognised parties [RUPPs], issued in pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968;

NOW, THEREFORE, in pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, and in supersession of its aforesaid notification No.56/2022/PPS-III, dated 15th May, 2023, published in the Gazette of India, Extra-Ordinary, Part-II, Section-3, Sub-Section (iii), the Election Commission of India hereby specifies: -

- (a) In Table I (A), the registeredunrecognized political parties [RUPPs] and postal address of their Headquarters;
- (b) In Table I (B), the list of delisted registered-unrecognized political parties [RUPPs] and postal address of their Headquarters; and
- (c) In Table I (C), the list of inactive registered-unrecognized political parties [RUPPs] and postal address of their Headquarters.

TABLE - 1(A)
REGISTERED UNRECOGNISED PARTIES

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	Aabaad Party	4-1/2, SCB Nagar, Ramavaram, Mdl: Chunchupally, District - Bhadradi Kothagudem, Telangana - 507118
2	Aadarsh Bharat Nirman Dal	Village- Bhaini Bheron, Teshil- Meham, District- Rohtak, Haryana- 124112
3	Aadarsh Janata Sewa Party	Ranjit House, Didwara Road, Salwan, District - Karnal, Haryana
4	Aadarsh Mithila Party	Hathi Wali Gali, H. No. 22, Ward No. 9, Asfabad, Firozabad, Uttar Pradesh - 283203
5	Aadarsh Sangram Party	D/S- 1252, Sector- D, L.D.A Colony, Kanpur Road, Lucknow, Uttar Pradesh- 226012.
6	Aadarshwaadi Congress Party	E.W.S. - 04, Kausalpuri Colony, Phase-2, Near of Water Tank, Gramsabha Gaddopur, Vikas Khand - Masoadha, Tahsil - Sadar, District - Faizabad, Uttar Pradesh.
7	Aadhi Aabadi Party	D-1385/7, D- Block, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh-226016
8	Aadi Bharat Party	116, Bopal Haat & Homes, Inside Sun city, Bopal, Ahmadabad, Gujarat- 380058
9	Aadijan Mukti Sena	'First Floor', 21, Durgesh Vihar, J.K. Road, Bhopal (Madhya Pradesh)
10	Aadin Samaj Party	H. No. 84, Village - Mawai Kala, Post - Naribari, Shankargarh, Allahabad, Uttar Pradesh
11	Aadivasi Sena Party	At & Post - Rupvel (Nishal Falia), Tal. Vansada, Distt. Navsari-396 321, Gujarat.
12	Aajad Bharat Party (Democratic)	Village+Post - Behta Buzurg, Vikas Khand - Bhitargaon, District - Kanpur, Uttar Pradesh.
13	Aam Aadmi Mukti Morcha	4 U.F. Babar Place, Todarmal Road, Near Bengali Market, New Delhi- 110001.
14	Aam Aadmi Parivartan Party	Satya Sai Colony, Preet Vihar, Near Sammer Vila School, Chhapraula, Gaudam Buddha Nagar, Uttar Pradesh-201001
15	Aam Aadmi Sangharsh Party (S)	D- 489, Street No.- 7, Mukandpur Extension, Part- 1, New Delhi- 110042.
16	Aam Adhikar Morcha	Manoj Mandal, Adarsh Nagar, Chethariya Peer, Ward No. 15, P.O. & P.S.- Kahalgau, District- Bhagalpur, Bihar - 813203
17	Aam Awaam Vikas Morcha	Flat no.D-202, Gokul Dham Apartment, Ranchi, Jharkhand-834008
18	Aam Bharat Party	C/o Arvind Kumar Dikshit, No. 3 rd Floor, 2 nd Building, Ambika Complex, Damodar Area, Taluk-Idar, district-Sabarkantha Gujarat- 383430.
19	Aam Bhartiya Party	103-Radio Colony, Indore, Madhya Pradesh- 452001
20	Aam Dal	Plot-Bhawan No. 191, Budha Enclave, Lohia Nagar, Meerut, Uttar Pradesh.
21	Aam Hindustani Party	Village Bhagauri Dubey ka Bhiswan, Post- Chauri Chaura, District- Gorakhpur, Uttar Pradesh-273201.
22	Aam Jan Majdoor Party	Bhadpar Chauraha, Bhadpar, Tehsil-Laharpur, District- Sitapur, Uttar Pradesh-
23	Aam Jan Niti Party	Ward No. 8, Sector No. 121, Near G.G.S.Public School, Hanumangarh Junction, District- Hanumangarh, Rajasthan- 335512
24	Aam Jan Party (Secular)	Meena Varika, Mau Durgamgarh, Village- Chaksakra, Post- Chandralya, P.S- Hajipur sadar, District- Vaishali BIHAR
25	Aam Janata Jagrukta Party	Jafar Baitha Market, Dagaria, P.S.-Dagaria, Post-Dagaria, Via- Gulabghat, District-Purnea Bihar - 854326
26	Aam Janata Party	Village - Jigina, P.O. - Manjharaya Vikram, District - Basti, Uttar Pradesh.
27	Aam Janata Party (Sarvajana Hitaya)	243-244, 2 nd Floor, Radha Chambers, Plot No. - 9, G - Block, Community Centre, Vikaspuri, New Delhi - 18.

28	Aam Jankranti Party	Village & Post – Bhagipur, Shikohabad Road, Near Modern English School, District – Etah, Uttar Pradesh – 207001.
29	Aam Janmat Party	HIG Flat No – 7HF/25, Bahadurpur Housing Colony, Patna, Bihar-800026
30	Aam Janshakti Party	WZ-J-62, Uttam Nagar, Delhi - 110059.
31	Aam Janta Party (India)	Behind Ranipurwa Primary School, Janki Nagar, Post – Bus Stop, District – Gonda, Uttar Pradesh.
32	Aam Janta Party (Socialist)	Village & Post-Indaipur, Distt.-Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh-224129
33	Aam Janta Party Democratic	House No. 1403, Bela, Ward No. 4, Gram Panchayat Bela, Tehsil- Umred, District- Nagpur, Maharashtra- 441115
34	Aam Janta Party Rashtriya	Flat No. 804, 8th Floor, Gharouda Complex, Jagdeo Path More, Bailey Road, Patna, Bihar - 800014.
35	Aam Janta Pragati Party	B-141, Amar Jyoti Colony, Sector – 17, Rohini, Delhi – 110081
36	Aam Lok Party United	House No. 328, Street No. 4, Neta ji Park Haibowal, Kalan, Ludhiana, Punjab- 141001
37	Aam Nagrik Party	Village- Baulla Mazupur, Post- Kiratpur Nimana, Block-Gonda, Tehsil- Eglash, District- Aligarh, Uttar Pradesh.
38	Aam Nagrik Yuva Party	Village- Nalhad, Post office- Nalhad, Tehsil and District- Nuh, Haryana- 122107
39	Aamjan Ekta Party	Mohalla-Munshipura, Near Tehsil-Kasba-Nakud, Tehsil & Thana- Nakud, District-Saharanpur, Uttar Pradesh-247342
40	Aanaithinhiya Jananayaka Pathukappu Kazhagam	1/47B, JSM Cathedral Road, Itteri, Distt.-Tirunelveli, Tamil Nadu - 627007
41	Aap Aur Hum Party	Ward No. 24, House No. 714/647, Mohalla- Basanti Gali, District- Muzaffarpur, Bihar
42	Aap Ki Insaf Party	H.No.62A, Abu Bazar Uchwa, Ghasikatra, Near Ideal Marriage House, Thana-Tiwaripur, Gorakhpur, Uttar Pradesh-273001.
43	Aap Sabki Apni Party	Vinayaka Height at Main Road, Tarbahar, Ward No.15, Bilaspur, Chhattisgarh – 495001
44	Aapka Gantantra Party	Venkat Ward -13, Gali No.2, Shastri Colony, Katni, Madhya Pradesh-483501
45	Aapka Hamara Party	Gram – Makudar, Post – Rewali, District – Hazaribagh, Jharkhand – 825301.
46	Aapki Apni Adhikar Party	H.No.381/5, New Parvatiya Colony, Saran School Road, Mahadev Chowk, Village – Saran, NIT Faridabad, Haryana.
47	Aapki Apni Party (Peoples)	Khasra No. 19/26, Near Amrit Vihar, Main Road Burari, Burari, New Delhi- 110084
48	Aapki Awaaz Party	206, Chandra Prakash, Residency, Sidsar Road, Bhavnagar, Gujarat-364002
49	Aapna Punjab Party	H.No. 2442, Phase- 11, Sector – 65, S.A.S. Nagar, Mohali, Punjab.
50	Aapni Sarkar Party	6/Shantikunj Society, Opp- Gayatri Temple, National Highway, Kalol, District- Gandhinagar, Gujarat- 382721
51	Aapni Democratic Party	Dhani Amrud Ke Baag Wali, Dhaulapur Road, Village- BhodiaKhera, Tehsil & District- Fatehabad, Haryana- 125050
52	Aapsi Sahyog Party	E-737, E-Block, J.J. Colony, Mangolpuri, Delhi- 110083
53	Aarakshan Virodhi Party	DT-146, Tirkha Colony, Ballabgarh, Faridabad, Haryana – 121004.
54	Aarthik Vikas Party	Nil Kanth Dham Math Jinda Naga Samadhi, Gram- Kittukhedi, Post- Zarda, Tehsil- Malhargarh, District- Mandsaur, Madhya Pradesh- 458553
55	Aarthik Vyavastha Parivartan Party	House No. 166, Village- Teja Ka Pura, Abdalpur Khas, Post- Harisen Ganj, Mau, Aaima, Thana- Soraon, Tehsil- Soraon, District- Allahabad, UTTAR PRADESH – 226020
56	Aas Punjab Party	1901, 1902, Chowk Shakti Nagar, Amritsar, Punjab-143001
57	Aasra Lokmanch Party	Mhada Colony, Gala No. 683, Gut No. 74, Devlai, Tq. and District – Aurangabad, Maharashtra - 431 001.
58	Aawaam Adhikar Jagran Party	Village – Sarokhanpur, Near Govt. Hospital (CHC), Post – Badlapur, District – Jaunpur, Uttar Pradesh - 222125.

59	Aawami Pichhada Party	H. No. 269, Arazi No. 1, Chak Rashid Dehati, Adilabad, Power House Mohammadabad, Ghazipur, Uttar Pradesh-233227
60	Aazad Samaj Party (Kanshi Ram)	H. No. 180, Gali No. 3, 22, (Khasra No. 265), Gokul Pur Village, Haqa Shahdara, Delhi-110094
61	Aazadi Ka Antim Aandolan Dal	M.L.G.D. - 27, Shailendra Nagar, Raipur-492001 Chhattisgarh.
62	Abhay Samaj Party	Village - Andhya, Post - Harpur Tiwari, Tehsil - Sadar, Maharajganj, District - Maharajganj, Uttar Pradesh.
63	Abhinav Bharat Janseva Paksh	Kamini Housing Society, Gali No.-1, Mahalaxmi Nagar, Gas Godown Chha Bajula, Ambarnath (East), District- Thane, Maharashtra-421501.
64	Abhinav Bharat Party	RB-10, Block-RB, Inderpuri, Delhi-110012.
65	Abhinav Loktantra Party	H.No.97, Thakur Patti Leekhi, Post - Mariyada, Tehsil - Sikrai, District - Dausa, Rajasthan - 303326
66	Abhinav Rajasthan Party	C-14, Gandhi Nagar, Merta City, District- Nagaur, Rajasthan-341510
67	Abua Jharkhand Party	Road No. 7, Middle Daudnagar, Dibdih, Ranchi, Jharkhand - 834002.
68	Action Party	Village and Post- Maigalgaon, Main Market, Near Haricharneshwar Mahadev Mandir, Block- Pasgawan, District- Lakhimpur (Khiri), Uttar Pradesh
69	Action Party for Peoples Progress	No. 13/7, Aishwarya Building, Shop No. 11, 3 rd Cross Street, Trustpuram, Kodambakkam, Chennai, Tamil Nadu- 600024
70	Adarsh Jan Shakti Party	H.No. 10204, Araie Wali Gali, Maan Auto Stand, Durga Puri, Haibowal Kalan, Ludhiana, Punjab.
71	Adarsh Jankalyan Dal	Village- Chanduara, P.O. - Jatdumri, P.S. - Punpun, Distt.- Patna Bihar-804453
72	Adarsh Janta Party	Gram - Kudhi, P.O. - Kamaharsha, Adarsh Nagar, Shikohabad, District- Firozabad, Uttar Pradesh- 283135
73	Adarsh Lok Dal	Abu Nagar, Opposite Police Station Fatehpur City, Distict. Fatehpur (U.P).
74	Adarsh Manavtawadi Party	D. S. -919, Sector-C, Sitapur Road Yojna, Janakipuram, Lucknow, Uttar Pradesh.
75	Adarsh Nyay Rakshak Party	Village and Post- Matool, Tehsil- Khargapur, District- Tikamgarh, Madhya Pradesh-472115
76	Adarsh Political Party	405, Kundan Bhawan Commercial Complex, Azadpur, Delhi-110 033.
77	Adarsh Rashtriya Vikas Party	H.No. 1369, Suraksha-I, Sector -4, ELDECO, Rai Bareilly Road, Lucknow, Uttar Pradesh
78	Adarsh Samaj Party	B-505, Kamla Nagar, Agra, Uttar Pradesh.
79	Adarsh Vyavastha Party	Sugahi Ward No.12, Village- Banjaria, Town Area Salempur, District- Deoria, Uttar Pradesh- 274509.
80	Adarshwadi Dal	Jawahar Road, Khurja-203136, Distt. Bulandshahr, (U.P.).
81	Adarshwadi Party (Loktantrik)	H.No.81, Mohalla-Chitrasai, Near Ashok Inter College, Sadar Jaunpur, Uttar Pradesh- 222001
82	Adhikar Party	234, Khirki Alibeg, Rekahganj, Faizabad, Uttar Pradesh-224001.
83	Adhikar Vikas Party	Shivala Chhaya House No. 10/571, Arun Nagar, Alpo Aaya Varg Society, Ward No. 10, Tehsil - Huzur, District - Rewa, MADHYA PRADESH
84	Adhunik Bharat Party	299A, Nankari HT, Kanpur Mahanagar, Kanpur Uttar Pradesh- 208016
85	Adim Bhartiya Dal	Beldar Bhawan, Kuri Bazaar Marg, (Balua) Kuri Bazaar, Distt. Gorakhpur - 273404, Uttar Pradesh
86	Adivasi Jan Kalyan Party	C/o Dakshin Gujarat Gamit Samaj Seva Trust Panwadi, Near Gujarat Traders, Vyara, District- Tapi, Gujarat-394650.
87	Advait Ishavasyam Congress	Gurumatiyanwari Ashram, Riva Naka, Meher, Distt. Sama, Madhya Pradesh.
88	Agar Jan Party	V-949, Aggarwal Wali Gali, Near Main Krishna Gali, Moujpur, Delhi-110053.
89	Agila India Makkal Kazhagam	No.5, Second Cross, Vallalar Nagar, Pethuchettipet, Lawspet Post, Puducherry- 605008.
90	Ahila India Dhayaga Makkal Munnetra Katchi	No.1/407, Iyer Colony, Thanakkankulam, Tirunagar, Madurai, Tamil Nadu - 625006

91	Ahimsa Socialist Party	D. No. 5/125, West Palapatty, Post- Sellappampatty, Taluk and District- Namakkal, Tamil Nadu-637019.
92	Ahinsa Samaj Party	Priyadarshni Colony, Near of Vridha Ashram, Ward No.47, Chhindwara, Tehsil and District- Chhindwara, Madhya Pradesh- 480001.
93	Ahinsawadi Janata Party	Near N.T.P.C. Main Gate, Noufari, Village – Lodhai, Shamshabad Road, Agra, District – Agra, Uttar Pradesh.
94	Aihra National Party	1/24, S.F., KMT Bhawan, St. # 2, Lalita Park, Laxmi Nagar, Delhi-110092.
95	Aim Political Party	543, Bahasheb Ambedkar Society, Room No.179, CEN No. 301, Capt. Prakash Pethe Marg, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai, Maharashtra – 400005.
96	Akali Dal (1920)	296, Sector 10-A, Chandigarh-160010.
97	Akhand Aryavart Access Party	At – 1/4961, Balbir Nagar Ext., Street No.4, Shahdara, Delhi-110032.
98	Akhand Bharat Chetna Dal	Plot No. 9, Khasra No. 114/2, Sai Colony, Bhaijan Rikshe Vale Ke Peeche, New Colony, Garha, Jabalpur, Madhya Pradesh- 482003
99	Akhand Bharat Ekta Manch	A-204, Fairdeal House, Near Swastik Cross Road, C.G. Road, Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat-380009.
100	Akhand Bharat Janpriya Party	Ganesh Sharma, Road No. -3, Bajrangpuri, Bhagat Singh Path, Guljarbagh, Patna, Bihar-800007
101	Akhand Bharat Party	47 – Rukmani Vihar, Opposite to Mandi Samiti, Bye-Pass, Mathura, Uttar Pradesh – 281001.
102	Akhand Bharat Samaj Party	E-14, First Floor, DDA Mini Market, Sultan Puri, Delhi – 110086
103	Akhand Bharat Samrajya Party	F 305, Rajharsh Colony, Kolar Road, Akbarpur Bhopal, Madhya Pradesh- 462042.
104	Akhand Bharat Swatantra Party	Village- Patni, Post and Thana- Chiklana, District- Saharanpur, Uttar Pradesh.
105	Akhand Bharat Vikas Party	Plot No. 100, Transport Nagar, Saharanpur, Uttar Pradesh-247001
106	Akhand Bharatheeya Aawaaz	A – 54, Manek Nagar CHS Ltd., M.G. Road, Kandivali (West), Mumbai – 400067 Maharashtra.
107	Akhand Bharatiya Kavach Party	B-33, Ashok Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
108	Akhand Bhartiya Yuva Party	421/6, Block-B, Laxmi Vihar, Burari, New Delhi- 110084
109	Akhand Hind Party	B-13, Rafiq Compound, Kishan Nagar, West Durgati Marg, Dahisar (East), Mumbai, Maharashtra-400068.
110	Akhand Loktantrik Party	Main Road Opposite State Bank, C/o Sahetreen Bai Sahu, Ward No. 02, Lavan, District-Balodabazar, Bhatapara, Chhattisgarh-493526
111	Akhand Manav Party	House No.C-20, Nilbad Bala jee Nagar, Phase-I, Tehsil-Huzur, District- Bhopal, Madhya Pradesh-462044
112	Akhand Rashtrawadi Party	7/5/67/2, Vikas Nagar, Sector – 7, Lucknow, Uttar Pradesh - 226002.
113	Akhand Rashtriya Rakshak Party	B/267, Shree Jivrajpark, Near Narayan Nagar, Post- Khodiyarnagar, Ahmedabad, Gujarat- 382352
114	Akhand Samaj Party	2/45, Baloo Aada, Sanjay Gandhi Nagar, P.N.Road, P.S- Hazratganj, Lucknow, Uttar Pradesh- 226001
115	Akhand Samta Party	Flat No. R-202, Teera Green, Alwar by Pass Bhiwadi, Tehsil- Tijara, District- Alwar, Rajasthan- 301019.
116	Akhil Bharat Hindu Mahasabha	Mandir Marg, New Delhi-110001.
117	Akhil Bharat Samagra Kranti Party	Rajendra Pandey's House, In front street of Dr. Saleem Ahmad, Katra, Basti, District Basti, Pin Code No.272001, Uttar Pradesh.
118	Akhil Bharatiya Ashok Sena	117/0/117, Gita Nagar, Kanpur-208025 (Uttar Pradesh).
119	Akhil Bharatiya Congress Dal (Ambedkar)	Ch-1, Kumbha Nagar, Housing Board, Chittorgarh-312001 (Rajasthan).
120	Akhil Bharatiya Gareeb Party	Village-Kurana, Post Simmavali, Dist. Ghaziabad (U.P.).

121	Akhil Bharatiya Gorkha League	Mahabir Building, Ladenla Road, Darjeeling - 734101 (West Bengal).
122	Akhil Bharatiya Hind Kranti Party	Krishna Bhavan, Semriya Chowk, Satna, Madhya Pradesh.
123	Akhil Bharatiya Jan Sangh	T-14, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020
124	Akhil Bharatiya Jan Shakti Party	2538, Hudson Line, GTB Nagar, Delhi-110009
125	Akhil Bharatiya Kisan Mazdoor Morcha	Shri Mahatma Gandhi Vihar Kendra, Udan, Jhansi. (Uttar Pradesh).
126	Akhil Bharatiya Loktantra Party	Vill & P.O. Dattavali, Distt. Meerut (U.P.).
127	Akhil Bharatiya Manavata Paksha	Manavata Bhavan Pentry (Koke), Teh. Sindevahi, Distt. - Chandrapur, Maharashtra.
128	Akhil Bharatiya Muslim League (Secular)	Khari Kuan, Mughalpur Ist, Muradabad-244001, Uttar Pradesh.
129	Akhil Bharatiya Rajarya Sabha	Adarsh Gurukul Shahi, District Pilibhit-262001 (Uttar Pradesh).
130	Akhil Bharatiya Samajwadi Congress	C-31, Hauz Khas, August Kranti Marg, New Delhi-110016.
131	Akhil Bharatiya Sangharsh Dal	Nangli Bhattha, Ferozgarh Choorian Road, Amritsar-143001, Punjab.
132	Akhil Bharatiya Sena	Om Kala Niketan Sankalp Co-op. Housing Society, Anandgar, Vikhori Park Site (West), Mumbai-400079 (Maharashtra).
133	Akhil Bharatiya Shivsena Rashtrawadi	Akhil Bharatiya Shivsena Bhawan, Gur Mandi, Ludhiana (Punjab).
134	Akhil Bharatiya Socialist Party	3, Circular Road, Prayagraj, Uttar Pradesh-211001
135	Akhil Bhartiya Aamjan Party	Mukam, Post Ladpura, Via-Gagwana, District-Ajmer, Rajasthan-305023.
136	Akhil Bhartiya Aapki Apni Party	F-2, Ground Floor, Rajendra Park, Nangloi, New Delhi-110041
137	Akhil Bhartiya Aarakshit Samaj Party	392B, Sector-B, Sarvdharm Colony, Kolar Road, Bhopal, Madhya Pradesh-462042
138	Akhil Bhartiya Apna Dal	1372, Ganesh Nagar, Malik Mau Aima, District- Raebareli, Uttar Pradesh-229010
139	Akhil Bhartiya Ekam Party	Jadhavwadi Road, Hanuman Chowk, Tehsil & District- Osmanabad, Maharashtra-413501
140	Akhil Bhartiya Gondwana Party	263, Rahul Nagar, Kolar Road, Bhopal-462003, MADHYA PRADESH.
141	Akhil Bhartiya Hamara Samaj Party	Saa-17/235, G.P. Sarang Talab, Pahadiya, Varanasi, Uttar Pradesh, Pin Code-221007
142	Akhil Bhartiya Jan Morcha	House No. 960, Pratap Nagar, Bhanpur, Bhopal, Madhya Pradesh-462037.
143	Akhil Bhartiya Janadesh Party	House No. 43, Village-Dellua near Berubarvari, Main Road, Shukhpura, Bansdih-Road, District-Ballia, Uttar Pradesh-277301
144	Akhil Bhartiya Janata Sahara Party	7/96-97, Vikas Nagar, Lucknow (Uttar Pradesh).
145	Akhil Bhartiya Janhit Party	Post - Sajani, Taluk - Hatkanagale, District - Kolhapur, Maharashtra 416115.
146	Akhil Bhartiya Jansatta Party	60, Chaudharana, Post- Jais, District- Amethi, Uttar Pradesh- 229305
147	Akhil Bhartiya Jharkhand Party	Village - Kinudechi, Post - Karandechi, Jamshedpur-831002, Distt. - Poorvi Singhbhoom, Jharkhand.
148	Akhil Bhartiya Kalyan Party	Mohalla- Mirdhan South, Post- Dariyabad, District- Barabanki, Uttar Pradesh- 225403
149	Akhil Bhartiya Kisan Mazdoor Party	Village-Faridpur, Tehsil-Tigaon, District-Faridabad, Haryana- 121101
150	Akhil Bhartiya Kranti Sena Paksh	Shop No. 01 in Maharana Pratap Chowk, Opp Bhagat Singh School, Bajaj Nagar, Wajaj MIDC, District-Aurangabad, Maharashtra- 431001
151	Akhil Bhartiya Lokadhikar Party	Shop No. 9, 'B' Wing, Bhuraj Enclave, Samarth Wadi, Near Mankhurd Station (E) Road, Mumbai, Maharashtra - 400088.

152	Akhil Bhartiya Manavadhikar Vichar Manch Party	Ballia(Jilebiamore), Sultanganj, Deoghar Road, Post – ManjhaliMatihani, Via – Belhar, District – Banka, Bihar.
153	Akhil Bhartiya Manavatavadi Party	House No. 820, Gopu Colony, Raja Garden, Near Sector-19, Sarvodaya Hospital, Faridabad, Haryana-121002.
154	Akhil Bhartiya Mithila Party	Vilas Rai Complex, Sitemarhi Road, N.H.-77, Near S.S.B. Head Quarters, Rusulpur, Muzaffarpur, Bihar-842004.
155	Akhil Bhartiya Naitik Party	Moh. Kanhaipurwa, Near Bilgram Chungi, Janpad – Hardoi, Uttar Pradesh – 241001.
156	Akhil Bhartiya Navnirman Party	Village- Sikatiya, Post- Langri, Thana- Hata, District- Kushinagar, Uttar Pradesh- 274203
157	Akhil Bhartiya Parivar Party	A-37, Pocket-11, Bhutal, DDA Janta Flat, JASOLA, Delhi- 110025
158	Akhil Bhartiya Rashtriya Parivar Party	B-19/70-4, Dyodhiabeer, Bhelupur, Varanasi, UTTAR PRADESH.
159	Akhil Bhartiya Sarvadharm Samaj Party	72, Bajrang Nagar, Road No.6, Manewada Road, Post- Parvatinagar, Nagpur, Maharashtra- 440027
160	Akhil Bhartiya Sarvjan Hit Party	448/986, Mallahi Tola-1, Nagaria, Lucknow, Uttar Pradesh – 226003
161	Akhil Bhartiya Sawarn Party	177/Q/94, LIC Society, Sharda Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh - 208024.
162	Akhil Bhartiya Sudhar Party	House No. 2389, 1 st Floor, Hudson Lane, Kingsway Camp, Delhi-110009.
163	Akhil Bhartiya Swarajya Dal	H. No. 22/178, Manjh Khore Ramedi, Tarous Chauraha, Hamirpur, Uttar Pradesh
164	Akhil Bhartiya Vikas Congress Party	S-7, Vikasdeep Basement, Station Road, Lucknow -226001 Uttar Pradesh.
165	Akhil Hind Forward Bloc (Krantikari)	Ward No.36, Holding No. 711/499, Railway Hunder Road, Upadhyay Lane, West Lohanipur, Kadamkuan, Patna Bihar – 800003.
166	Akhil Rashtrawadi Party	Moharvati Sisoudiya Bhawan, Near Dak Bangla, Nadri Gate, Kasganj, District Eta (Uttar Pradesh).
167	Akhil Rashtriya Jantantra Party	Block-22, First Floor, Ganesh Chamber, Dhantoli, Nagpur Maharashtra- 440012
168	Akhila Bharatiya Rytha Party	No. 127, Shravanabelagula Town, Bangaluru Main Road, Channarayapatna Taluk, Hassan District, Karnataka-573135.
169	Akhila India Jananayaka Makkal Katchi (Dr. Isaac)	No. 171, Kannan Nagar, Winterpet, Arakonam, Vellore Distt., Tamil Nadu.
170	Akhila Kerala Trinamool Party	House No. 161, Swathi Nagar, Edaikkode Desam, Pallichal Village, Nemom Post Office, Thiruvananthapuram, Kerala – 695020
171	Akhila Vijaya Party	D-591, 5 th Floor, Hubdown Market, Geeta Mandir, Bus Stop, Ahmedabad, Gujarat- 380022
172	Akhila India Vallalar Peravai	43, Pillayar Koil Street, Veera Ragavapuram, Chennai – 600 077, Tamil Nadu.
173	Akhila Inthiya Makkal Marumalarchi Kazhakam.	144/82, Mariamman Kovil Street, Thuvakudi-Post, Thiruvurumbur- Taluk, Trichirappalli- District Tamil Nadu- 620015
174	Al-Hind Party	B-2/40, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029.
175	All Bharath Thozilalar Katchi	No. 106/1, (Old No. 19) Thiruvalluvar Street, Karupachavady, Krishnankuppam Post, Kurinjepady, TK. Kullanchavady Way, Cuddalore District, Near Sri Dulukanathamman Koil, Tarril Nadu – 607302.
176	All India Arya Mahasabha	Village-Naba-Himaitpur, Krishnupur, P.S.- Nalhati, P.O.-Krishnapur, District-Birbhum, West Bengal - 731237
177	All India Azaad Congress Party	H. No. 5-9-30/C, Madison House, Basheer Bagh, Hyderabad, Andhra Pradesh
178	All India Backward People Sunami Party	1-2-53, Flat no.302, Odeon Enclave, Domalaguda, (Gaganmahal), Himayat Nagar, Hyderabad, Telangana-500029
179	All India BC, OBC Party	H No. 1-1-109/18, Ramdas Nagar, Kapra, ECIL, Ranga Reddy District, Andhra Pradesh – 500062
180	All India Bharti Jug Party	Near Luxmi Narain Mandir, Grain Market, Mansa – 151 505, Punjab
181	All India Democratic Party	M – 77, Sector - 9A, Saket Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh – 462024

182	All India Disabled Party	Plot No. 57, Bhagavan Sri Sesasthiri Nagar, Malapatti Road, Don Bosco College Backside, Balakrishnapuram Panchayat, Dindigul. Tamil Nadu- 624003.
183	All India Federal Bloc	Malekkudy, Elembakapilly P.O., Koovappady, Ernakulam District, Kerala- 683544
184	All India Forward Bloc (Subhasist)	49-M, Mothilal, 1st Street, Madurai- 625010, (Tamil Nadu)
185	All India Hindustan Congress Party	191-C, Chandranagar A, Nau Dukan, Kalwad Road, Govindpura, Jhotwada, Jaipur, Rajasthan - 302012
186	All India Jaihind Party	D.No. 22-77, Bhagat Singh Nagar, 6 th Line, Yanamalakuduru, Vijaywada, Andhra Pradesh- 520007
187	All India Jan Congress Party	A-1B/110A, Krishna Apartments, LIG Flats, A-1B, Paschim vihar Delhi- 110063
188	All India Jan Samasyanivaran Party	Ward no.1, At Post & Tehsil - Kalmeshwar, District - Nagpur, Maharashtra - 441501
189	All India Jana Andolan Party	Khadalay, Pudung Busty, Relly Road, Kalimpong Khasmahal, Post and Police Station- Kalimpong, Dist- Darjeeling, West Bengal- 734301
190	All India Jananayaka Makkal Kazhagam	No. 137, Kesava Garden, 3 rd Block, Demellous Road, Channai, Tamil Nadu- 600012
191	All India Janaraksha Party	K.No. 1403/VS-17/1404/VS 18, Gangadharpura, Doddaballapura Town, Bangalore Rural - District, Karnataka
192	All India Kisan Janatha party	Door No. 2-221, Jayapuram Village, Kudair Mandal, Anantapur District, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh- 515751
193	All India Kissan Mazdoor Morcha	Gali Gujjar Singh Wali, Inside Bagdadi Gate, Firozpur City, Punjab-152002
194	All India Krantikari Congress	184/1469, Moti Lal Nagar-I, Goregaon (West), Mumbai-400104, Maharashtra
195	All India Labour Party	34/1-A, Lower Range, Kolkata, West Bengal- 700019
196	All India Legal Rights Party	D. No. 27, New No. 8j, Kalayanavainayagar Koil street, Pandian Nagar, Thirunagar, Distt.-Madurai, Tamil Nadu - 625006
197	All India Liberal Party	Plot No. 48, Near Vinayaka Temple, Sector-6, M.V.P. Colony, Visakhapatnam-530017, Andhra Pradesh
198	All India Mahila Empowerment Party	D.No. - 9-4-135/35/A, 9-4-135/35, Plot No. - 35, Survey Nos. 206, 207, 210, 199, 198, 195/2, Aruna Colony, Tolichowki, Hyderabad, Andhra Pradesh - 500008
199	All India Majlis-E-Inquilab-E-Millat	No. 23-1-1009/13, Moghalpura, Hyderabad, Telangana- 500002
200	All India Majlum Adhikar Party	Vill.-Durgapur (Tajpur Fatepur), P.O.-Jaynagar Mazilpur, P.S.-Jaynagar, Dist.-South 24 Parganas, -743337, West Bengal
201	All India Makkal Nalvalvu Katchi	No. 2 259, Ondibadanayakanpatti, Palakkanuthu Post, Dindigul District, Tamil Nadu- 624619
202	All India Makkal Rajya Kazhagam	Plot No.6-7, Sheikh Mohamed Nagar, Alundur, Srirangam-Taluk, Distt.-Tiruchirapalli, Tamil Nadu-620012
203	All India Manavadhikar Rajnaitik Dal	Village & Post - Rajapur, Thana - Chelapur, Tehsil & District - Varanasi, Uttar Pradesh - 221101
204	All India Manchi Party	Flat No. F-5, Sai Apartment, Katuru Road, Vuyyuru, Krishna District, Andhra Pradesh
205	All India Mazdoor Party (Rangreta)	IL.No. 2453, Bagh Wala Khuh, Jandiyala Guru, District - Amritsar, Punjab
206	All India MGR Makkal Munnetra Kazhagam	Flat No.- A-4, Srinivas Arcade, No. 1/2, Arunachalam Road, Chennai, Tamil Nadu- 600093
207	All India Minorities Front	148, South Avenue, New Delhi-110001
208	All India Moovendar Munnani Kazhagam	Lake Area, Melur Road, Madurai-625107, (Tamil Nadu)
209	All India National Raksha Sena	Flat No.503, 5th Floor, Samanis Park Viw, Saidabad, Saroornagar, Hyderabad, Telangana-500059

210	All India Nyay Paksh	H. No.-1106, Sector 16-17, District- Hissar, Haryana- 125001
211	All India Pasumpon Munnetra Kazhagam	No. 47B/2, Sorgavasal Street, C.N.Graman, District- Tirunelveli, Tamil Nadu- 627001
212	All India Pattali Munnetra Katchi	No.-90, Gandhi Road, Kallakuruchi, Viluppuram (DT), Tamil Nadu - 606202
213	All India People Development Party	D. No. 1/119-B, North Street, Aanaikutt Dam (Post), Thiruththangal(Root), Sivakasi (Taluk), District-Virudhunagar, Tamil Nadu- 626130.
214	All India Peoples' Front (Radical)	B.P.- 18, 40- Feet Road, Patel Nagar, Mugal Sarai, Chandauli, UTTAR PRADESH.
215	All India Pichhada Jan Samaj Party	475/15 Ka, Kadam Rasool, Daliganj, Lucknow, Uttar Pradesh
216	All India Praja Party	H.No.- 5-1-240, 2 nd floor, Jambagh, Street No.- 17, Near Flower Market, Hyderabad, Telangana- 500095
217	All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam	D. No. 33, Kannadasan Main Road, 1 st Floor, S.S. Colony, Madurai, Tamil Nadu-625010
218	All India Ravidas Samata Party	Bhagwat Singh Bhawan No. 10, Sector - 11, Shastrinagar, Meerut, Uttar Pradesh.
219	All India Samata Party	H.No. 23-8/3, Millennium Township Shadnagar, Farooqonagar Mandal, Ranga Reddy District, Telangana State- 509216
220	All India Samathuva Makkal Katchi	2, Kalyani Nagar, Kattivakkam, Chennai - 600041, Tamil Nadu
221	All India Sathyajothi Party	Ongarakudil, 19, Extension, Thuraiyur, Trichy District, Tamil Nadu - 621010.
222	All India Secular Front	Furfura, Post-Furfura, P.S.-Jangipara, District-Hoogly, West Bengal- 712706.
223	All India Shiromani Baba Jiwan Singh Mazhabi Dal	Village & P.O. Majitha, Amritsar (Punjab).
224	All India Tafsili United Party	Village Simulpur, Post-Thakur Nagar, Distt. 24-Parganas (N) (West Bengal).
225	All India Ulama Congress	No 20-24, Jafferabad Village, Gulbarga Taluka, District - Gulbarga, Karnataka
226	All India Uzhavargal Uzhaippalargal Katchi	Door No.55, First Floor, Sinavar Street, Tiruppattur-635601, Tamil Nadu, CHENNAI.
227	All India Women Democratic Freedom Party	No. 36, Ganesh Nagar, Near Ambedkar Nagar Bus Stop, 200 Feet Road, Kolathur, Chennai, Tamil Nadu - 600099.
228	All India Women United Party	Room No-1, 4th Floor, A-117, Shubraati Apartment, Okhla Village, Jamia Nagar, New Delhi - 110025.
229	All India Youth Development Party	4/286, Kallipuram Vattam, Vella Kuttai Village, Vaniyambadi Taluk, Vellore District, Tamil Nadu - 635752.
230	All Indian Rajiv Congress Party	41/238, Alapur House, Radhakrishna Mandir Lane, Narhi, Hazratganj, Lucknow, Uttar Pradesh- 226001
231	All Indian Republican Party	Shop No. 4 in Street No. 33, Plot No. 2814, Mauja Bhanapeth, M.G. Road, Tehsil & District- Chandrapur, Maharashtra- 442401
232	All Indians Party	Door No, 30-3-11, Assam Gardens, Visakhapatnam, Andhra Pradesh- 530020
233	All J & K Kisan Majdoor Party	Standard Hotel, Saheed Chowk, Jammu, Jammu & Kashmir.
234	All Jammu & Kashmir Liberal Democratic Party	M.P. Gali, Raj Bagh, Srinagar, Jammu & Kashmir.
235	All Jammu and Kashmir Republican Party	1464, Mohalla Khwaja Bazar, Near Power Station, Anantnag, Pin Code - 192101, Jammu and Kashmir.
236	All Pensioner's Party	No.12D, PavodumThoppu, Nellorepet, Gudiyattam, Vellore District, Tamil Nadu - 632602.
237	All Peoples Party	Door No. 1-138, Pallegunta Village. & Post, Gurazala Rural Mandal, Guntur District. Andhra Pradesh.

238	Alliance of Democratic Reforms Party	Flat No. 106, Sai Sri Towers, 3-6-429/106, Himayath Nagar, Street No. 4, Hyderabad-500029.
239	Allied Millennials Party of India	At-51.3 ^d Street, Annai Theresa Nagar, Madipakkam, Chennai, Tamil Nadu - 600091
240	All-in-One Party	Plot No. 4, Village - Sachupur, D. D. Puram Colony, Post - Kamlabad Badhauri, Raitha Road, Near Nasha Mukti Kendra, Lucknow, Uttar Pradesh - 226201
241	Aman Aur Shanti Tehreek-E-Jammu & Kashmir	JK-E-Khidmat Markaz, K.P. Chowk, Khanabal, Anant Nag, Near Govt. Higher Secondary School, Jammu & Kashmir- 192101
242	Aman Party of India	83, Sushila Vihar Phase - 1, Ward No. 2, Bhoad, Bulandshahr, Uttar Pradesh.
243	Aman Samaj Party	V-1452, Street No. 4, Vijay Park, Delhi - 110053.
244	Ambedkar Bahujana Samatha Party	08-7, Timmajipet (Vill. & Mandal), Nagarkurnool, Telangana - 503001
245	Ambedkar Janatha Party	No. 57/1, Savimana Enterprises, Badrappa Layout, Kodigehalli, Nagashettyhalli, Main Road, Bagalore-560092, Karnataka.
246	Ambedkar National Congress	8-3-323, Amreetpet Cross Road, Hyderabad (Andhra Pradesh).
247	Ambedkar Peoples Movement	39, Saravana Street, T. Nagar, Chennai- 600017 (Tamil Nadu).
248	Ambedkar Political Party	D.No.321/S.S.Meenakshipuram, Sowdarpatti(P.O.), Thirumangalam(T.K.), Madurai(D.T.), Tamilnadu-625704
249	Ambedkar Samaj Vikas Party	H.No.- 49, Mohalla- Tilak Nagar, Yamuna Nagar, Tehsil- Jagadhri, District- Yamuna Nagar, Haryana- 135003
250	Ambedkar Sena Party	Village-Kabri, Near Ravidas Mandir, Tehsil and District-Panipat, Haryana- 132013
251	Ambedkar Vikas party	Village-Rohta, Indira Awas Colony, P.S.Sadar Bazar, Agara, Uttar Pradesh- 282009
252	Ambedkar Yug Party	240/71 F/3, Stainly Road, Kamla Nagar, Allahabad, Uttar Pradesh.
253	Ambedkarbadi Party	136/1, Diamond Harbour Road, Kolkata-700063 (West Bengal).
254	Ambedkarist Republican Party	Behind Rashtrabhasha Prachar Sammittee, Wardha-442001, Distu. -Wardha, Maharashtra.
255	Ambedkarite Party of India	API, Central Secretariat, Plot No.1672, Near Buddha Vihar, Nara Road, Indora (Warpakhad), Nagpur-440014, Maharashtra
256	Amma Makkal Munnettra Kazagam	New No.15, Old No. 8, Ground Floor, West Con Road, Royapettah, Chennai-600014, Tamilnadu
257	Amra Bangalee	No.2, Ballav Street, Kolkata-700004 (West Bengal).
258	Anaithindia Samudaya Munnetra Kazhagam	No.7/13, East Meda Street, Thiruvathipuram & Post Cheyyar Taluk - 604 407, Thiruvannamalai Distt., Tamil Nadu.
259	Anaithindia Uzhakkum Padaippali Vazhvirimai Katchi	No.27, Regunathapuram East Street, Devakottai, Sivagangai District, Tamil Nadu-630302
260	Anaithindiya Samuthaya Makkal Katchi	80, Kuzhandhai Velan Lane, Main Road, Dindigul, Tamil Nadu - 624001.
261	Anaithanthiya Anna Dravida Makkal Seyal katchi	15/28, Pillanallur Pudur, Gurusaini Palayam Posa, Veterinary Hospital, Rasipuram TK, Namakkal District, Tamil Nadu-627403
262	Anaithanthiya Thamizhaga Munnetra Kazhagam	10/2, Nalvar Nagar, Kalveerampalayam, Bharathiar University (Post) Coimbatore-641048 (Tamil Nadu).
263	Anaithu India Makkal Katchi	No. 176/9, 37D, Taluk Office Road, Opp. To Police Quarters, Hosur, Krishnagiri District, Tamil Nadu- 635109
264	Anaithu Makkal Arasiyal Katchi	No 1/111, East Coast Road, Injambakkam, Chennai, Tamil Nadu- 600115
265	Anaithu Makkal Katchi	No. 44, 2 nd floor, Narayanasamy Street, Pulianthope, Near Perambur Barrack Road, Chennai, Tamil Nadu- 600012
266	Anaithu Makkal Munnetra Kazhagam	D. No. 199/316 (RS No. 177-1B), 1 st Floor, Arcot Road, Vadapazhani Chennai-600 026, Tamil Nadu.

267	Anaithu Makkal Puratchi Katchi	No. 268, Amman Koil Street, Aladi Post- Viruthachalam(TK), Cuddalore(DT), Tamil Nadu - 606115
268	Anaithu Maruthuvar Makkal Munnetra Kazhagam	136/D3, Annai Aradhana Astalakshmi Nagar, Gudalur, Kancheepuram, Tamilnadu-603204
269	Anaithu Uliaga Tamilargal Munnetra Kalagam	No.17, Ezhil Nagar, perumalpuram, Palyamkottai, Tirunelveli, Tamil Nadu- 627007
270	Anaithumakkal Neethi Katchi	D. No.11, Ground Floor, 8 th Street Extension, Ahimsapuram, Sellur, Madurai, Tamil Nadu - 625002.
271	Anarakshit Samaj Party	H. No. 371, 1 st Floor, Mohalla - Sadhvada, Kaimganj, Distt. - Farrukhabad, Uttar Pradesh.
272	Anbu Udhayam Katchi	12/11, Subash Illam, Theni - Gudalur - 625518, Tamilnadu.
273	Andaman & Nicobar Janta Party	Garacharna Village, TTI Road, Tehsil - Port Blair, District - South Andaman, Andaman & Nicobar Islands - 744103.
274	Andaman Nicobar Democratic Congress	Vill. & P.O. - Ramakrishnapur, Little Andaman, A & N Islands - 744207
275	Andhra Chaitanya Party	Door No. 12-20-3, Gudu Street, Bheemunipatnam, Visakhapatnam District, Andhra Pradesh- 531163
276	Andhra Pradesh Rashtra Samaikya Samithi Party	H. No. 11-8-118/2(Old), 11-8-99/84(New), Narsimhapuri Colony, Ashtalakshmi HYD-VIJAYAWADA Highway, Hyderabad-500 035, Andhra Pradesh.
277	Andhra Pensioners Party	II.No.8-6-666, Plot no.64B, Sri Balaji Nagar, Near B.N.Reddy Nagar, Vanasthalipuram, Hyderabad, Telangana-500070.
278	Andhra Pradesh Rashtra Samithi	Door No. 15-8-158/B, Jakeer Hussain Nagar, 3 rd Lane, Nandivelugu Road, Old Guntur, Guntur District, Andhra Pradesh- 522001
279	Andhra Rastra Praja Samithi	Behind AC Stadium, Koneyapalem Gate, Dargamitta, Nellore, Andhra Pradesh-524001
280	Angika Samaj Party	Aanand Ashraya, P.O- Old Jute Mill, Sharifganj, Ward No. 42, District- Katihar, BIHAR-854105.
281	Anjaan Aadmi Party	House No. 391/117A/1, Radha Nagar Colony, Phulwariya Road Daraganj, Allahabad Uttar Pradesh.
282	Anjuman Party	House No. 95, Nijaatpura, Nazarali Marg, Kotwali Road, Ujjain, Madhya Pradesh- 456006.
283	Anna Democratic Human Rights Movement Party of India	Amla Bhavan, thrikkannamangal, Kottarakkara, P.O.- Kollam, Kerala- 691506
284	Anna Dravidar Kazhagam	No. 8/1, Cutchery Road, Thiruthuraiipoondi, District- Thiruvavur, Tamil Nadu- 614713
285	Anna M.G.R. Jayalalitha Dravida Munnetra Kazhagam	1/213, Thirusakthimutram, Keelaveethi, Patteshwaram, Kumbakonam (Taluka), Thanjavur (District), South India, Tamil Nadu - 612703
286	Anna Makkal Iyakkam	No. 660, R.K.J. Vallivelan Nagar, Pammathukulam, Pothur Village, Ambattur Taluk, Chennai, Tamil Nadu-600052
287	Anna Makkal Katchi	No.20C, Railway Station Road, Chinnasalem-Vilupuram, Tamil Nadu-606201
288	Anna MGR Dravida Makkal Kalgam	No.150, 3 rd Cross Street, Srilakshmi Nagar, Alwarthirunagar, Chennai, Tamil Nadu-600087
289	Anna MGR Dravida Munnetra Kazhagam	H. No. - 176, Ward No. - 5, East Street, Palodai Colony, Aanaimalaiyanpatty, Uthamapalayam - Taluk, Theni - District, Tamil Nadu - 625526.
290	Anna Puratchi Thalaivar Anna Dravida Munnetra Kazhagam	No. 1/424, Thotathupalayam, Lakshmi Nagar, Pooluvapatti (Post) Tiruppur, Tamil Nadu- 641602.
291	Anna YSR Congress Party	D.No. 7/2-2, Chilakalabavi Street, Kadapa, Andhra Pradesh- 516001
292	Annadata Party	Village- Baghala, Post- Dubha (Via- Jasara), P.S. Lalapur, Tehsil- Bara, District- Prayagraj, Uttar Pradesh- 212107
293	Annan Tamilaga Rising	223, GST Road, Chromepet, Chennai, Tamil Nadu-600044

	Kazhagam	
294	Anandata Karigar Party	Ganiyare- Badhan, District- Singrooli, Madhya Pradesh- 486886
295	Anti Corruption Dynamic Party	Plot no. 52, Ganesh Nagar, Veppampattu - Village, Thiruvellur- District, Tamil Nadu- 602024
296	Apna Dal Balihari Party	Village- Mahakharpur, Post- Raghavapur, Tehsil- Harraiya, Distict- Basti, Uttar Pradesh-272155
297	Apna Adhikar Party	Masiha Drug House, Line Bazaar, Purnia, BIHAR.
298	Apna Bharat Vikas Party	Village - Kashipur (Mishra Newri).District - Ballia,Uttar Pradesh - 277 001
299	Apna Bharatiya Sanatan Party	Jay Shesh Market,Village Kintar Tara,Post- Birshahpur,Distt.- Mirzapur,Uttar Pradesh- 231001
300	Apna Dal	1/2A.P. Sen Road, Lucknow, (U.P.).
301	Apna Dal (Kamerawadi)	126/17-B,B.N. Road,Lalbagh,Distt.-Lucknow Uttar Pradesh- 226001
302	Apna Dal United Party	Village - Siswa, Post & P.S. - Kasya, District - Kushinagar, Uttar Pradesh - 274402
303	Apna Desh Party	H. No. - 457, Majorganj, District - Sultanpur, Uttar Pradesh
304	Apna Haq Party	H.No. 244,Vidhayak Vijay Yadav Awas, Ward no.-I, Thakurdwara,Moradabad,Uttar Pradesh-244601
305	Apna Kisan Party	Amla Tola, Ward No- 30, Hotel Jai, New Market, Katihar, Bihar- 854105
306	Apna Raj Front	House No.1096, Sector-7, Bahadurgarh, Haryana.
307	Apna Samaj Party	SCF- 49, Phase 3B2, Mohali, Punjab- 160059
308	Apna Sangharsh Kisani Ekta Party	2379/2,Krishna Nagar,Aarti Chowk,Near Aman Hospital,Super X-Ray Wali Gali,Ludhiana,Punjab - 141001
309	Apni Ekta Party	Near Old Tehsil Complex,Jhaloor Road,Vil -Sherpur,Tehsil-Dhuri,Distt.- Sangrur,Punjab - 148025
310	Apni Janta Party	735/4,(1286/60),Gali No.13,Siddharth Puram (Chauhan Puri),Nai Basti,Lallapura,Distt.Meerut,Uttar Pradesh-250002
311	Apni Jantantrik Party	H. No. 234-K,Sankat Mochan Bhawan,Village and Post-Amarpur Aun,Distict-Unnao,Uttar Pradesh- 209827
312	Apni Party (Secular)	Village - Unchi Dankaur, Town - Dankaur, District- Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh- 203201
313	Apni Party India	F-4/149, 2 nd Floor, Sector-16, Rohini, New Delhi- 110089
314	Apni Prajaghit Party	Plot No. 12,Din Praja Hit Colony,Opposite Shree Complex,Narendra Nagar,Vivekanand Nagar,Nagpur,Maharashtra-440015
315	Apni Zindgi Apna Dal	A-119, Ground Floor, Near- Angel Mega Mall, Kaushambi, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201010.
316	Appamma Makkal Kazhakam	3-59, Mariyamman Kovil Street, Ammapalayam Post, Perambalur Tk. & Dist., Tamilnadu - 621101.
317	Aravar Mennetra Kazhagam	D.No. 663, Agraharam, Rajalipatti, Post.Thiagaras Alai Via,Viralimalai,Union, Pudukkottai District,Tamil Nadu-621312
318	Arjak Adhikar Dal	No.128/169/26A,K-Block,Kidwai Nagar,Kampur,Uttar Pradesh-208011
319	Arjun Bharat National Party	Flat No.G-2,1-Floor,Plot No. 216,Hastinapur Vistar,Panchyawala,Jaipur,Rajasthan-302034
320	Arunachal Congress	G- Extension, Naharlagun (Arunachal Pradesh)
321	Arunachal Democratic Party	LRB-09233/94, DT 30/03/192, E-Sector, P.O-& P.S.-Itanagar,Near AP State Legislative Assembly, District-Papnpare, Arunachal Pradesh-791111
322	Arya Dal	Central Camp Office - 775, Shanti Colony, Itawa, Uttar Pradesh.
323	Aryavart Party	Village & Post - Barsuina, Thana - Ahirauli, District - Kushinagar, Uttar Pradesh - 274207
324	Asankhya Samaj Party	A-490, Gali No. 22,Shyam Colony, Buddh Vihar, Phase - 2, Delhi-110086.
325	Asli Bharat Party	C-48, South Extension, Part-I, New Delhi- 110049
326	Asli Deshi Party	Shop No. 10, First Floor, B- Block, Central Market, Dilshad Garden, Delhi- 110095

327	Asom Jana Morcha	Ward No. 25, Village- Azad Nagar, P.O.- Chutahaibor, Mouja- Nij Sahar, P.S & District- Nagaon, Assam- 782002.
328	Asom Songrami Mancha (Asom)	Bye Lane No.4, Guwahati, Assam-781003
329	Assam Dristi Party	Doom Dooma Pather Gaon, P.O.-Hansara, District- Tinsukia, Assam- 786790.
330	Assam Jatiya Parishad	First floor of house no. 33, Lamb Road, Uzan Bazar, Guwahati, PS. Latasil, PO. Uzan Bazar, District – Kamrup(M), Assam – 781001
331	Atal Janshakti Party	Village- Yarta, Post- Sikandarpur, Tehsil- Hariya, District- Basti, Uttar Pradesh- 272190
332	Atulya Bharat Party	91, Pili Kothi, Near Guruharikishan Public School, Hari Nagar, New Delhi- 110064.
333	Atulya Bharat Sarv Samaj Party	Village-Kharaila, Post Sara Paltu, Block-Thekma, District Azamgarh, Uttar Pradesh-276302
334	Autonomous State Demand Committee	Rongniheng, Diphu-782460, Karbi Anglong (Assam).
335	Avirat National Seva Party	#24, Sri Lakshmi Nilaya, 1 st Block, 2 nd Cross, Akshay Nagar Bengaluru, Karnataka - 560016.
336	Awami Aamjan Party	New Adarsh Nagar, Ashapura Colony, Jalore, District-Jalore, Rajasthan- 343001
337	Awami Party	E-11/77, New Colony, Hauzrani, Malviya Nagar, New Delhi-110017.
338	Awami Samta Party	Building No.631/135, Pani Gaon, Sector – 9, Post – Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh – 226016
339	Awami Vikas Party	606/607, Zayfreen Chambers, Oil Depot Road, Opp. Sewree Railway Station, Sewree (E), Mumbai, Maharashtra - 400015
340	Ayya Munnetra Kazhagam	Door No.180/128, Thirugnanasambandar Road, Race course, Coimbatore Tamil Nadu - 641018
341	Azad Adhikar Sena	5/426, Vikram Khand, Gomatinagar, Lucknow, Uttar Pradesh-226010
342	Azad Bharat Congress	218, Second Floor, LSC Market, Block –A, Samarat Enclave Pitampura, New Delhi- 110034.
343	Azad Bharat Party (National)	Village- 50 Kutiya Rampur, Pargana & Tehsil- Narwal, District- Kanpur Nagar, Uttar Pradesh- 209401
344	Azad Bharat Party (United)	D-59/14A/-1/A, Shivpurva, Rathyatra Road Mahmoorganj, Varanasi, Uttar Pradesh- 221010
345	Azad Janata Party	208, Dhilian Complex, Akashganga Supaila, Bhilai, District - Durg, Chhattisgarh.
346	Azad Kranti Party	H.No. 559, Block- G, Scheme No. 40, Panki, Gangaganj, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh- 208020
347	Azad Mazdoor Kissan Party	D-4, Prem Nagar-III, Shani Bazaar Road, Kirari Nahar, Nangloi, New Delhi- 110086.
348	Azad Party	Khanuhat, Block- Motigarpur, Sultanpur, Uttar Pradesh- 228132
349	Azad Samaj Party	Village – Manjusara Bujurg, Post - Fatehpur, P.S. – Ranipur, District – Mau, Uttar Pradesh, - 276402.
350	Azad Shivalik Bharat Party	Up-Mahal, Village-Dangoli Khewat, No. 58, Khatoni No. 218, Khasra No. 109, Tehsil-Una, District-Una, Himachal Pradesh- 174303
351	Azhagu Tamil Desiyam	T1, Third Floor, Land Marvel Apartments 30, Sadayappan Street, Mandaveli, Chennai Tamilnadu – 600028
352	B.C. Bharatha Desam Party	H.No.12-13-426, Street No.1, Tarnaka, Hyderabad – 500 017 Andhra Pradesh.
353	B.C. United Front	15, Saptagiri Nagar, Rethi Bowli, Hyderabad – 500 028, Andhra Pradesh.
354	Backward Classes Democratic Party, J&K (BDP)	Peer Bagh Colony, Opp. Army Gate, Sunjwan Road, Jammu, Jammu & Kashmir – 180 004.
355	Badavara Shramikara Raitara Congress Party	1/A, Parvathi Nagar Main Road, Bellary-583103 Karnataka
356	Bahadur Aadmi Party	S-11/37-38A, Chaukaghat, Varanasi, Uttar Pradesh-221002

357	Bahadur Insan Nagrik Dal	Khata No.678,Village Tema Z.Sherpur,Post Gaura,Distt.Bhadohi,Uttar Pradesh-221404
358	Bahujan Andolan Party	Shahajipura,Saraytareen Sambhal,Near Prathama Bank,District Sambhal,Uttar Pradesh- 244302
359	Bahujan Awam Party	H. No. 52/42/A/2, Edmasten Road, Tashkand Marg, Civil Line,Allahabad, Uttar Pradesh.
360	Bahujan Azad Party	Village- Sagram Fandah, Post Office & Police Station- Riga, District- Sitamarhi, Bihar-843327
361	Bahujan Bal Party	D.S.-50/G-II, LDA Colony, Kanpur Road, Lucknow, Uttar Pradesh
362	Bahujan Bharat Party	Vatsalabai Mohan Kamble,Dharavi Kumbharvada,90 Foot Road,V.O.C.,Mumbai City,Maharashtra- 400017
363	Bahujan Chetna Vikas Morcha	H.No. C-8, Kachnar City,Teh-Jabalpur,District-Jabalpur,Madhya Pradesh- 482001
364	Bahujan Dravida Party	House No. 6659,Block No. 9,Dev Nagar,Karol Bagh,New Delhi- 110005
365	Bahujan Gondwana Party	Ward No. 8, Behind Ram Janki Temple, Burhar, District- Shahdol, Madhya Pradesh- 484110
366	Bahujan Hasrat Party	Village- Kharuwanwa, post- Kunwar Pur, Tehsil- Machhlishahar, District- Jaunpur, Uttar Pradesh- 222202
367	Bahujan Janata Dal (Khodawa)	C-170, Sector-I, Shatabdi Nagar, Meerut, Uttar Pradesh-250103.
368	Bahujan Kranti Party (Marxwad-Ambedkarwad)	Village - Dhansua, Post - Central Jail, Fatehagarh, Distt. Farrukhabad, Uttar Pradesh - 209 601.
369	Bahujan Lok Dal	Nadraganj Ramsagar Road,Masjid Gali (Bdi Daha),Gaya,Bihar-823001
370	Bahujan Lokrajya Party	Maitra Niwas,Tembhurni Road,Kurduwadi Tal - Madha,District- Solapur,Maharashtra- 413208
371	Bahujan Maha Party	B-245, Street No. 2, Mandawali, Fazalpur, Near Sadbhavna Apartment, Back of Mother Dairy, Delhi-110092.
372	Bahujan Mazdoor Party	Khasra No. 249, Village- Sikrari, Tehsil- Tundla, P.S. Pachokhra, Janpad/District- Firozabad, Uttar Pradesh- 283204
373	Bahujan Mukti Party	Flat No. 14, Aasha Pushp Vihar, Sahkari Aavas Samiti, Sector - 14, Kaushambi, Gazhiahad, Uttar Pradesh.
374	Bahujan National Party (Ambedkar)	RZ-35 (3rd Floor), Sita Puri, Pankha Road, Near Dabri Mor Metro Gate No.3, New Delhi-110045
375	Bahujan Nyay Dal	596/1, New Paharpur, Police Colony, Thana- Gardnibagh, Post- Anisabad, District- Patna, Bihar- 800002
376	Bahujan Party	125/98, New L.I.G. Barraba -7, Kanpur-208027 Uttar Pradesh.
377	Bahujan Rayat Party	198K-E, Datt Ho. Sosa Rabade Colony, Kolhapur, Maharashtra - 416001.
378	Bahujan Republican Ekta Manch	Hardas Nagar, Kamptee, District Nagpur, Maharashtra.
379	Bahujan Republican Socialist Party	4/17, B.D.D, Worli, Mumbai, Maharashtra-400018.
380	Bahujan Sadan Morcha	Isari Bazar, Post - Isari Bazar,District - Giridih, Jharkhand-825107.
381	Bahujan Samaj Party (Ambedkar)	H.No.- B-33/103, Mohalla Shehrian, Kapurthala, Punjab.
382	Bahujan Samaj Party (Ambedkar-Phule)	H.No. V-25, Sandhya Venus ApartmentS.P.Nagar, Moula-ali, Hyderabad, Andhra Pradesh
383	Bahujan Samaj Vikas Party	20-B.D.S. Commercial Market, Village - Sadarpur,Sector- 45, Post Office- Arun Vihar, Sector - 37, Noida, Janpad - Gautambudhnagar, Uttar Pradesh.
384	Bahujan Samajwadi Party (Baba Saheb)	53-54, 1 st Floor, Commercial Complex, South Patel Nagar, In Front of Metro Pillar No. 190, New Delhi - 110008.
385	Bahujan Samyak Party (Mission)	83K-1, Rithora, Bareilly, Uttar Pradesh- 243122
386	Bahujan Sangharsh Dal	Opposite Padav Police Station,Laxmanpura, P.O. Laskar,(Gwalior), Madhya Pradesh.
387	Bahujan Sangharsh Party	Bahujan Bhawan, Khabbhashpur, Post-Malikpur, Zila-Ropar, Punjab.

	(Kanshiram)	
388	Bahujan Sena	124A/G-1, Sector-6, Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201012
389	Bahujan Sewa Party	899, Phoolbag Colony, Kursi Road, Lucknow, Uttar Pradesh- 226021
390	Bahujan Shoshit Samaj Sangharsh Samta Party	DDA shop No.16, First Floor, CSC No. V, Sector-5, Rohini, Delhi- 110082
391	Bahujan Suraksha Dal	1/7, G.H. Board, Hardasnagar, Stadium Road, Old Bapunagar, Ahmedabad- 380024 Gujarat.
392	Bahujan Utthan Party (G)	Village- Lonapur, Mazra- Vilai Kheda, Near Purva Machyamik School Lonapur, Post- Laulai, Tehsil/Pargana - Sadar, District- Lucknow, Uttar Pradesh- 226028
393	Bahujan Vijay Party	98/5, Post Office Gali, Village - Khutbhar, Post & Tehsil - Khajani, District - Gorakhpur, Uttar Pradesh- 273212.
394	Bahujan Vikas Aaghadi	A-301, Arti Apartment, Vartak Raod, Virar (West), Taluka - Vasai, District - Thane, Maharashtra-401 303.
395	Bahujana Desham Party	Door No. 4/32, Gaddameeda Harijana Wada, Singareddy Palli, Penagalur Mandal, Y.S.R., Kadapa- District, Andhra Pradesh- 516127
396	Bahujana Left Party	H.No. 6-73, SC Wada, Peddalingapur Village, Mandal Illanthakunta, District-Rajanna Sircilla, Telangana State- 505405
397	Bahujana Raajyam Party (Phule Ambedkar)	H.No- 4-33-163, Venkateshwara Nagar, Kukatpally, Pipe line Jagadgirigutta, Balanagar Mandal, Medchal District, Hyderabad, Telangana- 500037
398	Bahujana Rajyadhikara Party	H. No. 8-1-77/9/B, Teachers Colony, District-Mahabubnagar, Telangana - 509001
399	Bahujana Rashtra Samithi	Plot No. 34/2, Lalithanagar, West Marredpally, Secunderabad, Telangana- 500026.
400	Bajjikanchal Vikas Party	Sahjanand Nagar, Bhagwanpur, N.H. 28, Muzaffarpur - 842002 (Bihar).
401	Baliraja Party	Plot No. 1, Commercial Complex, Prithviraj Nagar, Belatodi road, Nagpur, Maharashtra- 440034.
402	Banchita Swaraj Party	117, No., Dr. B.R. Ambedkar Road, P.O. and P.S.-Nalhati, District-Birbhum- 737220, West Bengal.
403	Banga Bharat Party	Vill.- Ghanashyampur, P.O.- Purandarpur, P.S. Kandi, Distt.- Murshidabad, West Bengal - 742140
404	Bangali Nabanirman Sena	C/o Supriya Das, Chengkuri Road, Eastern Bye Lane, P.O. - Ambicapatty, P.S. - Silchar Sadar, District - Cachar, Assam - 788004.
405	Bangla Bikashbadi Congress	Yusufgnaj Afaque Nagar, Near Golghar-Chabutara House, P.O & P.S- Islampur, District- Uttar Dinajpur, West Bengal- 733202
406	Bengaluru Nava Nirmana Party	101, Brigade Paramount, 5, Old Madras Road, C.V. Raman Nagar, Bengaluru - 560093
407	Berojgar Aadmi Adhikar Party	D-2/329, Shiv Durga Vihar, Lakkarpur, Faridabad, Haryana.
408	Bhaarateeya Janashakthi Congress	D.No. 4-148/A, Paniyoor Road, Udupi - District, Uchila, Karnataka-574117
409	Bhagidari Kranti Dal	Village & Post - Mawai Padiyana, Block - Sarojni Nagar, Tehsil & District - Lucknow, Uttar Pradesh - 226008.
410	Bhagidari Party(P)	30/5B/4, South Lokpur, Naini, Distt - Prayagraj, Uttar Pradesh- 211008
411	Bhapase Party	Village - Massa (Khn), Tehsil - Kalam, District - Usmanabad, Maharashtra - 413507.
412	Bharastachar Apraadh Mukti Nyay Dal	H. No. - A-1061, Sector- I, L.D.A.Colony, Kanpur Road, Post- L.D.A. Colony, District- Lucknow, Uttar Pradesh- 226012
413	Bharat (Integrated) Rakshak Party	H. No. - B-98, Mayfield Gerden, Sector -50, Gurugram, Haryana -122018.
414	Bharat Adivasi Party	Plot No. 27A, Gamadi House (Commerce) Complex, Shastri Colony, Dungarpur, Rajasthan-314029

415	Bharat Bharati Party	38, Kaushalpuri, Gaumati Nagar Extension, Gali No. 10, Lucknow, Uttar Pradesh - 226010
416	Bharat Bhavishya Party	House No. 94 S. Village - Mugeeshpur, P.S. - Taarun, Post - Chandrikaganj, District - Faizabad, Uttar Pradesh - 224141.
417	Bharat Bhoomi Party	House No. 48, Village- Khapri (Taandpara), Post Office- Pakaria, Tehsil - Pangarh, Thana- Mulmula, District- Janjgir-Champa, Chhattisgarh- 495553
418	Bharat Dal	Bharat Sevadham Aranyak, Krantideep Mourana, Nurpur, Distt. Bijnaur (U.P.).
419	Bharat Ekta Mission Party	171/123, Aaraghar, Distt.-Dehradun, Uttarakhand- 248001
420	Bharat Gaurav Party (India)	13/543, Sector-13, Indiranagar, Lucknow, Uttar Pradesh-226016
421	Bharat Jago Janta Party	New Market, Sahara India Bank Building, High School Para, Katihar, Patna, Bihar- 854105
422	Bharat Jan Aadhar Party	Flat No. 4, Kurla Amar CHS Society, Opp. Janseva Petrol Pump, Kale Marg, Kamani, Kurla (West), Mumbai, Maharashtra- 400070
423	Bharat Jan Chikitsa Party	113, Kamaraj Nagar West, Reddiyar Thottam, Uthangarai, District- Krishnagiri, Tamilnadu-635207
424	Bharat Jan Jagran Dal	Ward No. -5, Nara Parsauni, Bhaironji, West Champaran, Bihar-845106
425	Bharat Jan Shakti Party	H.No. 15/281, Shakti Nagar, Shukla Ganj, District- Unnao, Uttar Pradesh- 209861
426	Bharat Jansangram Party	H. No. 366, Ahilya, New Shangan Nagar, Post- HVPM, Amravati, Maharashtra- 444605.
427	Bharat Janta Dal (Tughlaq)	Village- Nirmani, Post- Nirmana, Block- Baghra, Thana- Shahpur, Dist- Muzaffarnagar, Uttar Pradesh.
428	Bharat Jodo Party	Mohammad Ali Marg, 786/1, Jogi Nawada, Near Barkhandi Nath Mandir, Bareilly, Uttar Pradesh- 243006.
429	Bharat Ka Kisan Majdoor Party	Village-Baliyan (Nayan Nagar), Post - Baliyan, Maharajganj, Siwan, Bihar- 841506.
430	Bharat Kalyan Party	Village - Mevli, Tehsil - Kheragarh, District - Agra, Uttar Pradesh- 283115
431	Bharat Kaumi Dal	Village - Lathardeva Hoon, Post - Jhabreda, District - Haridwar, Uttarakhand.
432	Bharat Ki Lok Jimmedar Party	3/250, Vishwas Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (Uttar Pradesh).
433	Bharat Kranti Rakshak Party	Barakkatpur, Post-Badagaon, Distt.-Koshambi, Allahabad, Uttar Pradesh.
434	Bharat Labour Praja Party	4-25, Seethanagar Colony, Somulagudem (P), Palvancha (M), Khammam District-507115, Andhra Pradesh.
435	Bharat Lok Sewak Party	Shop No. 16, D-Block Market, Pushpanjali Enclave, Pitampura, New Delhi- 110034
436	Bharat Mahaparivar Party	1286, Ground Floor, DDA Market, New Meena Bazar, Seemapuri, Delhi- 110095
437	Bharat Mata Party	Village & Post - Katka, District - Mirzapur, Uttar Pradesh
438	Bharat Mata Suput Party	Village- Dehariya Daya Ram, Post- LoharaKhas, District- Bhadohi, Uttar Pradesh-221303
439	Bharat Naman Party	Village & Post - Manshapur, Block - Katehari, Dist. - Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh - 224168.
440	Bharat Nav Nirman Party	A - 2, Nitesh Villa, Vivekanand Colony, Nayakhera, Ambabari, Jaipur- 23, RAJASTHAN.
441	Bharat Navnirman Voter Sena	1255-F, Basantvihar, Kanpur-208021, Uttar Pradesh.
442	Bharat Nirman Party	High School Road, P.O.-Triiveniganj, Distt.-Supaul-852139, Bihar.
443	Bharat Nyay Dal	N. H. - 58, Delhi By-Pass Road, Gopal Vihar, H. No. 48, Meerut, Uttar Pradesh.
444	Bharat Parivar Party	Bharat Hridya Aashram, Mohalla- Karaccha, Jawalapur, Haridwar, Uttarakhand- 249407.
445	Bharat Peoples Sena	Plot No. 6-4, 787, Phule Nagar, Somnathpur Road, Taluk- Udgir, District- Latur Maharashtra.

446	Bharat Prabhat Party	105, 1 st Floor, A.G.C.R. Enclave, Near Karkardooma Court, Delhi- 110092
447	Bharat Rakshak Party (Democratic)	Village Post Pakka Saharna, Tehsil Zila Hanumangarh, Rajasthan.
448	Bharat Swabhimani Party	55/1/228, Ground Floor, Bhavapur, G.T.B.Nagar, Karelie, Prayagraj, Allahabad, Uttar Pradesh- 211016
449	Bharat Uday Mission	C-3/4, Suman Nagar, V.N. Purav Marg, Chembur, Mumbai - 400071.
450	Bharat Utkarsh Party	17A-418, Prem Nagar Laulaj, Lucknow, Uttar Pradesh
451	Bharat Utthan Party	Village- Harni Ausari, Pragana-Hissampur, Post- Arai Umri Tehsil- Kaiserganj, District-Bahraich, Uttar Pradesh - 271904.
452	Bharat Vahini Party	Matrimandir, Plot No. E-185, Ram Path, Shyam Nagar, Jaipur, Rajasthan- 302019.
453	Bharat Vaibhav Party	C-4, Shivdham Welfare Society, Near B.M.C. Colony, M.D. Nagar, Nalasopara East, Palghar, Maharashtra - 401209
454	Bharat Vikas Morcha	Sekhpura Road, Madhupur, Distt. Deoghar, Jharkhand.
455	Bharat Vishal Party	A/6A, DDA Flat, Munirka, New Delhi - 110067.
456	Bharat Yug Janta Party	Village-Gaffarpur, Post-Gulariya, Tehsil & District-Amroha, Uttar Pradesh- 244221
457	Bharateeya Bahujana Praja Rajyam	D. No. 956, Arundelpet, 10th Lane, Guntur-522 002 Andhra Pradesh.
458	Bharateeya Manavadhikar Party	21, Rajendra Mullick Street, Kolkata - 700007, West Bengal.
459	Bharath Dharma Jana Sena	Building No.V/489, Mararikulam North Panchayat, East of Kanichikulangara Temple, Mararikulam North Village, Cherthala Taluk, Alappuzha (Dist), Kerala - 688544
460	Bharath Praja Spandana Party	D.No. 2-42, Kalavacharla Village, Nidadavole Mandal, West Godavari District, Andhra Pradesh.
461	Bharath Samaj Develop Party	D. No. 40-31-26, Dharama Nagar, Visakhapatnam, Andhra Pradesh- 530008.
462	Bharatha Chaitanya Yuvajana Party	H. No. 2-35/SF-2, Ramavarappadu, Vijayawada Rural, NTR District, Andhra Pradesh-521107
463	Bharatha Makkal Katchi	Near Door No. 44 & 45 (Old Door No.38), S.S. Colony, Ponmeni Narayanan Street, Distt.-Madurai Tamil Nadu - 625016
464	Bharatha Prajaakeeya Party	H. No.-3-175/1, Bodhampally (Village), Dabba (Post), Koutala (Mandal), Kumarambheem Asifabad (District), Telangana State - 504299
465	Bharatha Seva Katchi	No. 1 & 2 Gooms road, Parrys, Chennai, Tamil Nadu - 600001
466	Bharatheeya Chaithanya Party	D. No. 9-186/7, High School Road, Venkat Nagar, Kadiyam, East Godavari District, Andhra Pradesh - 533103
467	Bharatheeya Jawan Kisan Party	XL, VI/2694 (SB/S/867H), P.O. Civil Station, Near Sannidhanam Tourist Home & Best Engineering, Kannur, Kerala - 670001
468	Bharatheeya Sadharma Samsthapana Party	House No.3/17, Dorasani Palli, Proddatur Mandal, Kadapa District, Andhra Pradesh.
469	Bharathiya Praja Seva Party	D.No. 6-3-360/1, Sri Krishna Devaraya Nagar, Badvel town, YSR Kadapa - District, Andhra Pradesh- 517124.
470	Bharathiya Belaku Party	No. 54, Govt. School Road, Village- Gopanaahalli, Taluka- Maddur, District- Mandya, Bengaluru, Karnataka- 571422
471	Bharathiya Pragnavantha Congress	No. 60c, 80 Feet Road, ITI Layout, Mallathahalli, Nagarrabhavi Ward, Bangalore, Karnataka- 560056
472	Bharatiya Aam Janta Adhikar Party	101-D, East Luxmi Market, Patpar Ganj Road, Gali No.-4, Delhi-110092
473	Bharatiya Aam Awam Party	Saristabad, Indrapuri Path, Gali No. E, Gardanibagh, Patna, Bihar- 800001
474	Bharatiya Aamjan Party (Vivekanand)	150, Ganesh Colony, Gali No. 8, Near Jain Mandir, Jhothwada, Jaipur, Rajasthan-302012

475	Bharatiya Aavaam Ekta Party	23C, Sector A, Sainik Vihar, Nanda Nagar, Kuraghat, Gorakhpur, Uttar Pradesh.
476	Bharatiya Agragami Dal	44, Sri Krishna Nagar, Road No. I.P.S. Budha Colony, Patna, Bihar-800001
477	Bharatiya Ambedkar Party	Main Bazar, Krishna Nagar, Jaura Fatak, Amritsar (Punjab).
478	Bharatiya Apna Samaj Party	LIG-A-I.GF-03, Yashodhara Kunj Awasiya Yojna, Gorakhpur, Uttar Pradesh-273016.
479	Bharatiya Asha Party	H. No. 590, Village-Bharan, Near Govt. High School, Tehsil-Meham, District-Rohtak, Haryana-124111
480	Bharatiya Awam Taaqat Dal	Village- Sujanidih (Rampur), Post- Sohansa (Mungara Badshapur), Tehsil-Machhlisahar, District- Jaunpur, Uttar Pradesh-222204
481	Bharatiya Backward Party	71, Surya Apartments, Fraser Road, Patna -800001 (Bihar).
482	Bharatiya Bahujan Congress	117, Khodiyar Krupa Soc., Nr. Kantareshwar Mahadev Temple, Katargam, Surat, Gujarat
483	Bharatiya Bahujan Parivartan Party	Khasra No. 139/2, Vill. - Lakhwaya Rasoolpur, Rohta Road, Meerut, Uttar Pradesh.
484	Bharatiya Bahujan Party	156, Bharauli, Shahganj, Jaunpur, Uttar Pradesh.
485	Bharatiya Bahujan Samta Party	Village & Post- Surjannagar, District- Moradabad, Uttar Pradesh-244602.
486	Bharatiya Berojgar Party	Village-Kanta Karaundi, Post- Meerak Nagar, Police Station- Nigoha, Tehsil- Mohanlal Ganj, District- Lucknow, Uttar Pradesh- 226302
487	Bharatiya Bikash Parishad	Bank Colony, 1st Line, Radio Station Road, At/Po-Berhampur, District-Ganjam Odisha-760001
488	Bharatiya Chhatrasangh Bharat	Premghar Marg, Badli Ghat, Mirzapur, Uttar Pradesh-231 001.
489	Bharatiya Congress Paksha	Kasba Peth. In Front of Linhuwali Sawari, Post-Barshi, District-Solapur, MAHARASHTRA.
490	Bharatiya Democratic Socialist Alliance Party	H.No.198, Mohalla- Katchhpura (Shakya Nagar), Ward No.8, P.O- Raja ka Rampur, District- Etah Uttar Pradesh.
491	Bharatiya Development Party	Building No.14/54, S B Building, Opposite Sree Krishna temple, Asramam, Kollam, Kerala-691002
492	Bharatiya Dr. B.R. Ambedkar Janata Party	No.18, 12th Cross, MTS Layout, Kengeri Upanagara, Bangluru-560060, KARNATAKA.
493	Bharatiya Eklavya Party	Village and Post Belhar Kalan, Tehsil Mahdawal, District Sant Kabir Nagar, Uttar Pradesh.
494	Bharatiya Ekta Dal	189, Basant Apartment, Vasant Vihar, New Delhi - 57.
495	Bharatiya Gana Parishad	House No. 3, Bye Lane No.4, Ward No. 16, Bishnu Rabha Path, Lalganesh (Odalbakhra), P.S- Dispur, District- Kamrup Metro, Guwahati, Assam - 781034
496	Bharatiya Gaon Taj Dal	Village-Kuka, P.O. - Maqsoodpur, District Kapurthala, (Punjab).
497	Bharatiya Gorkha Prajatantrik Morcha	47-1, Victoria Road, Ward No. 17, P.O., P.S. & District - Darjeeling, West Bengal.-734101.
498	Bharatiya Gramteen Dal	Aryavart Prakashan Mandir, Bus Stop Gosaiganj, Janpad- Lucknow, Uttar Pradesh.
499	Bharatiya Hindu Sena	G-17, Ridhi Sidhi Tower, Sector-5, Plot No.4, Near Sun and Moon Tower, Vidhadhar Nagar, Sikar Road, Jaipur, Rajasthan-302023.
500	Bharatiya Hitrakshak Party	No.33 Meera Niwas, Pushkar Park, Baben, Near Baben Prathmik Shala, Taluka - Barodoli, District - Surat, Gujarat- 394601
501	Bharatiya Inqalab Party	Village - Rana Pratap Nagar, Islampur, Post & P.S. - Islampur, Distt. - Nalanda, Bihar (Pin - 801 303)
502	Bharatiya Jai Bheem Party	1304, Bhantlarya, Sindh Camp, Distt. Jabalpur, Madhya Pradesh.
503	Bharatiya Jan Berejgar Chhatra Dal	Near R.T.O. Office, Hussainganj, Siddharth Nagar, Uttar Pradesh
504	Bharatiya Jan Jagriti Party	Brijdham Ashram, Ranhera, Tehsil-Chhata, District-Mathura (Uttar Pradesh)
505	Bharatiya Jan Kranti Dal	F-23, Sainik Society, Shakti Nagar, Jabalpur, Madhya Pradesh.

	(Democratic)	
506	Bharatiya Jan Morcha Party	Ward No.-1, Satna Road, Amarpatan, District - Satna, Madhya Pradesh - 485775
507	Bharatiya Jan Sabha	C/o Raja Ram Yadav, Raghuvir Nagar, New Colony, Devaria (U.P.)
508	Bharatiya Janchetna Dal	No.70, LIG Indra Nagar, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh-208026
509	Bharatiya Jankranti Party	12/17, Chakkhuwala, Dehradun, Uttarakhand.
510	Bharatiya Jantantra Sanrakshan Vikas Party	Village - Panditpur, P.S. and Anchal - Piprakothi, District - Purwi Champaran, Bihar - 845429
511	Bharatiya Kamera Varg Party (Kanshiram)	House no. 198, Pataudi Road, Near I.T.I., Rewari, Haryana - 123401.
512	Bharatiya Karyasth Sena	121, Vishnu Colony, Shahganj, Agra-282010, Uttar Pradesh.
513	Bharatiya Kisan Parivartan Party	Nagla Dakhal, Kotla Road, Ferozabad-283203, District Ferozabad, Uttar Pradesh.
514	Bharatiya Kisan Rajnaitik Dal	Plot No-04, Khasra No. 151/01, Semra Gaudhi, Madigawn, Sita Road, Lucknow, Uttar Pradesh- 226021
515	Bharatiya Kisan Sena Loktantrik	House No. 392/1, Chak Raghunath, Naini, Allahabad, Uttar Pradesh.
516	Bharatiya Liberal Party	C-79, 1 st floor, Gali No. 4, Madhey Shyam Park Extension, Radhey Shyam Part Exnt. Colony, Ghondli Ward, Krishina Nagar, Delhi- 110051
517	Bharatiya Lok Sena	Lower Ground Floor, Office No. - 2, Building No. - A- 212-C, Tirupati Plaza, Street No. -I, Shakarpur Vikas Marg, Delhi- 110092.
518	Bharatiya Lokshakti Party	371-5, Beghar Vasahat, Main Road Majale, Taluka-Hatkanangale, District-Kolhapur, Maharashtra- 416109
519	Bharatiya Lokvikas Party	Sai Krupa Apartment, Flat No. 404, Near Daiva Bharati Hospital, Kanchanwadi, Aurangabad, Distt. Aurangabad, Maharashtra-431001
520	Bharatiya Majdoor Janta Party	Village - Lalpura, Post - Kukthari (Pinahat), Tehsil - Bah, District - Agra, UTTAR PRADESH - 283123.
521	Bharatiya Minorities Suraksha Mahasangh	410, Arcadia Building, Sir J.J. Road, Opp. J.J. Hospital Mumbai-400008 (Maharashtra).
522	Bharatiya Momin Front	174, Anand Puri, West Boring Canal Road, Patna-800001 (Bihar).
523	Bharatiya Mool Niwasi Samaj Party	77/129, Bhagat Singh Colony, Tarla Adhoiwala, Dehradun, Uttarakhand.
524	Bharatiya Mulnivasi Aazad Party	At-Room No. -601, Building No.-3, Avenue-H, Rustumjee Evershine Global City, Virar West, Distt.-Palghar, Maharashtra- 401303
525	Bharatiya Nagrik Party	Village Kanasi, P.O. Kanasi, Distt. Farukhabad-207501 (Uttar Pradesh).
526	Bharatiya National Janata Dal	701 A, 7th Floor, Meghmalhar Complex, Sector No.11, Gandhinagar, Gujarat - 382010.
527	Bharatiya Nav Kranti Party	Village- Makhmailpur, Post-Saraikhwaja, Distt.- Jaunpur, Uttar Pradesh.
528	Bharatiya Navyuvak Party	H. No. 572, Bye Saheb Ki Pared, Near of Priya Bread Factory, Laxmiganj, Lashkar, Gwalior, Madhya Pradesh.
529	Bharatiya New Democratic Party	Village and Post- Dara, P.S- Joynagar, District- South 24 Parganas, West Bengal- 743337
530	Bharatiya Nyay-Adhikar Raksha Party	Purbo Bishnupur, P.O. - Ramakanta Nagar, P.S - Mandirbazar, District - 24 Paragna (South), West Bengal - 743395
531	Bharatiya Parivartan Congress	126, Adivasi Colony, Near Rashtra Sant Tukdoji Maharaj, Cancer Hospital, Manewada Road, Nagpur-440027, Maharashtra.
532	Bharatiya Peoples Party	House No. T-9, 595/16/11, Shivshakti Nagar, Syed Chincholi Road, Filter Bed, Gulbarga, Karnataka-5851004.
533	Bharatiya Pichhra Dal	Village - Khujri, Post - Sagar, Via - Chakarmatha Camp, Distt. Bilaspur, Chhattisgarh - 495 220.
534	Bharatiya Pragati Party	C/o Chandra Prakash, Village and Post Belsad, District - Tapagaur, P.S. - Paikaliya Tehsil - Haraiya, Basti - 272163 Uttar Pradesh
535	Bharatiya Praja Aikyata Party	No. 01, Kote Street, Near Venkateswara Temple, Kodigehalli, Sahakaranagar Post, Bangalore, Karnataka - 560092

536	Bharatiya Praja Paksha	No.374/A, I-Floor, I-Block, I-Cross, Ravindranath Tagoor Nagar (R.T.Nagar), Bangalore-560032 (Karnataka).
537	Bharatiya Praja Surajya Paksha	A/P- Khandaj, Taluka- Baramati, District- Pune, Maharashtra- 413116.
538	Bharatiya Prajagala Kalyana Paksha	No. 23, Flat No. 401, 4 th floor, Everjoy, Nandanavana, 3 rd Cross, Dwarka Nagar, Channasandra, Bangalore, Karnataka- 560098.
539	Bharatiya Prajashakti Party	29/3, Panchkuiyan, Jhanshi, Uttar Pradesh.
540	Bharatiya Prajatantrik Shudh Gandhiwadi Krishak Dal	Misda, Distt. Janjgeer, Vikas Khand Navgarh, Chhattisgadchanchal, Chhattisgarh.
541	Bharatiya Rashtravadi Paksha	12, Juna Power House, Behind Rotary Hall, Jail Road, Mehsana (Gujarat) Pin-384002.
542	Bharatiya Rashtravadi Samanta Party	F-402, Road No. 9-F, Vishwakarma Industrial Area, Jaipur-302013.
543	Bharatiya Rashtriya Bahujan Samaj Vikas Party	G-96, Shantipuram, Phaphamau, Allahabad, Uttar Pradesh
544	Bharatiya Rashtriya Mahila Sarvodaya Congress	No.2, 1 st Floor, Vayuputra Arcade, Ward No.15, Near NTT, P.B. Road, Dharawad, District - Dharawad, Karnataka - 580001
545	Bharatiya Rashtriya Mazdoor Dal	Naya Sarafa, Gwalior-474001(Madhya Pradesh).
546	Bharatiya Rashtriya Morcha	D-6, Pratap Bagh Colony, New Hanuman Mandir, Allganj, Lucknow, Uttar Pradesh.
547	Bharatiya Republican Paksha	Dr.Ambedkar Bhawan, Gokuldas Pasta Road, Dadar, Mumbai-400014 (Maharashtra).
548	Bharatiya Sabhyata Party	545 K/AV-006, Avanti Vihar, Old Para Police Station, Hardoi Ring Road, Post- Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh - 226017.
549	Bharatiya Sadbhawana Samaj Party	Khan Manjil Khaparganj, Bilaspur, Chhattisgarh.
550	Bharatiya Samaj Dal	85, Chowk Makandu Ganj, Pratapgarh, Uttar Pradesh.
551	Bharatiya Samajwadi party (Loktantrik)	Moh. Chahshiri, Punjab & Sindhi Bank Lane, Civil Lines, Bijnor, District- Bijnor, Uttar Pradesh-246701
552	Bharatiya Samatawadi Party	No.60, Part No.3, Bijlinagar, Chinchwad, Pune, Maharashtra-411033.
553	Bharatiya Sampuran Krantikari Party	A-1/150, Aman Vihar, Nangloi, New Delhi - 110041.
554	Bharatiya Samrat Subhash Sena	Village - Ajitpur, Post - Kankhal, Laksar Road, Haridwar, Uttarakhand - 249408.
555	Bharatiya Samta Samaj Party	Gram - Dehramau, Post - Gosainganj, Zila - Lucknow - 227 125 (U.P.)
556	Bharatiya Samtawadi Party (A)	Near Khan Atta Chakki, Opposite Devi Lal Colony, Saraswati Vihar, Mehla Road, Tehsil & District- Sonapat, Haryana- 131001
557	Bharatiya Sangharsh Morcha	C4/33, EWS Vishwa Bank Colony, A.D.A, Naini, Tehsil- Karchana, Prayagraj, Uttar Pradesh-212301
558	Bharatiya Sanghathi Party (S)	Sai Green City, Ator Road, Near Morti, Rajnagar Extension, NH-58, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201 017)
559	Bharatiya Sangram Parishad	48, Bank Street, Khatau Building, Ground Floor, S.B.S Road, Opposite Old Custom House, Fort, Mumbai, Maharashtra - 400001
560	Bharatiya Sant Mat Party	Bahu Jholri Road, V.P.O. - Nahar, Tehsil - Kosli, Distt. - Rewari HARYANA.
561	Bharatiya Sarvjan Vikas Party	Village- Harshpur (pure Ralhi), Post- Kotwashukulpur, Tehsil- Laiganj, P.S. Sangipur, District- Pratapgarh, Uttar Pradesh- 230136
562	Bharatiya Sarvodaya Kranti Party	113, Malikpur, G.T.B. Nagar, Delhi-110009.
563	Bharatiya Satyarth Sangathan	Bharat Nagar, Prem Vidyalaya, Railway Crossing, Opposite Radhapuram Housing Colony, Near Birla Mandir, Varindavan Road, G.T.V - 3, Mathura-281003, (U.P.)
564	Bharatiya Subhash Sena	Vill. & Post Office: Bankasiya Shivratn Singh, Janpad-Gonda -271302. (U.P.).

565	Bharatiya Suheldev Janata Party	Village and Post- Chitbaragaon, House No. 885B, Ward No. - 8, Indira Nagar, Tehsil - Balia, Balia, Uttar Pradesh - 221713
566	Bharatiya Suraaj Dal	Sinha Bhawan, Exhibition Road, Behind Reserve Bank of India, Patna, Bihar - 800001
567	Bharatiya Swajivi Nagrik Party	Village- Kukuriha, Post- Rudrapur Korwa, Thana- Rudrapur, Tehsil- Rudrapur, District- Deoria, Uttar Pradesh.
568	Bharatiya Swatantra Party	Village- Naugai, P.O. - Raghunathnagar, Teh. - Vadrunagar, Distt:- Sarguja, Chhattisgarh
569	Bharatiya Yuva Jan Ekta Party	261, Kesar Palace, Abuparvat, Th. Abu Road, District - Sirohi, Rajasthan - 307501
570	Bharatiya Yuva Party (Democratic)	Ward No. 54, Circle No. 71, Biscoman Golambar, Near B.S.N.L Telephone Exchange, Post Office- Gulzarbagh, Kumhrar, Patna, Bihar- 800007.
571	Bharatiya Yuva Shakti	Haveliyo ka Vaas, Gram Panchayat - Kosewal, Tehsil - Sumerpur, District - Pali, Rajasthan.
572	Bharatrashttra Democratic Party	Shop No. 22, CSC-II, DDA Market, I.P. Extension, Patparganj, Delhi- 110092.
573	Bharatwasi Party	Ambedkar Nagar Poorvi, Ramkola Road, Post - Padrauna, Distt. - Kushinagar, Uttar Pradesh-274304
574	Bharipa Bahujan Mahasangha	Dr. Ambedkar Bhawan, Gokuldas Pasia Road, Dadar, Mumbai-400014 (Maharashtra).
575	Bharosa Party	H.No. 8-233, Pocharam Grama Panchayat, Ghatkesar Mandal, District- Medchal, Telangana - 500088
576	Bharti Jan Suraksha Party..	Head Office, Dholwha Road, Near Heera Colony, Town & P.O. Hariana, Distt. Hoshiarpur, Punjab -144208
577	Bharti Samudaya Party	7C-10, Vrindavan Yojana, Raibareli Road, P.S. - P.G.I., Tehsil - Lucknow, District - Lucknow, Uttar Pradesh - 226002.
578	Bhartiya Aam Aadmi Parivar	1000 Jay Ambey Apartment, DDA LIG Flates, New Kondali, Mayur Vihar Phase -3, Delhi-110096
579	Bhartiya Aam Janta Vikas Party	Village and Post- Dulma, Thana- Madhuban Motihari, District- East Champarn, Bihar
580	Bhartiya Ahinsa Party	728, Nirala Nagar, Ayodhyapuri, Raebareli, Uttar Pradesh.
581	Bhartiya Amrit Party	Khasra No. 661/3, Kachhariya, Bhopal road Biaora, District- Raigarh, Madhya Pradesh-465674
582	Bhartiya Anarakshit Party	House No.08, Anandvan, NH-2, Nawada, Post- Aurangabad, District- Mathura, Uttar Pradesh-281006
583	Bhartiya Anarya Party	Rajvanshi Market, Bus Stand, Rajgir, Thana. & P.O. Rajgir, Distt. Nalanda, Bihar-803116
584	Bhartiya Antyodaya Party	8-Preet Vihar, Phase-II, Indira Gandhi Marg, Niranjapur- Dehradun, Uttarakhand-248171
585	Bhartiya Apna Adhikar Party	Near Kirar Hostel, Rampuri Adu Khana Kala Shabad, Pratap Aashram, Gwalior, Madhya Pradesh - 474012
586	Bhartiya Arakshan Mukti Dal	291, Agnipotra Nagar cakdikheda, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh- 208017
587	Bhartiya Arya Kranti Manch	83 Ram Vatika Colony, Behind Geeta Palace, Shyamganj, Bareilly, Uttar Pradesh - 243005
588	Bhartiya Asmita Party	H. No. 302, Village-Katbav, Dahagaon Road, Pst-Vashind, Taluka- Shahpur, District-Thane, Maharashtra- 421601.
589	Bhartiya Awaam Activist Party	Village-Keshru, P.S. - Chandauti, District - Gaya, Bihar - 823002.
590	Bhartiya Awam Party (Rastriya)	House No. 30, (B.P.20) Bechupur, Patel Nagar (40 Feet Road), Mughalsarai, District - Chandauli, Uttar Pradesh- 232 101.
591	Bhartiya Azad Sena	15 No. Chowk, Barkagaon, District- Hazaribagh, Jharkhand- 825311
592	Bhartiya Bahujan Kranti Dal	Sevagadh Building No. 02, Azadegaon, Dombivali East, District- Thane, Maharashtra-421201

593	Bhartiya Bhaichara Party	H. No. 61/3, Village- Chhalera Bangar, Ambedkar Vihar, Sector- 37, Pargana & Tehsil- Dadri, Noida, District- Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh - 201303.
594	Bhartiya Chaitanya Party	B - 97, Panchsheel Vihar, Near Sheikh Sarai, Community Centre, New Delhi.
595	Bhartiya Chatrapati Sena	Shagun Row House D3, Behind Udyog Bhawan, Ayodhya Nagar, Sinner, Nasik, Maharashtra - 422103
596	Bhartiya Chetna Party	Surat Ganj, Ward No. 15, Thana Nagar, madhubani, Madhubani-District Bihar- 847211.
597	Bhartiya Dalit Congress	Chopara Para, Behind of Kali Mandir, Ambikapur, Distt. -- Surguja, CHHATTIAGARH- 497001.
598	Bhartiya Dalit Party	Khata No. 269, Mohalla- Vijaynagar, Post- Vijaynagar, Anchal- Banka, District- Banka, Bihar.
599	Bhartiya Damitjan Party	Village - Govindpur, Post- Seohara, Tehsil-Dhampur, Disst.- Bijnor Uttar Pradesh- 246746.
600	Bhartiya Dharmanirpeksha Party	H.No. 146, Village- Kharagpur, Post-Chaubepur, Thana- Chaubepur, District- Kanpur Nagar, Uttar Pradesh-209203
601	Bhartiya Drishtigochar Party	H.No. 54, Gram - Mausandi, Post- Suratganj, District- Barabanki, Uttar Pradesh- 225304
602	Bhartiya Ekta Manch Party	Shabab Building , Tagore Marg, Nadava Road, Lucknow-226020 Uttar Pradesh.
603	Bhartiya Gadar Party(S)	Village-Odera, Post-Rautimau, Distt. Azamgarh, Uttar Pradesh-276406
604	Bhartiya Gan Varta Party	G-18, Ground Floor, Sanchi Complex, Shivaji Nagar, Near Board Office, Bhopal, Madhya Pradesh, Pincode: 462016.
605	Bhartiya Gandhiwadi Party	Village & Post - Garwar, District - Ballia, Uttar Pradesh.
606	Bhartiya Ganrajya Party	H. No. 1094, Vikas Sharma B.T.I. Road, Near Bajaj Agency, Mohalla Beni Sagar, Panna, Madhya Pradesh-488001
607	Bhartiya Garib Vikas Kalyan Party	Referral Chikitsalaya Ke Samne, Gulabpura, Tehsil-Hurda, Distt- Bhilwara, Rajasthan-311021
608	Bhartiya Garibmazdoor Party	Pachtaki Ram, P.O. Pachtaki Yadu, P.S. Bairgania, District- Sitamarhi, Bihar - 843313
609	Bhartiya Gram Nagar Vikas Party	Ekta Vihar, Lane No. -1, Gramsabha - Aamwala Talla, P.O. - Kandoli, Sahasradhara Road, Dehradun, Uttarakhand - 248 001.
610	Bhartiya Gramin Samaj Party	Bhawan No. 15/357, Near Bharoshi ki Dharamshala, Pancham Wali Gali, Duttapura, Morena, Madhya Pradesh-476001
611	Bhartiya Harit Party	Near Hans Pratik Chikitsalaya, Meerapur Road, Jansath, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh - 251314.
612	Bhartiya Himachal Jan Vikas Party	V.P.O. Badalthore, Tehsil - Dehra, Distt. - Kangra, Himachal Pradesh - 177105.
613	Bhartiya Hind Fauj	UGF-07, Chitransh Dream Society, R.K.Puram, Govindpuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201013
614	Bhartiya Hind Party	90, Iswari Dayal Building, Arya Samaj Road, Ganesh Ganj, Lucknow, Uttar Pradesh-226018
615	Bhartiya Imaandar Party	Sindholi, Tehsil - Puwayan, Shahjahanpur, Uttar Pradesh
616	Bhartiya Indian Secular Party	Hamdard Nagar- B.Jamalpur, Mafi, Tahsil-Coal, District Aligarh, Uttar Pradesh- 202001.
617	Bhartiya Insan Party	N-84, 4 th Floor, Batla House, Near Khalilullah Masjid, Jania Nagar, Okhla, New Delhi - 110025.
618	Bhartiya Insan Rakshak Dal	H.No-192-17, Dharampur, Village-Gevrabasti/Gevra, Post Office- Kusmunda, Ward No. 60, Tehsil-Kaithora, District-Korba, Chhattisgarh- 495454
619	Bhartiya Jagaran Party	Poervi Nawada, Arrah, Bhojpur-802 301, Bihar.
620	Bhartiya Jan Adhikar Party	Village-Bhim, Hospital Road, P.O.-Bhim, Distt.-Rajsamand Rajasthan- 305921

621	Bhartiya Jan Hit Vikas Party	220, Indrapuri, Jacobpura Road, Gurgaon, Haryana - 122001
622	Bhartiya Jan Hitkari Party	Plot No. 31-32, Shivnagar, Tonk Road, Sanganer, Jaipur, Rajasthan
623	Bhartiya Jan Jagrook Party	Survey NO. 171, Village- Chainpura, Post-Shivgach, Tehsil- Megh Nagar, District- Jhabua, Madhya Pradesh - 457777
624	Bhartiya Jan Jan Party	Shop No. 8 & 9, 2 nd Floor, Goyal Plaza, Faizabad Raod, Lucknow, Uttar Pradesh.
625	Bhartiya Jan Manas Party	H. No. 262 Gha, Sarsawan, Arjunganj, P.S. - Arjunganj, Tehsil & District - Lucknow, Uttar Pradesh- 226002.
626	Bhartiya Jan Manch	361, Street No. 13, Buddh Vihar, (Behind Senior School), Mandoli Gaon, Nand Nagri, Delhi-110093.
627	Bhartiya Jan Nayak Party	C-17-18, Sector-15, Vasundhra, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201012
628	Bhartiya Jan Parishad	FF/108, Shantivila Complex, Opp. H.P. Petrol Pump, Dahegam Road, Naroda, Ahmedabad, Gujarat- 382330
629	Bhartiya Jan Pragati Dal	H.No. 134, Village- Ramraipur (By Pass Road), Post- Ramraipur, Tehsil- Bhadohi, District- Bhadohi, Uttar Pradesh- 221314.
630	Bhartiya Jan Sahyog Party	8/6, Juhi Safed Colony, Kanpur, Uttar Pradesh- 208014.
631	Bhartiya Jan Samadhan Party	411, Spectrum, Near Yasharian, Swami Vivikanand Circle, Memnagar, Ahmedabad, Gujarat-380052
632	Bhartiya Jan Samaj Party	Mohalla Gram, Ahamadpur Urf Kamlapur Pargana, Bijnaur Tehsil & Vidhansabha, Sarojini Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh-226002
633	Bhartiya Jan Samman Party	Flat No. 32, Krishina Apartment, Block- BH East, DDA Flats, Ground Floor, Shalimar Bagh, Delhi- 110088
634	Bhartiya Jan Sampark Party	House No. 3616, Sharda Niwas Katra, Aadhartal, Jabalpur, Madhya Pradesh.
635	Bhartiya Jan Samrasata Party	5081, Vishwkarma Nagar, Plot No.80, Ward No.14, Dwarkapuri, Rameshwari Road, Near Radha Mandir, Parvati Nagar, Nagpur, Maharashtra-440027
636	Bhartiya Jan Samrat Party	Khasra No. 719, Property No. X-9/10, Old No. X-6/12, Village- Ghonda Gujran Khadar, Gali No. 9, X- Block, Brahampuri, Delhi- 110053
637	Bhartiya Jan Satta Party	House No. 11, Mukhya Gram + P.O - Bhaadvaasi, Via Katrathal, District- Sikar, Rajasthan-332024
638	Bhartiya Jan Swaraj Party	MB- 156 S/F, Master Block, Shakarpur, Delhi-110092
639	Bhartiya Jan Vikas Aaghadi	Krantisurya, Navjivan Nagar, Juna Pedgaon Road, Parbhani, Maharashtra- 431401
640	Bhartiya Jan Yug Party	Heera Nagar, Purani Chhawani, Laskhar, Gwalior, Madhya Pradesh - 474010.
641	Bhartiya Janata Samajsevi Party	Old House No. 116RPG/844 Present H. No. 116/839 Rawatpur-2 Kalyanpur Kanpur,
642	Bhartiya Janata Vikas Party	D-4/2, Sector- 20, Rohini, Delhi- 110086
643	Bhartiya Janhit Congress Party	A-3, Room No. 602, 6th Floor, R.N.A Park, Vashi Naka, R.C. Marg, Chembur, Mumbai, Maharashtra - 400074
644	Bhartiya Janhit Dal	D-1/535 J.J. Cluster, Bhalaswa Dairy, New Delhi - 110042.
645	Bhartiya Janjagran Gandhiwadi Party.	Khata No. 112, Khesra No. 1196, Village- Hesmi, P. S- Mandar, District- Ranchi, Jharkhand- 835214
646	Bhartiya Janmukti Party	Village - Dundur, P.O. Latheya, P.S. - Chhatarpur, District - Palamau, Jharkhand - 822116.
647	Bhartiya Janraj Party	H.No. 653, Ward No. 14, Shiv Nagar, Near Shiv Mandir, Hisar, Haryana- 125001
648	Bhartiya Jansamanta Adhikar Party	Kothi No. - 2, Poornagiri Vihar, Patel Nagar, Post - Izzatnagar, Janpad - Bareilly Uttar Pradesh
649	Bhartiya Jansamooch Dal	H. No. 55/35, C.Y. Chintamani Road, George Town, Prayagraj, Uttar Pradesh - 211002
650	Bhartiya Jansava Congress	Kothi No. 768, Ward No. 17, Kila Colony, Kosli Road, Jhajjar, Haryana - 124103
651	Bhartiya Janta Dal	C-16, Sanjay Vihar, Aavas Vikas Colony, Meerut Road, Hapur, Distt. Ghaziabad, Uttar Pradesh.

652	Bhartiya Janta Dal (Integrated)	H.No. 62, Gali No.16, A-1 Block, Sant Nagar, (Bengali Colony), Burari Road, Delhi - 110084
653	Bhartiya Janta Secular Party	Servamangala Nagar, Durpa, Ward No. 45, Post- Durpa, P.S- Kusmunda, Tehsil- Katghora, District- Korba, Chhattisgarh- 495677
654	Bhartiya Jantantra Morcha	Khata No.80,Plot No.-528,Village-Sidraul,Yugantar Bharti,P.S.- Namkum,Distt.-Ranchi,Jharkhand-834002
655	Bhartiya Jantantra Sanatan Dal	No. 752, Charitra Van, Teacher's Colony, District- Buxar, Bihar-802101
656	Bhartiya Jantantrik Janata Dal	1, Daroga Rai Path,Patna - 800001, Bihar.
657	Bhartiya Jantantrik Party	Village- Chirota, Post- Ajayrajpora, Via- Bagru, Tehsil- Sanganer, District- Jaipur, Rajasthan- 303007
658	Bhartiya Kamgar Party	Village - Chandopara, Post - Chandopara, District -- Allahabad, Uttar Pradesh - 212402.
659	Bhartiya Kautilya Sena	R-14/6(Basement), Rajnagar, In Front of Square Mall Ghaziabad, Uttar Pradesh.
660	Bhartiya Kisan Janshakti Party	House No. 600, Ward No. 5, Ghasiyari Pura Nauvagarhi, Bahraich, Uttar Pradesh
661	Bhartiya Kisan Party	E- 58, Taranagar, Jhotwara, Jaipur, Rajasthan- 302012
662	Bhartiya Kisan Sena (Secular)	At-Vyara,Taluka- Vaghodiya,District-Vadodara,Gujarat- 391760.
663	Bhartiya Kisan Union Samaj Party	H.No. 332F, Near Vrindavan Gate, Rajender Nagar, Pushchim Gorakhnath, Gorakhpur, Uttar Pradesh- 272115
664	Bhartiya Kisan Vikas Party	Village Amrai, Post Lakkhampur, Vishweshwarganj, Distt. Bahraich, Uttar Pradesh.
665	Bhartiya Kranti Vir Party	Village- Kajichak, Post and Police Station- Sandesh, District- Bhojpur Bihar-802164
666	Bhartiya Krantisangh Party	No. 19/G-1, Brijeshwari Anex, Kanadia Road, Indore, Madhya Pradesh- 452016
667	Bhartiya Krishak Dal	197, Kaushalpur (Sarla Bajpai Ka Bagh),South of Subhash Nagar,Janpad - Hardoi,UTTAR PRADESH.
668	Bhartiya Lok Chetna Party	Janki Niwas,Brahmpur,Post & Thana- Fulwari Sharif,Distt. Patna Bihar- 801505
669	Bhartiya Lok Nayak Party	Vill.-Nauwapali,P.O. - Chakra,Distt.Siwan,Bihar-841226
670	Bhartiya Lok Satta Party	Gali No.6,Ward No. 47,Gadora ke Pura,District-Morena,Madihya Pradesh- 476001
671	Bhartiya Lokmat Rashtrawadi Party	Village and Post- Saday Vigaha-165, Barahia, District- Lakhisarai, Bihar- 811302
672	Bhartiya Lokshahi Party	Khadka Road, Ramdev Baba Mandir, Tal - Bhusawal, District - Jalgaon, Maharashtra - 425201
673	Bhartiya Lokswarajya Party	Subhash Nagar, Astha Vinayak Colony, Zila Panchayat Prathmik, Shale Samor, D.P. Bhosale Collage Jawel, Sultanwadi Road, Tal-Koregaon, District- Satara Maharashtra - 415501
674	Bhartiya Lokvani Party	Plot no.-6,A-Block,Amity Green Colony,Hasemau,Post- Lailai,Lucknow,Uttar Pradesh-226028
675	Bhartiya Mahasangh Party	No. K-2415, Nagar Palika Road, Rosera Samustipur, Bihar - 848210
676	Bhartiya Mahashakti Morcha	Jai Narayan Varma Road, Fatehgarh, District-Farrukhabad, Uttar Pradesh, Pin-209 601.
677	Bhartiya Majboot Party	Village & Post-Tigri,Block-Gajraula,District-Amroha,Uttar Pradesh-244235
678	Bhartiya Mallrashtra Party	At 333, O. Lachchpur Bhati Vihar,Gorakhpur,Uttar Pradesh- 273007
679	Bhartiya Manav Kalyan Party	E- 49 I, Raj Harsh Colony, Kolaar Road, Bhopal, Madhya Pradesh- 462042
680	Bhartiya Manav Samaj Party	Village & Post- Oina, Tehsil- Kerakat, District- Jaunpur, Uttar Pradesh- 222146
681	Bhartiya Manavta Party	Srirampur Tola (Bihta),P.O.-P.S.- Bihta,District Patna,Bihar-801103

682	Bhartiya Manvadhikaar Federal Party	154/17, Raj Chambers (Fakhruddin Manzil), Alibhai Premji Marg, Grant Road, Mumbai, Maharashtra- 400007.
683	Bhartiya Mitra Party	Circle-10, Holding No.-79A/64, Mohalla- Gola Road, Bakarganj, District- Patna, Bihar - 800004.
684	Bhartiya Muhabbat Party (All India)	H.No.18184, Chandsar Basti, Bhatinda-151001 (Punjab).
685	Bhartiya Nagrik Suraksha Party	No.13, New Ketan Society, Near Uma Shikshan Tirth, Bh. Bhagyoday Society, Naroda, Ahmedabad, Gujarat-382325
686	Bhartiya Nav Vikas Party	60, Seeda Mohalla, Chilla Village, Near Sai Mandir, Mayur Vihar Phase-I Delhi- 110091.
687	Bhartiya Navjawan Sena (Paksha)	Shri Mourya Park, Shop No. 4, Somnathnagar, Near Somnath Temple, Vadgaonsheri, Pune - 411014 Maharashtra.
688	Bhartiya Navodaya Party	Village- Aberia, Post- Chakarnagar, Chakarnagar Chauraha, District- Etawah, Uttar Pradesh.
689	Bhartiya New Sanskar Krantikari Party	Village and Post- Sahasraran, P.S- Bhagwanpur Hatt. District- Siwan, Bihar - 841408
690	Bhartiya Niwas Party	Village- Sarbasi, P.O.- Barhni, Gopalpur (Unawal), District- Gorakhpur, Uttar Pradesh- 273406.
691	Bhartiya Panchayat Party	D-15/674, Street No.- 5, Ganesh Nagar - 2, Shakarpur, Delhi-110092.
692	Bhartiya Panchayati Raj Party (Loktantrik)	B-247, 3 rd Floor, Priyadashni Vihar, Delhi- 110092
693	Bhartiya Panchsheel Party	B-71, Indira Nagar, Raebareli, Uttar Pradesh- 229001.
694	Bhartiya Party	New Colony, Post - Neem Ka Thana, District - Seekar, Rajasthan - 332713.
695	Bhartiya Party (Loktantrik)	A-12, Ansa Plaza, R.B.S.S. Sahay Road, Bhagalpur, Bihar-812001
696	Bhartiya Prabuddha Samaj Party	554 C/118, Damodar Nagar, Near Raj Chandra Hospital, VIP Road, Lucknow, Uttar Pradesh -226005.
697	Bhartiya Pragatisheel Congress	D-43, Rajdhani Park, Nangloi, Delhi - 110041.
698	Bhartiya Praja Jan Party	Narayanpur Road, Kasba Bansoor, District - Alwar, Rajasthan.
699	Bhartiya Public Labour Party	357/3, Shyam Nagar, Gali No.1, Kali Mandir Back Side, Foyasagar Road, Ajmer, Rajasthan - 305001
700	Bhartiya Ranvir Party	S-498, Ground Floor, School Block, Shakarpur, Delhi-110092
701	Bhartiya Rashtrawadi Party	J-74A, Gali No-14, Khasra No. 6/14, Swaroop Nagar, Delhi - 110042.
702	Bhartiya Rashtriya Dal	C- 6/52, Yamuna Vihar, Delhi- 110053
703	Bhartiya Rashtriya Ekta Dal	10/10, Mohalla Kaitwada, Near Ambedkar Chowk, Jwalapur, Distt- Haridwar, Uttarakhand-249407
704	Bhartiya Rashtriya Jagruk Dal	E-2548, Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh- 226017.
705	Bhartiya Rashtriya Jagsewa Party	Unit No.208, 2nd Floor, Sunrise Tower, Shiv Market, Wazirpur, Ashok Vihar, Delhi-110052
706	Bhartiya Rashtriya Jansatta	127, 1 st Floor, Vardhman Tower, Preet Vihar, Delhi 110092
707	Bhartiya Rashtriya Lok- March Party	Plot No.2, Gali No.2, Chouhan Patti, Near Mangal Bazar, Karawal Nagar, Delhi- 110094.
708	Bhartiya Rashtriya Tantra Party	N/502, Madhuvan Glory, Near St. Marya School, Naroda, Ahmedabad, Gujarat- 382330
709	Bhartiya Reflection Party	LIG 11-G, Pocket A-2, Mayur Vihar, Phase-3, Delhi - 110096
710	Bhartiya Republican Party (Insan)	Village - Mahuari, Post - Jangiganj, District - S.R.N. Bhadohi, Uttar Pradesh.
711	Bhartiya Rozgar Party	E-77, Old Jasola Village, Near Metro Pillar No.141, Jasola, Near Jamia Co-operative Bank, New Delhi - 110025.
712	Bhartiya Sabka Dal	Moh. Golwar Tola, P.O, P.S & Tehsil - Mohammadabad Gohna, District- Mau, Uttar Pradesh- 276403

713	Bhartiya Sablog Party	Mauja Digha, Rajiv Nagar, Road No. 25 E, P.O.-Kesrinagar, Thana-Phulwari, Patna, Bihar-800024
714	Bhartiya Sakshar Party	Khasra No. 78 4, Dharampura Atal Behari Bajpayee Ward No.38, Jagdalpur, Tehsil Jagdalpur, District Bastar, Chhattisgarh-490001
715	Bhartiya Samaj Sewa Party	H.No.01, Village - Vanupur Pukhta, P.O.- Malikpur (Soro), Distt.-Kasganj, Uttar Pradesh
716	Bhartiya Samajik Ekta Party	16, Village- Nandora, Tehsil- Goharganj, District- Raisen, Madhya Pradesh-464990
717	Bhartiya Samajik Kranti Dal	Village - Suwari, Post - Danganj, Distt. - Varansi, Uttar Pradesh.
718	Bhartiya Samajik Nyay Party	Village & P.O. Sersa, Tehsil & District - Sonapat, Haryana.
719	Bhartiya Samajik Party	6, Bus Stand, Alirajpur, District - Alirajpur, Madhya Pradesh - 457887
720	Bhartiya Samajvadi Sena	Bhawan No. S- 2/525, Mohalla-Sikraul, Post- Cantonment, District - Varanasi, Uttar Pradesh -221002
721	Bhartiya Samanta Party	Chitrakoot Dhaam, Third Floor, 60-B, Panki Road, Kalyanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh- 208017
722	Bhartiya Samridhi Kalyan Party	H.No.- 12/2, B- Block, Phase-2, Goyla Vihar, Near Thomas School, Dwarka Goyla Dairy Road, New Delhi- 110071.
723	Bhartiya Samta Party	173D, Radha Krishna Chauraha, Rampuram Shyam Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh- 208013
724	Bhartiya Sangam Party	230/5, New Menhdauri, Post - Teliyarganj, District- Allahabad, Uttar Pradesh- 211004.
725	Bhartiya Sangharsh Samiti	H.No.4684, Nisar Nagar, Infront of Krida Sankul, Jambhrun Road, Sangwan, Buldana, Maharashtra-443001
726	Bhartiya Sanskrit Virasat Party	H.No. 338, Village and Post- Lakhaura Khurd, P.S- Kurawali, District- Mainpuri, Uttar Pradesh
727	Bhartiya Sanyukt Kisan Party	Bhusahi Bazar, Yadav Market, Kamle Baliya, Bhusahi, Bochaha, Muzaffarpur, Bihar-843103
728	Bhartiya Sarthak Party	Shivshankar Path, Mithanpura, Post Ramna, P.S.- Mithanpura, Dist.- Muzaffarpur, Bihar-842002
729	Bhartiya Sarvdharm Party	Vilal Market, Shop No. 5, Khadri Thana, Madiyaon, Sitapur Road, Lucknow, Uttar Pradesh-226013
730	Bhartiya Sarjan Hitay Samaj Party	Anant Vihar Colony, Daldal Shivni Marg, Mowa, Raipur, CHHATTISGARH.
731	Bhartiya Sarjan Party	Village -Rampur, Hata Marg, Post - Gauri Bazar, District - Dewaria - 274202, UTTAR PRADESH.
732	Bhartiya Sarvodaya Party	152-126, Patel Nagar (West), Dehradun-248001, Uttarakhand.
733	Bhartiya Satya Sangharsh Party	Village - Bijhinya, P.S. - Mandla, District - Mandla, Madhya Pradesh.
734	Bhartiya Sewak Party	Hqrs./Office-Near Uttarakhand Grameen Bank, Biuggawala (Main Market) Haridwar, Uttarakhand- 247662
735	Bhartiya Shakti Chetna Party	Ward No.18, Village - Khamdar, Post - Mau, Tehsil - Vyohari, Dist. - Shahdol, Madhya Pradesh
736	Bhartiya Shramik Dal Socialist	Baman Nagar, Pateri, Sector - 20, District - Satna, Madhya Pradesh.
737	Bhartiya Suvmayug Party	A-33, Capital Commercial Centre, Near - Sanyas Ashram, Ahmedabad, Gujarat -380009
738	Bhartiya Swadeshi Congress	12/303, Max City park Sapphire, Ramprastha Greens, Sector-9, Vaishali Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201010
739	Bhartiya Swaraj Jan Seva Sangathan	H. No. 647, Kalyanpur Majra, Kheliya Kalyanpur, P.S. - Ahamadgarh, Tehsil - Shikarpur, District - Bulandshahar, Uttar Pradesh - 203391.
740	Bhartiya Swarajya Kranti Party	Tryamboli Nagar, Kasaba Bawada, District-Kolhapur, Maharashtra- 431124
741	Bhartiya Swarnim Yug Party	40, Laxmi Nagar, Rameshwar Road, Ratlam, Madhya Pradesh- 457001

742	Bhartiya Swatantra Panch Party	Naurangia Chwraha Se 50 Meter Koni Marg, Post-Koni, Nehru Chowk Khalilabad, Janpad Sant Kabir Nagar, Uttar Pradesh- 272175
743	Bhartiya Tarak Samaj Party	465A Binauli, Tehsil- Baraut, District- Baghpat, Uttar Pradesh- 250645
744	Bhartiya Tribal Party	PO- Chanderia, Taluka- Valia, District- Bharuch, Gujarat
745	Bhartiya Uday Nirman Party	H. No. 431/955N, Ward Ganj (132), Newati Tola, Near Elaf Palace, Monin Nagar, Campwell Road, Lucknow, Uttar Pradesh-226003
746	Bhartiya Vanchitsamaj Party	Village- Bhudiya, (Faguha), Tehsil & Distt.- Kannauj, UTTAR PRADESH.
747	Bhartiya Veer Dal	Khewat/Khasra No.- 39/56, Mustil No.- 14, Moja- Ghurason, Post- Tigaon, Ballabgarh, Faridabad, Haryana- 121101
748	Bhartiya Veer Kisan Party	Village - Khaparkheda, Taluka- Jafrabad, District- Jalna, Maharashtra.
749	Bhartiya Vikas Party	139-B, Tamur Nagar, New Friends Colony, New Delhi.
750	Bhartiya Vikash Dal United	House No. SM.0011-0425, Village- Chhota Bariyarpur, Ward No. 38, Post- Motihari Court, P.S. Chhatauni, District- East Champaran, Bihar - 845401
751	Bhartiya Vistarwadi Party	Village - Shyampur, Post - Dugare, District - Fatehpur, Uttar Pradesh.
752	Bhartiya Yojana Raithu Party	D.No.27-1-148/H, Attarattaiah Street, Near Challapalli Bungla Governor Pet, Vijayawada, Krishna District, Andhra Pradesh-520002.
753	Bhartiya Yuva Ekta Shakti Party	H.No.63, Rampur Road, Manpur Uttar, Haldwani, Nainital, Uttarakhand- 263139
754	Bhartiya Yuva Janshakti Party	Rozy Anima XTTI, Near Akhand Jyoti Hospital, Digha, Patna, BIHAR- 800011
755	Bhartiya Yuva Kranti Party	E-Block Surajdeep Complex, Near Dainik Jagran Chauraha, Jopling Road, Lucknow, Uttar Pradesh-2260001
756	Bhartiya Yuva Party	Evershine App., Nr. Jalaram Society, Opp. Royal Park, Nr. Park Evenue, Janagadh, Gujarat- 362001
757	Bhartiya Yuva Party (Rashtrawadi)	H.No. 139, Sonbarsa Bairia, District- Ballia, Uttar Pradesh- 277208
758	Bhartiya Yuva Sena	House No. 1-407, Kasba Vibhag, Kille Dharur, Tq. - Dharur, District - Beed, Maharashtra - 431124.
759	Bhartiya Yuva Swabhiman Party	19/769, Mohalla - Narayanpur, Shukla Aata Chakki Ke Pass, Govind Nagar, Auraiya, Uttar Pradesh - 206122
760	Bhartiya Manavata Nirman Party	Lala Lajpat Nagar, Post -Pundag, P.S.- Jagannathpur, District- Ranchi, Jharkhand - 834004.
761	Bheem Tribal Congress	14E/J/804, Marwar Apartment, Chopasani Housing Board Jodhpur, Rajasthan-342008
762	Bhim Sena	Swaraj Nagar, Swaraj Appartment, 66/7/B-134/102, Maanewada, Ringh Road, Nagpur-440024
763	Bhojpuria Jan Morcha	Sahyogi Nagar, Post-Bahiro, Thana & District-Bhojpur, Ara, Bihar-802301
764	Bhrashtachar Mukti Morcha	Chandra Nagar, Kurud Road, Kohka, Bhilai, Tehsil & District - Durg, Chhattisgarh.
765	Bhrashtachar Virodhi Dal	R.Z.D- 120C, Nihal Vihar, (Nangloi), Delhi-110041.
766	Bhrashtachar Ka Ant Party	64/189, Gadaria Mohal, Kanpur, Uttar Pradesh-208001.
767	Bhumiputra United Party	Village-Itahar, Near Power House Gate, Post-Itahar, Police Station-Itahar District-Uttar Dinaj pur, West Bengal-733128
768	Bhumisantan Adhikar Party	Village-Taluk Ranaghata, P.O.-Purba Ranaghata, P.S.-Mathurapur, Distt.- South 24 Parganas West Bengal-743338
769	Bihar Janta Party	Village: Jail Shahar, Old Remand Home, Dharmnath Mandir Road, Daulatganj, Saran, Bihar - 841301
770	Bihar Justice Party	Plot No. 2251, Yadhuvanshi Nagar, Digha Ashiana Road, Patna, Bihar-800011
771	Bihar Lok Nirman Dal	Mohalla - Noongola, Thana Nagar & Post - Hazipur, District - Vaishali, Bihar-844101
772	Biju Swabhiman Dal	Plot No-40, Umapada, Stadium VIP Road, PO - FC Project, Kalinga Nagar, Jajpur Road, Jajpur, Odisha - 755020.
773	Bira Oriya Party	C/o Shri P.Samantaray, LAS(Retd.), At/P.O. Madhupatna, Cuttack-10(Orissa).

774	Blue India Party	H.No.2-8,Village & Mandal-Bachupally,District-Medchal,Malkajgiri,Telangana-500090
775	Bolshevik Party of India	C/o- Dr. Shashikant Waikar, 9, Bhupeshnagar, Gorewada Road, Nagpur-440013, Maharashtra.
776	Brabar Samaj Saanjhi Party	House No. 698, Village - Arniawali, Tehsil - Nathusari Chopta, District - Sirsa, Haryana- 125055
777	Braj Party	Beswan Morh, Aligarh Mathura Road, Post - Beswan, Gram Panchayat - Nayabaas, Tehsil - Iglas, District - Aligarh, Uttar Pradesh - 202145
778	Braj Vikas Party	A-193, Trans Yamuna Colony, Phase-II, Agra-286002, Uttar Pradesh.
779	Brihattar Bharat Prajatantra Sewa Party	Behind of the Palace, Kishorganj Panna, Distt. - Panna, Madhya Pradesh.
780	Brij Kranti Dal	16, Haryana Bhawan, Dyal Bagh, Agra-5, Uttar Pradesh.
781	Bruhat Bharatiya Kalyana Paksha	2484/F, AECS Layout, Koodlu, AECS Layout, A-Block, Bangalore, Karnataka-560068.
782	Buland Bharat Party	Shop No.8 First Floor,SCO No. 84-85,Sector-16,Near Sagar Cinema,Faridabad,Haryana-121002
783	Bundelkhand Congress	56, Jwala Heri Market, Sarbati Complex, Paschim Vihar, Delhi-63
784	Bundelkhand Kranti Dal	House No.40, Mohalla- Khai, New Basti, Jhansi Uttar Pradesh -284001.
785	Bundelkhand Vikas Dal	C/o Shiv Narayan Khare (Advocate), 116/3 Shivalaya Kishor Ganj, Town Area, Kulpahar, District - Mahoba, Uttar Pradesh-210426
786	Challengers Party	Durgesh Nivas, Opp. Vithoba Temple, 68/XX, Tailor Street, Cowl Bazaar, Bellary, Karnataka- 583102.
787	Chandigarh Ki Aawaz Party	H.No. 2207, Ground Floor, Sector- 45C, Chandigarh- 160047
788	Chennai Youth Party	H. No. 2595,TNHB,Ayappakkam,1st Floor,Chennai,Tamil Nadu 600077
789	Chhatrapati Shivaji Bhartiya Garib Party	Village Fateput Khanda),Post-Katauna,District-Varanasi,Uttar Pradesh-221208
790	Chhattisgarh Ekta Party	H.No. 182/2, Ward No. 08, Bade Padarmooda Road, Jamgahan, Tehsil-Malkharoda, District- Janjgir Champa, Chhattisgarh- 495691
791	Chhattisgarh Mahatari Party	LIG 76,Sector-2,Shankar Nagar,Raipur,Chhattisgarh,PIN-492007
792	Chhattisgarh Mukti Morcha	P.O.Dalli Rajhara, Distt-Durg -491228 (Chhattisgarh).
793	Chhattisgarh Samajwadi Party	Ramanujganj Road, In front of Sanjay Park, Ambikapur, Chhattisgarh - 497001.
794	Chhattisgarh Sanyukt Jatiye Party	Bajrang Nagar (Tatyapara Ward),Raipur, Chhattisgarh.
795	Chhattisgarh Swabhimani Manch	21, Battis Bangla, Bhilai Nagar, Distt. - Durg-490006,Chhattisgarh.
796	Chhattisgarh Vikas Ganga Rashtriya Party	Khongapani, District - Korba, Chhattisgarh - 497447
797	Chhattisgarh Vikas Party	A-12, Flash Vihar, New Purena, Post Office - Ravigram, Raipur, Chhattisgarh.
798	Chhattisgarhi Samaj Party	Handipara, Azad Chowk,Raipur-492001 (Chhattisgarh).
799	Chhattisgarhiya Party	House No. 93, Village - Dhanrashi, Post - Chhuri, Tehsil - Katghora, District - Korba, Chhattisgarh.
800	Chhava Dal	Survey No. 11/2, Plot No. 01 at sitaram Nagri, Malharwadi, Post-Hingoli, Taluka-Hingoli, District-Hingoli, Maharashtra- 431513
801	Christian Democratic Front	No.9, Rosary, Church Road, San Thome, Chennai (Tamil Nadu).
802	Citizen Action Party-Sikkim	Party Head QTR,Lower Lumsay,Adampool to Reshithag Road,Gangtok,Sikkim-737128
803	Citizen Party	H.No.53,Survey No. 620,Bajanaikoil Street,Madhanankuppam Kolathur,Chennai Tamil Nadu- 600099.
804	Civil Rights Party	Flat No. D-89, Ground Floor, Block-16, Shivjot Enclave, Kharar SAS Nagar, Mohali, Punjab - 140301
805	Communist Marxist Party Kerala State Committee	Kunnukuzhy, Trivandrum-695037(Kerala).

806	Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star	C-141, Sainik Nagar, New Delhi-110059.
807	Communist Party of Telangana (Marxist-Ambekarist)CPT(MA)	H. No. 2-2-1106/B/SBK/1, Shanti Nagar, Amberpet, Distt.-Hyderabad, Telangana-500013
808	Congress (Secular)	Ram Raj Bhavan, Manikkath Road, Cochin-16. (Kerala).
809	Corruption Abolition Party	House No. - 219, VPO - Sheriya, Tehsil - Beri, District - Jhajjar, Haryana.
810	Country Citizen Party	5, 'Padmavathi' Behind Maramma Temple, Chikkalasandra, Bengaluru, Karnataka- 560061.
811	Daksha Party	I/1102, Raheja Vistas, Raheja Vihar, Chandivali, Andheri East, Mumbai, Maharashtra- 400072
812	Dalit Kranti Dal	Jati Meghwale, Gaon Post - Dholipal, Teh. & Zila - Hanumangarh (Rajasthan)
813	Dalit Mazdoor Kishan Party	E-11/77, New Colony, Hauz Rani, Malviya Nagar, New Delhi-110017.
814	Dalit Soshit Pichhara Varg Adhikar Dal	Village - Hasanpur Jagir, Post - Sikandrabad, District - Bulandshahr, Uttar Pradesh - 203205.
815	Dalit Vikas Party (Bharat)	Behind of High School, Ward No.3, Village & Post - Ghunwara, Teshil - Maihar, Distt. - Satna, MADHYA PRADESH
816	Dalita Bahujana Party	H.No. 1-7-186/303, Srinivasa Nilayam, Chaitanyapuri, Dilsukhnagar, Hyderabad- 500060
817	Delhi Janta Party	Y-200, Camp No.-1, Nangloi, Delhi-110041
818	Democratic Bharatiya Samaj Party	Gali No-7, Guru Nanak Pura (East), Near Chintpurni Mandir, Jalandhar, Punjab.
819	Democratic Congress Party	291, Odeon Wali Gali, Near Gopal Mandir, Majitha Road, Amritsar (Punjab).
820	Democratic Corruption Liberation Front	2F/1A Neduganvilai, Ponnappa Nadar Nagar, Nagercoil, Tamil Nadu - 629004.
821	Democratic Human Rights Movement Party	Thunduvila Veedu, Panjiyoor, Venjaramood P.O., Thiruvananthapuram, Kerala - 695607.
822	Democratic Labour Party	D. No. 3/78, P.O. Elampkunnappuzha, Dist - Ernakulam, Kochi, Kerala- 682511
823	Democratic National Allegiance	No.6, Rajavelu Street, Erukkancherry, Chennai-600118, Tamil Nadu
824	Democratic Organisation for Socio-economic Transformation of India Party	Plot No. 749, Basement, Sector-39, Gurgaon Haryana- 122003
825	Democratic Organization of Nation Party	Mannarayathu Thekkethil Veetil, (Padeerayathu Puthenveedu), Pallisserickal, P. O. Sasthamcotta, Kollam, Kerala- 690521
826	Democratic Party of India	162, Anandrao Umra Marg, Ashok Nagar, Nagpur-17 (Maharashtra).
827	Democratic Party of India (Ambedkar)	Mohalla Taj Pura, Rahon, Teshil - Nawanshahr, S.B.S. Nagar, Punjab - 144517.
828	Democratic Prajakranthi Party Secularist	Ummathur Post & Village, Hunsur Taluk, Mysore District Karnataka- 571105.
829	Democratic Progressive Azad Party	National High Sonwar, Opposite Amar Singh Club, Srinagar, Jammu and Kashmir- 190001
830	Democratic Secular Party	At. Kohinoor Bakery, Umred Road, Tajabad, Aulia Nagar, Nagpur -24, (Maharashtra).
831	Democratic Social Justice Party	Thiruvonam, NLRA-140, Neerazhi Lane (No. 7/242), Trivandrum Corporation, Uloor, Medical College, PO-Trivandrum, Kerala-695011
832	Democratic Socialist Party (Prabodh Chandra)	63- Ananda Plit Road, 1st Floor, Kolkata-700014, West Bengal.
833	Democratic Socialist Party of India	359, West Kodalia, New Barrackpore, P.S. - Gholia, District - North 24 Parganas, Kolkata, West Bengal - 700131.
834	Democratic Swaraj Party	Arya School Road, V.P.O. Sohanu, SAS Nagar, Punjab- 140308.
835	Desa Makkal Munnetrak Kazhagam	3/ 72, Veerachelliyapuram Colony, Valliyur (Post), P. Kumaralingapuram, Amathur (Via), Taluk & District - Virudhunagar, Tamilnadu-626005.

836	Desceeya Praja Socialist Party	N.S. Bhavan, Vellayani, P.O. Nemom, Thiruvananthapuram-695020. Kerala.
837	Desh Bachao Jan Morcha	D-6/171, Sector-31, Noida-201301 (Uttar Pradesh).
838	Desh Bachao Party	223/A, Kewalpur, Ahilyabai Road, Muzaffarbagar, Uttar Pradesh- 251001
839	Desh Hit Party	Plot No. 467, Village- Jamuni, Post- Tarkulwa, District- Deoria, UTTAR PRADESH.
840	Desh Janhit Party	Plot No. 78, Vinayak Co. Housing Society Bidipeth, Behind Power House, Narsala, House No.4430/78, Mouza Bidipeth, Nagpur-30, Maharashtra.
841	Desh Prem Party	Ward No. 19, (Old Ward No. 17), Door No. 143(2), Opp. Old KSRTC Bus Stand, Kolachalam Compound, Janathakal Complex Ballari, Karnataka - 583101
842	Desh Seva Party	No. A-2, Adhana Bhawan, Village- Morna, Sector- 35, Noida, Uttar Pradesh- 201303.
843	Desh Shakti Party	14/39, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
844	Desha Dal	Manas Ranjan Mishra Khatian No.466/90, Tehsil No.198, Anand Vihar, Sarbahal, Near Hanuman Mandir, PO & PS- Jharsuguda, District- Jharsuguda, Odisha-768201
845	Deshbandhu Party	Village - Meharban Nagar, Near Primary School, Meharban Nagar, Bye-Pass Road Nanpara, Post - Balha, Tehsil - Nanpara, District - Balranch, Uttar Pradesh
846	Deshbhakt Jagat Party	638/111, Chetna Vihar, Sector-14, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh- 226016.
847	Deshbhakt Nirman Party	Sultanpur Barahganva, Post & Tehsil - Madhuban, Janpad - Mau, Uttar Pradesh
848	Deshi Kisan Party	House No. 1624, Ward No. 52, Lakhibag Manpur, District - Gaya, Bihar.
849	Deshvadi Party	House No.2184, D-Block, Indira Nagar, Janpad- Lucknow, Uttar Pradesh- 226016
850	Desiya Jananayaga Katchi	D.No. 4/133E, Anna Nagar, Reddipatty post, Namakkal District, Tamil Nadu-637002
851	Desiya Makkal Periyakkam	Plot No. 19, K.K. Nagar, Nannilam-610 10 Nannilam (Post) and Taluk, Thiruvannur, District, Tamil Nadu- 610105.
852	Desiya Makkal Sakthi Katchi	New No.21, Old No.11, Venkatraman Street, Mint, Chennai, Tamil Nadu - 600079.
853	Desiya Sirupanmayinar Makkal Iyakkam	S. John, No. 7, Pavunjur, Main Road, Keeralvadi- Village, Puliyanaran Kottai, Panjayat, Zamin, Endathur- Post, Madurantakam- Taluka, Kancheepuram- District, Chennai, Tamil Nadu- 603311
854	Desiya Uzhavar Uzhapalar Kazhagam	2/52, C.C. Road, E.B. office Opposite, Kilpallipattu Village, Vellore Taluk, Vellore District, Tamil Nadu- 632311
855	Dhanwan Bharat Party	Flat No. 002, D Wing, Shree Ganesh CHS, Shanti Vidyanagari, Mira Road (East), Taluka & District- Thane, Maharashtra- 401107
856	Dharam Nirpeksh Dal	24/42, Loknath Chowk, Allahabad (Uttar Pradesh).
857	Dharamarajya Paksha	601/602, Bldg. No. 7, Shubharambh Phase-I, Konkanipada Marg, Off GB Road, Manpada Thane-400610, Maharashtra.
858	Dharma Samaj Party	D. No. 8-17-90 B42, Nandanavanam, Karmanghat Village, Saroornagar, Mandal, Ranga Reddy District, Telangana-500079.
859	Dhartiputra Vikas Party	29, Vidhyut Abhiyanta Colony, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan-302017
860	Dhesiya Eliya Makkal Nala Katchi	No.8/166, Maruthampatti Colony, Kathalapatti (PO) Karur, Tamil Nadu- 639007
861	Dhesiya Makkal Kazhagam	Door No. 1/239-3, Main Road, R.C. Chettipatty, Kottamettupatty Village, Dharmapuri Omalur Taluk, District - Salem, Tamil Nadu - 636455.
862	Dhoom Sena	25/549, Shri Sheetla Mata Mandir Marg, Near Navbharat Chowk, Purani Basti, Raipur, Chhattisgarh- 492001
863	Digital Organization of Nation Party	Ward No. 25, Property No. 35, Plot No. 3776, Motinagar Pusad, Taluka Pusad, District- Yavatmal, Maharashtra- 445204.

864	Digvijaya Bharatha Party	#5 (40G), 21 st Main Road, Marenahalli, (Standard English School), Vijayanagar, Bengaluru, Karnataka-560040
865	Do Jama Panch Mudde Jan Party	Village – Asan, Tehsil & District – Rohtak Haryana
866	Dogra Swabhiman Sangathan Party	No. 9&10, Block- D, Sector- C, Gandhi Nagar, Jammu, Jammu & Kashmir - 180004
867	Dr. Ambedkar People Revolution Movement	No.4, 11 th Street, Kumarappa Nagar, Dharapadavedu, Katpadi, Vellore District, Tamil Nadu – 632007.
868	Dr. Ambedkar People's Party	106, 4th Cross, K.H. Ranganath Colony, Opposite BHEL Factory, Mysore Road, Bangalore-26, Karnataka
869	Dr. Ambedkar Samajvadi Democratic Party	Venkataiahna Chatra, Haradanahalli Hobli, ChamaraJanagara Taluk & District, Karnataka.
870	Dr. Bhimrao Ambedkar Dal	Village – Kothideeh, Tehsil – Pargna Navabganj, Janpad – Barabanki – 225001, Uttar Pradesh.
871	DR. MGR Democratic Party	New No. 2 & Old No. 2/75, Padavettamman Koil Street, Shenbakkam, Vellore-632008
872	Dravida Jananayaga Makkal Katchi	No. 6, Immanuel 2 nd Cross Street, Pallikarani, Chennai, Tamil Nadu- 600100
873	Dravida Janashakti Party	No. 4/87, Othaveedu, Allinagaram (P.O.), Thiruppuvanam, Sivagangai District, Tamil Nadu-630611
874	Dravida Makkal Padhukappu Kazhagam	No.2, 1st Lane, P.V. Kovil Street, Royapuram, Chennai, Tamil Nadu - 600013
875	Dravida Murpokku Makkal Katchi	No. 5/762, Sabari Road, Madipakkam Chennai Tamil Nadu- 600091
876	Dravida Peravai	69, Rangapillai Street, Pondicherry-605001.
877	Duggar Pradesh Party	Driving Institute Complex, Janipur, Jammu – 180007, Jammu and Kashmir
878	Ekam Sanatan Bharat Dal	20 B/B, Gandhi Nagar, Jammu & Kashmir-180004
879	Ekjut Adhikar Party	At-C-1037/2, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh-226016
880	Eklavya Samaj Party	53, B - Block, Old Darulshapha, Lucknow, Uttar Pradesh – 251 001.
881	Ekta Nirman National Party	Near Durga Mandir, 41-B, Vandana Nagar Tilak Nagar, Indore, Madhya Pradesh-452018
882	Ekta Samaj Party	6898, Neem Street, Ahata Kidara, Bara Hindu Rao, Delhi-110006.
883	Ekta Shakti	Jhanjhadi, Post – Bhaini Khurd, Tehsil – Nilokheri, Distt. Karnal, Haryana.
884	Ekta Vikas Mahasabha Party	Sinha Sadan, L.C.T. Ghat, East Mainpura, Thana- Pataliputra Colony, Post- G.P.O, Sadar- Patna, District- Patna, Bihar-800001
885	Eluchi Desam Party	Old No.-1/46, New No. – 34, Vadivalpuram, Post – Vadukatchimathil, Taluk – Nanguneri, District – Thirunelveli, Tamil Nadu – 627102
886	Engineers Party	Bhoothana Hosur, Post- Sunagahalli, District - Mandya, Karnataka- 571403
887	Equality Party of India	Mithunam, 15/818, 81A, Bhadra Nagar, Uliyakovil (PO), Kollam, Kerala- 691019.
888	Ezhuchi Tamilargal Munnetra Kazhagam	5/197, Chinna Managalakudi, Uthangudi Post, Madurai, Tamil Nadu - 625107
889	Fauji Janta Party	H.No- 104, Village - Manobas, Post Office- Baral, Tehsil – Secunderabad, Dist- Bulandshahar, Uttar Pradesh - 203001 .
890	Fauji Kisan Party	Village- Serahwa, Post office- Murali, Via Harinagar, District- West Champaran, Bihar- 845103
891	Federal Democratic Party	No. 244B, Kathmorwa, P.O. – Madainiya, Distt. – Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh – 224147
892	Forum For Presidential Democracy	B-145-146, Mittal Towers, Nariman Point, Mumbai- 400021 MAHARASHTRA
893	Forward Democratic Labour Party	Ward No.5, Opposite Rest House, Ganesh Nagar, Murmadi, Post and Tehsil- Lakhani, District- Bhandara Maharashtra – 441804.

894	Freedom Party	F-2/260, Top Floor, Sunder Nagri, Nand Nagri, Shahadara, Delhi- 110093
895	Freethought Party of India	121, Dharma Vihar, P.O. Khandagiri, Bhubaneswar, Odisha - 751030
896	Front of Revolutionised Creative Efforts	Shree Goverdhan Palace, Dhar Road, Udhampur - 182101 Jammu & Kashmir.
897	Gadar Party	House No. 32, Near Ramlila Ground, Padav Ward, Post Makandruganj, Distt. Pratapgarh, Uttar Pradesh-230001.
898	Gaddar Praja Party	Plot No. 26, H.No. 1-23-125/1 Bhodevi Nagar, Mandal, Alwal, Post-Thirumalagiri, Secunderabad, Telangana-500015
899	Gana Suraksha Party	Village-Disghlipur Tamulpur, P.S.-Tamulpur, Sub-Division-Baksa, District-Baksa Assam- 781367
900	Ganasangam Party of India	D.No. 6/786, Sakya Manzil, Ponvila Nagar, Trichy Road, Namakkal, Tamil Nadu - 637001.
901	Gandhi Ekta Party	K-63/01, Bhootbhairav Nakhas (Kashipura), Varanasi, Uttar Pradesh
902	Gandhi Prakash Party	House No.-126, Khata No.-236, Plot No.-637, Village-Sikathi, Post-Akhalashpur, P.S. - Bhabhua, District- Kaimur, Bihar.
903	Gandhiyan Peoples Party	C-1255, Indira Nagar, Lucknow-226016, Uttar Pradesh.
904	Gantantrik Janhit Party	C/o Vedvati Devi, West Lohanipur, Kadamkuan, Patna, Bihar-800003
905	Gareeb Aadmi Party	R-21, Mohan Garden, Uttam Nagar, New Delhi - 110059
906	Gareeb Jankranti Party	Ward - 12, Holding No. - 747/642, Daudpur Kothi, In front of MIT Gate, Laxmi Chowk, Brahmapura, Muzaffarpur, Bihar - 842003
907	Gareeb Kranti Party	House No. 7, Mukarpur Khema, Nawabka Ahata, Tehsil and District-Bijnor, Uttar Pradesh-246701.
908	Gareeb Samaj Swaraj Party	Shahpur Tigri, Post & Thana-Majhola, Muradabad, Uttar Pradesh-244001
909	Gareeb Samana Party	H.No. 399, Aawas Vikas Colony, District- Mirzapur-231001, Uttar Pradesh.
910	Garib Berozgar Vikas Party	Village- Champatpur, P.O- Ballia, Tehsil- Aawla, Vikas Khand- Alampur Jafarabad, District- Bareilly, Uttar Pradesh - 243402
911	Garib Democratic Party	132 Brind Lamar Maidan, Gurjar Basti, The Devsar, Kulgam, Jammu & Kashmir - 192231
912	Garib Ekta Party	A-71 Group, Vazirpur Industrial Area, Vazirpur, Delhi - 110052.
913	Garib Janshakti Party	Kumar Market, Akhadaghat Road, Holding No.17/15, Ward No.17, Near to Balughat Dhalan, Muzaffarpur, Bihar-842001
914	Garib Janta Dal (Secular)	Mitra Mandal Colony, Ward No.11, Located Holding No. 470, Saket Vihar, Anishabad, Patna-2 Bihar.
915	Garib Kalyan Party	No.-C/268, Shop No.2, Prabhakar Tent, Nr. Sejal Nagar Soci., Nr. G.D. High School, Sanjpur Bogha, Ahmedabad, Gujarat-382345
916	Garibi Mukti Bharat Party	H.No. 185, Baliya Dev Nagar, Vadodara, Gujarat- 390001
917	Garo National Council	New Tura, West Garo Hills (Meghalaya).
918	Garvi Gujarat Party	No. 112, Gheewali Chali, Chamapura, Asarwa, Ahmadabad, Gujarat-380016
919	Global People Peace Party	1 No. Anandanagar, P.O. - Anandanagar, P.S.-Kalyani, District - Nadia, West Bengal - 741245.
920	Goa Nationalist Party	House No. 442, Chinchmala, Wada Parye, Sattari, Goa- 403505.
921	Goa Praja Party	Classic Apartments, House No. - 69, Ella, Old Goa, Tiswadi, North Goa, Goa - 403402.
922	Goa Su-raj Party	383-A, Pirazona, Moira, Bardez-Goa (Pin-403514).
923	Goa Suraksha Manch	Shop No. 644/1, Ward No. 4, Ground Floor, Ahilyaram Niwas, Opp. Panchayat, Savaiverem, Ponda-Goa.
924	Goa Vikas Party	Laxmi Sadan, Ground Floor, Opp. Assembly Complex, Near Journalist Colony, Porvorim, Goa-403507.
925	Goemearancho Otreo Asro	H. No. 780-A, Mugally, Sao Jose de Areal, Salcete, Goa.
926	Goencho Swabhimani Party	H.No. 12/678, Behind St. Joaquim Chapel, Borda, Margao, Goa - 403601

927	Gokula Makkal Katchi	New No.7, Old No. 3, Venkatraman Street, Teynampet, Chennai, Tamil Nadu- 600018
928	Gondwana Gantantra Party	Village & P.O. Tiverth, Tehsil Kutghora, District-Bilaspur (Chhattisgarh).
929	Gondwana Congress Party	Shahapura, A-121, B.D.A. Colony, Bhopal, Madhya Pradesh.
930	Gondwana Dandkaranya Party	H.No.4-4-24/2/308/8/1, Near Green Kirana Shop, Beside Rickshaw Colony, Sanjay Nagar, Adilabad, Telangana-504001
931	Gondwana Mukti Sena	M-2, Poorvanchal Phase-I, Khazurikala Road, Bhopal-462 021, Madhya Pradesh.
932	Gorakha National Liberation Front	Dr. Zakir Hussain Road (Jalpahar Road), P.O. and District-Darjeeling, Darjeeling Gorkha Hill Council (West Bengal).
933	Gorkha Democratic Front	Shahi Niwas, Chandrabani, Post - Mohabbewala, Dehradun, Uttarakhand.
934	Gorkha Rashtriya Congress	9, K.B. Road, P.O. Ghoom, P.S. Jorebunglow, District Darjeeling, West Bengal.
935	Graduate India Party	No.443, Katha No. 1200, AGB Layout, BBMP Ward No.12, Chikkasandra, Bangalore, Karnataka-560090.
936	Gramin Vikas Party	Shiv Gram, Plot No. 323, (Khata No. 1161/1314), Entkal No. 5678, Kila No. 10/02, (1-0), Choma, Palam Vihar Extension, Tehsil & District-Gurugram, Haryana- 122017
937	Great India Party	D.No.1-1334, Devasthanam Road, Mangalagiri-522503, Guntur District, Andhra Pradesh.
938	Green Party of India	36-C, Govindpuri, Ramnagar, Sodala, Jaipur, Rajasthan-302006
939	Gujarat Janta Panchayat Party	City Survey No. 966, Rameshwar Mandirkepaas, Dilli Fali, Bokhira, Porbandar, Gujarat - 360577.
940	Gujarat Kisan Majadur Lokshasan Party	710/32, Green City, Street No. 5, Lalpur Road, Jamnagar, Gujarat-361005.
941	Gujarat Krantikari Party	Shop No.1, Madhur Complex, Vadgam, PO-Vadgam, Near Bus Stand, District-Banaskantha Gujarat-385421
942	Gujarat Loktantra Party	B/2, Sahakar Vikas Flats, Opp.-Monanagar, Nehrunagar, S M Road, Ahmedabad, Gujarat-380015
943	Gujarat Nav Nirman Sena	C-19, Jayraj Flat, Soni Ni Chali, Odhav, Ahmedabad, Gujarat-382415
944	Gujarat Sarva Samaj Party	Plot No.20, Survey No.133/3, Nirmal Nagar, Kidana, Tehsil-Gandhidham, Distt.-Kachh, Gujarat-370205
945	Gunj Satya Ni Janata Party	Office No. C/442, Sumel - 7, Soni Ni Chawal Cross Road, N.H.No. 8, Rakhiyal, Ahmedabad - 380023.
946	Gurgaon Residents Party	C-1927, Sushant Lok-I, Gurgaon - 122 002, Haryana.
947	Guru Chand Mukti Morcha	G-52, Aruna Nagar, Majnu Ka Tilla, Civil Lines, Delhi-110054.
948	Guruchand Sena Dal	106, Purba Panchanna Gram South, Post-VIP Nagar, PS-Anandapur, Kolkata, West Bengal - 700100
949	Haakim Apna Party	Mohalla Mehmood Khan, Sarai Nakhasa Chauraha, Sambhal, Tehsil & District - Sambhal, Uttar Pradesh - 244302.
950	Hamar Raj Party	K-19, In Front of Gomti Industries, Laxmi Nagar, Raipur, Chhattisgarh-492001.
951	Hamara Kam Dhandha Aur Berojgar Party	H.No.652, Iregaa Project, Post-Ralegan Siddhi, Swaraj Hind Trust Road, Maharashtra-414302.
952	Hamara Sahara Party	Sanand Bhawan, Village and Post - Masaurha, P.S. - Paliganj, District - Patna, Bihar - 801110
953	Hamara Sahi Vikalp Party	Flat No. 303, K.H. No. 167, Lal Dora, Village-Kapashera New Delhi-110034
954	Hamari Apni Party	Survey No. 75/1, Indrayani Vihar, Sant Nagar, Lohgaon, Pune, Maharashtra - 411047
955	Hamari Janmanch Party	1/12, New Chukuwala, Dehradun, Uttarakhand.
956	Hamdard Party	Mohalla - Sayyadvada, Post- Satti Masjid, City - Ghazipur, District-Ghazipur, Uttar Pradesh- 233001

957	Hamdardi Janrakshak Samajvadi Vikas Party (Jansevak)	Village- Udhura. Post office- Dallapur, P.S- Brahampur, District- Buxar, BIHAR-802130
958	Hamro Sikkim Party	Om Shanti Niwas, Lower Marchak, Rani Pool, East Sikkim, Sikkim - 737135
959	Haq Insaaf Party	No.3037,Talab Kharikan, Jammu,Jammu & Kashmir-180001
960	Hardam Manavtawadi Rashtriya Dal	No. 3-10-18, Pattabhipuram, Guntur, Andhra Pradesh- 522006
961	Harit Pradesh Vikas Party	House No. 34, Gram - Tabela Gadhi,Tehsil - Baraut, Distict - Bagpat,Uttar Pradesh - 250622
962	Haryana Democratic Front	No. 549,Mathura Nagri,Ambala City Haryana- 134003
963	Haryana Development Party	H.No.2079,Sector-4,(Near Community Centre),Rewari,Haryana-123401
964	Haryana Hitkari Dal,	Village-Brahaman Majra, P.O.-Bhadaur, Tehsil-Panipat, District-Panipat, Haryana- 132103
965	Haryana Insaaf Congress	Farm House, Near Bhagwat Bhakti Ashram, Rampura, Rewari - 123401 Haryana.
966	Haryana Jan Chetna Party (V)	Kothi No. 118A, Circular Road, Model Town, Ambala City, Haryana - 134003
967	Haryana Jan Sevak Party	32A/34,Ashish Kutter,Near Shiv Park,Janta Colony,Rohtak, Haryana- 124001
968	Haryana Janhit Vikas Party	531A,Sector-4,Rohtak,Haryana- 124001
969	Haryana Janrakshak Dal	249/3, Park Road, Adarsh Nagar,Gohana, Distt. Sonapat, Haryana.
970	Haryana Jansena Party	H.No.633, Ground Floor, New Janta Colony, Opposite Saran Thana, Faridabad, Haryana-121005
971	Haryana Kranti Dal	Babain Road, Ladwa, District - Kurukshetra Haryana
972	Haryana Lokhit Party	Shop No.8, SCO-2, Old Judicial Complex, Jharsa Road, Sector - 15, Gurgaon, Haryana - 122001
973	Haryana Navnirman Sena	101, Village - Silokhra,Gurgaon, Haryana.
974	Haryana Sarvajan Party	H. No. 236, Ward No. 2, Gram Panchayat Radaur, District - Yamuna Nagar, Haryana.
975	Haryana Swatantra Party	House No. 154, Village & P. O. - Jakhauda, Tehsil - Bahadurgarh, Distt. - Jhajjar, Haryana.
976	Helping Hand Party	B - 203, Shree Ram Heights, Samor Residency, Near Toll Tax Muthiya, Naroda, Ahmedabad - 382330, Gujarat
977	Himachal Jan Kranti Party	H.No.435, Ward No.10, Sham Nagar, Dharamshala, District-Kangra, Himachal Pradesh- 176215
978	Himachal Janta Party	Pawan Katoch C/o Urmila Devi, 88, Mahal Vihar, H. No. 248, Vill.-Band Vihar, P.O.- Deogran, Tehsil-Palampur, District-Kangra, Himachal Pradesh- 176061.
979	Himachal Lokhit Party	Shastri Bhawan, Devnagar, Kasumpti, Shimla-171009, Himachal Pradesh.
980	Hind Congress Party	C-6, South Side, GT Road, Industrial Area, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
981	Hind Hitaishi Hind Maa Sena	I-Virat Nagar,Sawan Park,Parshura Chowk Phase-II,Conal Bypass,Model town,(Near Hotel Virat Palace),Panipat,Haryana-132103
982	Hind Jan Congress	72, Pyarelal Compound, Nagra, Jhansi, Uttar Pradesh.
983	Hind Jan Swaraj Party	Village-Kishanpur,Post-Benipur,Police Station-Bahera, Darbhanga,Bihar- 847208
984	Hind Samarpit Party	156, Shahbisiwa Jahalpur, Raghunathpur, Muradanagar, Ghaziabad,Uttar Pradesh- 201206
985	Hind Samdarshi Party	F-64, Galaxy Apartment, Sector - 43, Gurgaon, Haryana - 122002.
986	Hind Samrajya Party	512/69K/1, Walda Road,Nishatganj, Lucknow, Uttar Pradesh- 226007.
987	Hind United Morcha	No. J-1, Shivalik Towers, Shivalik City, Sector-127, Kharar, S.A.S. Nagar, Punjab-140501
988	Hind Vikas Party	P.O. Sri Haribhagwan Nagar,Tapakalan, Near Kali Mandir, Jalesar Road, Ferozabad(Uttar Pradesh).

989	Hindu Ekta Andolan Party	Hindi Ekta Karyalay, Malhar, Khan Bhag, Police Chowki. H.No.927/1, Sangli-416416, District Sangli, Maharashtra.
990	Hindu Samaj Party	Rashtrawadi Dharma Satta, 26-A, Khurshedbad, Lucknow - 4, Uttar Pradesh
991	Hindustan Ekta Party	Shop No. 132/2, Kesho Ram Complex, Sector - 45 C, Chandigarh-160047.
992	Hindustan Hamara Party	555A/1, Mumfordganj, Allahabad, UTTAR PRADESH-211002
993	Hindustan Inquilab Party	Mahesh Prasad Mandal, Village-Jhinki, P.O.-Hisar, Thana No. 32, Block-Harlakhi, Bajrang Bazaar Jhinki Distt. Madhubani, Bihar-847230
994	Hindustan Janmorcha	House No. 1, Village & Post - Tekua, District - Deoria, Uttar Pradesh - 244182.
995	Hindustan Jansewa Paksh	At-33, Abbabhai Sathe Nagar, Rambai Colony, V.N. Naik Marg, Eastern Express Highway, Ghatkopar (East), Mumbai - 400084
996	Hindustan Janta Party	M/s Sono Sales Corporation, Subji Mandi, Khokadpura, Aurangabad (Maharashtra).
997	Hindustan Janta Party Secular	Village-Morena, Post-Sirsa Viran, Thana Lulganj, District Vaishali, Bihar-844123
998	Hindustan Kranti Dal	Village - Tundlaka, Panchayat - Goudhola, P.O & Tehsil - Punahana, Distt. - Mewat (Nuh), Haryana.
999	Hindustan Krantikari Dal	A-65, Sector - 34, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.
1000	Hindustan People's Party (Democratic)	H. No. 57, (Sky Sadam), Plot No-34/392/B8/C, Vill-Palbagan, Ward-4, Mihijam Jantara, Jharkhand - 815354.
1001	Hindustan Rashtreeya Party	Door No. 64-8/1/1, Raghavanagar, Paramata Lanka, Vijayawada, Krishna District, Andhra Pradesh- 520010
1002	Hindustan Samaj Party	Village & Post- Jagdishpur, Deeh- Raebareilly, Uttar Pradesh- 229310.
1003	Hindustan Sampooran Azad Party	Gram-Senduari Purushottam Ward No.8, Post-Bakhri, Thana-Anchal-Motipur, Muzaffarpur, Bihar-843111.
1004	Hindustan Shakti Sena	H. No. 1113/11, Darshan Singh Nagar, Alipur Road, Patiala, Punjab
1005	Hindustan Swaraj Congress Party	Shewar Bangla A.B. Nair Road, Juhu, Mumbai-4000491, Maharashtra
1006	Hindustan Tehreek-E-Insaaf	H.No. 1-12-386, Rajahawdi, Patvadi Naka Bahar Bhuj, Tahsil- Bhuj, District- Kachchh, Gujarat - 370001
1007	Hindustan Utthan Party	House No. 438, Village- Ravanikateri, Post- Bugrasi, Tehsil- Syana, District- Bulandshahr, Uttar Pradesh-245403
1008	Hindustan Vikas Dal	Karman Tola, Arah, District - Bhojpur - 802301 Bihar.
1009	Hindustan Zindabad Party	No.C-33, Hari Krishna Park, Cadila Road, Ghodesser Crossing Pass, Ahmedabad, Gujarat-580050.
1010	Hindustani Awaam Party	H. No. 202A/104, Jawahar Nagar, Near Hathi Park, Lucknow, Uttar Pradesh - 226001.
1011	Hindustani Awam Manch (United)	Village-Dakhner, Post-Paraiya, Thana-paraiya, Distt. Gaya, Bihar-824209
1012	Hindustani Awam Morcha (Secular)	Maa Shabari Kutir, Godawari, P.S. - Rampur, District - Gaya, Bihar- 823001.
1013	Hindustanwadi Party (Jaihind)	H.No.102, Village-Ramdattpur, Post-Pandaypur, P.S. Camit, Varanasi, Uttar Pradesh-221007
1014	Hindusthan Nirman Dal	House No. 100, Gali No. 5, Krishna Nagar, Safdarjang Enclave, New Delhi.
1015	Hindusthan Praja Paksha	7/702, 'C' Wing, Sheetal Dhara Complex, Plot No. 28, Sector-7, Kamothe, Navi Mumbai - 410209, Maharashtra.
1016	Hindvi Swarajyay Dal	No. 167, Ambikanagar, Bhachau-7, Bhachau-Ta Chachau, District- Kachchh, Gujarat- 370140.
1017	Hitech Party	B-85, Vilbhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh - 226010.
1018	Hmar Peoples Convention	C/o Lalauva, House No. A/56, Bawngkawn Chimveng, Aizawl - 796 014 (Mizoram).

1019	Hum Bhartiya Party	House No. 1-3-3227, Harshrush, Behind Mukta Lawns, Jijau Nagar, Barshi Road, Beed, MAHARASHTRA- 431122.
1020	Hum Ek Hai Party	House No. 212, Khasra No.15/21, Rashid Nagar, Nal Sahab Road, Nagpur, Maharashtra-440018
1021	Hum Kisan Party	House No. 1699/G-25/A1, Vidya Nagar, Road No. 1, Harmu, Ranchi, Jharkhand - 834002
1022	Hum Log Party	803-B, Beverly Park 1, MG Road 1, MG Road DLF Phase-2, Sector-25, Chakarpur (74), Gurgaon, Haryana-122002
1023	Hum Sabki Party	Village - Mahimapur (Jalalpur Chaumuhani), Post - Jalalpur, District - Jaunpur, Uttar Pradesh - 222136
1024	Human Democratic Party	D.No.2/42, Boosipalli Village, Thenepalli Post, Vepanapalli Panchayathi, Puthalapattu Mandal, Chittoor District, Andhra Pradesh-517124
1025	Humanity for Peace Party	1-A, A.R. Rahuman Nagar, JMS Compound, Ka Na Vilakku, Aundipatti Taluk, Theni District, Tamil Nadu-625512
1026	Humanity Universal Motion Party	C/o Shamik Banerjee, #Holding No.84/1, Inda Rabindrapally, Ward No.02, Near Prantik Club, Kharagpur, District-Paschim Medinipur, West Bengal-721305
1027	Ilantamilar Munnani Kazhagam	1/159, Pezhar Nagar, Thirissulam, Chennai, Tamil Nadu- 600043
1028	Independent Indian Congress	At Post Pimpalgaon By Mahalunge, Tal. - Ambegaon, Dist. - Pune, Maharashtra - 410503
1029	Independent Nationalist Front	No.89, Sathangadu Village Street, Sathangadu, Tiruvottriyur, Chennai, Tamil Nadu-600019
1030	Independent People's Party	House No.63, Kargil Colony, Narwal Bala, Jammu, Jammu & Kashmir.
1031	Indhia Kudiarasu Katchi	11, Karpagambal Nagar, III Street, Kottivakkam, Chennai - 600 041, Tamil Nadu.
1032	Indhu Dravida Makkal Katchi	No.14, Balaji Nagar, Chikkarayapuram, Mangadu, Chennai, Tamil Nadu - 600069
1033	India Dravida Makkal Munnetra Katchi	Door No. 15/1, Ward No. 21, Sarojini Nagar, Towerline Colony, Erode Corporation Zone II, Erode-638011, Tamil Nadu.
1034	India Greens Party	104, Vardhman Complex, 1 st Floor, LSC, Savita Vihar, Delhi-110092
1035	India Janshakti Party	Plot No. 20, 21 & 22, Nai Basti, Nahar Road, Saidpur Jagir, Near Bhuiyan Devi Mandir, Lucknow, Uttar Pradesh- 226062
1036	India Makkal Munnetra Katchi	95, Cauveri Street, Bhavani - 638301, Erode District, TAMIL NADU.
1037	India Manus Party	Plot No. 2308, Khatian No. 1505, Vill & Post Talbanguria, Mehar Ali Tola, P.S.-Harishchandrapur, District-Malda, West Bengal-732125
1038	India Praja Bandhu Party	H. No. 18-1-317/A/68/1, Shivaji Nagar, Uppuguda, Hyderabad, Telangana-500053
1039	India Rising Party	H.N. 39, Fatchpur, Kapoorapur-I, Tehsil- Tirwa, Dist- Kannauj, Uttar Pradesh- 209723
1040	India Samadhan Party	H.No. 129, Village & Post- Chauradev, P.S.-Gagalhedi, District- Saharanpur, Uttar Pradesh- 247669
1041	India Suyarajya Party	No. 48, Cholan Street, Praksah Nagar, Ambattur, Chennai, Tamil Nadu-600055
1042	Indian People Association Party	H.No. 2-74, Village- Venkatapur, Laxmi Narasimha Swami Temple, Town Mandal- Velpur, District- Nizamabad, Telangana State-503311
1043	Indian Aarthik Sudhar Party	H. No. - 1, Manjit Nagar, Basti Sheikh, Jalandhar, Punjab.
1044	Indian Alliance Party	Shop No. 6, I/121/6/83, Alnoor Society, Ahmedabad Road, Balasinor, District- Mahisagar, Gujarat- 388225
1045	Indian Bahujan Samajwadi Party	2/3, Ambedkar Nagar, Post-Nagina, Distt. Bijnaur-246762 (Uttar Pradesh).
1046	Indian Believers Party (IBP)	Old H. No. Central Office-8-3-168, Flat No. 201, 2 nd Floor, Bhanu Towers, ESI Hospital, Metro Station, S.R. Nagar, Hyderabad, Telangana State-500038.

1047	Indian Business Party	1207, Pragati Tower, 26-Rajendra Place, New Delhi-110008.
1048	Indian Christian Front	LIG-289, Anna Nagar, Opp Velankanni Church, Madurai- 625020, Tamil Nadu.
1049	Indian Christian Secular Party	Plot No. 8, Wahab Nagar, Sikh Village, Secunderabad- 500 009.
1050	Indian Citizens' Party	At: Markata Nagar, Sector-10, Plot No. C-43, P.O. - Abhinaba Bidanasi, Cuttack-753014 Orissa.
1051	Indian Democratic Congress	Vill.-Babu Sankar Nagar, Mouja- Bhalucksundi, J.L.No: 22, Post- Aligarh, P.S.- Rajnagar, Dist- Birbhum, West Bengal- 731130.
1052	Indian Democratic Party	D- 978, Jan Kalyan School Road, Bhajan Pura, Delhi - 110054
1053	Indian Democratic People's Party	Babugachh, P.O. Gendagachh, P.S. Chopra, Islampur, District- Uttar Dinajpur, West Bengal- 733207
1054	Indian Gandhian Party	Kuriyakott Building, Thekkumpadam Road, Pattikkad P.O., Thrissur District, Kerala-680509.
1055	Indian Indira Congress (R)	1-Roop Rajat Nagar, Behind New Bus Stand, Pali, Rajasthan -306401
1056	Indian Justice Democratic Party	TC/25/25(3), GBNRA-63, Kalpalayam Lane, Gandhiamman Covil Road, Thiruvananthapuram, Kerala- 695001
1057	Indian Krantikari Lehar	Mohalla Dhudi Wala, Bazigar Basti, Faridkot, Distt. - Faridkot, Punjab.
1058	Indian Labour Party (Ambedkar Phule)	D.No.26-28-118, 1 st Line, Netaji Nagar, A.T. Agraharam, Guntur, Andhra Pradesh - 522004.
1059	Indian Lovers Party	No.-23, B-Block, 2 nd Street, Bhoopathy Nagar, Kodambakkam, Chennai, Tamil Nadu - 600024.
1060	Indian Makkal Kalvi Munnetra Kazhagam	No.3, Deenadayalau Street, T. Nagar, Chennai-600017, Tamil Nadu.
1061	Indian Milan Party of India	Golbazar, Post- Akot, District- Akola, Maharashtra- 444101
1062	Indian Minorities Political Party	D. No. 9-4-51/35/48, Hakeempet (I.A.S.) Colony, Towli Chowki, Post - Golkonda Fort, Hyderabad - 500008, Andhra Pradesh.
1063	Indian Movement Party	No.-65, Mantappa Village, Bannergatta Road, Jigani Hobli, Anekal Taluk, Bangalore Karnataka- 560083
1064	Indian National League	No.7, Balwant Rai Mehta Lane, Kasturba Gandhi Marg Cross, New Delhi- 110001.
1065	Indian National Manavadhikar Party	Plot No. 429/(R), Rani Durgavati Chowk, N.I.T. Complex Binki Layout, Nagpur, Maharashtra- 440017
1066	Indian National Parivartan Party	C-316A, Vashi Plaza, Plot No. 80/81, Sector- 17, Vashi, Navi Mumbai, Maharashtra- 400703
1067	Indian National Samaj Party	D-64/52, E-1 Kh, Madhopur, Sagra, Varanasi, Uttar Pradesh - 221010
1068	Indian National Secular Democratic Party (of India)	Virk Farm, Near Main Canal Bridge, Verowal Road, Jandiala Guru, District- Amritsar, Punjab-143115
1069	Indian National Socialistic Action Forces	Amua, Post Office & Police Station-Sainthia, District-Birbhum, West Bengal - 731234.
1070	Indian National Youth Party	No.68-B, Devasandra, K.R.Pura, Bengaluru, Karnataka-560036
1071	Indian National Yuva Jana Party	H.No.9-14, Prashant Nagar, Boduppal, Ghatkesar Mandal, Ranga Reddy District, Telangana-500092
1072	Indian Nationalist Alliance Party (India)	C/ 1061/5, Indranagar, Lucknow, Uttar Pradesh- 226016
1073	Indian New Congress Party	Office No. 107, 2 nd Floor, 1 st Cross, 'A' Block, A.K. Colony Road, Ghousia Nagar, Mysore City, Karnataka- 570 019.
1074	Indian People's Conference Party	H/o Makhdoom Sahib, House No. 51, Rainawari, Srinagar, Kashmir, Jammu & Kashmir.
1075	Indian Peoples Adhikar Party	544, Narsingh Ward, Madan Mahal, Jabalpur, Madhya Pradesh-482001
1076	Indian People's Forward Bloc	Tangra Housing Estate, Block-L/1, Flat -5, 40/1, Trangra Road, Kolkata-15, West Bengal.
1077	Indian Peoples Green Party	19, Shubham Enclave, C-Scheme, Jaipur, Rajasthan.

1078	Indian Praja Congress	Mathrudevobhava, Shop No. 1, Ground floor, Liberty Plaza, Door No. 3-6-365/UG/3-4, Himayath Nagar, Hyderabad, Telangana- 500029
1079	Indian Public Federation Party	220, Vardhman Fortune Mall, (Opp. Mahendru Enclave), G.T. Karnal Road, Delhi- 110033
1080	Indian Public Party	B-1, Raj Complex, Sanskar Mandal, Bhavnagar - 364002, Gujarat
1081	Indian Rakshaka Nayakudu Party	House No. 4-279, Basaveshwara Colony, Makthal, District- Mahabub Nagar, Telangana State-509208
1082	Indian Sarvahi Party	6-B/138, Gopesh Kunj, Vrindavan Yojna, Raebareilly Road, Lucknow, Uttar Pradesh- 226025.
1083	Indian Savarn Samaj Party	H. No. 0053, Daudpur, Gorakhpur, Uttar Pradesh
1084	Indian United Peoples Party	Ward No.18, Indira Chowk, Sohagpur, Shahdol, Madhya Pradesh-484001
1085	Indian Unity Centre	Vill & P.O- Somruk, P.S- Uluberia, Dist- Howrah, Pin-711316, West Bengal.
1086	Indian Vikas Party	Khasra No. 327, Khoda Hajari Buteshwar Bagichi Road, Tehsil & District- Hathras, Uttar Pradesh- 204101
1087	Indian Youth Progressive Party	Chitrangi Marg, Itar Road, Deosar, District- Singrauli, Madhya Pradesh-486881
1088	Indians Victory Party	3/261-2, Anandan Nagar, Asaripallam-629201, Kanyakumari District, Tamil Nadu
1089	Indigenous Nationalist Party of Twipra	Abhoyanagar, Agartala-799005 (Tripura).
1090	Indiya Jananayaka Katchi	No.9, 3rd Avenue, 34th Street, Ashok Nagar, Chennai-600083, Tamil Nadu.
1091	Inqlabi Party	Behind B.T.L. School, Mahavir Nagar, Bhind, Madhya Pradesh. Pin - 477001.
1092	Insaaf Di Awaz Party	MC No. 9/128/D, 9/128E, Gali No. 10, Ward No.9, Near Kansal Gas Agency, Raman Mandi, Tehsil- Talwandi Sabo, District- Bathinda, Punjab- 151301
1093	Insaafwadi Party	Village & post - Piyari, P.S. - Chaubeypur, District - Varanasi, Uttar Pradesh - 221104.
1094	Insaniyat Lok Vikas Party	Plot No. 1938/447/2, Cro Hind Scrap Store, Street No.-2, Janta Nagar, Near PNB, Ludhiana, Punjab-141003
1095	Insaniyat Party	H. No. 262/1, Gannayak Bhavan, At & P.O. Sanali, Taluka Mahudha, Distt. Kheda, Gujarat - 387330.
1096	International Party	Block-B-5, Flat No.-111, Yamuna Vihar, Delhi-110053
1097	Islam Party Hind	Mohalla: Rajde Pur, Post-City Janpad, Gazipur, Uttar Pradesh.
1098	Ittehad-E-Millait Council	93, Sodagaran, Dargah Aala Hajrat, Bareilly, Uttar Pradesh.
1099	J & K Peoples' Movement	Sheikhpora, Humhama, Tehsil & District- Budgam, Jammu & Kashmir- 191111
1100	J&K United Peace and Development Party	Bagandar, Lasjan-B, Near Bund Road, Srinagar-191101, Jammu & Kashmir.
1101	Jaago Bharat Front	D - 185 B, Mohan Garden, Uttam Nagar, Delhi - 110059.
1102	Jaathia Chethi Vruthula Ikya Vedika Party	Door No.12-494, Sapthagiri Colony, 9th Line Bus stop, Thimmalanaidu Palem (Post), Thirupathi Urban Mandal, Chittoor District, Andhra Pradesh- 517507.
1103	Jahre Des Mharo	149, Kalyan Kunj, Opp. Jhotwara Post Office, Jhotwara, Jaipur, Rajasthan- 302012
1104	Jagat Kalyan Morcha	Village-Nanni, P.O.-Matiana, Tehsil-Theog, District-Shimla, Himachal Pradesh-171212
1105	Jago Bharat Jago Party	14A-84, W.T.A, Karol Bagh, New Delhi-110005
1106	Jago Hindustan Party	H. No. 368, Mohalla- Kalyani Devi Civil Lines, District- Unnao, Uttar Pradesh-209801
1107	Jago Party	9-1-108/1, 2nd Floor, Tata Chary Compound, S.D. Road, Secundrabad - 500 026, Andhra Pradesh.
1108	Jagrook Janta Party	Village- Dilawarpur, P.O. & P.S.-Bihta, District- Patna, Bihar- 801103
1109	Jagte Raho Party	C/o Ms. Kshama R Desai, 2, Vanka Bungalows, Near Sabari School, Vasna Road, Baroda Gujarat.

1110	Jai Andhra Party	D. No. - 14-71, Chagalnadi Steels, Morampudi Junction, Rajahmundry, East Godavari District, Andhra Pradesh - 533105.
1111	Jai Bharat National Party	12-4-27, Vijayawada Municipal Corporation, Revenue Ward 40, Vijayawada-520001, Andhra Pradesh.
1112	Jai Bharat Party	RZH-710E (E/54), Raj Nagar II (Near Dev Hospital), Palam Colony, New Delhi-110045.
1113	Jai Bharat Samanta Party	A-36/54-V-1, Samanata Shakti Bhawan, Kajjapura, Koniya Road, Varanasi, Uttar Pradesh.
1114	Jai Bharath Jena Sena Party	D. No: 42-64-1/1, Luna Centre, Opp. M.K. Baig Municipal Corporation High School, Singhnagar, Vijayawada, Krishna District, Andhra Pradesh - 520015
1115	Jai Hind Congress Party	Shop No. 34, Ridhi Sidhi Colony, Rawla- Mandi, Tehsil- Gharsana, Sriganganagar, Rajasthan- 335771
1116	Jai Hind Jai Bharat Rashtriya Party	BK No.1366, Room No.10, Maratha Section-32, Station Road, Near Ulhas Vidyalaya, Next to Pradeep Vadapav Centre, Ulhasnagar, District- Thane, Maharashtra-421004
1117	Jai Hind National Party	A2/135, Darshanam Antica, Danteswar, Vadodara, Gujarat-390004
1118	Jai Hind Party	Kharail Punarvas, Ward No.16, Nagar Parishad, Supaul, Bihar.
1119	Jai Hind Samaj Party	Village - Kharhara (Bind Valia) Post - Dubiha, Janpad - Ghazipur, Uttar Pradesh.
1120	Jai Hindustan Party	H.No.22-13-47, Block No. 13, Ambedkar Colony, Tirupati, Chittoor District, Andhra Pradesh- 517507
1121	Jai Jana Sangham Party	H.No.6-282, Opposite Chandrika Rice Mill, (Pollamma Putta), Village-Rayavaram, Mandal-Rayavaram, Dist-Dr.B.R.Ambedkar Konaseema, Andhra Pradesh-533346
1122	Jai Janseva Party	14/43, Sambhaji Chowk, Ichalkaranji, Tehsil -Hatakanangale, Distt:- Kolhapur, Maharashtra-416115.
1123	Jai Janta Party	Ward No. 18, Holding No. 27, Bhabhua (Kaimur), Near of Agarwal Petrol Pump, Bihar - 821101.
1124	Jai Jawan Jai Kisan Party	First Floor, H. No. - 60, Street No.7, Virk Colony, Near DCW, Patiala, Punjab - 147001.
1125	Jai Jawan Kisan Naujawan Samvidhan Party	Khasara no.101/3, Mauja Vahanpur, Post-kailora, Hatharas Junction, Dist. - Hatharas, Uttar Pradesh-204102
1126	Jai Kisan Jai Majdoor Party	House No. 77, Kharsa No. 374, Vill. & Post - Balakot, Near Mandir Darwaja, Pani Tanki ke Pass, Tehsil-Damoh, District - Damoh, M.P. - 470672
1127	Jai Lok Party	F-2/5, Mayur Vihar, Ashoka Garden, Bhopal, Bhopal, Madhya Pradesh- 462023.
1128	Jai Maha Bharath Party	Jai Mahabharath Bhawan, Shri Mahaavykuntha Puram, Vill.- Bukkapuram, Tehsil - Alampuram, Distt. - Mahabub Nagar, Andhra Pradesh, Pin - 509 652.
1129	Jai Manavta Party	H. No. 1, Samridhi Parisar, Near of Sahu Aata Chakki, Lalita Nagar, Kolar Road, Bhopal, Madhya Pradesh.
1130	Jai Prakash Janata Dal	190, Pratap Nagar, Mayur Vihar, Phase-I, Delhi - 110091
1131	Jai Samaikya Andhra Party	D. No. 4-86, Kammavari Veedhi, Machavaram Gram Panchayat Limits, Rayavaram Mandal, District - East Godavari, Andhra Pradesh - 533 214.
1132	Jai Samta Party	Rakba Sher Nagar BiBipur, Kallarpur, Jansath Road, Tehsil-Sadar, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh- 251001
1133	Jai Sewalal Bahujan Vikas Party	Flat No. 2, Plot No. 31, Himalaypushpa Building, Swapnanagri Garkheda Area, Aurangabad, Maharashtra- 431005.
1134	Jai Swaraj Party	10-105/1/B/2, First Floor, Road No.- 2, New Gaddiannaram Colony, Dilsukh Nagar, Hyderabad, Telangana - 500060
1135	Jai Vijaya Bharathi Party	Chinnagotigallu P.O., Chittoor District, Andhra Pradesh.
1136	Jaibhim Rao Bharat Party	D.No. 32-13-1/1, Lavanya Apartments, Flat No. B3, Mogalrajpuram, Vijayawada, Andhra Pradesh- 520010

1137	Jamat-E-Seratul Mustakim	P.O. Chhotto Sujapur, P.S. Kaliachak, Distt. Malda, West Bengal - 732206
1138	Jammu & Kashmir All Alliance Democratic Party	Harco House Masjid Noor Lane, Rajbagh, Srinagar, Jammu & Kashmir-190008
1139	Jammu & Kashmir Awami National Conference	3-R.C. Quarters, Press Enclave, Pratap Park, Srinagar-190001 (J & K).
1140	Jammu & Kashmir People Conference	General Office, Old Secretariat Road, Sri Nagar-190001 (Jammu & Kashmir).
1141	Jammu & Kashmir Pir Panjal Awami Party	Near Police Station Poonch, C/o District Court Poonch, Jammu & Kashmir
1142	Jammu and Kashmir Apni Party	Kohinoor House, 7 Sheikh Bagh, Srinagar, Jammu and Kashmir-190001
1143	Jammu And Kashmir National Democratic Front	168, Rawalpura Housing Colony, Srinagar (Jammu & Kashmir).
1144	Jammu and Kashmir Nationalist People's Front	Badshah Flats 7-B, Jahangir Chowk, Srinagar, Jammu and Kashmir-190001
1145	Jammu Kashmir People's Party (Secular)	96/9, Nanak Nagar, Jammu, Jammu & Kashmir - 180004
1146	Jammu Kashmir Save Party	Rawalpura Village, Srinagar, Jammu & Kashmir
1147	Jammu State Morcha (Progressive)	8, Old Dry Fruit Market, Jewel Chowk, Jammu - 180 001, Jammu & Kashmir.
1148	Jan Aawaj Party	Jhunjhak, Kanpur Dehat, Uttar Pradesh- 209302.
1149	Jan Abhiyan Party	27/3, Birhana Road, Kanpur, Uttar Pradesh-208001
1150	Jan Adesh Akshuni Sena	House No. 117, Patharia Mohalla, Padua Chauraha, G.T. Road Bhongaon, Mainpuri, Uttar Pradesh
1151	Jan Adhikar Party	House No. 331, Sarvodaya Nagar, Chandi Road, Pilkhuwa, Uttar Pradesh.
1152	Jan Adhikar Party (Loktantrik)	Ward No. 05/14, Yashwantrao Chavan, Arjun Bhawan, Arjun Nagar, Post office- Purnea, P.S.- Sahayak k. Haat, District- Purnea, Bihar-854301.
1153	Jan Andolan Morcha	A-8/18, 1 st Floor, Block-A, Pocket-8, Sector-17, Rohini, Delhi - 110085.
1154	Jan Asra Party	C/o Rawel Singh Bhinder, Khasra No. 12/1, Ground Floor, Near Kalwanu Road, Attalan, Tehsil-Patran, Distt. Patiala, Punjab-147102
1155	Jan Awaz Vikas Party	H.No. 631, Second Floor, Main Road, Mukherjee Nagar, Delhi.
1156	Jan Chetna Kranti Manch	Suvir Kumar Pardeshi, Khemneechak, Behind Jakariyapur Krishna Niketan School, Police Station Aalamganj, Distt.- Patna, Bihar-800007
1157	Jan Chetna Party	Chamber No.475, Western Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-110054.
1158	Jan Congress Party	Ward No. 1, House No. 395, Bokakhat Town, District- Golaghat, Assam-785612.
1159	Jan Hit Party Pragatisheel	Village-Bhadurpur, Post-Morta, Tehsil & Distt. Ghaziabad, Near Police Chowki, Uttar Pradesh-201003
1160	Jan Jagaran Yuva Manch	No. 2528 2649, at Ratnadeep Hospital, Nagar Road, Jamkhed, Taluka Jamkhed, Dist. Ahmednagar, Maharashtra-413201
1161	Jan Jan (United) Party	Shantipuram, Phaphamau, Opposite B.B.S Engineering College, Near Navjeevan Hospital, District- Prayagraj, Uttar Pradesh- 211013
1162	Jan Jan Party	Gali No. - 7, Village - Mamura, Sector - 66, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.
1163	Jan Janwadi Party	Gata No. 88, Village Badahara, Post-Turna, Tehsil-Saidpur, Thana-Nandganj, Distt.-Gazipur, Uttar Pradesh- 233306
1164	Jan Kalyan Party	Fatehpur-Sahabpur, P.O- Kasenda, Tehsil- Chail, District- Kaushambi, Uttar Pradesh.
1165	Jan Kranti Party, Andaman & Nicobar	C/o Harsh Mehra Traders, Opposite: CBI Office, Ranchi Basti, Port Blair - 744103.
1166	Jan Man Party	D.409, Pratik Mall, Raysan, Gandhinagar Gujarat- 382007
1167	Jan Mithila Vikas Party	Village Samdhiniya, Post Garri, P.S.-Jale, Darbhanga, Bihar-847303
1168	Jan Pragati Party	544 2395, Mani Mata Mandir, Near Vikas Public School, Balaganj, Lucknow Uttar Pradesh- 226003

1169	Jan Raajya Party	110/F/10A/1A, Kanahipur Village, Dhoomangunj, Allahabad-211001, Uttar Pradesh.
1170	Jan Raksha Party	Bhithauli, Sitapur Road, Lucknow-226020 Uttar Pradesh.
1171	Jan Rashtrawadi Sangathan	356/340/1331, Ashok Vihar, Alam Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh-226017.
1172	Jan Sadharan Party	House No - 04, Dr. Fatehullah Lane, Main Road, Ranchi, Jharkhand - 834001
1173	Jan Sahara Party	Flat No.2,UG Floor,A-1/B,Advocate Compound;Old Jasola Village,Delhi-110025
1174	Jan Samaj Ekta Party	530A,K-Block,Yashoda Nagar,Near Maa Durga Inter College,Kanpur,Uttar Pradesh-208011
1175	Jan Samanta Party	B-125, Navjiwan Camp, Tughlakabad Extension, New Delhi-110019.
1176	Jan Samarpan Party	At-H.No.189 I, Jatepur North, Lohiya Nagar, Gorakhpur, Uttar Pradesh-273015
1177	Jan Samman Party	G-238, Main Road, Gali No.- 6/28, Bal Gyan School, West Karawal Nagar, Delhi- 110094.
1178	Jan Samuh Party	C-336/A,Ground Floor,Gali No.12,Khasra No.18/14,Matayali Gali,Johari Pur,Delhi-110094
1179	Jan Samwad Party	319, Amkhera Road, Gohalpur, Jabalpur, Madhya Pradesh-482004
1180	Jan Sandesh Party	72/76/3, Stenely road, (Myorabad Crossing), Mamford Ganj, Prayagraj (Allahabad), Uttar Pradesh-211002.
1181	Jan Sangh Party	A-90, Sector-21, Jalvayu Vihar,Noida, Gautambudh Nagar-201301, Uttar Pradesh.
1182	Jan Sangharsh Dal	Near Choti Masjid,Main Road,Lauriya,West Champaran,Bihar-845453
1183	Jan Sangharsh Virat Party	Street No. 2, Near of Bhuteshwar Mandir, Sant Ravidas Ward, Sagar, Tehsil & District - Sagar Uttar Pradesh.
1184	Jan Santosh Party	Village & Post-Lalpur, Police, Chowki-Kamar, thana-Kosikalan, Block-Nandgaon, Tehsil-Chhata, District-Mathura,, Uttar Pradesh- 281403
1185	Jan Satya Path Party	1 st Floor, Madhav Complex, Opp. City Pulse Theatre, Raipur, Ahmedabad, Gujarat- 380022.
1186	Jan Seva Sahayak Party	Village - Tal Mahawar, Tehsil - Bilaspur, District - Rampur, Uttar Pradesh
1187	Jan Seva Sangharsh Party	Village & Post - Pilimandori, Tehsil- Bhattu Kalan, District- Fatehabad, Haryana - 125053.
1188	Jan Sevak Party	L.I.G. 63, Shekhpura, Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh,
1189	Jan Sewa Driver Party	Flat F-201,Krish Exotica,Opp.Rajipa Greet Land,B/h,Shyamved,Residency,Nicol,Ahmedabad,Gujarat- 382350
1190	Jan Sewak Kranti Party	AT-772,Bhim Nagar New Railway Road,Gurugram-122001
1191	Jan Shakti Dal	Shivaji Nagar, Street No. 1, Near Kailtan School, Line Paar, Muradabad-244001, Uttar Pradesh.
1192	Jan Shakti Ekta Party	Village - Mandanpur, Post- Meerganj, District - Bareilly, Uttar Pradesh - 243504.
1193	Jan Shakti Party of India	7107, Street No.3, New Vishwakarma Nagar, Focal Point, Ludhiana, Punjab-141 010.
1194	Jan Srijan Party	15-D, Kaushalpur, Khargapur, Vikas Khand - Chinhat, Gomtinagar, Pargana, Tehsil & District - Lucknow, Uttar Pradesh .
1195	Jan Suraj Party	Suit No.2,1st Floor,Dakshineshwar Building,10,Hailey Road,New Delhi-110001
1196	Jan Surajya Shakti	Janasampark Karyalaya, Warananagar, Tal. Panhala, Distt. Kolhapur, Maharashtra-416113.
1197	Jan Swabhavik Party	636/09 Budh Vihar Colony, Phase I, Takrohi, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh-226016

1198	Jan Vikas Party Secular	1/97, Vishesh Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh - 226010.
1199	Jana Dwani Party	D, No. 3-PC/18, Lakshmi Narayana Estates, Miyapur, Hyderabad, Telangana - 500 049
1200	Jana Rajyam Party	H.No.8-217/16,Dharmareddy Arcade,Flat-T1,Gayatri Nagar,Laxminagar Colony,Road No.3,Jillela Guda Municipality,Balapur Mandal,Rangareddy District, Telangana State-500097
1201	Jana Sahayaka Sakthi	Door No. 27-85/1,Cobaldpet,4 th Lane,Guntur,Andhra Pradesh- 522006
1202	Jana Samanyara Party (Karnataka)	Sri. Veerabhadra Swamy Nilaya, 1 st Main, 5 th Cross, Vijaya Nagar, Tumkur, Karnataka - 572102.
1203	Jana Samrudhi Party	Kashipur-Balarampur, Unit-18, P.O.- Keonjhargarh, P.S- Town, District- Keonjhar, Odisha- 758001.
1204	Jana Shankhaaraavam Party	H.No.4-1-216/54/502,Karthikeya Nagar,Nacharam,Uppal,Medchal Malkajgiri District,Telangana State-500076
1205	Jana Spandana Party	No. 60,1 st Floor,Veerapillai Street, Shivajinagar,Bangalore, Karnataka- 560001
1206	Jana Swarajya Party	H.O. 83/A, 3 rd Ward, Kalamuna Bazar, Sandur-583119, Karnataka.
1207	Jana Vaahini Party	Door No. 28-5-37A, 12th Road, Santhi Nagar, Eluru, West Godavari District, Andhra Pradesh-534001
1208	Janadhar National Party	63, R.R.Avenue,Tulsi Nagar,Mahalaxmi Nagar Road,Indore,Madhya Pradesh- 452010
1209	Janadhar Shakti Party	Gram 162512,DevraKh Road,Arel,Naini,Tehsil Karchana Prayagraj,Uttar Pradesh - 211008
1210	Janadhipathiya Kerala Congress	Near Jawahar Balbhavan, Building No. 641, Ward No. 21, Kottayam Municipality, District - Kottayam, KERALA.
1211	Janadhipathiya Samrakshana Samithi	Kerala State Committee Office, Iron Bridge P.O., Alleppey-688011, Kerala.
1212	Janahitha Paksha	D. No. 109, 2nd Ward, Kalamuna Street, Bellary, Karnataka - 583101.
1213	Janam Manam Party	13-24/A, Pandurangavaripalli Village, Ithepalli Post, Chandragiri Mandal, Chittoor District, Andhra Pradesh- 517102
1214	Janam Rashtriya Party	Bldg.No.582,Iverkala Ward 5,Kunnathoor Panchayath,Iverkala East P.O.,Kollam-691507,Kerala
1215	Jananayaka Makkal Rajiyam	20/86A, Krishna Nagar West, Ammapet (PO), District - Salem, Tamil Nadu - 636003.
1216	Janapualana Party (Democratic)	8-2-703/2/B, Plot No.2, Road No.12, Banjara Hills, Hyderabad, Andhra Pradesh - 500034.
1217	Janasena Party	D.No. 11-1903, Lakshmi Narasimha Swamy Colony, Mangalagiri,Guntur District, Andhra Pradesh-522503
1218	Janata Cabinet Party	16/A (16/1),Lyton Road,Subhash Road,Dehradun New Nagar Nigam,No.184/4,PIN - 248001, Uttarakhand
1219	Janata Congress	278A, 1 st Floor, G.K.Complex, Main Road Okhla, Jamia Nagar, New Delhi- 110025
1220	Janata Congress National Movement Party	No. 8-2-293/82,III,Road No. 79,Jubilee Hills,Hyderabad,Telangana - 500053
1221	Janata Dal (Ahinsawadi)	201,BHFL Extension,9 th Cross,Stage-II,Rajarajeshwari Nagar,Bangalore,Karnataka-560098.
1222	Janata Party	G.42, Purvi Vinod Nagar, Delhi - 110091
1223	Janata Uday Party	860, Gali No.4, Sanjay Enclave, Chacha Chowk, Parvatiya Colony, N.I.T, Faridabad, Haryana.
1224	Janata Unnati Party	Village-Pathipar,Post Office-Pakdi Doobe,Dist -Gorakhpur,Utar Pradesh- 273413
1225	Janata Vikas Party	Abashek Bhavan, Udainagar Colony, Sagar Road, Vidisha(Madhya Pradesh).
1226	Janhit Bharat Party	730, Anna Nai Basti, Naubasta, Yogendra Vihar, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh- 208021

1227	Janhit Dal	R.M.S. Colony, Road No. 2, Kankar Bagh, Patna-20, Bihar.
1228	Janhit Kisan Party	Ward No. 24, Saxena Nagar, Nagar Palika Parishad – Maharajganj, Janpad – Maharajganj – 273303 Uttar Pradesh.
1229	Janhit Krantikari Party	Shivaji S/o Panna Lal, H.No.47/1, Vill. & Post - Nayabans, Paragana - Marhara, Thana - Mirhachi, Tehsil - Etah, District - Etah, Uttar Pradesh - 207125
1230	Janhit Lokshahi Party	Room No. – 41/3, Gaondevi Road, Pavanegaon, Navi Mumbai, Maharashtra – 400705.
1231	Janhit Sankalp Party	Shiv 15/52 V-6-2-S, Usarpuwa Bharlai, Shivpur, Varanasi, Uttar Pradesh- 221003
1232	Janhit Vikas Party	Village-Kapasi, Post-Hasanpur, Block- Baliakhedi, District- Saharanpur, Uttar Pradesh-247111
1233	Jankranti Samaj Party	House No. 16, Sadarpur Colony, B.D.S. Market, Som Bazar, Sector-45, Noida, Gautambudh Nagar, Uttar Pradesh.
1234	Janlok Vikas Party	House No.124, Ward No.22, Kasai Tola, Gorya Asthan, P.O.-Rasra, Distt.- Ballia, Uttar Pradesh-221712
1235	Janmangal Paksh	Ram Pratap, Geeta Nagar, Main Road, Near Gurukul, Rajkot – 360 002 (Gujarat).
1236	Janmat Party	C2A/107, Pocket-16, Janakpuri, New Delhi-110058.
1237	Janmat Vikas Paksha	Post – Saswad, Purandhar, Maharashtra - 412301.
1238	Jannayak Yuva Shakti Party	H.No.587/20, Near Khasa Chowk, Rameshwar Puram Colony, Kabirpur, Sonipat, Haryana-131001
1239	Jan-Nyay Dal	301, Sri Devraha – Complex, Mata Madia Choraha, Vijay Takeej Road, Motinagar Ward, Teh. & Zila – Sagar, Madhya Pradesh.
1240	Janraaj Samaj Party	Surat Printing Press, Dana Mandi Road, Bathinda, PUNJAB.
1241	Jansamuday Party	57, 1 st Floor, Stadium House, Stadium Cross Road, Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat - 380009.
1242	Jansatta Dal Loktantrik	Village & Post- Majhilgaon (Babuganj), Tehsil- Kunda, District- Pratapgarh, Uttar Pradesh- 230204
1243	Jansatta Rashtrawadi Ekta Party	C/o Raghavendra Singh, S/o Shri Harivansh Singh, Village-Garhi, Majre-Khaspariya, Post-Basti, Tehsil-Nawabganj, Block-Banki, District- Barabanki, Uttar Pradesh-225003.
1244	Janseva Gondwana Party	Plot No.36, Jayaswal Lay Out, Near Bhoyar College Girls Hostel, Nalwadi, Wardha, Teh. And Distt. – Wardha, Maharashtra- 442001
1245	Janshakti Janta Dal	Rajni Complex, Khagaul Road, Near Dayanand Girl's High School, Mithapur, Patna 800001
1246	Janshakti Party (Rashtriya)	Plot No. 38, Ground Floor, Opp. KDK Public School, Main Road, Mandawali, Fazalpur, Delhi- 110092.
1247	Janshakti Samta Party	Tehsil Campus, Post-Salon, Janpad- Raebareli, Uttar Pradesh-229127
1248	Janshakti Vikas Party (Democratic)	A:-PO-Numar, PS-Barhat, District-Jamui, Bihar-811313
1249	Janta Brigade Party	R-142, Jawalapuri, Camp No. 5, New Delhi- 110087
1250	Janta Dal Hindustani	Khata No. 64 (Old), Plot No. 370 (Old), New Plot No. 838, 839, 744, 745, Thana No. 314, Village- Aabgila, Thana- Mufsil, Anchal- Manpur, District- Gaya, Bihar- 823003
1251	Janta Dal Rashtravadi	House No. 55/1, Haroon Nagar Colony, Sector – 1, P.S. & P.O. Phulwari Sharif, Patna, Bihar - 801505.
1252	Janta Darbar Party	MIG-II, 70/1, Housing Board Colony, PO/PS- Chandrasekharpur, Bhubaneswar, Dist-Khorda, Odisha-751016
1253	Janta Kalyan Morcha	Khevat No. 184, Khata No. 188, Keela No. 51/16/3, Khedi Damkan, Tehsil Gohana, Sonipat, Haryana-131301.
1254	Janta Kranti Party	Bharat Vihar Colony, Opposite of Big Shiv Mandir, Mandavar Road, Bijnaur, District – Bijnaur, Uttar Pradesh- 246701.

1255	Janta Kranti Party (Rashtravadi)	No. 29, Kantipuram Part-2, Behind Shivpuri Power House, Ganeshpur, Rahmanpur, Deva Road, Chinhat, Lucknow, Uttar Pradesh- 226001
1256	Janta Raj Party	House No. 43, Village - Tejpura, Post - Indore, District - Ghazipur, Uttar Pradesh - 233226
1257	Janta Raj Vikas Party	Village- Chakfajj, Post- Sukki, P.S- Patepur, Distict- Vaishali, Bihar- 843114
1258	Janta Rakshak Party	Ward No. 1, Mohalla Kamlapur, Near Dr. Bhim Rao Ambedkar Inter College, Post- Udaypur Mahewa, District- Lakhimpur Khiri, Uttar Pradesh- 262701
1259	Janta Samajwadi Party (Vivek Raj)	72, Ratan Nagar, Pradharshni Pandal Marg, City & District- Etawah, Uttar Pradesh- 206001
1260	Janta Samta Party	Village- Dumri Ekhalas, P.O.- Hetimpur, Thana- Rampur Karkhana, Tehsil & District- Deoria, Uttar Pradesh- 274206
1261	Janta Sarkar Party	1-4/39, Ground Floor, Sector - 16, Rohini, Delhi- 110089
1262	Janta Sena Rajasthan	Mukam Post: Vallabhnagar, District - Udaipur, Rajasthan - 313601.
1263	Janta Shashan Party	4A, Keshav Park, Saraswatipuram Raibareli Road, Lucknow Uttar Pradesh- 226014.
1264	Janta Swabhiman Party	Katghara Dehati, Haveli, Sadar, Jaunpur, Uttar Pradesh- 222002
1265	Jantantra Awaj Party	Poorvi Gumati Lakh No. 11, Post- Aara, District- Bhojpur, Bihar- 802301
1266	Jantantra Party	3rd Floor, Taksal Theatres Building, Nadesar, Varanasi - 221002, Uttar Pradesh.
1267	Jantantrik Lokhit Party	Sushma Nawal Kunj, NTPC Colony, R.K. Nagar, Ward No. 32, Circle No. 8, P.O. Now Jaganpura, P.S. Rak Nagar, District- Patna, Bihar- 800027
1268	Jantantrik Samta Party	H. No. 100, Ward No. 4, Ludhupara, Jaswant Nagar, Etawah, Uttar Pradesh- 206245
1269	Jantantrik Vikas Party	201, P. Mall, Second Floor, Exhibition Road, District- Patna, Bihar- 800001
1270	Jantawadi Congress Party	161/B, Opp. Shivaji Garden, Swadeshi Mill Road, Chunabhatti (E), Mumbai, Maharashtra - 400037.
1271	Janvadi Party (Socialist)	B-32/2, Behind Jain Mandir, Nariya, Varanasi, Uttar Pradesh.
1272	Jateeya Sama Samajam Party	1-24, Dinnadevarapadu Village, Kurnool Mandal, Kurnool - District, Andhra Pradesh- 518002
1273	Jatiya Jana Sena Party	Door No. 1-9-290/B/A, Adikmet, Ramnagar Gundu, Lalita Nagar, New Nallakunta, Hyderabad, Telangana- 500044.
1274	Jatiya Mahila Party	6-3-B-922, N.G.O's Colony, Vanasthalipuram, Hyderabad, Telangana- 500070
1275	Jawan Kisan Awam Party	Nai Basti, Bahadurpur, Manjhelpur, Thana- Jahangirabad, Post- Somaiya Nagar, Barabanki, Uttar Pradesh- 225002
1276	Jawan Kisan Morcha	Qr. No. L.I.G.H-1/7, Housing Colony, Dalpatpur (Chandva), Aara, Bihar- 802312.
1277	Jay Hind Jay Bharat Party	N - 106, HIG Flat, Sanjay Nagar, Sector - 23, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1278	Jay Vidarbha Party	302, Kolbaswami Residency, Vithal Nagar, Opposite New Era English School, Uday Nagar Square, Manewada Ring Road, Nagpur, Maharashtra- 440034
1279	Jebamamli Janata	No. 33, Second Street, East Abiramapuram, Mylapore, Chennai- 600004, (Tamil Nadu).
1280	Jharkhand Anushilan Party	Vill - Post - Jhilimili, P.S.- Barikul, Dist - Bankura, West Bengal - 722135.
1281	Jharkhand Azad Party	C/o Jaleswar Karmali H. No. 153A, Khata No. 40, Plot No. 293, Mauj Hombai, Village - Hombai, Post - Nevri Vikas, Thana - Sadar Ranchi, District - Ranchi, Jharkhand - 835217
1282	Jharkhand Disom Party	12, Road No. 21, Kadma Farm Area, Jamshedpur- 831005, Jharkhand.
1283	Jharkhand Jan Kranti Morcha	House No. 36, Dinkar Nagar, P.O. - Hatia Railway Colony, PS - Jagannathpur, Ranchi, Jharkhand.
1284	Jharkhand Janadhikar Party	Opposite Holi Cross School, Lalpur Peace Road, Ranchi - 834001, Jharkhand.

1285	Jharkhand Ki Krantikari Party	23, Purvi Jail Road, Ranchi-1, (Jharkhand).
1286	Jharkhand Mukti Morcha (Ugulan)	C/o - Shri Om Prakash Singh, Village & Post - Madhukam, Road No.4, Thana - Sukhdev Nagar, District - Ranchi, Jharkhand - 834001
1287	Jharkhand Party	Anand Suwani Niwas, Airport Road, Hinoo, Ranchi Jharkhand-834002.
1288	Jharkhand Party (Naren)	At-Raghunathpur, P.O.Jhargram, District- Midnapur-721507 (West Bengal).
1289	Jharkhand Party (Secular)	Village - Unideeh, Post - Raja Ulatu, Thana - Namkum, District- Ranchi, Jharkhand.
1290	Jharkhand People's Party	P.O.Laubasa, Jamshedpur, P.S. Gobind Pur, Distt. Singhbhum (East) (Jharkhand).
1291	Jharkhand Vikas Dal	275, Lake Avenue, Kanke Road, Ranchi, Jharkhand.
1292	Jindabad Kranti Party	31/83A, 3 rd Floor, Gali No.5, Bhikam Singh Colony, Vishwas Nagar, Shahdara, Delhi-110032
1293	Johaar Party	Village- Dadha Tand, P.O & P.S. Itki, District- Ranchi, Jharkhand- 835301
1294	Johar Chhattisgarh Party	10, 2nd Floor, Shaheed Veernarayan Singh Compound, Nagar Ghari Chowk, G.E. Road, Raipur, Chhattisgarh - 492001.
1295	Justice and Development Party	Vill. & P.O.-Ahiran, P.S.- Suti, Distt.-Murshidabad, West Bengal- 742223.
1296	Justice Party	Village- Diktan Khera, P.O- Harchandpur, District- Raebareli, Uttar Pradesh-229303
1297	Jwala Dal	H. No. 247B, Mo. Jangal Tulsiram, Post - Bichhia P.A.C. Camp, P.S. - Shahpur, Distt. - Gorakhpur-273014, Uttar Pradesh.
1298	Kalinga National Front	At-Parabil, P.O.-Kandarpur, Dist-Cuttack-754100, Odisha.
1299	Kalinga Sena	19A, Madhusudan Nagar, Unit-4, Bhubaneswar-751 001, Khurda, Orissa.
1300	Kalyan Karnataka Party	CTS No.4589/A, 1st Floor, Shetty Galli, Belagavi, Karnataka- 590002
1301	Kalyana Kranthi Party	#57, 2 nd Floor, 3 rd Main Adithyanagar, 8 th Phase, JP Nagar, Bengaluru, Karnataka-560062
1302	Kalyana Rajya Pragathi Paksha	49/48, Kyalasanahalli, Kothanur Post, Bengaluru, Karnataka-560077.
1303	Kalyankari Jantantrik Party	B 4/260A, Keshavpuram, New Delhi - 110035.
1304	Kalyanwadi Party	16, Pandey Tola, Paintepur, Mahmudabad, Sinapur, Uttar Pradesh- 261203
1305	Kamarajar Desecya Congress	7-Velayudha, Raja Street, Raja Annamalaipuram, Mandaveli, Chennai- 600028 (Tamil Nadu).
1306	Kamarajar Makkal Katchi	52/6, Gandhi Salai, Chennai - 600042.
1307	Kamatapur People's Party (United)	Village & Post- Bhandani, P.S- Dhupguri, District- Jalpaiguri, West Bengal- 735210
1308	Kamera Samaj Party	Ward No. 3, Lala Ka Purva, Shankargarh (Near Pati Devi School), Shankargarh, Post-Shankargarh, District-Prayagraj, Uttar Pradesh- 212108.
1309	Kamgaar Kisan Party	Rahul Bhawan H.No.51 Manas Nagar, Ziyamau, Hazratganj, Distt.- Lucknow, Uttar Pradesh-226001
1310	Kamatapur Progressive Party	'Chilla Roy Bhawan' Village - Bidhanpally, P.O. Kadamtala, Distt. Darjeeling - 734453, West Bengal.
1311	Kannada Chalavali Vatal Paksha	154, Rangswamy Temple Street, Bangalore-560053 (Karnataka).
1312	Kannada Deshada Paksha	No. 20, Bandarlahalli Village, Kamasamudram Hobli, Bangarpet Taluk, Distt.-Kolar Karnataka- 563129.
1313	Kannada Paksha	No. 259-1, 1st Floor, Rangswamy Temple Street (Opp. to Jain Temple) Bangalore-560053 (Karnataka).
1314	Kandoon Raj Party	D-1/1045, Gali No.27, Harsh Vihar, Shahdara, Delhi-110093

1315	Kanshiram Bahujan Dal	Khata No. 208, Ka Araji No. 159M/0.0810, Village- Ali Khanpur, P.S.- Line Bazar, Tehsil- Sadar, Pargana- Haveli, District- Jaunpur, Uttar Pradesh- 222132
1316	Kanshiram Bahujan Moolniwasi Party	H. No. A-62/1-153, A Block Omaex City, Aurangabad Khalsa Janpad, Lucknow, Uttar Pradesh - 226025
1317	Karma Party	Shop No. - 1, HUDA Market, Leisure Valley Park, Opposite Kingdom of Dreams, Sector - 29, Gurgaon, Haryana - 122002
1318	Karnataka Janaseve Party	Old PID No.36, Khata No.151, Survey No.42, Kaveripura Main Road, No.587, Near Mahadeshwara Temple Road, Ranganathapura, Kamkshipalya, Bengaluru, Karnataka-560079
1319	Karnataka Jantha Paksha	# 11, 12 th Main 17 th Cross, Malleshwaram, Bengaluru - 560055, Karnataka
1320	Karnataka Karmikara Paksha	No. 120, 1 st Floor, St. Johns Church Road, Near Coles Park, Bangalore, Karnataka-560005
1321	Karnataka Makkala Paksha	H.O. No. 09, Block-4 JSS Employee's Layout, Sathagalli, Nazarabad Mohalla, Mysore, Karnataka-570011
1322	Karnataka Pragnyavantha Janatha Party	No.23, 2 nd "A" Main Road, 7 th Cross, Muneshwara Layout, Srigandhanagar, Bengaluru, Karnataka - 560091
1323	Karnataka Praja Party (Raittha Parva)	Flat No. 104, Adithi Apartment, SJCE Collage Road, Telecom Layout, Vagdevinagar, Mysuru, Karnataka-570009
1324	Karnataka Praja Vikas Party	No. 15 Sampangiramaiah Layout, Sidedahalli, Yashwantpur Hobli, Nagasandra Post, Bengaluru North Taluk, Bengaluru District, Karnataka-560073
1325	Karnataka Rajya Ryota Sangha	656, Ideal Homes Layout, Rajarajeshwarinagar, Bangalore-560098 (Karnataka).
1326	Karnataka Rashtra Samithi	No.31/2, 8 th E Main, 4 th Block, Jayanagar, Bengaluru, Karnataka-560011
1327	Karnataka Samata Paksha	No. 718, S.Kalledar Plot, Tirupur, Navalgund, District- Dharwad, Karnataka- 582208
1328	Karnataka Swabhimani Raitthara Karmikara Party	Khatha Assessment No. 565/7782/6536, C.K.Pura, Main Road, Chitradurga, Karnataka-577501
1329	Karnataka Swarajya Party	No. 2082, Chidambar Krupa, Sai Nagar, Raibag, Dist-Belgaum, Karnataka - 591317.
1330	Karpoori Janta Dal	Rajeev Nagar, Road No. 15A, Post Keshari Nagar, Patna, Bihar-800024
1331	Kartavya Rashtriya Party	H. No. - 46, Lala Mohamadpur, Kankar Khara, Meerut, UTTAR PRADESH.
1332	Karunaadu Party	Sa-13/2, No: 7 th Mallathahalli, Nanjappa Garden, Bangalore-560056 Karnataka.
1333	Karunada Sevakara Party	Door No. 2-6, Karodi House, Kenjar Village and Post, Mangalore Taluk, D. K. District, Karnataka-574142
1334	Karunadaga Thamizhar Katchi	No.15, Nidharsanam, IV Shetty Road, Ramasamy Palya, MS Nagar Post, Bengaluru, Karnataka-560033
1335	Kashmir Development Front (J&K)	House No. 254 Main Road, Near Post Office, Jawahar Nagar, Srinagar, Jammu & Kashmir.
1336	Kathor Shasan Party	75, B-3, Jatan, Bhagwati Bhawan, P.O. & District - Bijnor, Uttar Pradesh - 246701
1337	Kendriya Janvikas Party	Plot No. - 179, Ayurvedic Layout, Bhande Plot, Umrer Road, Sakardara, Dist- Nagpur, Maharashtra- 440024.
1338	Kerala Congress	67, Kumaranasn Nagar, Kadavanthara, P.O. Ernakulam, Kerala.
1339	Kerala Congress (B)	P.T. Chacko Smarka, Mandiram, S.S. Kovi Road, Thampanoor, Thiruvananthapuram-695001 (Kerala).
1340	Kerala Congress (Jacob)	Ward XIII, Building 346, T.B. Road, Kottayam (Kerala) - 686001
1341	Kerala Congress (Skariah Thomas)	Chingavanam in Building No. 711, Ward No.6, Kottayam Municipality, Kottayam, District- Kottayam, Kerala
1342	Kerala Congress Secular	Kerala Congress Secular State Committee Office, Bharath Building, Pulimood Jn., Kottayam - 1. (Kerala).

1343	Kerala Democratic Party	6/341, Pinakattu, Bharananganam, Choondacherry, P.O. Pala, Kottayam District, Kottayam-686579, Kerala
1344	Kerala Janapaksham (Secular)	T.C. 16/882(13), Sreekrishna Nagar, Jagathy - Post, Thiruvananthapuram, Kerala- 695014
1345	Kerala Janatha Party	Mulakulam Panchayath, Ward No. 12, Building No.2, Poozhikol P.O. Kaduthuruthy, Kerala- 686604
1346	Kerala Kamaraj Congress	Building No.- NMC XII/342D, Neyyattinkara, Thiruvananthapuram, Kerala- 695121.
1347	Kerala Pravasi Association	Kanjiramattathil (House), No.11/585P, Maloth, Darkhas, Kasargod, Kerala- 671533
1348	Kerala Revolutionary Socialist Party (Leninist-Marxist)	No. 19/1347, Sasthamcotta Gramapanchayath, Kollam, Kerala- 690521
1349	Kerala Vikas Congress	EP. III/468, Eruvessi Village, P.O- Chemperi, Taliparamba Taluk, Kannur District, Kerala.- 670632
1350	Khandesh Vikas Congress Party	Building No.2, 15/16, First Floor, Khandesh Mill Shopping Complex, Jalgaon - 425 001.
1351	Khatiyani Jharkhandi Party	Village-Hombai, Post-Neori Vikas, P.S.-Sardar, OP Mesra, Ranchi-Jharkhand-835217
1352	Khun Hynnieutrip National Awakening Movement	Jaiaw Lower Lansonlane, House No.32 & Ward No.14 and holding No.65, Shillong, East Khasi Hills District, Meghalaya - 793002
1353	Khushhal Kisan Party	House No.- 125, Anaj Mandi ke Paas, Nagar Road Deeg, Tehsil- Deeg, District- Bharatpur, Rajasthan- 321203
1354	Khusro Sena Party	I-4/95, Sashtri Nagar, District- Bareilly, Uttar Pradesh.
1355	Kisan Adhikar Party	A/1-104, First Floor, Suryanjali Residency, Opp. Sanskar Residency, Cross Road, Amroli, Surat, Gujarat- 394107
1356	Kisan Kranti Dal	Nangla Sukhdev, Neemkhera - Jalesar, Distt: Etah (Uttar Pradesh).
1357	Kisan Majdoor Berojgar Sangh	Village-Jaitpur, Post-Phaphund, Oraia, Uttar Pradesh
1358	Kisan Majdoor Praja Party	A X - 223/224, Rajharsh Colony, Nayapura, Kolar Raod, Bhopal, Madhya Pradesh.
1359	Kisan Majdoor Suraksha Party	House No. 45, Village- Kheria Hairat Khan, PO- Kulwath, Tehsil- Gabhana, District- Aligarh Uttar Pradesh-202001
1360	Kisan Mazdoor Sangharsh Party	Bharosa City, Village-SarosaBharosa, Post- Maunda, Block-Kakori, District- Lucknow, UTTAR PRADESH - 226008
1361	Kisan Party (Loktantrik)	Srikrishna Chikistalaya, Sida, Sata Hariya, Post-Pawara, District- Jaunpur Uttar Pradesh- 222202
1362	Kisan Party of India	Ward No. 01, Janakpur Road, Nageshwar Sihan, P.S- Pupri, District- Sitamarhi Bihar -843320.
1363	Kisan Raj Party	Junior I.I.G. 358, Vindhya Vihar Colony (Padra), District- Rewa, Madhya Pradesh- 486001
1364	Kisan Raksha Party	529/A & New House No.807, Pathoriyan Outside Ditiya Gate, Tehsil & District- Jhansi, Uttar Pradesh- 284001
1365	Kisan Samaj Moreha	Bichola Bhood, Post - Patriya, Tahsil - Gunnaur, Badayun, Uttar Pradesh.
1366	Kisan Samaj Party (S)	Jhinnapurva, Post - Dhakherva Nankar, Tehsil - Nighasan, Distt. - Lakhimpur (Khiri), Uttar Pradesh.
1367	Kisan Sangharsh Samiti	Chhariari, Makhdumpur, Jahanabad, district-Jahanabad, Bihar-804422
1368	Kisan Sena	101, Koliyan Vishungarh Road, Chhibramau, Kanouj, UTTAR PRADESH.
1369	Kisan Shakti Jantantrik Party	H.No. 12-445, Majhola Awas Vikas, Tehsil-Sadar, Distt.- Muradabad, Uttar Pradesh.
1370	Kisan Vishwa Party	Village & Post-Safipur, Thana-Devan, District-Barabanki, Uttar Pradesh- 225301
1371	Kishore Raj Party	I-2-601, Vincet Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh
1372	Kongu Desa Marumalarchi Makkal Katchi	301/14, Alagarasan Nagar, Pachampalayam, Anthiyur, Erode, Tamil Nadu 638501.

1373	Kongunadu Ilaingar Padai Katchi	D.No.2/38,Janani Garden, Allikulam, Nagamma Puthur (PO), Sathi Road, Annur, Coimbatore District, Tamil Nadu-641653
1374	Kongunadu Makkal Desia Katchi	No. 5/54, East Street, Post - Kokkarayan Pettai, Taluk - Tiruchengode, District - Namakkal, Tamil Nadu-638007
1375	Kosal Janata Dal	Plot No-JC-02, Phase-01, Chhend Colony, Rourkela, District- Sundargarh, Odisha- 769015
1376	Kosal Kranti Dal	Telephone Exchange Road, Rugudi Para, Balengir - 767 001, Orissa.
1377	Koshal Mukti Morcha	Railway Station Road, Titilagarh, District-Bolangir, Odisha.
1378	Kranti Janshakti Party	1058, Yadav Pura, In front of Purani Vidhan Sabha, Ward No. 34, Zone No.8, Tehsil - Hujur, Bhopal, MADHYA PRADESH
1379	Krantikari Jai Hind Sena	C/o Advocate R.N. Kachave, Near Devi Prasad Hotel, M.I.D.C., Central Road, Andheri (E), Mumbai-400093, Maharashtra.
1380	Krantikari Kisan Sena	C-221, Old Meenal Residency, Raj Homes, J.K. Road, Bhopal-462023, Madhya Pradesh.
1381	Krantikari Parivartan Party	Devyani Marg, Near Sixway Bypass, Ashok Nagar (East), Etawah, Uttar Pradesh-206001
1382	Krantikari Samyavadi Party	MLA Flat No.26, Veerchand Patel Path, Patna, (Bihar).
1383	Krantikari Shetkari Party	Shop No. 20, Tirupati Complex, Sonai- Rahuri Road, Sonai, Taluka- Newasa, District- Ahmednagar, Maharashtra- 414105
1384	Krantikari Swaraj Dal	Vill-Mavaiya Kalan, Post Naaribaari, Thana Shankargarh, Tehsil Bara, District Prayagraj, Uttar Pradesh-212106
1385	Krantikari Vikas Dal	78/09C, Mohalla- Birsa Adivasi Colony, Post- Guljarbagh, P.S.-Alamganj, Distt.- Patna-800007, Bihar.
1386	Krantikari Yuva Party	H.No. 318, Old Rohtak Road, Gujjar Gujjar Gali, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi- 110055.
1387	Krishak Bharti Party	Shop No. 841, Gali No. 11, Haripur, Sektore-4, Panchkula, Haryana- 134112
1388	Krupaa Party	Plot No. 452, Khata No. 69, Sami Vaban, Village- Pahana, P.O- Tikanpur, G.P- Ramchandrapur, P.S- Patakura, District- Kendrapara, Odisha- 754153
1389	Kuki National Assembly	Grace Cottage, Paiteveng, Kwakethel, P.O. Imphal, Pin- 795001, (Manipur).
1390	Kuki People's Alliance	Little Woods, Rengkai Road, Zenhang Lamka, Churachandpur, Manipur, India -795128
1391	Kunbi Bahujan Sawrajya Party	H. No. 114, A-2, Village & Post Khadi Lolvan, Taluka- Sangameshwar, District-Ratnagiri, Maharashtra- 415801
1392	Kushal Janta Party	Pupri, Ward No. 2, P.O.-Janakpur Road, District- Sitamarhi, Bihar-843320
1393	Labour Party (Secular)	382-4, Gali Hardev, Sant Nirankari Colony, Delhi- 110009.
1394	Labour Party of India	H.No. A-63, New Gopal Nagar Extension, Nanak Piau, Rama Public School Road, Gali No.4, Nazafgarh, New Delhi-110043
1395	Lakshya Ghar Ganatantrik Party	Purani Basti, Chowkidarpada, P.O.- K.M.Road, Jharsuguda-2, Dist. - Jharsuguda, Odisha
1396	Latchiya Jananayaka Katchi (LJK)	No. 18, Aravind Bliss, Amman Kovil, First Cross Street, Srinivasa Nagar, Perungalathur, Chennai, Tamil Nadu - 600063
1397	Laukik Samaj Party	C/o Chitra Convent School, Village - Deopar (Veersinghpur), P.O Madanpur, Tehsil - Barhuj, District - Deoria, Uttar Pradesh- 274205
1398	Liberal Democratic Party	Village - Santipur (Mirza), Post Office - Mirza, Police Station - Palashbari, District - Kamrup, Assam - 781125.
1399	Liberal Party of India	6/12, Sarvapriya Vihar, New Delhi- 110016.
1400	Liberal Socialist Party	Opp. Guradwara Sahib, H. No. 82, MITC Colony, By Pass Road, Sirsa, Haryana - 125055
1401	Liberation Congress Party	Prathuri, Gundimeda, Village, Tadepalli, Guntur District, Andhra Pradesh- 522501
1402	Log Jan Party - Secular	Shivpuri, Navchenna Path Anisabad, Patna, Bihar-800002
1403	Log Party	33-2, Stanley Road, Allahabad, Uttar Pradesh- 211001.

1404	Lohia Sanyukta Samajwadi Party	H-Block, H.No. - 359, Sector - 9, Old Vijay Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1405	Lohiya Janta Dal	Ward No.4 Nh31 near School Gulab Bag, Barh, Patna - 803213
1406	Lok Adhikar Lehar Punjab Party	Opposite Civil Hospital, Talwandi Sabo, District Bathinda, Punjab-151302
1407	Lok Awaz Dal	Holding No. 20/11, Circle No. 264, Ambedkar Chowk, Vishnu Puri, Patna-800002, Bihar.
1408	Lok Bandhu Party	1/4908, Khasra, No.192/163/179, Gali No.6, Balbir Nagar Extn., Shahadara, Delhi-110032
1409	Lok Bhalai Party	5-FF, Raj Guru Nagar, Ferozepur Road, Ludhiana, Punjab.
1410	Lok Bharati	A/702, Vedant Unnat Nagar No. 2, Goregaon (W) Mumbai- 400062.
1411	Lok Chetna Dal	Village - Pakari Jalal, P.O. - Shubhankarpur, District - Muzaffarpur, Bihar - 843113.
1412	Lok Dal	Central Office, 8, Mall Avenue, Lucknow (Uttar Pradesh).
1413	Lok Ekta Party	S-8/188, Sudhakar Road, Khazuri Cant., Varanasi - 221 002, Uttar Pradesh.
1414	Lok Gathbandhan Party	No. B - 16-A, Basement of Alisha Apartment (Utraula House, 27/6, Ram Mohan Rai Marg) Madan Mohan Marg, Near Krishi Bhawan, 3 Way Road, Lucknow, Uttar Pradesh - 226001
1415	Lok Hit Rashtriya Vikas Party	Grain Market, Longowal, District - Sangrur, Punjab.
1416	Lok Insaaf Party	B-XXVII/208/403-D/5 Guru Ramdaas Complex, Dugri Road, Ludhiana Punjab - 141001.
1417	Lok Jan Samaj Party (Bharat)	Village Rehara, Post - Nipaniya, Thana Parsa Malik, Tehsil - Nautanwa, Distt. - Maharajganj, Uttar Pradesh-273164
1418	Lok Jan Sangharsh Party	Village- Jamunaha, Post- Sounkhia, Vikas Khand Bankeganj, District- Lakhimpur Khiri, Uttar Pradesh- 262802
1419	Lok Jan Vikas Morcha	Kachahri Road, Thana-Kotwali, PO. Ranchi, Zila-Ranchi-834001, Jharkhand.
1420	Lok Kalyan Party	No. 4 th F/403, Akashrath B/H Ratnam Op. C G Road, Ahmedabad, Gujarat - 380009
1421	Lok Manavadhikar Party	C. 32/27-16A, Vidyavihar Colony, Chhittupur, Varanasi-221002, Uttar Pradesh.
1422	Lok Nirman Dal	2, Aradhana Enclave, Surakhpur Marg, Phase-II, Delhi.
1423	Lok Parivartan Party (DC)	Bhapra Road, opposite Police Chowki, G.T. Road, Samalkha District-Panipat, Haryana.
1424	Lok Raksha Party	Village & Post Office Sirsa, District - Etawah, Uttar Pradesh.
1425	Lok Rashtriya Party Secular(S)	Avantibai Nagar Bhogaon, Distt.-Mainpuri Uttar Pradesh- 205262
1426	Lok Sahas Party	H.No. 6307, Katara Complex. Main Road, Jintur, Near Police Station, Jintur, Near Hanuman Temple, Jintur, parbani Maharashtra-431509
1427	Lok Samaj Party	B-1756, Gali No. 25, First Pushtha, Sonia Vihar, Delhi- 110090
1428	Lok Samya Party	Plot No. 179, Ramchandrapur R.C. Thakurani, P.O. Haridevpur, Kolkata - 700104
1429	Lok Sangharshsheel Party	Premises No.1004Z0864894, Shastrinagar Chotila, Tal. Chotila, District-Surendranagar, Gujarat- 363520
1430	Lok Satta Party	Flat No.801, Srinivasa Towers, Beside ITC Kakatiya Hotel, Begumpet, Hyderabad-500016, Telangana.
1431	Lok Sena Party	Ahmed Nagar Road, House No.1-4-2956, Gulshan Nagar, Balepir, Beed, Maharashtra- 431122
1432	Lok Sewa Dal	Post: Badniya, Tehsil: Lakhi Sarai, Bihar-811 302.
1433	Lok Shahi Party (Secular)	187-H, 6/2, Jivan Nagar, Near Ashram Chowk, Opposite Maharani Bagh Bus Stand, New Delhi-110014.
1434	Lok Shakti Party (Loktantrik)	House No.2, 3 rd Floor, Shakarpur Khass, Delhi-110092

1435	Lok Swarajya Party	Premalata Govindrao Bramhankar, Ward No. -5, Village-Sangadi, P.O.- Sangadi, Tehsil-Sakoli, Distt.-Bhandara Maharashtra- 441802.
1436	Lok Vikas Manch	Shop No. - 159, 2 nd Floor, Shopping Centre, Near R-World Cinema, Sector - 21, Gandhinagar, Gujarat.
1437	Lokatantrik Janaadhaar Party	T-43, Ground Floor, Punjabi Basti, Baljeet Nagar, New Delhi-110008
1438	Lokhit Adhikar Party	94-HIG, Brij Vihar, Ghaziabad, Uttar Pradesh-20101
1439	Lokjagar Party	Plot No 17, Mehfil, Sannang Nagar, Hukeshwar Road, District- Nagpur, Maharashtra- 440034
1440	Lokjan Socialist Party	C/o Varsha Netralaya, Village and Post Phoolpur Bazar, Tehsil- Pindra, P.S.-Phoolpur, Varanasi, Uttar Pradesh-221205.
1441	Lokpriya Rashtrawadi Party	Village - Madhaya, Post- Sikrara, Peepal Chowki, Agra Road, Tehsil - Fatehabad, Agra, Uttar Pradesh -283111
1442	Lokpriya Samaj Party	Prajapati Dharmshala Mandir Shri Kalkaji, Nehru Place, New Delhi-110019.
1443	Lokpriya Santa Party	Alpha Tutorial, Behind Sudha Dairy, Katari Hill Road, Shantibagh, New Karimganj, P.S.-Civil Line, P.O.-Karimganj, District-Gay (Bihar)-823001
1444	Lokrajya Janata Party	No. 1001A/1B, Plot No. 58, A Ward, Laxmitik Colony, Sane Guruji Vasahat, Kolhapur, Distt.-Kolhapur, Maharashtra-416012
1445	Lokrajya Party	A-115/35/1, N-9, Shivneri Colony, Dr. E abasaheb Ambedkar Chowk, CIDCO, Aurangabad, Maharashtra-431001
1446	Loksangram	H.No. 1321, Lane No.4, Dhule - 424001, Maharashtra.
1447	Lokshahi Ekta Party	202, Y ardhman Galaxy, Naviwad I, Off. Dadi Seth Agyari Lane, J.S.S. Road, Mumbai 400002, Maharashtra
1448	Lokshahi Nirman Party	No. 6, Prime Rose, Queens Park, Behind Deepak Hospital Mira Bhayandar Road, Mira Road, District- Thane, Maharashtra- 401107
1449	Lokshahi Party	No.B-705, Onkar Veda CHS, Near Ambedkar Colony, Eknath Ghadi Marg, Parel East, Mumbai, Maharashtra- 400017.
1450	Lokshahi Satta Party	'Panchvati' Boradipa, Near Ramaji Mandir, Bavla, Taluk - Bavla, District - Ahmedabad, Gujarat - 382230.
1451	Lokshakti Vikas Party	Udantpuri (Killapur), Biharsharif, Nalanda, Bihar-803101
1452	Lokshasan Andolan Party	259, Village Guha, Tal. Rahuri, District - Ahmednagar, Maharashtra - 413705.
1453	Lokshasan Party of India	S.No. 67, Plot No. 25, Pratik Building, Flat No. 3, Vidyanagar, Pune - 411032, MAHARASHTRA.
1454	Loktanter Suraksha Party	H. No. 568, Sector - 3, Urban Estate, Kurukshetra - 136118, Haryana
1455	Loktantra Congress Party	E-1, 21/7, New Rajendra Nagar, P.O. Ravigram, Raipur, Chhattisgarh
1455	Loktantra Jagrut Party	C-410, Sumel Business Park, Near Soni Ni Chadi Rakhial, Ahmedabad, Gujarat - 380023
1457	Loktantra Kalyan Party	Vill.- Khirikone, Post-Tar, P.S.- Agiawan Market, Block-Firo, District- Bhojpur, Bihar-82207
1458	Loktantra Vikas Party	Village & Post Shahpur Bamhaja, Thana Kavinagar, Dist. Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201009
1459	Loktantrik Jan Swaraj Party	Savita Sadan, Dhumnagar, (Kachari Tola), Post- Belbag (Bettiah), Thana- Nautan, District- West Champaran, Bihar-845438
1460	Loktantrik Janata Party (Secular)	Main Road, Firozpur, Post Office-Aander, Distt.- Siwan, Bihar-841231.
1461	Loktantrik Janshakti Party	H. No. 107, Keshar Colony, Haldauni, Greater Noida, District - Gautambudh Nagar, Uttar Pradesh- 201306
1462	Loktantrik Janta Dal	H.No. 861 P, Sector- 15, Part -II, Gurugram, Haryana- 122001
1463	Loktantrik Janwadi Party	S-25/51A-9B-1, Gautam Bihar Colony, Sar.auli, District- Varanasi, Uttar Pradesh- 221002
1464	Loktantrik Lok Rajyam Party	Banker's Colony, Laxmisagar, Ward No. 01, Near Vision School, Darbhanga, Bihar - 846109

1465	Loktantrik Manavatawadi Party	Shop No. 5, SD 366, Shastri Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1466	Loktantrik Party of India (Democratic)	No.103 (Circle No.189,Holding No.101/1,94/86),Bhitri Begampur,Patna City,Patna,Bihar-800009
1467	Loktantrik Rashtravadi Party	E-2, Old Society, Near Saijpur Railway Station, Saijpur Bogha, Ahmedabad, Gujrat- 382245.
1468	Loktantrik Samajik Nyay Party	C-32, Anand Niketan, New Delhi-110021
1469	Loktantrik Samajwadi Party	27-A, D.D.A.Flats, Mata Sundri Road, New Delhi-110002.
1470	Loktantrik Samata Dal	D-104, Daroga Prasad Rai Path, Patna-800 001, (Bihar).
1471	Loktantrik Sarkar Party	C/o P.K. Kharia, Advocate, Shatabdi Chamber No. 1, District Court, Mandla - 481 661, Madhya Pradesh.
1472	Loktantrik Sarvjan Samaj Party	B-103, Sapna Apartment, Ramnagari, Ashiyana Nagar, Patna-800025 Bihar.
1473	Loktantrik Yuva Shakti Party	No.5, HIG-160, 100 Feet Road, Nehru Enclave, Agra, Uttar Pradesh - 282001.
1474	Maa Telangana Party	8-2-540/4, Road No.4, Banjara Hills, Hyderabad, (Andhra Pradesh).
1475	Maa Tharam Party	At -302, 2 nd Floor, Innovative, Saanvi Elite, Doddathogur, Opp. Krishna Mist, Apt. Pragathi Nagar, Chikka Thoguru, Doddathogur, Bengaluru, Karnataka-560100.
1476	Maanavvaadi Janta Party	Village- Dogi, Post Office- Gorcur, P.S. - Chhabilapur, Via - Rajgir, District- Nalanda, Bihar-803116.
1477	Madhya Pradesh Jan Vikas Party	New Ward No. 72, H. No. 4872, Plot No. 123, Phase - 2, Star City, Katangi Road, Jabalpur, MADHYA PRADESH.
1478	Madhya Pradesh Nav Nirman Sena	2983, Prince Colony, New Kanchanpur, Adhartal, Jabalpur-482004. Madhya Pradesh.
1479	Mahabharat Rashtra Party	330, Tradesquare, Safal Parishkar, Khokhara Circle, Maninagar East- Ahmedabad, Gujarat-380026
1480	Mahabharath Mahajan Sabha	Plot No. 10, Vivekananda Nagar, Inner Ring Road, Kolathur, Chennai- 600099 (Tamil Nadu).
1481	Mahajana Mandali Party	H. No. 1-8-27/20, GHMC-1483, Street No. 12, Chikkadpally, Hyderabad, Andhra Pradesh - 500020.
1482	Mahajana Rajyam Party	7/347-2P-A3, Simhapuri Colony, 4th Road, Near RTC Bus Stand, Kadapa - 516002, Kadapa District, Andhra Pradesh.
1483	Mahajana Socialist Party	Door No. 1-14-297/1, Balamrai, Rasoolpura, Secunderabad, Hyderabad, Andhra Pradesh
1484	Mahakaushal Rashtriya Party	Jaiswal Colony, Chhapra, Jila Seoni, Madhya Pradesh-480884
1485	Mahakranti Dal	Village-83 Awahadpur, Post- Koilari, Tehsil and Paragna- Kerakat, District- Jaunpur, Uttar Pradesh- 222148.
1486	Mahamukti Dal	Village Usarav, Post Office - Itayen, Tehsil - Mariahu, District - Jaunpur, Uttar Pradesh.
1487	Mahan Bhartiya Sengathan Party	Village & Post- Jangral, Police Station- Vagdod, Tehsil- Saraswati, District- Patan, Gujarat.
1488	Mahan Dai	A-218 D, Dhiraj Nagar Extn., Atmadpur, Near Fauji Dhaba, Sector-30, Faridabad, Haryana.
1489	Mahan Samtawadi Party	H. No. 571, Gali No. 10, Adarsh Colony, Biharipura, Near Khilluram Academy, Vijaynagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201009
1490	Mahanwadi Party	Village & Post - Kutubpur Chanora, District - Firozabad, Uttar Pradesh.
1491	Maharana Kranti Party	H. No. 698, Ward No. 14, Opposite Baba Ramdev Mandir, Purani Abadi, Sriganganagar, Rajasthan.
1492	Maharashtra Bahujan Sanman Party	At Keskarwadi, Post Bhalawani, Tal. Pandharpur, District- Solapur, Maharashtra- 413310.
1493	Maharashtra Bahujan Vanchit Agadi	10 B, Karanje Turf, Plot No. 7, Satara, Maharashtra - 415002.

1494	Maharashtra Jankalyan Party	Shop No. 9, Punjani complex, Main Road, Kannaaji, Karanja(LAD). District-Washim, Maharashtra-441105
1495	Maharashtra Kranti Sena	W.No. 20, Ho. No. 920, Plot No. 58, Mahavir Housing Society, Near Gujrati Bhavan, Ichalkaranji, Tehsil- Hatkanangale, District- Kolhapur, Maharashtra- 416115
1496	Maharashtra Lokhitwadi Party	Moja Lendave Chainchale, Tal. Mangalwedha, Dist.-Solapur, Maharashtra- 413305
1497	Maharashtra Parivartan Sena ('')	Village - Mangvadgaon, Taluk - Kej, District - Beed, Maharashtra
1498	Maharashtra Swabhimaan Paksh	Sukhsagar Real Estate Pvt. Ltd., 101, Sai Pooja, 1 st floor, 16 th Road, Near Hotel Mini Punjab, Bandra (West), Mumbai, Maharashtra- 400050
1499	Maharashtra Vikas Aghadi	Govindagraj Sadan, Shyam Nagar, Latur, Maharashtra
1500	Mahasankalp Janta Party	Shop No. 22, Sun Shine Complex, Refinery Road, Panchvati Gorva, Vadodara, Gujarat - 390016
1501	Mahathma Makkal Munnetra Kazhakam	Old No. 56/11-N, New No. 24, Dr. Ambedkar Nagar, Railway Road, Kanchipuram District, Tamil Nadu- 631502
1502	Mahatma Gandhi National Labour Party	3/266 G, Kuthukal Street, Paramakudi, Ramanathapuram District, Tamilnadu - 623707
1503	Mahatma Makkal Sevai Periyakkam	Office No. 45, Suba Agila Nagar, Airport - PO, Tiruchirappalli, Tamil Nadu - 620007
1504	Mahila & Yuva Shakti Party	H. No. 45, New Abadi, Sector- 23, Tehsil- Sonipat, District- Sonipat, Haryana- 131001
1505	Mahila Mazdoor Kisan Party	Vill.-Ruknapur, P.O.-Madhoganj, Dist.- Hardoi, Tehsil-Bilgram, Uttar Pradesh-241302
1506	Mahila Pradhana Paksha	1261, 16 th Main, 20 th Cross, A Block, Sahakara Nagara, Bangalore - 560092, Karnataka.
1507	Mahila Sashaktikaran Party	UGF- 63, Udyan Plaza, Utrathiya, Raibareili Road, Lucknow, Uttar Pradesh - 226025
1508	Mahila Swabhimani Party	Village-Gumati No. 5, Sarai Karora, Gosainganj, District - Lucknow, Uttar Pradesh - 227125.
1509	Mai Hee Bharat	2A, "Royal" Hastings Park Road, Kolkata, West Bengal.
1510	Maidani Kranti Dal	Headquarters Masjid Wali Gali, Mazra, Dehradun (Uttaranchal).
1511	Majdoor Kisan Akali Dal	Village - 75 GB, Post Office - 72 GB, Via Ramsinghpur, Tehsil - Anoopgarh, Dist. - Ganganagar, Rajasthan.
1512	Majdoor Kisan Union Party	459/1, Moh. Sarvat (Basant Vihar), Post Office-Khas, Distt. & City- Muzaffarnagar, Uttar Pradesh - 251001.
1513	Majlis Bachao Tahreek	16-4-593/A, Chenehalguda, Hyderabad-500024 (Andhra Pradesh).
1514	Majlis Markaz-e-Siyasee Party	10-5-391/54/182/A, Ground Floor, Kashan-e-Ghousia Aleem, Sayed Nagar, Opp: 95A, MI A's Colony, Road No.12, Banjara Hills, Hyderabad - 500028, Andhra Pradesh.
1515	Majloom Samaj Party	Village - Maudkhurd, Tehsil - Mawana, District - Meerut, Uttar Pradesh, Pin Code - 250104
1516	Makkal Aalum Arasiyal	No.2,N.S.K. 1 st Street, Nelvayal Nagar, Perambur, Chennai, Tamil Nadu- 600011
1517	Makkal Arasiyal Katchi	3-463 Paalkara Duraisamy Vattam, G. P. Polytechnic Near G.P. Nagar, Palnangkuppam Village, Elagin Post, Tirupattur Taluk, Vellore District, Tamil Nadu - 635601
1518	Makkal Desiya Katchi	137, Kakkan Colony, Nungambakkam, Chennai, Tamil Nadu - 600034
1519	Makkal Kootamaipu Katchi	No. 348A, Cape Road, Uttukadai Bazar, Near T.M.B. Bmk, Edalakydy, Kottar Post, Valveeswaram Village, Agasteeswaram Taluk, Nagercoil, Kanyakumari District, Tamil Nadu - 629002.
1520	Makkal Masotha Katchi	No. 480, R.K.V. Compound, Thethakudi, Kathiruppu Post, Sirkali TK, Nagapattinam District, Tamil Nadu- 609109

1521	Makkal Mempoattu Kazhagam	No. 2/4A, North Street, Vēera Reddy Kuppam, Pazhayapattinam Post, Viruthachalam Taluk, Cuddalore-Dustt., Tamil Nadu - 606104
1522	Makkal Munnetra Congress	No. 12, 1 st Cross Street, Balaji Nagar, Puducherry- 605013
1523	Makkal Munnetra Katchi	No. 62/77, Perumal Puram, Kamaraj Nagar, 2 nd Street, Bhavani, Erode-District, Tamil Nadu- 638501
1524	Makkal Munnetra Peravai	Door No. 61E, Pandy Road, Koliyanur Village, District – Villupuram, Tamilnadu – 605103
1525	Makkal Nala Kazhagam	No. 30, Ward-2, Nethaji Nagar, Thathanavalasai, Kodumapalli Post, Tiruppattur Taluk, Tirupattur Distt., Tamil Nadu- 635653.
1526	Makkal Nalvaazhuvuk Katchi	Flat No. G3, Vetri Flats, No. 7 (Old No. 3A), Kaveri Street, Gandhi Nagar, Saligramam, Chennai, Tamil Nadu- 600093
1527	Makkal Needhi Maiaam	New # 4 Old# 172, Eldams Road, Alwarpet, Chennai, Tamil Nadu- 600018
1528	Makkal Neethi Katchi- India	No. 112 A3, Vaddakku Theru, (Parveen Complex), Ground Floor, Trichy Main Road, Thuraimangalam Post, Taluk & District- Perambalur, Tamilnadu- 621220.
1529	Makkal Rajjiyam Katchi	No. 1/427, Kadur Main Road, Puthuvettaikudi Post, Kunnam Taluk, Perambalur District, Tamil Nadu- 621716.
1530	Makkal Sakthi Katchi	New No. 41, Old No. 15, Bazaar Lane, 2nd Floor, Anna Salai, Saidapet, Chennai – 600015, Tamil Nadu.
1531	Makkal Sananayaga Kudiyaarasu Katchi	No.3/123, Gengai Amman Kovil Street, South Malayambakkam Village, Kunrathur, Chennai, Tamil Nadu – 600069.
1532	Makkal Sevai Katchi	No. 10, Balaji Nagar, Emavoor, Chennai, Tamil Nadu- 600057
1533	Makkal Thilagam Munnetra Kazhagam,	D. No. 6/431-Punnaiyapuram, Chokkampatti, Kadayanallur Taluk, Tenkasi, Distt.-Tirunelveli, Tamil Nadu- 627855.
1534	Makkalatchi Katchi	No. 57, Jagajeevanram Street, Parumbu Alwarkurichi, Ambasamuthiram Taluk, Thirunelveli District, Tamil Nadu- 627412.
1535	Makkalatchi Munnetra Kazhagam	5/187, Dr. J.J. Street, Kaspapuram, Agaramthem, Chennai, Tamil Nadu- 600126
1536	Malwa Congress	133 Sneh Nagar, Sapna-Sangeeta Road, Indore, Madhya Pradesh- 452001
1537	Mana Desam Party	A1, 1 st Floor, Ananta Sai Apartments, Vivekanand Nagar Colony, Kukatpally, Hyderabad, Andhra Pradesh- 72
1538	Mana Telangana Rashtra Samaikya Party	MIG OG Block 1st Floor No.6, Bhaglingampally, Above Apollo Pharmacy, Opp. TSSPDCL Office and Electric Substation, Near Sundaraiah Vignana Bhavan and Park, Hyderabad, Telangana-500044
1539	Manav Adhikar Raksha Party	36 Daryasthan Street, Ground Floor, Office No.3, Katawala Bldg. (Gopmani Chambers), Mumbai, Maharashtra – 400003.
1540	Manav Awaz Party	Mohalla – Nalapur, Ward No. 6, Narnaul, District – Mahendergarh, Haryana- 123001
1541	Manav Ekta Party	Dadusingh Colony, Plot No. 53, Sirpur, District – Dhule, MAHARASTRA.
1542	Manav Hit Party	575/1, Sector-24, Tubewell Colony, Agra Road, Etah, Uttar Pradesh- 207001
1543	Manav Jagriti Manch	552, Bank Colony, Devli Village, New Delhi – 110062.
1544	Manav Kalyan Manch	Sa. 6/186, M.X. – 1, Aktha, Varanasi, Uttar Pradesh.
1545	Manav Kranti Party	New Sarrafa Bazar, Nagar Panchayat Khaga, Ward No. 11, District- Fatehpur, Uttar Pradesh- 212655
1546	Manav Mukti Morcha	Hameedganj Ward No. – 13, Ahead the Patthar Mill, PO. Medini Nagar – 822 101, Distt. Palamu (Jharkhand).
1547	Manav Samadhan Party	21, Sukhi Sewania, P.O-Sukhi Sewania, Tehsil-Huzur, District- Bhopal, Madhya Pradesh-462010
1548	Manav Sangharsh Party	H. No.-54, Village & Post-Mania, Block-Bhadora, Distt.- Gazipur, Raebareli, Uttar Pradesh- 233001

1549	Manava Party	G-23, Eureka Towers, Kittur, Chennamma Circle, Hubli-580029 (Karnataka).
1550	Manavadhikar Congress Party	H. No. 26, Joshi Tola Kheri Town-1, P.S.-Kheri, Tehsil-Lakhimpur, District-Kheri, Uttar Pradesh-262702
1551	Manavadhikar Janshakti Party	J-6/7-B-D, Near Police Station, Jaitpura, Varanasi, Uttar Pradesh-221001
1552	Manavtawadi Kranti Dal	Manav Bhawan, Kullikhera, Ahmamau, Post - Arjunganj, Lucknow, Uttar Pradesh.
1553	Manavtawadi Samaj Party	638/307, Village - Jarahra, Indira Nagar, Lucknow - 05, Uttar Pradesh.
1554	Mang Samaj Party	Village-Pahdullam (Pahdevajeet), Post-Ratanpur, Thana-Haldharpur, Sadar Mau, District-Mau, Uttar Pradesh-221706
1555	Manipur Democratic People's Front	Lairik, Yengbam Leikai (South), Opposite-33KV Electric Sub-Station, Near K.M. Tower, Tirupati Lane, Imphal East - 795010 Manipur.
1556	Manipur National Democratic Front	Koijam Apartment, VIP Colony-107/109, Babupara, Imphal West, Manipur-795001
1557	Manipur People's Party	People's Road, Imphal 795001 (Manipur)
1558	Manitha Urimaigal Kalaagam	14/41, Goods Shed Street, Madurai-625001 Tamil Nadu.
1559	Manithaneya Jananayaga Katchi	124, Kamarajar Road, Moula Complex, First Floor, Ilayangudi, District - Sivagangai, Tamil Nadu- 630702.
1560	Manithaneya Makkal Katchi	3rd Floor, No. 6, Vada Maraicoir Street, Chennai- 600001, Tamil Nadu.
1561	Mannin Maithargal Kazhagam	No.-62, Ward-4, Santhanampattu, Kamaraj Street, Manampathy (PO), Thiruporur Taluk, Chengalpattu District, Tamil Nadu-603103
1562	Manuvadi Party	201, Bihana Pandeyganj, Subhash Marg, Lucknow-226004, Uttar Pradesh.
1563	Manvadhikar National Party	12, 2nd Floor, Swagat Complex, Rambaug Road, Maninagar, Ahmedabad, Gujarat- 382443
1564	Manviya Bharat Party	Village & Post - Rampur Naddi, Tehsil - Madhiyahu, District - Jaunpur, Uttar Pradesh - 222105.
1565	Maraland Democratic Front	Saiha-796901, Chhinituipui District (Mizoram).
1566	Marathwada Janta Paksha	Mauje Pakhar Sangvi, Gut No. 39, Near of Sant Tukaram Vidyalaya, Tq. & District - Latur, Maharashtra - 413512.
1567	Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam	"THAYAGAM" No. 141, Rukmani Lakshmi Pathi Salai, Egmore, Chennai-600008 (Tamil Nadu).
1568	Marumalarchi Janatha Katchi	62/5, Pillayar Kovil Street, Pappireddipatti- PO & TK, Dharmapuri- District, Tamil Nadu- 636905
1569	Marxist Communist Party of India (United)	# 1-8-742 2/3, Bagli Lingampally, Achaiah Nagar, Hyderabad-500044, Telangana
1570	Marxist Leninist Party of India (Red Flag)	Door No. 828, 2 nd Floor, Aroma Building, Pudukad PO, Thirur District, KERALA- 680301.
1571	Marxwadi Janata Party	53, Kundan Pura, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh - 251002.
1572	Matra Bhoomi Vikas Party	C/o Shri Kashi Nath Tripathi, Aspathal Road Mau Chibee, Bandha-210209 (Uttar Pradesh).
1573	Matrubhoomi Sewa Party	A-118, Durga Vihar, Near Devli, New Delhi-110062.
1574	Maulik Adhikar Kranti Party	H. No. 402, Teesri Manzil, Plot No. 2-3, Gali No.-3, Friends Enclave, Shahberry, Greater Noida Extension, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh-201009
1575	Mazdoor Dalit Kisan Mahila Gareeb Party (Hindustani)	Garhi Ashraf Khan, Jasmai Road, Farrukhabad, Uttar Pradesh
1576	Mazdoor Ekta Party	No. B-2/208, Nand Nagri, Shahadara, Delhi- 110093
1577	Mazdoor Kirayedar Vikas Party	Plot No. 116, Municipal No. 500/3E/4, Block No.30, Gali No. 6, Vishwas Nagar, Shahdara, Delhi- 110032
1578	Mazdoor Vikash Dal	At-Qtr. No. Plot-E/124, Phase- I, Chhend, Rourkela, Dist- Sundargarh, Odisha-769015

1579	Meenavar Makkal Munnani	No. 51; Old No. 24, Thambu Lane, Royapuram, Chennai, Tamilnadu - 600013.
1580	Megh Desham Party	Meghvansh Bhawan, E-70B, Bajrang Vihar Tirtiya, Harmada Ghati, Jaipur, Rajasthan.
1581	Meghalaya Democratic Party	Mission Compound, Mawkhar, Shillong-793001, Meghalaya.
1582	Mera Adhikaar Rashtriya Dal	House No. 531/62, Bhindia Tola, Bada Chandganj, Pratap Singh Marg, P.S. Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh- 226024
1583	Mera Bharat Mahan Party	Indira Nagar, Block-3, Panihti, Post-Sodepur, District-24 Paganas (N), Kolkata, West Bengal-700110
1584	Mera Gaon Mera Desh Party	H. No. 142, Village - Islampur, P.O. - South City - II, Gurgaon, Haryana - 122018
1585	Mera Watan Party	D.No. 23-4-227/5, Near Ashok Pillar, Sultan Shahi, Hyderabad, Telangana - 500065
1586	Merku Tamilagam Katchi	D.No.4/387, Sanjay Garden, Thayampalayam, Muthiyaneerichal (PO), Kangayam Via Tiruppur (TK), Tiruppur District, Tamil Nadu - 638701.
1587	Meydhaa Party	13E/10A, Rajeev Nagar (Suturkhana), P.O. Teliarganj, District-Allahabad, Uttar Pradesh.
1588	MGR Makkal Katchi	No. 6, 4 th Cross Street, 1 st Main Road, Gopalapuram East, Pattabiram, Chennai, Tamil Nadu- 600072
1589	Mihir Sena	Nagar's Choice, S-47, South Side, G.T. Road, Lal Kuan, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1590	Minorities Democratic Party	13, Hydry Road Complex, Mominpura, Nagpur-440018, (Maharashtra).
1591	Minority People's Party	PP No. 55, 56, DAG No. 22, 23, Vill-Dhingarati, Mouza-Laharighat, P.O.- Laharighat, P.S.-Laharighat, District-Morigaon, Assam - 782127
1592	Mission All India Independent Justice Party	Room No.-2, Jivdani Chawl, Kumbharpada, Virar East, Virar, Maharashtra- 401305
1593	Mission Ekta Party	House No 790/12, Salara Mohalla, Rohtak, Haryana- 124001
1594	Mission Garib Parivartan Party	R-7, Side-5, (UPSIDC) Kasna Industrial Area, Greater Noida, Goutam Budh Nagar, Uttar Pradesh-201308
1595	Mission Naya Digant Bharat	Holding No.1275, Khandoghosh, PS-Khandoghosh, District-Purba Bardhaman, West Bengal-713142
1596	Mithilanchal Mukti Morcha	Supoul Bazaar, College Road, Vandevi Nagar, Biroul, Darbhanga, Bihar - 847203.
1597	Mithilanchal Vikas Morcha	Mahuar, Gaura Bauram, Post - Aasi, District - Darbhanga, Bihar - 847203.
1598	Mithilawadi party	Village-Paliwar, Post-Ranti, P.S. - Rajnagar, Ward-8, Near Hanuman Temple, Madhubani, Bihar-847211
1599	Mizoram People's Conference	General Headquarters, Treasury Square, Aizawl-796001 (Mizoram).
1600	Mo Dala	At-Mukura Press Premises, Bhasakose Lane, Nimchouri, PO-Chandini Chowk, P.S.-Lalbag, Distt.-Cuttack, Odisha-753002.
1601	Moderate Party	Village - Khakhari (Maghara Chauraha) P.O. Balepur Kalan, District - Devariya, Uttar Pradesh.
1602	Modern Citizen Party	Village-Ranichak, P.S.-Garhpura, District-Begusarai, Bihar-848204
1603	Modern People Party	H. No. 5-109-3/B/1, 3rd Floor, Jubilee Hills Road, Opp. J.R.C., Rai Durga, Hyderabad, Telangana - 500033
1604	Mool Bharati (S) Party	House No. 25, Near Khooni Masit Moga Mehla Singh Moga- 142001 Distt. Faridkot (Punjab).
1605	Mooljan Shakti Party	H.No.394, Gali No.18, Near Vishwakarma Mandir, Karan Vihar, Karnal, Haryana-132001
1606	Moolniwasi Samaj Party	Village - Maghaipur, Post - Maharajganj, Janpad - Ajamgarh - 276137 Uttar Pradesh.
1607	Most Backward Classes of India	Paraspur-Kudwar, Sultanpur-228155, Uttar Pradesh.

1608	Mother India Party	Khasra No. 143, Kurre ke bad bana No. 143/3, Gram - Jaunsamana, Pargana & Tehsil - Dadri, District - Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh.
1609	Mother Land National Party	Survey No. 20+21, Duplex No. 05, Noman Duplex, Near Iqbal Avenue, Near Canal, Fatehwadi, Ahmedabad, Gujarat-380055
1610	Moulik Adhikar Party	Biroli-Motinagar, Faizabad, Uttar Pradesh-224201.
1611	Mulnibasi Party of India	Village and Post- Basantpur, District- Murshidabad, SD and PS- Dumkal, West Bengal-742406
1612	Mulnivasi Adhikar Party	R/o. S-96, UPSIDC, Sector-5, Jagdishpur, Amethi., Uttar Pradesh- 227817
1613	My India Party	No. 447/265, 2 nd floor, Poonamallee High Road, Amnjikarai, Chennai, Tamil Nadu- 600029
1614	Naadaalum Makkal Katchi	4/330, Ground Floor, Duwaraga Nagar, Phase-I, Manali New Town, Chennai Tamil Nadu- 600103.
1615	Naam Indiar Party	73F/1A, Polepettai, Thoothukudi, Tamil Nadu- 628002
1616	Naam Tamilar Katchi	Door No. 7, Plot No. 8, Hospital Road, Senthil Nagar, Cinna Porur, Chennai - 600 116 Tamil Nadu .
1617	Naari Nar Rakshak Party	Raj Laxmi Nivas, Kakrali Road, Village-Aneg, Behta, Abdul Pur, Primary Pathshala Ke Peechhe, Tehsil-Hardoi, District-Hardoi, Uttar Pradesh-241001
1618	Naba Bharata Nirmana Seva Party	Plot No. 145/245/1141/1356, Khata No. 50/4873, Hati Pathar Lane, Near Trinath Temple, Raniguda Farm, District-Rayagada, Odisha-765001
1619	Nagaland Congress	H. No. 202, Fellowship Colony, Near IMC Hall, Dimapur, Nagaland - 797112.
1620	Nagrik Adhikar Party	Nandlalpur, Post- Nandlalpur, Via- Mathurapur, District- Bhagalpur, Bihar- 813222
1621	Nagrik Adhikar Shakti Sewa Party	A-63, JantaJeevan Camp, Tigri, Khanpur, New Delhi- 110062
1622	Nagrik Chetna Party	Sarvodaya Nagar, Teachers Colony, Pilakhua, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1623	Nagrik Ekta Party	3/305, Vishal Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
1624	Nagrik Sewa Party(R)	4. Tayal Vihar Colony, Gate No. - 2, Aishbagh Road, Haidarganj, Lucknow, UTTAR PRADESH - 226004.
1625	Nagrik Vikas Party	728, ABC, Ekta Nagar, Opp. Professional Courier, Near Modi Hundai Show Room, Sativali, Vasai Road, Vasai (E), District- Palghar, Maharashtra - 401208
1626	Nai Kranti Party	Baba Mritunjaynath Mandir, Kumbharan Tola First, Gola Gokarannath, Distric- Likhampur- Kheri, Uttar Pradesh-262802
1627	Naitik Party	314, City Center, Near Press Club, Hazratganj, Lucknow, Uttar Pradesh.
1628	Naki Bharatiya Ekta Party	Ward No. 1, Mohalla- Harijan Wala, Kithore, Meerut, UTTAR PRADESH
1629	Nalvazhikkazhagam	Kathiravan Illam, 94/2, Kalavai Chetty Street, Chintadripet, Chennai, Tamil Nadu - 600002.
1630	Nam India Naam Indiyar Katchi	H. No. 9/8, Flat No. 3 Swagath Apartment, Chellappa Street, Otteri, Chennai, Tamil Nadu- 600012
1631	Namadhu Makkal Katchi	No.3, Pillayar Kail Street, Kasba, Vellore-632001, Tamil Nadu.
1632	Namathu Kongu Munnetra Kalagam	5F Sanjith Plaza, Thiru.V.Ka. Street, Tirupur Road, Kangayam, Tirupur District, Tamil Nadu - 638701
1633	Namma Congress	No.98, Varthur Main Road, Bangalore East, Bangalore - 560087 Karnataka.
1634	Narayani Sena	Niwas-Gram, Post-Malipur, Zila-Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh.
1635	Nari Panchayat Party	Plot No 79, Pocket - 4, Sector - 23B, Dwarka, New Delhi - 110077
1636	Narmadakhand Navnirman Sena	H.No.20, Village-Lakho, Post-Chhanta, Tehsil & Dist.-Dindori, Madhya Pradesh-481880.
1637	Nasha Mukti Bharat Party	Tejaswi House, Vivek Vihar Colony, Farrukhabad Road, New Mandi, Etawah, Uttar Pradesh- 206001
1638	Nation First Democratic Party	House No. 99, Ward No. 39, Gangotri, Ganga Vihar, R.P.S. Road, Danapur, District- Patna, Bihar- 801503

1639	National Adhikar Insaf Party	House No. - 230, Street No. - 7, S.A.S. Nagar, Abohar Road, Sri Muktsar Sahib, Punjab
1640	National Aman Party	Moh. Punjabiyan, Nagina, District - Bijnor, Uttar Pradesh - 246762
1641	National Apni Party	D-1, 242/9, Main Circular Road, Sonia Vihar, Delhi-110094.
1642	National Awami United Party	H.No. 62, Priyadarshani Lane, Patta Bohri, Jammu & Kashmir- 180002
1643	National Backward (Mool), Dalit, Minorities Kranti Dal	1st E-17, Jai Narayan Vyas Colony, Bikaner, Rajasthan - 334003.
1644	National Bhrashtachar Mukti Party	576/2, Punjabiyan-5, Khurja, Bulandshahr, Uttar Pradesh-203131
1645	National Black Panther Party	Shop No. 1, Hill Park, Tirupati Apt., Kokanipada, Kurar Village, Mumbai, Maharashtra - 400097.
1646	National Confederacy of India	63, Southern Avenue, Flat No. - 9, Kolkata, West Bengal - 700029.
1647	National Dalitha Dhal Party	7/398-8, Balijapalli (HC), Revenue ward No. 7, Mannur (SO), Rajampet Mandal, Kadapa- District, Andhra Pradesh- 516126
1648	National Democratic Front	House of Jangbahadur Yadav, Village - Maulanipur Bazar, Post - Tarwan, Tehsil - Lalganj, District - Azamgarh, Uttar Pradesh.
1649	National Democratic Mission	C-63, Pratap Nagar, Hari Nagar, New Delhi-110064
1650	National Democratic Party	Central Office-Changanacherry-2, Kottayam District (Kerala).
1651	National Democratic Party (Indian)	H.No. 83, Mohalla- Ustad, Jammu, Near Jambulochan Community Hall, Jammu & Kashmir- 180001
1652	National Democratic Party (Secular)	TC. 28/1628, Pulliamadom Compound, Sreekandeswaram, Thiruvananthapuram, Kerala- 695023
1653	National Democratic Party of South India	21/7, Naveen Flats, Meenakshi Street, Perambur, Chennai, Tamil Nadu- 600011.
1654	National Democratic Peoples Front	C-4D, 42 B, Janakpuri, New Delhi.
1655	National Development Party	House No. A-8-2, Multani Colony, Bidar - 585 401, Karnataka.
1656	National Equal Party	SH-15/83, 3D, Vivekpuram Bharlai, Shivpur, Varanasi, Uttar Pradesh- 221003.
1657	National Ex Servicemen Party	A-4, Vishwa Pride Apartment, Nookampalayam Main Road Perumbakkam, Chennai-600100
1658	National Federal Party	House No. 80/3A, Ground Floor, Basant Village (Basant Gaon), Vasant Vihar, New Delhi - 110057.
1659	National Fifty Fifty Front	H.No. 77, Garden City Colony, Post- Shahamat Ganj, District- Bareilly, Uttar Pradesh-243005
1660	National Future Party	Deoria House, Behind GPO, Purani Mandi, Ajmer, Rajasthan.
1661	National Inquilab Party	E1/576, Street No.-12, (Near Mazar), 33 Futa Road, Nehru Vihar, Mustafabad, Delhi- 110094
1662	National Jagaran Party	H.O.-14, Montessory School lane, Near Maruti Auto Mobiles, Boring Road, Patna, Bihar - 800001.
1663	National Jan Dal	H.No. 1/19, Hausilnagar, M.H. Quddoosi, PS-Kotwali Nagar, The Faizabad, Dist-Faizabad Uttar Pradesh-224001
1664	National Janhit Congress (AB)	043A/5 Piarey Lal Building, Near Government College, Mehrauli Road, Gurgaon, Haryana.
1665	National Janmandal Party	Flat No. F-2, (1st Floor) Plot No. 105 & 106, Alkapuri Yojna, Village Niwaru, Rajasthan-302012
1666	National Jansatta Party	Tejaji Chenchya Wali Dhani, Post - Khori, Tehsil - Shahpura, District - Jaipur-303103 Rajasthan.
1667	National Janta Party (Indian)	Plot No. 385, Khata No. 105, Village - Mohammadpur Hari, P.O. & P.S. - Bhagwanpur, District - Vaishali, Bihar - 844114.
1668	National Labour Party	D-22, Office No. 11, D-Block, Pandav Nagar, Delhi-110092.
1669	National Lokmat Party	Village - Jisauri, Post - Mundali, District - Meerut, Uttar Pradesh
1670	National Loktantrik Party	46, Gulista Colony, Lucknow-226001(Uttar Pradesh).

1671	National Maha Sabha Party	Maa Krupa, Amardeep Society, Ambika Chowk, Deesa, Banaskantha-385535, Gujarat.
1672	National Nationalist Party of India	596-E-D/S, Azad Kutia, Barra-2, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh-208027
1673	National Nava Kranthi Party	D.No.- 1-236, Vill.- Gangavaram, Mandal- Gurazala, Dist- Guntur, Andhra Pradesh- 522 415.
1674	National Organisation Congress	No.1, Jeevananandam, Salia, K.K.Nagar, Chennai-600078(Tamil Nadu).
1675	National Party.	Rudain Badayun-202 524 (Uttar Pradesh).
1676	National Peace Party Secular	Village - Rasoolpur Biur, Post-Awadhan, Tehsil - Chaayal, District - Kaushambi, Uttar Pradesh - 212218.
1677	National People's Congress	H.No. 3-6-200, Flat No. 105, Arunodaya Apartment, Street No.15, Himayatnagar, Hyderabad- 500029, Andhra Pradesh
1678	National Praja Shakti (Janathan) Party	H.No.16-1-159, Chinnadaripally Village, Hanwada Mandal, Mahabubnagar District, Telangana State, Pin-509334
1679	National Republic Party of India	N-51/1, Flat No. 2, Upper Ground Floor, Rajpur Khurd, Hargovind Enclave, Tehsil- Hauz Khas Mehrouli, New Delhi- 110068
1680	National Republican Congress	Holding No. 223, House No. 6, Ward No. 26, Located at Pragati Path, Near Rajdhani Masjid, Dispur Guwahati, Assam -781006.
1681	National Samajwadi Congress	No.42, Naidu Layout, Kuvempu Nagar, Bangalore, Karnataka-560014
1682	National Secular Conference	MISFA, Koduvally (P.O.), Kozhikode DT., Kerala - 673572.
1683	National Socialist Party (United)	Flat No. 6, 1st Floor, Sai Kripa Housing Society, 45/6, Hospital Colony, Talegaon, Dabhade, Taluka- Maval, District- Pune, Maharashtra- 410507
1684	National Target Party	No. 158/A, Tehkhand, Okhla Phase-I, New Delhi- 110020.
1685	National Tiger Party	Central Head Office- Sarojnagar, Post office- Kalgiganj, Vai/Thana- Kahalgaoon, District- Bhagalpur- Bihar- 813203.
1686	National Unionist Zamindara Party	129, New Dhaan Mandi, Sriganganagar, Rajasthan-335001.
1687	National Women's Party	H.No.2-247, Sri Sai Nagar, (Near Venkateshwara Swamy Temple), Jilleguda Saroor Nagar, Hyderabad - 500097, Andhra Pradesh
1688	National World Leader Party	2 nd Floor, In front of ATM, Navi Bhag, Berasia Road, Bhopal, Madhya Pradesh-462038.
1689	National World Life Panchatatva Party	Patidar Colony, Bhelkheri Road, Shujalpur Mandi, District - Shajapur, Madhya Pradesh
1690	National Youth Party	Flat No. A-202, Yuro Apartment, Sector - 5, Rajendra Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh
1691	Nationalist Charity Congress	Bishop House, Gabriel Compound, Panavilai Thuekaley-629175, Kanniyakumari District, Tamil Nadu.
1692	Nationalist Citizens Party of India	Jago Biswa, Holding no. -4719, village- Hatgacha, P.O.- Banipur, P.S. Sankarail, District-Howrah, Pin- 711304
1693	Nationalist Janshakti Party	Abhinav Niwas, Rapatpur, Belghat, Gorakhpur, Uttar Pradesh - 273404.
1694	Nationalist Justice Party	No. 1525/1, Street No. 33, Preet Nagar, New Shimlapuri, Ludhiana, Punjab- 141003
1695	Nationalist People's Front	S-8, Divya Mall, Tonk Road, Lal Kothi, Jaipur (Rajasthan)
1696	Nationalist Power Party	L-1 st 1100/2, Gali No. 25, Sangam Vihar, New Delhi- 110062
1697	Nationalist Trinamul Congress Party	A9/124, Kalyani, PS & PO-Kalyani, District-Nadia, West Bengal-741235.
1698	Nature Mankind Friendly Global Party	Ward No.1, Kathua (Jammu & Kashmir).
1699	Nav Bharat Democratic Party	Chherawal and Associates, F6/35, United Apartments, East Street, Pune- 411001, (Maharashtra).
1700	Nav Bharat Jagran Party	At Golechha Building, Opposite Railway Station, Phalodi, District- Jodhpur, Rajasthan- 342301

1701	Nav Bharat Rashtriya Congress Party	B- 100, New Ashok Nagar, New Delhi- 110096
1702	Nav Chetna Party	Mohalla - Jagat Nagar, Kasba & Post - Bhongaon, District - Mainpuri, Uttar Pradesh - 205262.
1703	Nav Hind Party	130, Village-Darbarpur, Post-Ajarka, Tehsil-Mundawar, District- Alwar, Rajasthan-301401
1704	Nav Jankranti Party	B - 11/42, Ahata Rohila, Gauriganj, Varanasi, Uttar Pradesh - 221001
1705	Nava Bharat National Party	Survey No.627, Bhairava Gutta, Ravalkole Village, Medchal Mandal, Ranga Reddy District, Andhra Pradesh.
1706	Nava Praja Rajyam Party	Old H.No.10-30, New H.No.11-54, Harijanawada(P&M) Utnoor, District - Adilabad, Andhra Pradesh -504311
1707	Nava Samaj Party	House No. 5-7, Buddham Village, Gopalpeta Mondal, Wanaprathy District, Telangana- State.
1708	Nava Socialism Party	Door No. 18-6-35B, First Floor, Sundaraiyah Nagar, Tirupati, Andhra Pradesh- 517501
1709	Navabharath Sena	No.14/15, Chamundeshwari Building, 3 rd Cross, 4 th Main Road, Chamrajpet, Bengaluru, Karnataka-560018
1710	Navam Disha Dal	4/684, Vihav Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh- 226010
1711	Navarang Congress Party	D.No. 866/1, Pedavadlapudi Village, Mangalagiri Mandal, Guntur District, Andhra Pradesh- 522302
1712	Navataram Party	D.No. 26-37, Subbaiah Thota, Chilakaluripet, District - Guntur, Andhra Pradesh - 522616
1713	Navbahujan Samajparivartan Party	185, Sahyadrinagar, G - Ward, AT/Post - Lonavla, Tehsil - Maval, District - Pune, Maharashtra - 410401.
1714	Navbharat Ekta Dal	Dhiman Bhawan, Nagrota Surian, Tehsil- Jawali, District- Kangra, Himachal Pradesh- 176027
1715	Navbharat Party	538Ka/409, Adarshpuram, Triveni Nagar-3, Lucknow, Uttar Pradesh-226020
1716	Navbharat Samaj Party	Village-Parasapur, Post-Budhanpur, Thana Bhudakuda, Tehsil-Jakhaniya, District-Ghaziipur, Uttar Pradesh, India-275203
1717	Naveen Samajwadi Dal	133/4C/1C, Teliarganj, Allahabad, Uttar Pradesh.
1718	Navin Bharat Nirman Manch	Pipalawali Khadki, At. & Po. Kasor- 388205, Ta. & District Anand, Gujarat.
1719	Navjawan Sangharsh Morcha	D/711, Township, Bhavnathpur, Garhwa, Jharkhand-822112.
1720	Navlok Samaj Party	Located 24B, Renuka Bagh, New Avadheshpuri Karmayogi, Agra, Uttar Pradesh- 282010.
1721	Navnirman Party	Plot No. 1588-P, Sector- 5, Urban Estate, Tehsil- Thanasar, K.D.B Road, District- Kurukshetra, Haryana- 136118
1722	Navodaya Jantantrik Party	Khasra No.31/23,& 49/3/81, Gupta Nivas, Gali No.45, B-Block, Kaushik Enclave, Burari, Delhi-110084
1723	Navodayam Party	D.No. 4-96/2, Near Rama Mandir, Nallakavari Street, Etukuru Village, Guntur Rural Mandal, Guntur District, Andhra Pradesh.
1724	Navsarjan Bharat Party	House No.- 492, Fal Faliya, Opp. Krishna Petrol Pump, Vaghadhra Road, Dadra, Dadra & Nagar Haveli- 396193
1725	Navyug Nirman Party	C-2, Room No. 401, Shaghun Residency, Mahyavanshi faliya, Dadra, Dadra and Nagar Haveli-396193.
1726	Navyug Party	1-Ground Floor, Begumpur, Malviya Nagar, New Delhi - 110017.
1727	Navyug Pragatisheel Morcha	Adarsh Nagar, Post-Pakur, District-Pakur, Jharkhand-816107
1728	Navyuvak Atmanirbhar Party	At -C/o Babita Kanwar, 213, Railway Officers Colony, Opp. Kanakpura Jaipur, Rajasthan-302012
1729	Nawan Punjab Party	52-E, Hira Nagar, Patiala, Punjab-147001
1730	Naya Bharat Party	8- Bapu Sabji Mandi, Nagar Palika Road, Sumerpur, Rajasthan -306902
1731	Naya Daur Party	A-406, Defence Colony, New Delhi-110024.
1732	Naya Savera Party	Plot No. J-2-530.8, J-2 Block, Gupta Colony, Sangam Vihar, New Delhi- 110062

1733	Neethi Nijayithi Party	Door No. 36-178A, Padhmavathi Nagar Kalyanapuram, Narayanavanam Mandal, District-Chittor, Andhra Pradesh- 517581
1734	Nehru Janhit Congress	Sainipura Mohalla, Badshahpur, Tehsil & Distt. - Gurgaon, Haryana.
1735	Netaji Adarsh Party	298, Kuttiyani, 28 - Thodupuzha, Idukki District. Kerala - 685584.
1736	Netaji Congress Sena	Ranga Place, Ground Floor, S.No.48/2/10, Waghjal Nagar, Ambegaon Khurd, Katraj P.O., Pune-411046, Maharashtra.
1737	Netaji Subhash Chander Bose Rashtriya Azad Party	Mohalla - Gayatri Nagar, City & Post - Banda, Distt. - Shahjahanpur, Uttar Pradesh - 242402
1738	Nethaji Makkal Katchi	No.6/33, Ramakrishna Street, Gandhi Nagar, Saligramam, Chennai, TamilNadu-600093
1739	New Bhartiya Kranti Party	Vill.-Sungulpur, Post & Thana- Khedtasray, Tahsil- Sahganj, District- Jaunpur, Uttar Pradesh- 222139
1740	New Generation People's Party	30-C1, Ambu Nagar, Edayarpalayam Post, Coimbatore, Tamil Nadu- 641025
1741	New India Party	H. No. 20-3-314, Vidyanagar Godavarikhani, -505209, Distt. Karimnagar (Andhra Pradesh).
1742	New India United Party	Shop No. B/6, Uravi Complex, Naroda Bethak, Naroda Ahmedabad- 382350, Gujarat
1743	New Labour Party	Room No. 8/249, Perumbillissery, P.O.-Cherpu, Thrissur District, Kerala- 680561
1744	New Life People's Party	No.15/16, 'Judie Flats', No. 13, Rosary Church Road, Santhome, Chennai- 600004, Tamil Nadu.
1745	New Mother Land Party	F-111, South City, Rai Bareilly Road, Lucknow, Uttar Pradesh- 226025
1746	New Rashtriya Samaj Party	H.No. 167/2/5/F/4, 1st Floor, Bramhanand Nagar, Tadali Road, Kamatghar, Bhiwandi, District- Thane, Maharashtra - 421305
1747	New Socialist Movement	104, Maharana Pratap Complex Opp. Ellisbridge, P.O. - Ellisbridge, Ahmedabad - 380 006. Gujarat.
1748	Nirbal Indian Shoshit Hamara Aam Dal	House No. 105T, Mohalla- Jungle Salik Ram, Bypass Road, Sangram Chowk, Padri Bazar, Gorakhpur, Uttar Pradesh -273014
1749	Nirbhay Bharteey Party	27, Sahajanand Bungalows, Motera, Ahmedabad, Gujarat-380005
1750	Nirdhan Samaj Party of India	11A, Rajiv Vihar, Near Bandi Baba Mandir, Machhariya, Naubasta, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh - 208011
1751	Nirjatita Samaj Biplabi Party	Village -Durgapur P.O. Haritala (Bagula), Distt. Nadia, West Bengal, Pin 741502
1752	Nirmal India Party	SA 6/8 H-15, Satsang Nagar, Benipur, Pahadia, Varanasi-221007, Uttar Pradesh.
1753	Niswath Seva Rashtra Seva Party	House No. 56, Indalpur, Post- Dandi, Naini, Allahabad, Uttar Pradesh- 211008
1754	Niz Goenkar Revolution Front	H.No. 9/222, Patrong, Baina, Vasco-Da-Gama, Goa.
1755	Noorie Party	102, Kadodra - Bardoli Road, Surat, Gujarat.
1756	North Bengal People's Party	Village-Rahindrapally, P.O.-Mohanbati, P.S.-Raiganj, District-Uttar Dinajpur, West Bengal-733134
1757	North East India Development Party	Sagolband Tera Loukrakpam Leikai, Imphal West, Manipur-795001
1758	North East Social Democratic Party	Mawlai Mawdatbaki, Dong Nongpathaw, Shillong-793008, East Khasi Hills District, Meghalaya.
1759	Nyay Party	No. 319, Swamipada, Budhana Gate, Meerut City, Uttar Pradesh-250002
1760	Nyay Satta Party	Ground Floor, House No. 303, Gali No.12, Chandan Vihar, West Sant Nagar, Burari Road, Delhi-110084
1761	Nyaydharmsabha	Pragativihar, Jagitpur, Kankhal, Haridwar, Uttarakhand- 249408
1762	Nyaywadi Janta Party	Kanchanpur Chauraha (Bagi Road), Village Sakramau, Post-Mau Aima, Dist-Prayagraj, Uttar Pradesh-212507
1763	Odisha Jan Morcha	Plot No.17, Village Nakhaur, PO Gopinathpur, District - Khurda, Bhubaneswar - 751002, Odisha.

1764	Odisha Janata Party	At-Chhagharia, P.O.-Bagada, P.S./Distt. Kendrapara, Bhubaneswar, Odisha-754212
1765	Odisha kalyan Party	Plot No.44 (1 st Floor), P.O.-Satyanagar, P.S.-Kharabela Nagar, City-Bhubaneswar, District-Khordha, Odisha-751007
1766	Odisha Pragati Dal	Khatian No. 99/180, Plot No. 420/1360, Brundamal, P.O.- Badmal, P.S.-Katarbaga, Tehsil- Jharsuguda, District- Jharsuguda, Odisha- 768202.
1767	Odisha Praja Dal	Naveen Bhaban, Chhadasingh, Post-Badanagania, Via-Mahimagadi, Dist.Dhenkanal, Odisha-759014
1768	Ojaswi Party	Flat No. 38, Plot No. 36, Ajanta Apartment, Patparganj, Delhi-110092.
1769	One India One People Party	14/916, Vadakkancheri Angadi, City Light Shopping Complex, Second Floor, Vadakkanchery, Kerala-678683
1770	One India One Policy Party	Arakkal Tower, Christopher Nagar, Ollur Village, Thrissur Taluk, Thrissur District, Kerala-680306
1771	One India Party	D-46A, Krishan Vihar, Delhi- 110086
1772	Open people's Party	Pawar House, Near Saibaba Temple, Mangal ragho Nagar, Tisgaon road, Kalyan (E), District-Thane, Maharashtra- 421306.
1773	Orissa Communist Party	MLA Colony, Unit-4, Bhubaneswar (Orissa).
1774	Orissa Socialist Party	Municipal Compound, Choudhury Bazar, Cuttack-753009 (Orissa).
1775	Our Mahathma National Party	No. 62(I Floor), Pillaiyar Koil Street, Kamaraj Street, Gandhi Nagar, K. K. Nagar Post, Tiruchirapalli, Tamil Nadu - 620 021
1776	Pachai Tamizhagam Katchi	12/143 Idinthakarai, Harjancolony, Vijayapathy, Radhapuram(TK), Tirunelveli(DT), Tamil Nadu - 627104.
1777	Pachchasi Parivartan Samaj Party	Village & Post- Mohari Khurd, Mohanlalganj, Lucknow (U.P.)-226305.
1778	Pahadi Party	Village-Talli Bagi, Patti-Sarjula, Post-Bhagirathpuram, Vikas Khand-Chamba, District-Tehri Garhwal, Uttarakhand-249145
1779	Panch Party	Kailash Chandra Meena House at Khodki Dhani, Village & Post- Raisana, Tehsil- Nadoti, District- Karuli, Rajasthan-322215
1780	Panchpauniya Samaj Party	Village & Post - Aunta Mujeeb Nagar, Ward No.8, P.S.-Hathida, Distt-Patna, Bihar-803303
1781	Panthers Republican Party	'Anandvan', Mahatma Phule Nagar, Peer Bazar, Osmanpura, Aurangabad, Maharashtra - 431005
1782	Paradise Party	Kabita Apartment, Sriniketan Road, P.O.-Bolpur, District-Birbhaum, West Bengal - 731204
1783	Param Digvijay Dal	H. No. 7/297/7, Vikas Nagar, Sector - 7, Lucknow, Uttar Pradesh
1784	Parbatiya Prajatantrik Party	39/A, Lebong Cart Road, Near Maheswari Petrol Pump, Darjeeling West Bengal-734301
1785	Parcham Party of India	1-Rahmat Bano Market, Medical College Road, Civil Lines, Aligarh-202002, Uttar Pradesh.
1786	Parisara Bandhu Party	#281, Janani, Opp.of BCC Layout, 2nd Stage Bus Stand, Vijayanagara Bengaluru, Karnataka-560040
1787	Parivartan Party of India	Monu Rawat, Pohri Bye Pass, Intercity Bus Walon Ke Peeche Wali Gali, Rajpura, Circular Road Circuit Housing Tiraha, Tehsil and District-Shivpuri, Madhya Pradesh- 473551
1788	Parivartan Rajniti Party	D-41/28/GF, Gali No.-2, D-Block, East Vinod Nagar, weard-Mayur, Vihar Phase-II, Delhi-110091
1789	Parivartan Samaj Party	Gande Wali Sarak, Laskar, Gwalior-474001, Madhya Pradesh.
1790	Party for Democratic Socialism	183, Jodhpur Park, Kolkata-700068, West Bengal.
1791	Paschim Banga Rajya Muslim League	129, Collin Street, Kolkata-700016 (West Bengal).
1792	Paschimanchal Vikas Party	Qr. No. 10 E, In front of St. Joseph School, At. Sakhipara, Distt. - Sambalpur, Orissa- 768001.

1793	Pashchimanchal Nirman Party	Shree Trimbakeshwar Mahadev Mandir, Behind of Dwarkadham City, Village-Sivaya Janpad Meerut, District-Meerut, Uttar Pradesh-250110
1794	Pashchimi Uttar Pradesh Vikas Party	H. No. 1, Kasana Niwas, Village - Morna, Sector - 35, Noida, District - Gautambuddh Nagar, Uttar Pradesh - 201308.
1795	Pasumpon Makkal Kazhagam	Door No.102, L.B. Road, Adyar, Chennai, Tamil Nadu - 600 020.
1796	Pathik Janshakti Party	C/o Rajkumar, P.O.-Sidhani, Tehsil-Tohana, Distt.-Fatehabad, Haryana-125133
1797	Pathik Swaraj Party	C/o Ravinder Singh Deodhar, S/o Sh. Balbir Singh Deodhar Vill. & Post - Bihta, Tehsil -Ambala Cantt., Distt. Ambala, Haryana- 133101.
1798	Patri Vyapari Party	Geeda - Gorakhpur, Sector-22, Plot No.C-5/23, Geeda, Gorakhpur, Uttar Pradesh-273209.
1799	Patriotic Party of India	4/28, Vishal Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh.
1800	Pattali Makkal Katchi	No.10, Tilak Street, T. Nagar, Chennai-17
1801	Peace & Freedom party	CTS No. 5214, Plot No. 180, Nagar Parishad Colony, Kothlaj Road, Near Parival Mall, Distt.-Hingoli, Maharashtra- 431513
1802	Peace Party	Johra Complex, Barhalganj, P.O- Barhalganj, Zila - Gorakhpur, Uttar Pradesh.
1803	Peasants And Workers Party of India	Hari Kharude Niwas, Mahatma Phule Road, Naigaon, Dadar, Mumbai (Maharashtra).
1804	Pedala Party	D.No. 18-131(A), Village - Katurivaripalem, Mandal - Podili, District - Prakasam, Andhra Pradesh - 523240.
1805	Pedarikam Nirumulana Party	D No. 66-1-3/A.S. Atchuthapuram, Kakinada-533004, East Godavari District Andhra Pradesh.
1806	Pehchan People's Party	Hanif Manzil, Chandan Chowk, Rani Kheda Darwaja, Nimbahera, Distt.-Chittorgarh, Rajasthan-312601
1807	People Liberation Party	4/611, Pughazhendhi Road, 4 th Block, Mogappair East, Chennai, Tamil Nadu- 600037
1808	People Protection Party	D.No. 7-97/2, Srinagar Colony, Sun Rays School, Pasumamula Road, Kuntloor, Hayatnagar, Rangareddy District Telangana - 501505
1809	People's Action Party	363, Nainagarh, Prem Nagar, Jhansi, Uttar Pradesh-284003
1810	People's Justice Party	H. No. 120/209(120/096B), Ward-Hazratganj, Ram Teerath, Beldari Lane, Behind Lok Bhawan, Lalbagh, Lucknow Uttar Pradesh- 205262
1811	People's Liberal Party	104/01, Gram Gangana, Gram Panchayat Boranada, Tehsil- Luni, District-Jodhpur, Rajasthan-342012
1812	People's Party	A-23, Subhash Nagar, Roorkee, District- Haridwar, Uttarakhand
1813	People's Party for Liberty	AP 12/129, M.M.Bhavan, Madathilchira, Anad- P.O. Nedumangadu, Thiruvananthapuram, Kerala- 695544
1814	People's Party of India (Secular)	Duplex-38, Saileshree Vihar, Chandershekharpur, Bhubaneswar-751021, Orissa.
1815	People's Party of Punjab	7112, Ward No.2, Malout Road, Gidderbaha (Mukatsar), Punjab-152101.
1816	People's Union Party	Dharmavat House, House No.1015, Shukrawar Peth, Tilak Road, Swargate, Pune-411002, Maharashtra.
1817	People's Democratic Alliance	Ragailong, Imphal-795 001, Manipur
1818	Peoples Democratic Party	MASS Building Ernakulam North, P.O. Cochin-18 (Kerala).
1819	Peoples Green Party	19C/1, Jeevan Jyoti Appariments, Ward No. 1, Mehrauli, New Delhi-110030.
1820	Peoples Guardian	D-302, Blue Hills, Nagar Road, Pune (Maharashtra) - 411 006.
1821	Peoples Party of India (Democratic)	111, Astha Complex, Dahej Bypass Road, Nandelav, Taluka & District-Bharuch, Gujarat- 392001
1822	Peoples Representation for Identity and Status of	A-16, Upper Republic, Aizawal, Mizoram- 796001

	Mizoram (PRISM) Party	
1823	Peoples Republican Party	Saptahik Jaibheem, Opp. Anand Talkies, Sitabadi, Nagpur-440012 (Maharashtra).
1824	Peoples Resurgence and Justice Alliance	House No. 156, Khomdram Selungbam Leikai, Thangmeiband, PO/PS: Lamphel, Imphal West, Manipur- 795004
1825	Peoples Ruling Party	Flat No.74, Gandhi Nagar, Chakali Gunta, Etukuru Road, Kamma Seshalaiah Ground, Revenue Ward-32, Guntur, Andhra Pradesh-522003
1826	Periyar Ambedkar Munnetra Kazhagam (PAMK)	MIG No.-8, Dr.B.R.Ambedkar House, TNHB, Bargur, P.O.-& Taluk, Krishnagiri Distt., Tamil Nadu-635104
1827	Perunthalaivar Makkal Katchi	'NRD Towers', First Avenue, Ashok Nagar, Chennai-600 083 Tamil Nadu.
1828	Phoolan Janta Party	Village - Mohammadpur Kandh, Post-Imlo, Vikas Khand Dharmapur, Tehsil - Sadar, District - Jaunpur, Uttar Pradesh - 222180
1829	Phule Bharti Lok Party	Main Gurudwara Road, Baba Bakala, Distt.-Amritsar, Punjab-143201.
1830	Pichhada Samanya Alpsankhyak Vyapari Kisan Party	H.No.402 Kh. NaglaKhandari, Alipur Patti, P.S- Bhongaon, Tehsil- Bhongaon, District-Mainpuri, Uttar Pradesh.
1831	Pichhara Samaj Party United	Madhaviya Complex, Mukht Nagar, Pulgaon Road, Padmanabhpur, Durg, Chhattisgarh- 491001
1832	Pichhra Samaj Party	Mohalla Jati, Nagina, District-Bijnor, Uttar Pradesh.
1833	Pichhravarg Mahapanchayat Party	Mo.-Jamalpur, (Karhan Road), Post- Mohammadabad Gohana, District- Mau, Uttar Pradesh-276403.
1834	Political Essential & Accurate Council of Experts Party	Door No. 24-21, Vyshya Street, 5 Roads Junction, American Hospital Road, Narsipatnam, Vizag District, Andhra Pradesh - 531116.
1835	Political Justice Party	H.No. 796, G-3, Shalimar Garden Extension-I, Sahibabad, P.S.- Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201005
1836	Political Shoshit Manavataavadi National Dal	4-C, A.I. Apartment, Vajeerhasan road, Hasratganj Lucknow, Uttar Pradesh- 226001
1837	Political Team India	House No. 182, Ansal Courtyard, Dehtora, Shastripuram, Agra, Uttar Pradesh- 282007
1838	Pondicherry People Rights Party	#1, Subramaniyar Koil Street, Kuvayarpalayam, Pondicherry-605013
1839	Poorabiha Log Party	Village Pipra Tiwari, Post Sakhvaniya, Distt. Kushinagar, Uttar Pradesh- 274402
1840	Pooma Swaraj Manch	House No. 1/328, GwalToli, Fathehgarh, District- Farrukhabad Uttar Pradesh- 209601
1841	Poorva Sainik All India Dalit Evam Nirbal Varg Vikas Party	Plot No.-96, Gram Hansa Pur Nikat, Jhun Jhunwala Degree College, Dwariapuri, Dabhasemar Janpad, Ayodhya, Uttar Pradesh-224001
1842	Poorvanchal People's Party	12/391, Gali No.12, Lalita Park, Laxmi Nagar, Delhi-110092.
1843	Poorvanchal Rashtriya Congress	Plot No. 157-158, Pocket E-20, Sector-3, 1 st Floor, Rohini, Delhi-110085.
1844	Poorvanchal Shoshit Samaj Apna Dal Party	H.No.739, Devariya Khas, Old Ward No.6, New Ward No.11/749, C.C.Road, West Side of Hanuman Mandir, West Side of Bhagwan Chauraha, Post & Tehsil-Deoria, District-Deoria, Uttar Pradesh-274001.
1845	Pothuvudamai Katchi	No.1259, Perumal Kovil Street, Krishnapuram, Kandigai, Kannigaipair Post, Uthukottai Taluk, Thiruvallur District, Tamil Nadu - 601102
1846	Prabal Bharat Party	Village-Andahara, P.O. +P.S. Parsauni, District-Sitamarhi, Bihar-843325
1847	Prabuddha Bharat Prajasattak Party	A/101, Panchsheel Nagar, Seva Sangh No. 3, Near Anik Depot, Sion (E), Mumbai, Maharashtra - 400022.
1848	Prabuddha Republican Party	MD-26-17/6, SRTRMCH Chanai Road, Ambajogai, District Beed-431517, Maharashtra.
1849	Prabuddhwadi Bahujan Morcha	H. No. 130A/3A, Teliyanganj, Bhoosawali Gali, Post - Teliyanganj, District - Prayagraj, U.P.-211004

1850	Pragatisheel Janta Adhikar Party	4 - Ka, Village & Post - Bhuval Chak, P.S. - Jamaniya, District - Ghazipur, Uttar Pradesh - 232336
1851	Pragatisheel Janta Party	Bajrang Vihar Colony, Digha Ashiyana Road, Thana-Rajiv Nagar, Post-Ashiyana Nagar, Patna-800025, Bihar
1852	Pragatisheel Labour Party	S-21/127-K. Subashnagar Colony, Maldahiya, Varanasi, Uttar Pradesh-221002
1853	Pragatisheel Lok Manch	Ishwar Sadan, Sonkar Farm, Dhaulakhera, Post - Arjunpur (Haldwani), District - Nainital Uttarakhand.
1854	Pragatisheel Magahi Samaj	H.No.605/334, Ward No. 44, Mohalla - Madaanpur(Akshayvat), Thana - Civil Lines, Distt. - Gaya, Bihar.
1855	Pragatisheel Manav Samaj Party	Village Wari (Naipurva) Post Dashrathpur-221304, Distt. Bhadohi (Uttar Pradesh).
1856	Pragatisheel Samaj Party	58/12/1D, Newada, Circular Road, Rajapur, Allahabad, Uttar Pradesh.
1857	Pragatishil Samajwadi Party (Lohia)	CP-1, Vikrant Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh - 226010.
1858	Prahar Janshakti Party	H.No. 1634, Grampanchayat- Belora, Tehsil- Chandur Bazar, District- Amravati, Maharashtra- 444704
1859	Praja Adhikara Party	D.No.4/107-1, S.C.Colony, Kurnool Mondal, Panchaliagala Village, Kurnool District, Andhra Pradesh-518004
1860	Praja Congress Party	D - 6/6154/6, Vasant Kunj, New Delhi - 110070.
1861	Praja Ektha Party	Door No. 15-9-86 to 88, Srinivasa Nilayam, Maharajganj, Locality- Gowliguda Chaman, District-Hyderabad, Telangana State- 500012
1862	Praja Kripa Party	Shop No. -2, Hari Om Apartment, BLK C-33/124-125, Opp. Chopda Court, Ulhasnagar, Maharashtra-421003
1863	Praja Palana Party	H.No. 64-1D-8A/1, Treasury Colony, Kakinada, East Godavari District, Andhra Pradesh-533004.
1864	Praja Parivartan Party	No. 9/228, 1 st Main 3 rd Cross, (behind Jaiheem Petrol Bunk) Nanjappa layout, Anekal Town, Bangalore urban District, Karnataka-562106
1865	Praja Prasthanam Party	Sri Balaji Residency, Door No.1-116-3, Plot No.MIG-48/12, GF-1, MVP Colony, Visakhapatnam-530017.
1866	Praja Raj Party	287/264/1, Meerut Bulandshahar Road, Hapur -245101, Uttar Pradesh.
1867	Praja Satta Party	1-91/24, Raghavendra Nagar, Parvathapur(V), GP - Ghatkesar Mandal, R.R. District, Hyderabad, Andhra Pradesh - 500098.
1868	Praja Sena Party	H. No. 4-3-167 Gajulapet, Metpally Town and Mandal, District- Jagityal, Telangana- 505325
1869	Praja Seva Ankith Party	2-2-16a/1, Beside of RTC Complex, Pithapuram, East Godavari District, Andhra Pradesh-533450
1870	Praja Seva Party	D.No 3-1C, Ramchandra Puram Village, Tada (P), Sathyavedu (M), Chittoor- District. Andhra Pradesh- 524401
1871	Praja Shakti Democratic Party	Survey No. 1073, C/o Vasant Vadgo, Near K-7 Circle, Gandhinagar, Randheja Road, Gandhinagar, Gujarat- 382026
1872	Praja Shanthi Party	382, Aparijitha Colony, Ameerpet, Hyderabad, Andhra Pradesh.
1873	Praja Velugu Party	H.No.5-21, Pulmamidi (village), Nawabpet, Vikarabad District, Telangana- 501111
1874	Praja Vijay Paksh	First Floor, HHI-08, Abhinav Avenue Zadeshwar Chowkdi, Zadeshwar, Taluka-Bharuch, Dist.-Bharuch, Gujarat-392011
1875	Prajaa Raita Raajya Paksha	H. No. 937, Manjunatha Nagar, Kengeri Road, Tavarakere, Bangaluru South, Karnataka- 562130
1876	Prajaa Swaraaj Party	House No. 7-2-104/11, Plot No. 11, Srikrishna Nagar, Chinthalakunta Check Post, L.B. Nagar, Hyderabad, Telangana state-500003

1877	Prajamaharashtra Paksh	New Parijat Building, 3 rd Floor, Mathur Nagar, Tuling Road Nalasopara (East), Tal - Vasai, District - Palghar, Maharashtra- 401209.
1878	Prajamandal Party	Barthwal Niwas, Sheetla Mats Mandir Marg, Lower Bhaktiyana, Srinagar, Garhwal, Uttarakhand- 246174.
1879	Prajarajya Samithi	6-3-143, Durgamagadda, Karimnagar, Telangana-505001
1880	Prajasattak Bharat Paksha	At. Shileshwar, Post - Bhadas, Tal. Mulshi, District - Pune-412108 Maharashtra
1881	Prajasattak Lokrajya Party	Village & Post - Parasi, Tehsil - Mangawan, District - Rewa, Madhya Pradesh - 486111.
1882	Prajasattak Samajwadi Bharat Party	H. No. - 1-7-281, Yadav Niwas, Rajnagar, Post - Yashwant Nagar, Pavdewadi Naka, District - Nanded, Maharashtra- 431602.
1883	Prajashakti Party Samdarshi	Shri Ram Sadan - 40, Saraipitthu Aanshik, Nayagaon (Kesharua), Sitapur Road, Hargaoon, Janpad - Sitapur, Uttar Pradesh.
1884	Prajatantra Aadhar Party	46, Purani Fauzdar Ki Chali, Memco Char Raste Ke Pass, Naroda Road, Ahmedabad-382345, Gujarat.
1885	Prajatantra Congress Party	Station Chowk, Opposite Main Post Office, Raigarh, Chhattisgarh
1886	Prajatantra Party of India	H.No.33, Mohalla- Bambaghera, Town & P.S- Ramnagar, District- Nainital, Uttarakhand
1887	Prajatantrik Jansevak Dal	Muzaffara Bagadpur, Tehsil & District - Hapur, Uttar Pradesh-245101.
1888	Prajatantrik Jansevak Party	H.No.88, Nivhara Ikhar, Post office- Barnahal, Tehsil- Karhal, District- Mainpuri, Uttar Pradesh- 205264
1889	Prajatantrik Samadhan Party	Village- Hakimabad, Tehsil- Aasta, Distt.- Sihore, Madhya Pradesh.
1890	Prajatantrik Samajvadi Party	C-17, Yadav Nagar, Village - Samaypur, Delhi-110042.
1891	Prajavani Party	H. No. 11-83, Lingdivari Bhavanamu, Vinyakanagar Colony, Kuda Kuda Road, Suryapet, Telangana -508214.
1892	Prapancha Telugu Bhasha Parirakshana Party	H.No.- 5-19, Chimanaguntapally Village, Wanaparthi Mandal, Wanaparthi District, Telangana - 500089
1893	Pravasi Nivasi Party	Maha Mahal Building, T.C.-1/1502/7, Pazhaya Road, Medical College P.O, District - Thiruvananthapuram, Kerala-695011
1894	Pravritti Party	980, Near Prakash Public School, Palam Village, New Delhi-110045
1895	Prem Janata Dal	H. No. 1-4-524/A/7/1, Bholakpur, Near Badi Masjid, Musheerabad, Hyderabad, Andhra Pradesh.
1896	Prema Vahini Dal	Village & Post- Antarpada, Via- Balipadar, District- Ganjam, Odisha.
1897	PRJSM	Top Floor, 4-CHHA-30, Vigyan Nagar, Kota-324005 (Rajasthan).
1898	Prithak Bastar Rajya Party	8, Senior H.I.G., Sector-3, Shankar Nagar, Raipur, Chhattisgarh.
1899	Prithviraj Janshakti Party	H.No. 45-A, Village- Kiratpur, Post- Pindra, Tehsil- Pindra, Police Station - Phoolpur, District- Varanasi, Uttar Pradesh.
1900	Professional Party of India	H.No. 91, Block- D-1, Shyam Vihar, Najafgarh, New Delhi- 110043
1901	Proutist Bloc, India	C/o Shri Ramesh Kumar, H.N.A-37 (Khasra No.2167/845), Harshroop Colony, Fatehpur Beri, New Delhi - 110074
1902	Proutist Sarva Samaj	Sewa Niketan Compound, Agra Road, Etah, Uttar Pradesh.
1903	Public Adhikar Socialist Indian Party	5/200, Sector-H, Jankipuram, Lucknow, Uttar Pradesh-226021
1904	Public Mission Party	Sita Kunj, Opposite Godawari Appartment, Ashiyana Digha Road, Patna, Bihar-800014
1905	Public Party	Iqbal Mahal, 234-A, Atala, Allahabad-211003, Uttar Pradesh.
1906	Public Political Party	14A/57, First Floor, WEA, Karol Bagh, New Delhi- 110005.
1907	Public Utthan Party	H.No. 236, Fatehagadh, Fatehagadh, P.S.-Khargoopur, Tehsil - Gonda, Near Power House, Distt. - Gonda, Uttar Pradesh - 271204
1908	Puducherry Development Party	No. 51, Second Cross, Selva Nagar, Uruvaiyar, Puducherry- 605110
1909	Punjab Democratic Party	958, Mataur, Sector - 70, SAS Nagar, Adjoining Syndicate Bank, Punjab - 160070.

1910	Punjab Ekta Party	B-XII/46, Khewat No. 125/119, Khatauni No. 235, Village Faridkot, Ward No. 10, Part-2, Tehsil - Faridkot, Harindra Nagar, District - Faridkot, Punjab - 151203
1911	Punjab Kisan Dal	H.No.47, Village - Sarai Mugal, Tehsil-Rajpura, District-Patiala, Punjab-140417
1912	Punjab Labour Party	Village and Post Office Adhniyan, Tehsil - Malot, Distt. - Muktsar, Punjab
1913	Punjab Lok Congress Party	Mohinder Bagh, situated at Village Siswan, Near Gurudwara Sheesh Mahal Sahib, Post Office Mullanpur Garibdass, Tehsil Kharar, District Mohali, Punjab-140901
1914	Punjab Lokhit Party (Birmi)	Village-Bhagwanpura, Dehlon Road, Ludhiana, Punjab-141120
1915	Punjab National Party	157, University Enclave phase-I, Near Guru Nanak Dev University Regional Campus, Ladhewali, Jalandhar, Punjab-144009.
1916	Punnagai Desam Party	3/58B, Main Bazaar, Peikulam, Asirvathapuram - Post, Sathankulam - Taluk, Thoothukudi District, Tamil Nadu - 628 613
1917	Puratchi Bharatham	No. 54, National Highways, Poonamalla, Chennai-56, Tamil Nadu.
1918	Puratchikara Thozhilalar Katchi	No. 3, Karikalan East, First Street, (Opp.S.P.Hospital, Anjappar Hotel), Adambakkam, Chennai, Tamil Nadu - 600088
1919	Purvanchal Navnirman Party	Village- Sirihira, P.O- Sewapuri, P.S- Kapsethi, District- Varanasi, Uttar Pradesh- 221403
1920	Purvanchal Janata Dal	Village and Post Office - Janadi, District - Ballia, Uttar Pradesh.
1921	Purvanchal Janta Party (Secular)	Flat No. 2, DDA Flats, Pocket-I, Phase-I, Sector-12, Dwarka, New Delhi-110078.
1922	Purvanchal Kranti Party	Yadavganj, Post - Sikrara, District - Jaunpur, Uttar Pradesh.
1923	Purvanchal Mahapanchayat	No. 601 D. Shipra Sun City, Indrapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1924	Purvanchal Rajya Janandolan	S.P. Tower, Buddha Puram, Badeban, Gram Sabha-Madwa Nagar, Near Byepas Crossing, District - Basti, Uttar Pradesh-272001.
1925	Puthiya Makkal Tamil Desam Katchi	D.No.6/58, South Street, Muthulakshmi Puram, Megnanapuram, Thiruchendur Taluk, Thoothukudi District, Tamil Nadu-628210
1926	Puthiya Tamilagam	132, New MLAs Hostel, Govt. Estate, Chennai-600002 (Tamil Nadu).
1927	Pyramid Party of India	2-1-83, Kola Street, Tirupati-517 501, (Andhra Pradesh).
1928	Qaumi Ekta Dal	H. No. - 228, Moh. Astupura, Teh. - Sadar, District - Mau, Uttar Pradesh.
1929	Qaumi Ittehad Republican Party	No. 47/1, Chennumiahpetta, Revenue War No. 47, (Beside Hari Tower), Nagarajapeta Kadapa, Andhra Pradesh- 516001
1930	Rachnatmak Jan Morcha	House No.-752, Khasra No.-146, Ground Floor, Near Kanya Vidyalaya, Buradi Village, New Delhi- 110084
1931	Radical Democrats	D. No. 4-9-771/P70, Pavangiri Colony, Hayatnagar, Hyderabad, Telangana -501505.
1932	Radical Party of India (Ambedkarist)	House No.7-1371, Room No. 2, Madanpur (Village), Kothapatnam (Mandal), Prakasam (District), Andhra Pradesh-523280
1933	Rahbar Party	Ward No. 2, Mohalla - Kachchi Masjid, Raysen, Tehsil & Distt. Raysen-464551, MADHYA PRADESH.
1934	Rajior Dal	House No.1, Zoo-Narengi Road, Near Modern School, Mathghoria, P.S. Noonmati, District-Kamrup (Metro), Gpwahati-781020, Assam
1935	Raita Bharat Party	Sector No. 31, Plot No. 31/A, Navanagar, Bagalkot, Karnataka-587101
1936	Rajasthan Democratic Front	No. 761, Mahatma Gandhi Dastkar, Nagar, Nayla, Jaipur, Rajasthan-303012
1937	Rajasthan Jan Satta	Gramin Kanya Chhatrawas, Near Water Works, Sadulpur, Churu-331023, Rajasthan.
1938	Rajasthan Janta Party	Village- Naithla, Post-Neethari, Tehsil- Mulakhara, District- Alwar, Rajasthan- 301001
1939	Rajasthan Navnirman Party	H.No. 4F, 1 st Floor, Ramlal Sadan, Civil Airport Road, Pabupura, Jodhpur, Rajasthan-342001
1940	Rajasthan Raj Party	Jain Nasiyan Road, Sanganer, Distt -Jaipur, Rajasthan-302029
1941	Rajasthan Vikas Party	43. Chand Bihari Nagar, Khatipura Road, Jaipur-302012. (Rajasthan).

1942	Rajlok Party	B-123, Street No.8, Kamal Vihar, Burari, Delhi - 110084.
1943	Rajnaitik Chetna Dal	Plot No. 78, Khata No. 93, Village- Sikariya, P.O. Sughari, P.S. Govindpur, District- Nawada, Bihar- 805126
1944	Rajnaitik Kranti Dal	House No. 55, Baduzai-2, Near Old Over Bridge, District- Shahjahanpur, Uttar Pradesh- 242001
1945	Rajnaitik Vikalp Party	204 - Shahi Bhawan, Dak Banglow, Patna - 800001 Bihar.
1946	Rajya Swaraj Party	931, Indira Nagar, Dehradun, Uttarakhand-248006
1947	Rajyadhikara Party	H.No.10-4-A/390, Addagutta, East Marredpally, Secunderabad-17, Andhra Pradesh.
1948	Rakshak Jan Morcha Party	Araji no. - 813/H.No. - 180A, Girja Nagar, New P.A.C. Line, Dehli Sujanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh - 208015
1949	Rakshaka Sena	No. 604, Vayunanda Layout, Hebbal, Kempapura, Bangalore-560024.
1950	Rani Chennamma Party	Vakkalageri Dyamavvankatti, Gadag - 582 101, Karnataka.
1951	Rani Laxmibai Krantikari Party	Shop No. 6, Rahul Bazar, Commercial Complex, 1 st floor, Sitaburdi, Nagpur, Maharashtra- 440012
1952	Rashtra Bhakt Dal	Baba Bajrang Das Ji Ki Bagichi, Khatipura Road, Jhotwada, Jaipur - 302 012, Rajasthan.
1953	Rashtra Dharak Dal	At-90(4), Wazeerbagh, Beside Chaurasiya Complex, Bhraich, District- Bahraich, Uttar Pradesh-271801
1954	Rashtra Hith Party	706/707, M.K. Heights CHS, 'B' Wing, C.T.S. No. 621, Opp. 'L' Ward Office, S.G. Barve Marg, Kurla (W), Mumbai-400 070 Maharashtra.
1955	Rashtra Mangal Mission Party	Kamdhenu Krupa, Kacho Madh, Pilaji Ganj, Sriram Chowk, Mehsana, Gujarat - 384001.
1956	Rashtra Nirman Party	D-25, Defence Colony, New Delhi-110024.
1957	Rashtra Samanya Praja Party	Door No.-3-44, Athvelly, Medchal, Telangana-501401
1958	Rashtra Samarpan Party	Ward No.-4, Property No.040000225, Old Property No. W 4-448 (Old 225), Saoner, Taluka, Saoner, District-Nagpur Maharashtra- 441107
1959	Rashtra Sewa Dal	85/40, Officer Flat, Beli Road, Patna - 800001, Bihar.
1960	Rashtra Shakti	1112, S/5 Tegore Garden, Near Bus Stand, Yamuna Nagar-135001, District - Yamuna Nagar, Haryana.
1961	Rashtra Uday Party	Khasra No. 10, Atif Vihar Colony, Near City I.T.I., Uttardhauna, Chinha, Lucknow, Uttar Pradesh- 226001
1962	Rashtra Vahini Party	412, S.K. Shyam Heights, Sampat Hills, Bhicholi Mardana, Indore, MADHYA PRADESH- 452016
1963	Rashtra Vikas Zumbes Party	2nd Floor, Apollo Enclave, Opp. Jain Derasar, Modhera Cross Road, Mehesana, Gujarat - 384002
1964	Rashtrabit Chintak Vipaksh Party	Plot No. 177E/2, Ward No. - 2, Mehrauli, New Delhi - 110030.
1965	Rashtravadi Bharat Party	At-511/5, Anantpur, Ward No.-10, Gayatri Nagar, Huzur Rewa, Rewa, Madhya Pradesh-486001.
1966	Rashtravadi Communist Party	Begaria Ka Khera, P.O. Brawan Kalan, Kakori, Lucknow, Uttar Pradesh.
1967	Rashtravadi Janata Party	Anil Bharti Bhawan, 43-A, Sukhbir Nagar, Karala, New Delhi-110081.
1968	Rashtravadi Kranti Dal	Indu Niwas, Gaon Devi Road, Poisar, Kandivali (East), Mumbai, Maharashtra- 400101
1969	Rashtravadi Loktantrik Party (India)	35B, Sainik Enclave, Sector-1, Mohan Garden, New Delhi- 110059
1970	Rashtravadi Party (Bharat)	Village- Kakrana, Post- Dhaulana, District- Hapur, Uttar Pradesh-245301
1971	Rashtravadi Pratap Sena	Village - Narayanpur Banska, P.O. - Dhaulana, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1972	Rashtravadi Vikas Party	217, 2 nd Floor, Devaldi Tower, Chandra Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201011
1973	Rashtravyapi Janta Party	M.M.S. 1/84, Sector - A, Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh.
1974	Rashtrawadi Chetna Party	House No. 16F/F, K.H.No. 28/10, Risal Garden, Nangloi, New Delhi-

		110041
1975	Rashtrawadi Insaan Party	18/84/6C, Pura Dalel, Tilak Nagar, Allahpur, Allahabad, Uttar Pradesh.
1976	Rashtrawadi Jan Chetna Party	A-69, Trikum Nagar Section-1, Near Chowpaty Garden, L.H. Road, Surat, Gujarat- 395010.
1977	Rashtrawadi Jan Congress	Santosh Bhawan, Road No.1 Extension, Rajvanshi Nagar, Patna, Bihar - 800023
1978	Rashtrawadi Jan Samaj Party	158/33A-1, Ganga Prasad Road, Aansar Complex, Molviganj, Lucknow Uttar Pradesh - 226018
1979	Rashtrawadi Janataraj Party	A-404, Abajibapa Lake View, Opp. RAF Gate, Nirant Chokdi, Vastral, Ahmedabad, Gujarat - 382418
1980	Rashtrawadi Janlok Dal	934/1, Near- Vadi, Mota Madh, At&Po- Valam, TA- Visnagar, District- Mahesana, Gujarat - 384310
1981	Rashtrawadi Janlok Party (Satya)	Harsaru, Near Shiv Mandir, Tehsil- Harsaru, District- Gurgaon Haryana- 122505
1982	Rashtrawadi Jansangh	Pakri Gandhi Nagar More, (Katira Road), Near Jain Collage East Gate, Katira, Aara, Nawada, District- Bhojpur, Bihar-802301
1983	Rashtrawadi Janvikas Party	H.No. 7-G-27, Jawahar Nagar, Sri Ganganagar, Rajasthan- 335001
1984	Rashtrawadi Janwadi Manch	H.No.-160, Lodhi ka Pura, Azamgarh City, Azamgarh, Uttar Pradesh
1985	Rashtrawadi Kisan Kranti Dal	H.No. 73, Mohalla - Raysahab, Tehsil - Sirauli, Gauspur, District - Barabanki, Uttar Pradesh - 225415
1986	Rashtrawadi Minority Party	Village-Kadampura, Ward -9, P.O.-Kadampura, District-Supaul, Bihar- 852134
1987	Rashtrawadi Parivartan Party (L.B.)	M.C. Unit No. 4 - 467, Noonsar Johad, Patram Gate, Bhiwani, District - Bhiwani, Haryana - 127021
1988	Rashtrawadi Party of India	Village- Kalyanpur, Post- Barhalganj, Tappa Kasbe, Pargana - Chillupar, District- Gorakhpur, Uttar Pradesh- 273402
1989	Rashtrawadi Praja Dal	C-2/60, Ram Park - I, Loni, District - Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201102
1990	Rashtrawadi Samaj Party	16/17, Civil Lines, Near Padam Apartment, Kanpur, Uttar Pradesh.
1991	Rashtrawadi Shramjeevi Dal	512/695N, First Street, Nishatganj, Lucknow, Uttar Pradesh-226007
1992	Rashtrawadi Yuva Party	ARSI House, Pragati Nagar, Chakmohabbat, P.O- Bhikhanpur, P.S- Ahiyapur, District- Muzaffarpur, Bihar-842004.
1993	Rashtriya Bahujan Party	729/4, Ambedkar Chauk, Village - Nalegaon, Taluq - Chakur District - Latur, Maharashtra- 413524
1994	Rashtriya Aadarsh Member Party	Village and Post- Udaypura Beech ke Mohalla, Tehsil- Rajnagar, Thana- Khajuraho, District- Chattarpur, Madhya Pradesh- 472339
1995	Rashtriya Aadiwasi Bahujan Party	Plot No.4, Pushpak Nagar, Junwani Road, Bhilai, Distt. Durg, Chhattisgarh- 490020
1996	Rashtriya Aam Party	Office no. 19A, 2nd Floor, Om Heera Panna Mall, New Link Road Oshiwara, Andheri (West), Mumbai, Maharashtra - 400053
1997	Rashtriya Aamjan Party	B-225, Old Minal, J.K. Road, Bhopal, Madhya Pradesh- 462023.
1998	Rashtriya Adarsh Party	Pithuwala Khurd, Chanderbani, Dehradun, Uttarakhand.
1999	Rashtriya Ahinsa Manch	132/1, Mahatama Gandhi Road, Kolkata - 700 007.
2000	Rashtriya Aikta Manch Party	D-197, Kunwar Singh Nagar, Nangloi, Delhi-110041
2001	Rashtriya Ambedkar Dal	Ambedkar Bhawan, Budh Vihar, Bhim Nagar, Central Jail Road, Varanasi, Uttar Pradesh.
2002	Rashtriya Antyodaya Congress	SS-III / 800, Sector - I, Koparkhairane, Navi Mumbai, Maharashtra - 400709.
2003	Rashtriya Anyay Nivaran Sena	138, Jahagirdarwadi, P.O- Shingoli, Tehsil & District- Usmanabad, Maharashtra - 413501
2004	Rashtriya Apna Dal	House No. 232/81/4D, Tilak Nagar, Allahpur, Allahabad, UTTAR PRADESH
2005	Rashtriya Arakshak Manch	4586, Vijayanagar, 2 nd Stage, Devaraja Mohalla, Mysore, Karnataka - 570017.
2006	Rashtriya Arya Raj Sabha	769/2, Vijay Park, Jhang Colony, Rohtak-124001, Haryana.

2007	Rashtriya Atulya Yuva Party	Plot No. 291, Flat No. 301, Shiy Nagar-I, Murlipura, Jaipur, Rajasthan-303328
2008	Rashtriya Azad Manch	Village&Post- Shahzadpur, Teshil- Naraingarh, Dist.- Ambala, Haryana.
2009	Rashtriya Backward Party	1/44, Shanti Nagar, Etah-207001, UTTAR PRADESH
2010	Rashtriya Bahujan Congress Party	TA-137/3, Tughlakabad Extension, New Delhi-110019.
2011	Rashtriya Bahujan Hitay Party	C-158, Captain Satish Marg, Rishi Nagar, Rani Bagh, New Delhi-110034.
2012	Rashtriya Bahujan Kranti Dal	Village - Datavli Gesupur, Jai Bheem Nagar, Garh Road, Near Medical College, Tehsil - Meerut, District - Meerut, UTTAR PRADESH.
2013	Rashtriya Balmiki Sena Paksha	Jagadguru Maharishi Balmiki Swami Mandir Marg, C.M.E. Ram Nagar Bopkhal, Pune-411 031 (Maharashtra).
2014	Rashtriya Bandhutwa Party	554, Mamfordganj, Allahabad Uttar Pradesh.
2015	Rashtriya Bhagidari Party	Sreesheepama Building, Opposite Amity University Gate No.1, Nizampur, Malhour, P.S-Chinhat, Tehsil-Sadar Lucknow, Uttar Pradesh-226028
2016	Rashtriya Bhagidari Samaj Party	Village - Garhi (Mehanda More), Tehsil-Hansi, District - Hisar, Haryana - 125033
2017	Rashtriya Bhaichara Vikas Party	CP-15, RICCO Jhunjhunu, Rajasthan - 333001
2018	Rashtriya Bharatiya Akhand Party	H. No. - 14, Village & Post - Behta, Vikas Khand - Masauli, P.S. - Safdarganj, District - Barabanki, UTTAR PRADESH.
2019	Rashtriya Bharatiya Jan Jan Party	Near APS, Bishara, Dadri (Gautam Buddha Nagar), Uttar Pradesh - 203207
2020	Rashtriya Bujurg Shakti Party	House No. - 144, Village - Mangawas, Post Office - Palra, Tehsil - Beri, District - Jhajjar, Haryana.
2021	Rashtriya Bundelkhand Vikas Party	1/965, Mansarovar Park, Ramji Lal Ki Bagichi, Near Railway Line Phatak, G.T.Road, Shahadara, Delhi- 110032
2022	Rashtriya Chanakya Party	Flat No. 726FF, Block-A, Sector- MU-II, Greater Noida, Gutam Budh Nagar, Uttar Pradesh- 201310.
2023	Rashtriya Congress (Babu Jagjivanram)	Ward No. 45, Mohalla - Baldevpuri, Janpad - Muradabad, Uttar Pradesh.
2024	Rashtriya Congress (J.) Party	Saindhri, Post-Harthala, Via Pakvarh, Muradabad, Uttar Pradesh.
2025	Rashtriya Dal United	G- 3/792, Ward No.- 69, Durga Apartment, Shalimar Garden, Extension- 1, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201005
2026	Rashtriya Democratic Front	H. No. 397, Village - Sonari, Post Sonari (Ramganj), P.S. - Piparpur, Tehsil - Amethi, District - Amethi, UTTAR PRADESH - 228159.
2027	Rashtriya Deshaj Party	Tungari Toli, Argora, St. Francis School, Post - Harmu, Distt. Ranchi Jharkhand - 834012.
2028	Rashtriya Devbhumi Party	H. No. 330/6, Naya Bazaar, Nahan, Distt.- Sirmour, Himachal Pradesh- 173001
2029	Rashtriya Dharmanirpeksha Nava Bharat Party	108, Shankar Shah Nagar, Jabalpur (Madhya Pradesh).
2030	Rashtriya Ekta Party	H.No. 83, Ground Floor, Gali No. 4, Near Chand Masjid, Jafarabad, Delhi - 110053.
2031	Rashtriya Ekta Party (Secular)	Bhawan No. 543, Mohalla- Upadiyan, Ward No.14, Kithore, District- Meerut, Uttar Pradesh.
2032	Rashtriya Gana Sangha	At-68/1, Khudiram Sarani, Namabongi, Balurghat, Post-Balurghat, P.S.- Balurghat, District-Dakshin Dinajpur, West Bengal - 733101
2033	Rashtriya Garib Dal	110, Ram Nagar, Panipat, Haryana.
2034	Rashtriya Garib Uthhan Party	Village - Nasopur, Post -Nagpur, Tehsil - Jalalpur, P.S. - Jalalpur, District - Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh - 224149.
2035	Rashtriya Garima Party	B-14, Kasturba Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462001, (Madhya Pradesh).
2036	Rashtriya General Party	Ward No. 11, Aadarsh Nagar, Collectriate Road, Buxar, Bihar- 802101.

2037	Rashtriya Gondvana Party	Sarkhel House, Tiffra, Bilaspur - 495223, Chhattisgarh.
2038	Rashtriya Gram Vikas Party	62, Civil Lines, Roorkie, Janpad-Haridwar Uttarakhand
2039	Rashtriya Hind Ekta Dal	Village Nagla Bhaja, Post - Mighauli, P.S. - Vishnugarh, Tehsil- Chhibramau, District- Kannauj, Uttar Pradesh- 209721
2040	Rashtriya Hindustan Shakti Dal	1- 26/1, Gali No. 10, Brahmapuri, Delhi- 110053
2041	Rashtriya Hissedari Party	Village Mumtaj Jagar, Post-Mumtaj Nagar, Tehsil-Sohawal, near Samrat Medical Store, P.S. - Cantt., Distt.-Aundhya, Uttar Pradesh- 224001
2042	Rashtriya Independent Morcha	At: Mining Road, Keonjhar (In front of O.S.M.E. Ladies Hostel), P.O./Via.: Keonjhar, District - Keonjhar-758001, Odisha.
2043	Rashtriya Jagriti Party	Rishabh Institute, Chiraitaad Pul, Chaudhry Petrol Pump, Kankarbagh, Patna, Bihar - 800020.
2044	Rashtriya Jagrook Party	House No.- B-7/209, Satta Bazar, Kot Kapura, District- Faridkot, Punjab- 151204.
2045	Rashtriya Jaihind Party	Adarsh Nagar, Kokar, P.S. Sadar, District-Ranchi, Jharkhand-834001
2046	Rashtriya Jan Adhikar Party (United)	H.No. 710, Naya Purva, Degree College Chauraha, Kachari Road, Opp. Liberty Showroom, District- Rae Bareilly, Uttar Pradesh.
2047	Rashtriya Jan Awaz Party	MIG-23, Triveni Complex, TT Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh- 462003
2048	Rashtriya Jan Gaurav Party	470, Parmanapur, (Behind-Sapna Ice Factory), P.O- Kachahari, Tehsil-Sadar, District- Jaunpur Uttar Pradesh-222002.
2049	Rashtriya Jan Jan Party	C/o Parshuram Singh, Neily Niwas, Shiv Nagar, Road Number-1, Behind Ford Hospital, Thana-Ram Krishna Nagar, PO-Ram Krishna Nagar, Khemnichak, District-Patna, Bihar-800027..
2050	Rashtriya Jan Kalyan Party	G-290, Old Seema Puri, Delhi 110095.
2051	Rashtriya Jan Kalyan Party Secular	Khata-187, Khassa-869, PS-150 Tozi No 525, Village-Chodhli, PS-Deldour, Distt.- Khagaria, Bihar-852161
2052	Rashtriya Jan Karmath Party	11-F-10, Nehru Nagar, Nikat Ganesh, Hospital, Gaziabad, Uttar Pradesh 201001
2053	Rashtriya Jan Manch	Village & Post- Gurha, District- Jalaun, Uttar Pradesh- 285122.
2054	Rashtriya Jan Sagar Party	Behind Water Box, Nareda Road, Tehsil & District- Baran, Rajasthan- 325205.
2055	Rashtriya Jan Sahay Dal	112, New Connaught Place, Dehradun, Uttaranchal.
2056	Rashtriya Jan Sahyog Party	Plot No. A-40, Gaytri Puram, Near Shobhit University, Pallavpuram, Phase-2, Modi Puram, City- Meerut, Uttar Pradesh-250110
2057	Rashtriya Jan Samarthan Party	A-122B, Ground Floor, Hari Nagar, New Delhi- 110064
2058	Rashtriya Jan Shourya Party	Khasra no.3250, Opp-Police Line main gate, Ajmer, Rajasthan-305001
2059	Rashtriya Jan Utkarsh Party	Hut Survey no. A/EE-126, Gazdhar Bandh, Laundry Gully, Ratnabai Chawl, S.B. Patil Marg, Santacruz (W), Mumbai, Maharashtra-400054
2060	Rashtriya Jan Vikas Party	Mohalla-Sundarpur Chhathi Pokhar, P.O. Lal Bagh, P.S. - L.N.M.U., District Darbhanga, Bihar-846004
2061	Rashtriya Janadhar Party	596 S.K. - 04/01/01, Sumiran Khera, Adarsh Vihar, Lucknow, Uttar Pradesh.
2062	Rashtriya Janadhikar Party	61, Mangla Puri Phase-I, Palam, New Delhi-110045.
2063	Rashtriya Janadhikar Suraksha Party	Village: Krishnapur, Post: Dhopahat Krishnapur, Distt: 24 Parganas (South), West Bengal.
2064	Rashtriya Janahita Party	No. 140, Vidyaranyapura, Narasipura, Main road, Bengaluru, Karnataka- 560097
2065	Rashtriya Jananayak Janata Party	RZ-3284/37, Tughlakabad Extension, New Delhi - 110019
2066	Rashtriya Janasachetan Party (R.J.P.)	Sonarpur, Sukanta Nagar (Milanpally), (Near Shib Mandir) P.O. & P.S. Sonarpur, Kolkata-700150, West Bengal.
2067	Rashtriya Janhit Sangharsh Party	109-F, Najimpura, Bhoor, Bulandshahar Uttar Pradesh - 203001.

2068	Rashtriya Janhit Vikas Party	V.P.O. Khanak, H. No. 627B, Near Panchayat Ghar, Adarsh Colony, Teh. - Tosharn, District- Bhiwani, Haryana- 127040
2069	Rashtriya Jan-Jagran Morcha	Raj Manzil, Ward No.12, Gopalganj, Post and District Gopalganj, Bihar.
2070	Rashtriya Jankranti Morcha	Village- Babhne Alam Nagar, P.O-Pratapgarh, District: Chatra, Jharkhand - 825404
2071	Rashtriya Jankranti Party	5/24 H-10 (R) ITJ Road, Aligarh, Uttar Pradesh - 202001
2072	Rashtriya Janmanch (Secular)	Village, Taluka -Shrirampur, Distric- Ahmednagar, Maharashtra- 413715
2073	Rashtriya Janmat Party	Village - Fatuha, Post - Hanumanganj, Distt. - Allahabad, Uttar Pradesh.
2074	Rashtriya Janmorcha	C-69/10, Gali No. 10, C- Block, Mustafabad, Delhi-110094.
2075	Rashtriya Janpriya Party	H-II-76/D, LDA Colony, Kanpur Road, Lucknow-226012, UTTAR PRADESH.
2076	Rashtriya Janraj Party	28-A, Vishal Kunj, Dehpora Road, Bodla, Agra, Uttar Pradesh - 282007.
2077	Rashtriya Jansabha Party	Kondagaon, Forest Colony Ward, District- Kondagaon, Chhattisgarh- 494226
2078	Rashtriya Jansambhavna Party	U.K Sahni Commercial Complex, Room No.101, First Floor, Village- Rajopatti, District- Sitamarhi, Bihar-843302.
2079	Rashtriya Jansanchar Dal	600/279/031N, Sumit Nagar, Faridpur Ring Road, Dubagga, Lucknow, Uttar Pradesh- 226101
2080	Rashtriya Jansangharsh Swaraj Party	Upper Chutia, Ranchi, Jharkhand - 834001.
2081	Rashtriya Jansardar Party	Village-Jigina Khurd, P.O.-Kurthiya, P.S.-Bansi, Janpad- Siddharthnagar, Uttar Pradesh-272153
2082	Rashtriya Jansena Party	Shop No. 101, Madina Complex, Kumbhartek, Shirpur, District- Dhule, Maharashtra
2083	Rashtriya Janseva-Secular Party	428, Brahman Wara, Old Ward No. 23, Ballabgarh-121004, Distt. - Faridabad, Haryana.
2084	Rashtriya Janshakti Party (Eklavya)	Post and Village :- Binjhol, Tehsil and District :- Panipat, Haryana-132103.
2085	Rashtriya Janshakti Party (Secular)	417-A, Jaina Tower-III, A-1 Block, Janakpuri, New Delhi- 110058.
2086	Rashtriya Janshakti Samaj Party	Mohalla- Thok, Ward No. 4, Puranaganj, Near Railway Station, Mishrikh, District- Sitapur, Uttar Pradesh- 261001
2087	Rashtriya Janshanti Party	52/2, School Ward Chawk, Behind G.G.I.C., Pratapgarh-230001, Uttar Pradesh.
2088	Rashtriya Jansurajya Party	House No. 953/C, Garoba Maidan, Bhandara Road, Bagadganj, Nagpur(B), Maharashtra-440008.
2089	Rashtriya Jan-Swabhiman Party	No.1-B, 223, M.I.G, Awas Vikas Colony, Rukunpur, Shikohabad, District- Firozabad, Uttar Pradesh-283135
2090	Rashtriya Janta Party	Near of Shiv Mandir Colony, Saorkha Jahidabad, Sector - 115, Noida, Distt. - Gautambudhnagar, UTTAR PRADESH.
2091	Rashtriya Janta Sena	27, Gyan Vihar, Nirman Nagar, DCM Ajmer Road, Jaipur, Rajasthan-302019
2092	Rashtriya Jantantrik Bharat Vikas Party	Govind Chikitsalya, Parsiya Morh, Rasulpur, Rasraha, Balia, Uttar Pradesh.
2093	Rashtriya Jantantrik Morcha	Village-Rajpur, Post-Dharmshala, Thana-Paraiya, District-Gaya, Bihar-824236
2094	Rashtriya Janutthan Party	A-655-56, Awas Vikas, Hanspuram (Kainal Road), Naubesta, Kanpur Nagar - 208021, Uttar Pradesh.
2095	Rashtriya Janvikas Party (Democratic)	Manorma Sadan, Indrapuri Sipara, Post Office- Dhelwan, Thana- Beur District- Patna Bihar 800020.
2096	Rashtriya Janwadi Party (Krantikari)	9/168, Indira Nagar, Near Pani Tanki, Lucknow-226016.
2097	Rashtriya Janwadi Party (Socialist)	1/73, Shiv Katra, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh-208007

2098	Rashtriya Jatigat Aarakshan Virodhi Party	788-E/24, In Front of Union Bank, Near of old Court, Rohtak Road, Sonapat-131001 Haryana.
2099	Rashtriya Kalyan Paksha	904, Atlanta Towers, Inqalab Society Gulbai Tekra, Ahmedabad-380006, Gujarat.
2100	Rashtriya Karmiyog Party	Village & P.O. - Sultanpur, Tehsil - Nilokheri, Distt. - Karnal, Haryana-132116.
2101	Rashtriya Karyarat Party	House No.54K, Ward No.4(New), Ward No.8(Old), Malviya Nagar, Chitbaragaon, Near Middle School, Tehsil & District-Ballia, Uttar Pradesh-221713
2102	Rashtriya Kisan Bahujan Party	Ajinkya, Rajwada Bhawan, In front of Govt. ITI College, Tuljapur Road, Niture Nagar, Osmanabad, Tal. & Distt. - Osmanabad, Maharashtra - 413501
2103	Rashtriya Kisan Congress Party	H. No. 1-11-602, Ramamata Ambedkar Nagar, Near of Guru Govind Singh Ji Stadium, Tq. & Distt. Nanded, Maharashtra.
2104	Rashtriya Kisan Majdoor Party	W-127, 1 st Floor, Greater Kailash -II, New Delhi- 110048.
2105	Rashtriya Kisan Party	Village & P.O. Dhanaundha, Teh. & Distt. Mahendragarh (Haryana).
2106	Rashtriya Kisan Samaj Party (United)	Mohalla- Pateganj, Post- Kanth, Tehsil- Kanth, District- Moradabad, Uttar Pradesh-244501
2107	Rashtriya Kisan Shramik Party	Village- Takhat Khera, Post- Akampur Bihar, Bagwant Nagar, District- Unnao, Uttar Pradesh- 209864
2108	Rashtriya Komi Ekta Party	Limda Lane, Makrani Pada, Jamnagar-361001, Gujarat.
2109	Rashtriya Kranti Party	Lodhi Pragyaapeeth, Lauh Purush Dr. Sakshi Nagar, Shikohabad Road, Etah, District- Etah - 207 001, Uttar Pradesh.
2110	Rashtriya Krantikari Dal	Gopal Nagar, Main Surakhpur Road, Najafgarh, New Delhi -110043.
2111	Rashtriya Krantikari Samajwadi Party	House No. 65/25 K, Chhitwapur Road, Lalkaun, Lucknow, Uttar Pradesh.
2112	Rashtriya Krishak Dal	Plot No.177, House No.SA-4/4A-5B, Daulatpur, Post Khajoori (Pandeypur), District- Varanasi, Uttar Pradesh-221002
2113	Rashtriya Lok Dal	406, V.P. House, Rafi Marg, New Delhi-110001
2114	Rashtriya Lok Janta Party	H. No. 31, Village- Kamsari, Post office- Asawar, Tehsil- Muhammadabad, District- Ghazipur, Uttar Pradesh- 233225
2115	Rashtriya Lok Morcha	Ashirwad Bhawan, Mohalla Majar Gali, Shekhpura, P.O. B.V. College, P.S. Shastrinagar, Patna, Bihar-800014
2116	Rashtriya Lok Praja Rajay Party	Barkati Appartment, Normal Chowk, In front of Bijali office, Khurrampur, District-Gorakhpur, Uttar Pradesh-273001
2117	Rashtriya Lok Sarvadhikar Party	H. No. -630, Village-Pasanda, Bodh Vihar Mandir, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
2118	Rashtriya Lok Sevak Party	Sampatti No.39/34A, Near Saheb Bus Adda, District - Hanumangarh Rajasthan-335501
2119	Rashtriya Lok Tantra Dal	Gram Mohalla - Nagla Kashi, Tehsil - Dhaulana, District - Hapur, Uttar Pradesh - 245301.
2120	Rashtriya Lokneeti Party	J-1201, Aditya Mega City, Vaibhav Khand, Indrapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201014
2121	Rashtriya Lokraj Party	H. No/ 73/382, Mohalla - Vankhandi Teela, (Behind of Sahkari Bank), Mathura, Uttar Pradesh- 281001.
2122	Rashtriya Loksatta Party	No.287/3, Mangel Pandey Nagar, Meerut, Uttar Pradesh-250001
2123	Rashtriya Lokshakti Party	Arjun Nagar Colony, Gola Gokarnnath, Lakhimpur Kheeri, Uttar Pradesh - 262802
2124	Rashtriya Lokswaraj Party	Padma Farm, Village - Chhapra Khera, Near Balaji Mandir, Phusgarh, Karnal, Haryana.
2125	Rashtriya Lokwadi Party	A/6A, Ground Floor, Mansarovar Garden, New Delhi - 110015.
2126	Rashtriya Maha Janshakti Dal	Room No.17, M. Naresh Munna Chawl, Jaihind Nagar, Pipe Line, Khar East, Mumbai-400 051, Maharashtra.

2127	Rashtriya Mahajan Shakti Party	H.No. 843/39, Shiv Utsav Vatika, New Railway Station Marg, Ater Road, Bhind, Madhya Pradesh- 477001
2128	Rashtriya Mahan Dal	108/60, Avas Vikas Colony, Village – Taimurpur, Post – Bijnaur, Distt. – Bijnaur, Uttar Pradesh.
2129	Rashtriya Mahan Gantantra Party	Village – Adda Chhinparai, Post – Chhinparai, Naujhil, Mathura, Uttar Pradesh - 281203
2130	Rashtriya Mahashakti Party	5, Rupayatan, S V Road, Vile Parle West, Mumbai-400056 Maharashtra.
2131	Rashtriya Mahaswaraj Bhumi Party	At-3A, 1st Floor, Dharavi, Vivekananda Co-op. Housing Soc. Ltd., Prabhakar Kunte Nagar, 90 Feet Road, Kumbharwada, Dharavi, Maharashtra, Mumbai-400017
2132	Rashtriya Mahila Janshakti Party	Gram Sabha – Sainia Jiginiya, Post – Kanta Guljarpur, Block – Fatehpur, Distt. – Unnao, Pin-209801 UTTAR PRADESH.
2133	Rashtriya Mahila Party	340, Swale Nagar, Rampur Road, Post- C.V.Ganj, District- Bareilly, Uttar Pradesh-243502
2134	Rashtriya Majdoor Krishak Party	At-NH-28, Tenua, Harraiya, Basti, Uttar Pradesh- 272155
2135	Rashtriya Majdoor Vikas Party	H.No. 502, Yamuna Road, 1st floor, Village- Mehandipur, Tehsil & District- Sonapat, Haryana- 131001
2136	Rashtriya Manav Ekta Congress Party	Opp. Gurudwara, Station Road, Raipur, Chhattisgarh.
2137	Rashtriya Manav Party	H.No.29/124, 1st Floor, West Patel Nagar, New Delhi, Delhi-110008
2138	Rashtriya Manav Samman Party	H. No-1485, Kidwai Nagar, Bhardwaj Puram, Allahabad-211006.
2139	Rashtriya Manav Sewa Party	Khata No.60, Khasra No.03, Mauja No.82, Shree Nagar House, Samukhiya More, Near New Police line Banka, District-Banka, Bihar- 813102
2140	Rashtriya Manav Vikas Party	House No. 249, Village- Sathalpur, P.O- Dhawarsi, Tehsil- Hasanpur, Block- Gangeswari, District- Amroha, Uttar Pradesh-244242
2141	Rashtriya Mangalam Party	19/23, West Moti Bagh, Street No. 3, Sarai Rohilla, Delhi – 110035.
2142	Rashtriya Maratha Party	Shivneri Sinhgad Building, Shrinagar (Shivnagar) Colony, Bidar Road, Udgir, District – Latur, Maharashtra - 413517
2143	Rashtriya Marxwadi Dalit Lehar Party	Village- Chhonkarwara, Tehsil- Weir, District- Bharatpur, Rajasthan.
2144	Rashtriya Mataadhikar Party	Village & Post-Areraj, Ward No. 11, Shiv Mandir Se purav, Gayatri Traders, Distt.-Purvi Champaran, Bihar-845411
2145	Rashtriya Matdata Party	Mohalla – Sayedvada, Kasba – Malihabad, District – Lucknow, UTTAR PRADESH
2146	Rashtriya Mazdoor Ekta Party	Block-B, Sant Nagar, Gali No.57, Burari Road, Delhi –110009.
2147	Rashtriya Mazdoor Kisan Party	Aakash Bhawan, Opp. IDBI Bank, Main Road Dadri, Surajpur, Greater Noida, Vikas Khand- Visrakh, Tehsil- Sadar, District- Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.
2148	Rashtriya Mazdoor Kisan Prajatantrik Party	Ashoka Avenue, Village-Lalganj, P.S- Sadar, District - Ranchi, Jharkhand.
2149	Rashtriya Morcha Party	H.No.57, Village – Manesar, Mohalla – Mohan Patti, Distt. – Gurgaon, Haryana-122050.
2150	Rashtriya Nagrik Party	H.No. 725, Khasra No. 40, Village- Maidangarhi, New Delhi- 110068
2151	Rashtriya Narayanwadi Vikas Party	At Narayan Bhawan, Pikaubhatt, Nand Nagar, Janpad Basti, Uttar Pradesh-272129
2152	Rashtriya Naujawan Dal	20/575, D.D.A. Flat, Dakshinipuri, New Delhi – 110062
2153	Rashtriya Nav Nirman Bharat Party	No.- K-33, F/F, AB, Lajpat Nagar-II, New Delhi- 110024
2154	Rashtriya Nav Prabhat Party	110/2, Lakshmipuram, Near RBM School, Gandhinagar, Mujaffarnagar, Uttar Pradesh-25 1001
2155	Rashtriya Navjagran Party	Senior M.J.G-2, Sahyadri Parisar, Bhadbhada Road, Bhopal, Madhya Pradesh-462003.

2156	Rashtriya Poorvanchal Ekta Party	Plot No.145,Paigamberpur,Post-Rasulgarh,P.S-Sarnath,Varanasi,Uttar Pradesh-221007
2157	Rashtriya Power Party	101, Ashram Avenue, B/H, Kochrab Ashram, Paldi Cross Road, Ellisbridge', Ahmedabad, Gujarat - 380006
2158	Rashtriya Pragati Party	Garh Par, Nardiganj Road, Nawada, Post & Distt. Nawada - 805 110, Bihar.
2159	Rashtriya Praja Congress (Secular)	12-11-113, AB-Nageswara Rao Street, Arya Puram, Rajamundry, Andhra Pradesh.
2160	Rashtriya Pratibha Party	H. No. 119, Sri Ram Colony, Hoshangabad Road, Misrod, Bhopal, Madhya Pradesh-462047.
2161	Rashtriya Raksha Dal	C/o Hotel Pankaj, Sector-22A, Chandigarh.
2162	Rashtriya Rakshak Morcha	31, Alkapuri, Behind New High Court, City Center, Gwalior, MADHYA PRADESH- 474011
2163	Rashtriya Rashtrawadi Party	2/36, Ruchi Khand-1, Sharda Nagar Yojna, Lucknow, Uttar Pradesh - 226012.
2164	Rashtriya Republican Party	D-26, Meerdard Road, New Delhi- 110002
2165	Rashtriya Sab Janshakti Party	Ratanachak New Tola,P.O.-Hathua,Dist-Gopalganj,Bihar-841436
2166	Rashtriya Sadbhavna Party	Village- Raghupur Narsanda, Post- Bajitpur, Thana- Patepur, District- Vaishali, Bihar- 843110
2167	Rashtriya Saf Niti Party	Village & Post- Manoharpura, Tehsil- Bassi, District- Jaipur, Rajasthan- 303301.
2168	Rashtriya Sahara Party	Jangra Market Dundahara, Gurgaon-122016, Haryana.
2169	Rashtriya Sahyog Party	F-130/4, Ground floor, Gautam Nagar, New Delhi- 110049
2170	Rashtriya Samadhan Janmorcha	11 Prakash Nagar, MPEB Officer Colony, Govindpura, Bhopal, Madhya Pradesh - 462023.
2171	Rashtriya Samaj Dal (R)	H.No.193,Ward No.7,Shastri Nagar,Koraon,Allahabad,Uttar Pradesh- 212306
2172	Rashtriya Samaj Paksha	C/o L.W. Kale, 17-Raghunath Dadoji Street, 4th Floor, Near Handloom House, Fort, Mumbai-400 001 (Maharashtra).
2173	Rashtriya Samajhit Dal	Moh.Devi Mandir Colony (D.M.Colony),Near Petrol Pump,Digha,Patna,Bihar-800011
2174	Rashtriya Samajwadi Apna Dal	Vill. - Basupar (Bankut),Near Shiva Nursing Home, P.O. - Jiyanpur, District - Ajamgarh,Uttar Pradesh.
2175	Rashtriya Samajwadi Jankranti Party	B-37/162, K.P.Giri Colony,Birdopur, Varanasi,Uttar Pradesh.
2176	Rashtriya Samajwadi Lok Adhikar Party	At-Village Silat,Post Pokhraia,Via Birauli (R.I),Distt.-Samastipur,Bihar- 848113
2177	Rashtriya Samajwadi Party (Secular)	A/104, Rajshree Avenue,B/h, Income Tax, Nr. Dinesh Hall, Ashram Road, Ahmedbad-380009, Gujarat.
2178	Rashtriya Samajwadi Swabhimani Manch	Plot No. 33/34, Laxmi Nagar, Risali, Bhilai, District- Durg, Chhattisgarh- 490006
2179	Rashtriya Samanta Dal	8/440, Trilok Puri, Delhi-110091.
2180	Rashtriya Samrasta Party	No. C-133, DDA Flats, New Ranjeet Nagar, Patel Nagar, New Delhi- 110008
2181	Rashtriya Samrat Sena Party	3115, S.G. Nagar, Digha, Airoli, Navi Mumbai, Maharashtra- 400708.
2182	Rashtriya Samta Party (Secular)	H.No.- 27, Village- Veerpur Singhara, Post- Singhara, Dist.- Vaishali, Bihar- 844126.
2183	Rashtriya Samta Vikas Party	House No. 227/111, Vishnupuri Bhuteshwar, Post- Krishnanagar, District- Mathura, Uttar Pradesh- 281004
2184	Rashtriya Samvidhanwadi Party	Village-Rampura,Post-Haidarpur,District-Auraiya,Uttar Pradesh- 206129
2185	Rashtriya Sanatan Party	H.N. 108-A,G/F K.H.No. 60, 30 Foota Road, New Sabhapur Gujran, Karawal Nagar, Delhi-110092
2186	Rashtriya Sangail Party	Simdega Bhawan, Near Dangratoli Chowk, Opposite Tanveer Petrol Pump, Purulia Road, Ranchi, Jharkhand- 834001
2187	Rashtriya Sangam Dal	7B, Khyora, Nawabganj, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh- 208002

2188	Rashtriya Sanskriti Party	24 D-1, Barasirohi, Gadariyanpurwa, Ratanpur Panki, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh 208017
2189	Rashtriya Sant Sandesh Party	263, Vanarse Niwas, Mitra Nagar, Latur, Tq. Latur, Distt.- Latur-413512, Maharashtra.
2190	Rashtriya Sanyukt Party	5/36, Railway Road, Near State Bank of India, District - Furrukhabad, Uttar Pradesh - 209625.
2191	Rashtriya Sanyukt Samaj Party	N8/236-R-53-1, (Ganeshdham Colony), Newada, Sunderpur, Varanasi, Uttar Pradesh - 221004.
2192	Rashtriya Sarv Manch Sangathan	1-Q-13, Tilak Nagar, Bhilwada, Rajasthan-311011
2193	Rashtriya Sarvajan Party	124/3, Madak Khana (Khushipura), Jhansi-284001, Uttar Pradesh.
2194	Rashtriya Sarvangeen Vikas Party	Khasra No. 608, Village - Pasonda, Main Wazirabad Road, Near Garimanjali Public School, Opp. Rajender Nagar, Garima Garden, Sahibabad, Gaziabad, Uttar Pradesh - 201005
2195	Rashtriya Sarvjan Vikas Party	Khasra No. 496/1, Main Wazirabad Road, Village- Pasonda, Tehsil- Loni, District - Ghaziabad, Uttar Pradesh.
2196	Rashtriya Sarvodaya Party	A-412, AG Colony, P.S. - Shastri Nagar, District - Patna, Bihar - 800025.
2197	Rashtriya Sawaraj Samaj Party	Village- Sakhella, Post-Gaurabadshahpur, District- Jaunpur, Uttar Pradesh - 222133.
2198	Rashtriya Sawarn Dal	Dubey Ka Parav, Aligarh-202001 (Uttar Pradesh).
2199	Rashtriya Secular Congress	Ashirvad Apartment, Mathura Dawaraka Road, P.O. Dispur, Sakuntala Path, 5th Bye Lane, Guwahati-6, ASSAM.
2200	Rashtriya Secular Majlis Party	Ward No.36, Village-Bihar Sharif, Badi Dargah, Nalanda, Bihar-803101
2201	Rashtriya Shahri Vikas Party	H. No. 8/69(40,40A) Purana Quila, Babu Banarsi Das Nagar, Cantt. Road, Lucknow, Uttar Pradesh - 226001.
2202	Rashtriya Shakti Party (India)	80-A, Mumirka Village, New Delhi-110067.
2203	Rashtriya Shoshit Samaj Party	Village - Lohvan, Post - Lohvan, Laxmi Nagar-Baldeo Road, District - Mathura, Uttar Pradesh.
2204	Rashtriya Suraksha Party	Third, H. -2, Nehru Nagar, Rakesh Marg, Ghaziabad Uttar Pradesh- 201001
2205	Rashtriya Surya Prakash Party	C/o Sh. Panna Lal, S/o. Sh. Bhole Shankar, Thana-Avagarh, Jalesar Road, Kasba & Post Office-Avagarh, Zila-Eta, Uttar Pradesh.
2206	Rashtriya Swabhimani Sangh Party	A-104, Sanghvi Tower, Opposite Hatkesh, Mira- Bhayander Road, Mira Road East, Maharashtra - 401107.
2207	Rashtriya Swarajya Sena	03, Dahisar Sanket Building, Shiv Vallabh Cross Road, Ravalpada, Dahisar (E), Mumbai, Maharashtra - 400068
2208	Rashtriya Swatantra Party	Vill & P.O. Pipriya, Word No. 3, Thana Mohania, Distt. Kaimur, Bihar-821105
2209	Rashtriya Teesara Vikalp Party	1372/12, New Gadaura, Behsa, Kanpur Road, Lucknow, Uttar Pradesh - 226002
2210	Rashtriya Ulama Council	3, Rashad Nagar, Gorakhpur Road, Azamgarh-276001 Uttar Pradesh.
2211	Rashtriya Unnati Party	Prop. No. 12-A, Block-K4, Mohan Garden, Uttam Nagar, Delhi- 110059
2212	Rashtriya Uttar Bhartiya Samaj Party	Opp. Kailash Industrial Estate, S.R.A. Building No. 1, Room No. 207, 90 Ft. Road, Vikroli Mumbai- 400079
2213	Rashtriya Uttarakhand Party	124/98, Haridwar Road, Dehradun, Uttarakhand.
2214	Rashtriya Vanchit Party	H.No.525 (New), 204 (Old), Paltan Bazar Sadar, Makandru Ganj District-Pratapgarh, Uttar Pradesh- 230001.
2215	Rashtriya Vikalp Party	Village - Piprauli, Post - Jahangirabad, Janpad - Barabanki, Uttar Pradesh
2216	Rashtriya Vikas Manch Party	Plot No. 58, New Colony, Tilmapur, Aashapur, Sarnath, Varanasi, Uttar Pradesh.
2217	Rashtriya Vikas Morcha	557, Pana Udyan, Narela, Delhi - 40.
2218	Rashtriya Vikas Party	195, Main Ashoka Enclave, Faridabad, Haryana.
2219	Rashtriya Vikaswadi Janta Party	Village and Post-Hariharpur Raikwari, District- Bahraich, Uttar Pradesh- 271870

2220	Rashtriya Vyapari Party	F-25, Professor Colony, Kamla Nagar, Agra-282005 Uttar Pradesh.
2221	Rashtriya Yuva Janadhikar Party	Shop No. -1, Bhimnath Shopping Centre, Beside Big Swaminarayan Temple, Borisana, TA-Kalol, Distt.-Gandhinagar-382721
2222	Rashtriya Yuva Adhikar Dal	At-G-67, Rajeev Nagar, Begampur, Near Pal Hospital, New Delhi-110086
2223	Rashtriya Yuva Morcha Dal	Village-Baleji, Post-Phehpana, District-Ballia, Uttar Pradesh-277503
2224	Rashtriya Yuva Samaj Party	18- Muskan Manjil, Rasulabad, Opposite Rehmat Duplax, Shah-E-Alam, Ahmedabad, Gujarat- 380028
2225	Rashtriya Yuva Swabhimani Party	Katre Township, Opp. Sawta Maidan, Junivasti Main Road, Badnera Maharashtra- 444701.
2226	Rastriya Aam Jan Seva Party	C-90, Khasra No. 770, Madanpur Khaddar Extension, Tehsil, Mehrauli, New Delhi-110076
2227	Rastriya Atal Janta Party	At Near Ring Road Crossing, Khuram Nagar Sai Guest House, First Floor, Lucknow, Uttar Pradesh-226022
2228	Rastriya Hind Samaj Party	H. No. Naya Juggaur Anshik, Teh.-Lucknow, District-Lucknow, Uttar Pradesh- 226028
2229	Rastriya Insaaf Party	604, Anubhav Eledco, Udyan -2, Raibareli Road, Lucknow -226025, Uttar Pradesh
2230	Rastriya Naba Nirman Party	Jemadevi Pentho Street, Old Berhamapur, PO- Berhamapur, PS - Bada Bazar, Dist. Ganjam, Odisha - 760009
2231	Rastriya Sadabahar Party	72, Tulsi Mandi, Hotel Maharani, Maharani Chowk, Post- Gulzarbagh, Thana- Aalamganj, Patna City, District- Patna, Bihar 800007.
2232	Rayalaseema Congress Party	5/62, Pedduru Road, Galiveedu Kasp, Galiveedu Post and Mandal, Y.S.R Kadapa District, Andhra Pradesh - 516267.
2233	Rayalaseema Parirakshana Samithi	Door No. 70-125-B-71, Near Highway, Kallur, Kurnool Town, Andhra Pradesh - 518003
2234	Rayalaseema Praja Samithi	H.No.5-54, Chowdeswari Bazar, Post & Mandal-Kodumur, Kurnool District, Andhra Pradesh-518464
2235	Rayalaseema Rashtra Samithi	Door No.22/160, Vasanthapeta, Kadapa District, Proddatur-516360, Andhra Pradesh
2236	Real Democracy Party	37, Akshar Diamond Market, Sardar Chowk, Mini Bazar, Varachha Road, Surat, Gujarat - 395006.
2237	Reforms Party of India	1-10-50, Baptist Peta, Eluru-534001, Andhra Pradesh.
2238	Regional Democratic Secular Congress	Lower Lumparing, P.O. Laban, Distt. East Khasi Hills, Shillong - 793004 Meghalaya.
2239	Republican Backward Congress	Plot No. 4, Gali No. 1, Ward No.1, M.C. Colony, Charkhi-Dadari, Disstt. Bhiwani, Haryana-127306
2240	Republican Bahujan Sena	305, Shahu Smruti Building, 3rd Floor, Mahatma Phule Nagar, Behind Meenatai Thakrey Udyan, Thane (West), Maharashtra - 400606
2241	Republican Paksha (Khoripa)	Ensa Hutments, 8-9, Azad Maidan, Infront of Mumbai Maha Nagar Palika, Fort. Mumbai-400 001. (Maharashtra).
2242	Republican Party of India	Satnam Mansion, 3 rd Floor, Building No.245, P Dmello Road, Roll No.1393, Above Municipal Co-operative Bank, Opposite GPO, Mumbai - 400001
2243	Republican Party of India (Athawale)	No.3/4, Insa Hutment, Azad Maidan, Fort, Mumbai, Maharashtra-400001
2244	Republican Party of India (Democratic)	Mukund Niwas, India Nagar, Latur-413512 (Maharashtra).
2245	Republican Party of India (Karnataka)	Office No. 49/1, B. Nagasandra, Yamaluru Post, Bangalore, Karnataka- 560037.
2246	Republican Party of India (Khobragade)	Gita Villa, East Marredpally, Secunderbad, (Andhra Pradesh).
2247	Republican Party of India (Rashtriya)	House No. - 67, 68, Street No. - 15, Block - 28, Vishwas Nagar, Shahdara, New Delhi- 110032
2248	Republican Party of India (Reformist)	B-12/704, Vijay Park, Kasarvadavli, G.B.Road, Thane (W), Maharashtra - 400615.

2249	Republican Party of India (Sivaraj)	10, Solai Street, Ayanavaram, Chennai-600023 (Tamil Nadu).
2250	Republican Party of India (Social)	Property No.-2618, Ward No. Tukum-2, (Old Ward 1C), Samta Colony, Opp. St Workshop, Tadobe Road, Chandrapur, Maharashtra- 442401
2251	Republican Party of India Bharatha	No. 2001, 1 st A Main Road 8 th Cross, Jaimuni Rao Circle, (Otagere), M.C. Layut, Vijayanagar, Bangalore, Karnataka- 560040.
2252	Republican Party of India Ektavadi	B-9/667, Dev Nagar, Karol Bagh, New Delhi - 110005.
2253	Republican Party of India(A)	1/16, Sanjay Complex, T.T. Nagar, Bhopal-462003,(Madhya Pradesh).
2254	Republican Sena	Shop No. 6, New Nirmal Society, 189, Dhole Patil Road, Opp. Akshay Complex, Pune, Maharashtra-411001
2255	Revolutionary Communist Party of India (Rasik Bhatt)	84-Ashutosh Mukherjee Road, Kolkata-700025 (West Bengal).
2256	Revolutionary Goans Party (State Party Dated 24.01.2024)	H.No.2385/A, Nagzerwada, Bicholim, North Goa, Goa- 403504
2257	Revolutionary Marxist Party of India	Shaheed Sarwan Singh Cheema Memorial Trust Building, 352/1, Phagwari Mohalla, Garha, Jalandhar Punjab-144022.
2258	Revolutionary Party	SH-3/40, R.S.Vishwanathpuri Colony, Nawalpur, Varanasi, Uttar Pradesh- 221003
2259	Revolutionary Socialist Party of India (Marxist)	TC 24/113, Panvila, Thycadu, P.O. Thiruvananthapuram, Pin Code-695014.
2260	Revolutionary Socialist Party of Kerala (Bolshevik) RSP.B	Kerala State Committee Office, Future Centre, Sahodara, Samajam Road, Chettikulangara, Thiruvananthapuram, (Kerala).
2261	Right India Movement Party	Central Mail Box, Sree DMK Heights, Flat No. 402, D. No. 32-10-32, Venkateswara Colony, Ward No. 65, Sheela Nagar, Visakhapatnam, Andhra Pradesh- 530012
2262	Right Party of India	Village & P.O. - Uttar Bahir Gachi, P.S. - Nakashipara, District - Nadia, West Bengal - 741126.
2263	Right to Recall Party	F-001-A, Supath-2 Complex, Opp Juna Wadaj Bus Stand, Ashram Road, Ahmedabad, Gujarat- 380013
2264	Rishivadi Karm Sheel Young Parmarthi Party	237/2, Gali No.-23, Gandhi Colony, Muzaffar Nagar, Uttar Pradesh-251002
2265	Rising People's Party	H.No.202, Ground Floor, Fellowship Colony, Dimapur, Nagaland-797112
2266	Roti Kapda Aur Makkan Party	Block D, Baba Complex, Harsh Nagar Etawah, Uttar Pradesh- 206001
2267	Royal India People's Party	Room no. 35/549 (10/37/153), Adam Bazar Building, Thrissur, Kerala - 680001.
2268	Rythu Bidda Party	8-16-93/1, Sowbagya Colony, Sriram Nagar, Chintalkunta, Hyderabad, Telangana- 500074
2269	Rythu Rajyam Party (A.P.)	D. No. 32/86-7-8, Gaddameeda Gangamma Street, Devuni Kadapa, Kadapa City, Kadapa District, A.P. - 516002
2270	Saaf Party	547/229, Jalalpur, Rajaji Puram, Lucknow, Uttar Pradesh - 226017
2271	Saath Sahakar Vikas Party	483; Dhanapur Road, Dev Bariad-7, Devgad, Baria Dahod, Tal. Devgad City, District-Dahod, Gujarat-389380
2272	Sab Jan Vikas Rashtriya Party	Shop/House of Nabi Rasul Ansari S/o Mohammad Husen, Village & Post Baragaon, Via Kharasara, District-Balia, Uttar Pradesh -277302
2273	Sabbath Party	Shop No.3, Laxmi Niwas Building, M.N. Road, Kurla (W), Mumbai- 400070, MAHARASTRA.
2274	Sabhi Jan Party	E-1/32, Deen Dayal Puram, Taudhakpur Road, Naubasta, Kanpur, Uttar Pradesh - 208021.
2275	Sabka Dal United	Village and Post- Sairpur, Raitha Road, Block- Chinha, District- Lucknow, Uttar Pradesh- 226201
2276	Sabki Party	B-1/1, Sector-G, Jankipuram, Lucknow, Uttar Pradesh.
2277	Sabse Achehi Party	House No.- 222, Amipur Nangola, Majra- Haidernagar, Tehsil & District- Hapur, Uttar Pradesh.

2278	Sabse Badi Party	41/48, Pocket-2, Mayur Vihar, Phase- I, Delhi- 110091
2279	Sacho Sach Party	D-2/2406, Ekta Nagar, P.O.-Jawala Flour Mills, Amritsar, Punjab 143003
2280	Sada Haq Party	House No. 29/9/3, 29/8/2/3, VPO Mahilpur, Tehsil- Garshankar, District- Hoshiarpur, Punjab- 144527
2281	Sada Punjab Party	Shanti Nagar, Dhandari Kalan, Ludhiana, Punjab - 141001.
2282	Sadan Vikas Party	North Office Para, Gauri Shankar Nagar, House No.276, Doranda, Ranchi, Jharkhand.
2283	Saheb Jan Party	At-Galaxy Hotel, Gali No.5, Kanchan Nagar, Hathras Uttar Pradesh-273016
2284	Sainik Jankalyan Vikas Party	Shop No. 4/5/6/7, Ground Floor, Building Known as 'Saraswati Prasad Apt.', Road Pamaka, Gajanan Maharaj Mandir, Kalyan West-421301, Maharashtra
2285	Sainik Samaj Party	317, Shiva Disposal Complex, Sanyukt Yatra Bus Adda Road, Chandrabhaga, Adarsh Gram, Rishikesh, Distt. Dehradun- 249201, Uttarakhand
2286	Sajag Samaj Party	Mohalla- Nasahi, Post- Zafarabad, Tehsil/ Sada/ District- Jounpur, Uttar Pradesh- 222180
2287	Sakala Janula Party	No.7-23/1, M.Venkatayapalem, Khammam Rural, Khammam District, Telangana-507003
2288	Samaanya Praja Party	D. No. 48-11-10/4, Ashok Nagar, Opp. M.V.S Jewellers, Assilametta, Visakhapatnam, Andhra Pradesh - 530016.
2289	Samagra Utthan Party	House No. B/9, Vivekanand Park Marg, Patlitputra Colony, Patna, Bihar- 800013
2290	Samagra Vikas Party	1147/8 (157), P.L. Sharma Road, Meerut, Uttar Pradesh - 250001.
2291	Samaikya Telugu Rajyam	D. No.1-39-B (Serial No. 1026A), Chayapuram Village, Vajrakarur Mandal, Anantapur District, Andhra Pradesh-515842.
2292	Samaikyandhra Parirakshana Samithi	H.No. 8-3-580/1, Yellareddyguda, Ameerpet - 500073, Hyderabad, Andhra Pradesh.
2293	Samaj Adhikar Kalyan Party	Office No.822-823, 8th Floor, M/s Bajwa Development Ltd. Sunny Business Centre, New Sunny Enclave, Sector 125, Mohali, Punjab
2294	Samaj Bhalui Morcha	134/17-C, Milap Nagar, Hoshiarpur, Punjab- 146001
2295	Samaj Parivartan Party	Village - Salarpur, Post - Karaura, Tahsil - Machhlishahar, Janpad - Jaunpur, Uttar Pradesh.
2296	Samaj Rakshak Party (Bhartiya Kranti)	Niwasi-Ken, Post-Kanwar, Tehsil-Sirathu District-Kaushambi, Uttar Pradesh- 212217
2297	Samaj Satta Dal	H.No. 74, Padara Kangal, (Bauliya), Near Primary School, Padara Kangal, Tehsil - Sadar, District - Mirzapur - 231001, Uttar Pradesh.
2298	Samaj Seva Party	House No. 27, Bahramgarh, Tehsil- Budana, District- Muzaffarnagar, Uttar Pradesh.
2299	Samaj Sevak Party	568Kh/223, Sector - 7, Near Old Bharat gas Godam, Geetapalli, Alambagh, Lucknow, Uttar Pradesh.
2300	Samaj Shakti Party	House No.C-5/382, New Resettlement Colony, Bhalaswa, Delhi-110042
2301	Samaj Sudharak Party	House No.723/2, Mangal Pandey Nagar, Sector-2, University Road, Meerut, Uttar Pradesh-250004
2302	Samaj Vikas Kranti Party	Vidyalata Niwas, Khindipada, Dargah Road, Mulund Colony, Mulund (West) Mumbai, Maharashtra-400082
2303	Samajhdar Party	Vill.- Mahri (Barauli), Post - Mahri, District - Ballia, Uttar Pradesh - 221716
2304	Samajik Navnirman Party	6, Faridinagar, Picnic Spot Road, Ghanshyamkunj, Indiranagar, Lucknow, Uttar Pradesh-226016
2305	Samajik Nyay Navlok Party	B-172, TDI City, Fatehabad Road, Agra, Uttar Pradesh - 282006.
2306	Samajik Pragatisheel Party	Bhagat City Colony, Bilandarpur Road, Khejroli, Tehsil-Chomu, Dist.- Jaipur, Rajasthan-303803
2307	Samajik Sangharsh Party	H. No. 59, Gali No. 2, Guru Arjun Dev Nagar, Tam Taran Road, Amritsar, Punjab-143002
2308	Samajtantric Party of India	40/1, B - Road, Bamanghachi, Howrah - 711 006. (West Bengal).

2309	Samajwadi Aam Janata Dal	Belatal Road, Laiya Place-Ke Pichhe, Ward No.2, Naugaon, Chhatarpur, Madhya Pradesh- 471201
2310	Samajwadi Andolan Party	Village & Post Office-Daulat Pur Billoch Gohawar, Tahsil-Chandpur, Distt. Bijnor, Uttar Pradesh-246734
2311	Samajwadi Forward Bloc	7-5-14/B, Venkateshwara Colony, Mahboob Nagar, Telangana - 509001
2312	Samajwadi Jan Parishad	Jai Malha Prasad, Reti Bunder Road, Mahagiri, Thane (W)-400601 (Maharashtra).
2313	Samajwadi Janata Party (Chandra Shekhar)	L Extension 358, Mohan Garden, Rama Park Road, Uttam Nagar, New Delhi-110059
2314	Samajwadi Janata Party (Karnataka)	Room No.21, 2nd Floor, Hameed Shah Complex No.2, Cubbonpet, Main Road, Behind Ulsoor Gate Police Station, Bangalore-560002, Karnataka.
2315	Samajwadi Jankranti Party	A-454, Shastri Nagar, Delhi-110052
2316	Samajwadi Lok Parishad	Kusumpuram Colony, Natthupur Road, Post-Kurthauul, Thana-Parsa Bazar, Patna, Bihar-804453
2317	Samajwadi Samaj Party	Ward No.13, Lohia Nagar, Nagar Panchayat - Salempur, Janpad - Deoria, Uttar Pradesh - 274001
2318	Saman Aadmi Saman Party	Village- Amilwan, Post- Khutar, P.S.-Mada, District- Singrauli, Madhya Pradesh-486886.
2319	Saman Adhikar Party	62/271, Nagla kachhiyan, (Mustafa Quarter Colony), Agra Cantt, Agra, Uttar Pradesh.
2320	Saman Bhagidari Party	538Kh/404, Dindayal Nagar, Khadra, Sitapur Road, Lucknow, UTTAR PRADESH-226020
2321	Samaniya Makkal Nala Katchi	S.F.No.1172/12A, Karur Bypass Road, Indira Nagar, Erode, Tamil Nadu-638002
2322	Samanya Janatha Party (Loktantrik)	No.- 17, House No.- 29, Basavana Durga (Koramma Camp), Gangavathi, District- Koppal, Karnataka- 583227
2323	Samarth Bharatvarsh Party	39A, DDA Flats (Old), Chilla, Mayur Vihar, Phase-I, Delhi- 110091
2324	Samarth Kisan Party	Prabandhak - Mother Teresa Convent School, Village & Post - Manauri, Tehsil - Chayal, Janpad - Kaushambi, Uttar Pradesh.
2325	Samata Kranti Dal	Plot No.3547/3875, Mouza Gautam Nagar, Garage Chhaka, Temple Road, old Town Bhubaneswar - 751002, Odisha.
2326	Samata Party	220, Vitthalbhai Patel House, Rafi Marg, New Delhi - 110001.
2327	Samata Samadhan Party	E-1/150, Arera Colony, Bhopal, Madhya Pradesh.
2328	Samata Sangharsh Party	55 B, Radheypuri Extension-1, Delhi-110051
2329	Samatamoolak Samaj Party	194, Kanshi Sadan, A.B. Road, Vill. & Post- Renhat, Land Survey, No.299/01/1[S], Patvari Renhat, Tehsil-Ghatigaon, District - Gwalior, Madhya Pradesh - 475330
2330	Samathuva Makkal Kazhagam	139- T.H. Road, Kaladipet, Thiruvottiyur, Chennai, Tamil Nadu-600019.
2331	Sambhaji Brigade Party	Sai Complex, Gala No.7, New Mondha, Hingoli, Tehsil & District- Hingoli, Maharashtra-431513
2332	Sambidhan Bachao Party	24/A, 2, S.D. Mukherjee Lane, Post & P.S.-Rishra, District-Hoogly, West Bengal-712248
2333	Samdarshi Samaj Party	Village- Manikapur Majre Saray Pandey, Post- Jauras, Pargana & Tehsil- Haidergarh, District- Barabanki, Uttar Pradesh.
2334	Samnak Janta Party	Survey No. 120, Plot No. 9, Near Bhavsar Chowk, Aniketnagar, Taroda, (Kd.), Malengaon Road, Nanded, Tq. & District - Nanded, Maharashtra - 431605.
2335	Samoochik Ekta Party	13/51, Parmat, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh- 208001
2336	Sampark Vikas Party	Shop No. 3, Nandkishor Appt., Near Chandranagar Bus Stop, Naryan Nagar, Paldi, Ahmedabad, Gujarat-380007
2337	Sampoorn Samarpan Party	Acharya Ramchandra Shukla Nagar, Bhujauli Colony, Plot No. E.W.S. - 209-210, Deoria UTTAR PRADESH - 274001
2338	Sampoorna Bharat Kranti Party	WZ- 150, Village- Bodhela, VikasPuri, New Delhi- 110018

2339	Sampoorna Samaj Party	H. No. 464, Village & Post - Gairwah, P.S. - Sarpatahan, Tehsil - Shahganj, District - Jaunpur, Uttar Pradesh-223103.
2340	Samras Samaj Party	Raji Jarai, Mouja - Ghanroj, Tehsil - Sohna, District - Gurgaon, Haryana.
2341	Samrat Ashok Sena Party	House No. 1546, Village and Post- Belsar, Tehsil- Tarabganj, District- Gonda, UTTAR PRADESH-271401
2342	Samrat Mihir Bhoj Samaj Party	F-64/C9/197, Sector-40, Noida, (Near Sainath Mandir), District Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh-201303
2343	Samruddha Odisha	201, Sitalkunj Apartment, Plot No. M63, Madhusudan Nagar, Bhubaneswar - 751001, Orissa.
2344	Samst Samaj Party	70, A R Mechanical Works, Shivanagar-2, Mauja Gaddiwala, Near B.S. Woolen Mill, Panipat, Haryana-132103
2345	Samta Dal (Pragatisheel)	H. No. 480, Village - Lisari, Tehsil & District - Meerut, Uttar Pradesh - 250002.
2346	Samta Samjwadi Congress Party	K - 56/114-7 (Raniphatak), Ausanganj, Varanasi - 221001, Uttar Pradesh
2347	Samta Vikas Party	House Harbhajan Jangde, Ward No. 17, Mandideep, Tehsil - Goharganj, District - Raichan, Madhya Pradesh
2348	Samtawadi Republican Party	108, Rampuram, PAC Road, Kanpur, Uttar Pradesh.
2349	Samuga Makkal Katchi	No.3 Mudalair Street, Vallam Village, Kanchipuram Dt. Tamil Nadu - 602105.
2350	Samyak Parivartan Party	Village - Janki Nagar, Behind of Ranipurwa School, Vikas Khand - Jhanjhri, Near of Mande Nala Bridge, Post - Bus Stop, Janpad - Gonda, Uttar Pradesh.
2351	Samyak Party	Village and Post- Manda, District- Allahabad, Uttar Pradesh-212104
2352	Sanatan Sanskriti Raksha Dal	Village - Taraon, Post, Thana & Tehsil - Koraon, Distt. - Allahabad, Uttar Pradesh.
2353	Sangathit Janta Party	No.177, Shiva Khand, Vishwakarma Nagar, Delhi-110095
2354	Sangharsh Party of India	House No. 314, Shanti Niketan, D.M. Road, Bulandshahr, Uttar Pradesh - 203001
2355	Sangharsh Samaj Party	H. No. 44, Village - Dhaka, P.O. - Akha, Tehsil - Aonla, District - Bareilly, Uttar Pradesh - 243001.
2356	Sangharsh Sena	11, Sairaj Complex, Pandit Naka, Shahapur, Tq. Shahapur, District - Thane, Maharashtra - 421601
2357	Sanjhi Virasat Party	506, Chanderlok colony, Street No.- 3, Mandoli Road, Shahdra, Delhi-110093
2358	Sankhyanupati Bhagidari Party	New Vighrapur, Mithapur, (Bus Stand) Patna-800001
2359	Sanman Rajkiya Paksha	56, Tirupati Nagar, Lohara, Taluk & District - Yavatmal, Maharashtra - 445002
2360	Sanyogwadi Party	Shop No.3, First Floor, Commercial 1, Paras Tierca, Sector-137, NOIDA, Uttar Pradesh-201304.
2361	Sanyukt Bharat Paksh	Ratnam Bungalow, Near Meenatai Thakre Garden, M.I.D.C Road, Badlapur (East), Taluka-Ambernath, Thane, Maharashtra-421503
2362	Sanyukt Janadesh Party	356/225/257, Ashok Nagar, Kale Pahar, Alamnagar Road, Lucknow, Uttar Pradesh- 226017.
2363	Sanyukt Kisan Vikas Party	Village- Suraundha, Post- Barki Basholi, P.S.- Dumraon, District- Buxar, Bihar- 802119
2364	Sanyukt Kranti Party	Ward No.3, Lanji, Balaghazi, Madhya Pradesh - 481222
2365	Sanyukt Samaj Morcha	H.No.92-C, Ward No.13, Bhagwanpura Road, Samrala, Ludhiana, Punjab-141114
2366	Sanyukt Samajwadi Dal	11, Zones Lines, Agra - 282004, Uttar Pradesh.
2367	Sanyukt Sangharsh Party	Showroom No.10, Lower Ground Floor, High Ground Road, Nabha, Sub-Tehsil - Zirakpur, Mohali, Distt. - S.A.S. Nagar - 140603, (Punjab)
2368	Sanyukt Vikas Party	Village - Sarsaul, Post Office - Muni, P.S. - Araniya, Tehsil - Khurja, District - Bulandshahr, Uttar Pradesh.
2369	Sapaks Party	144, Vidya Nagar, Hoshangabad Road Bhopal, Madhya Pradesh-462004

2370	Sarav Sanjhi Party	Saggar Hospital, Near Peer-Baba Maddi Shah Ji, Bassi Khuwaju, Hoshiarpur, Punjab- 146001
2371	Sardar Patel Siddhant Party	Village - Newada, Post - Bahuta, Tehsil - Patti, District - Pratapgarh, Uttar Pradesh - 230135.
2372	Sardar Vallabhbhai Patel Party	1, Olekar House, Dattapada Road, Borivali (East), Mumbai - 400 066.
2373	Sarv Adi Dal	First House, Ward-14 Govardhan, Rawabhata, Opp. Punjabi Dhaba, Birgaon, Raipur Bilaspur Highway, Distt-Raipur, Chhattisgarh-492001
2374	Sarv Jan Party (Bharat)	E-734, Behind Krishna Mandir, Shakarpur, Delhi- 110092
2375	Sarv Jan Sarv Samaj Party	2/248, TF, Subhash Nagar, New Delhi - 110027.
2376	Sarv Rajya Party	548GH/71, Teji Khera, Talkatora Road, Manak Naar, Near J.R.P.F., Lucknow Uttar Pradesh- 226011.
2377	Sarv Samaj Party	46, Rajeev Nagar, Mandi Chowk, Gadhmukteshwar, Hapur, Uttar Pradesh- 245101
2378	Sarv Sambhaav Party	Yadav Bhawan, Puwayan Road, Village & Block- Banda, Tehsil- Puwayan, District- Shahjahanpur, Uttar Pradesh.
2379	Sarv Vikas Party	Village - Prateet Nagar, N.H. - 58, Near of Post Office, Raiwala, Dehradun, Uttarakhand - 249205.
2380	Sarva Hit Party	602-B, Khasra No. 298/199, 298/207, 298/209, Mohalla Bans, Sunar Wali Gali, Village - Ghitorni, New Delhi-110030.
2381	Sarva Jan Samaj Party (Nand Kishore Chawla)	Chawla Properties, Laxmi Vihar, Camry Road, Hisar, Haryana.
2382	Sarva Janata Party	Central Party Office # 17, Javalli (Village), Pillangere (Post), Shimoga (Taluk), District - Shimoga - 577227 Karnataka.
2383	Sarva Samaj Janata Party	Village and Post- Oril (Khapadiya Chak), Tehsil- Phoolpur, P.S.- Pawari, District- Azamgarh Uttar Pradesh- 223222
2384	Sarva Samaj Janhit Party	Ghuripur (Jakhaon) in Gyanpur Road Gopiganj, Tehsil-Gyanpur, Distt. Bhadohi Uttar Pradesh- 221304
2385	Sarva Samaj Kalyan Party	Bijraj Bhawan, Village - Singharpur, Post - Ahamadpur, Mathura Road, Aligarh, Uttar Pradesh.
2386	Sarva Suraksha Party	Village and Post- Tilakhwar, District - Karchhana, Allahabad, Uttar Pradesh
2387	Sarvadharam Party (Madhya Pradesh)	120/1, Ashoka Garden, Tahasil - Nazul, Distt.- Bhopal - 462023, Madhya Pradesh
2388	Sarvajan Hitay Party	70/59, Leader Road, Allahabad, Uttar Pradesh -211003.
2389	Sarvajan Kalyan Loktantrik Party	COFFED, Meen Bhawan, 3rd Floor, New Punaichak, West Boring Canal Road, Patna, Bihar - 800023.
2390	Sarvajan Samaj Party (D)	Village & P.O. : Wadala Bangar, Tehsil: Gurdaspur, District: Gurdaspur- 143511 Punjab.
2391	Sarvajanika Adarsha Sena	At-20/1, 2 nd Main, 8 th Cross, Chamundi Layout, Vidyananyapura, Bengaluru-560097
2392	Sarvar Party	Village & Post-Vasantpur, Campierganj Janpad-Gorakhpur, Uttar Pradesh - 273158
2393	Sarve Bhavanti Sukhinah Party	Village & Post - Mamdar, Tehsil & P.S. - Rampur Naikin, District - Sidhi, Madhya Pradesh.
2394	Sarvhara Dal	Kewala Fariyatta, Via. Gidhour, Distt- Jamui (Bihar).
2395	Sarvhara Vikas Party	H.No.102, Jangal Matadeen, Aryapuram Colony, Post - Padari Bajar, Gorakhpur, Uttar Pradesh-273014
2396	Sarvhit Samaj Sewa Party	H. No. 177, Village & Post - Shahjahanpur Baijna, P.S. - Dadon, District - Aligarh, Uttar Pradesh-202133.
2397	Sarvjan Awaz Party	No.528, Block-B, Platinum Heights, Sector-18B, Dwarka, New Delhi-110078
2398	Sarvjan Lok Shakti Party	T.A. 184/2, Tughlakabad Extension, New Delhi- 110019
2399	Sarvjan Navyug Vikas Party	Vill.+P.O.- Bishunpur Bedaulia, P.S.- Jandaha, Distt. - Vaishali, Bihar- 844505
2400	Sarvjan Samta Party	774, Gectanjali Vihar, Ward No. 28, Loni, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201102

2401	Sarvjan Sanatan Party	H. No.B1/148,A-JA,Assi Varanasi,Uttar Pradesh- 221005.
2402	Sarvjan Sewa Party	163/200/1, Salari-Ka-Hata, Chikmandi, Maulviganj, Lucknow, Uttar Pradesh-18.
2403	Sarvjan Sukhay Party	Adda Nihal, Manikpur Visu, Tehsil Etawa, Main Road, NH-2, District Etawa, Uttar Pradesh-206001
2404	Sarvlokhit Samaj Party	16/94,A-Block,Baba Colony,Burari.Delhi-110084
2405	Sarvodaya Bharat Party	B- 19, Sector- O, Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh.
2406	Sarvodaya Karnataka Paksha	"Aniketana" First Floor,SJM Samudaya Bhavana, Kalidasa Road, Gandhinagar, Bangalore-560 009, (Karnataka).
2407	Sarvodaya Prabhat Party	B-3/231, Nand Nagri, Delhi- 110093
2408	Sarvpriye Samaj Party	Mohalla- Ashok Nagar Shahariya, Vishnu Puram Colony, Distt. Etawah, Uttar Pradesh- 206001.
2409	Sarvsamaj Nyaya Party	No. 101 at 'Ocean Tower', Commercial Complex, Plot No. 1152/53, Jhotwara Road, Jaipur, Rajasthan-302012.
2410	Sarvshakti Dal	D-60, Dev Nagar, Murlipura, Sikar Road, Jaipur, Rajasthan- 302039.
2411	Sarvshreshth Dal	Village - Shahdaudpur or Kakorgahna, P.O. & Tehsil - Sader, District - Jaunpur, Uttar Pradesh
2412	Sashakt Bharat Party	H. No. 345,Parashar Bhavan,Jaton Ka Mohalla,p.O. Kannauj, Tehsil-Bhadesar,Distt. Chittorgarh,Rajasthan-312613.
2413	Sathi Aur Aapka Faisala Party	Plot No. 2005, Village - Chamrahara, Mahnar Road, District - Vaishali, Bihar - 844507.
2414	Satta Kalyan Party	No.D-144;Paras Prabhu Society,Near Sonal Park,Insanpur,District-Ahmedabad,Gujarat-382443
2415	Sattari Yuva Morcha	House No. 48, Kankire, Guleli, Sattari, Goa.
2416	Sattathagam Makkal Katchi	1-3/1020B,Green Garden,Vinayagam Patty,Distt.-Salem,Tamil Nadu-636008
2417	Satya Bahumat Party	A-112, Pratap Nagar, Street No. 15, Mayur Vihar Phase-1, Delhi- 110091.
2418	Satya Kranti Party	H. No. - 176 E, Shivpur, Sahbazganj, Gorakhpur, Uttar Pradesh.
2419	Satya Shikhar Party	H. No. - 70-A, Village - Narharpur (Shankarpur), P.O. Miyaganj, District - Faizabad, Uttar Pradesh - 224208.
2420	Satya Vikas Party	No. B-7,Shailja Apartment,Near Sugma Flat,Vasna Ahmedabad,District-Ahmedabad,Gujarat-380007
2421	Satyanishth Jan Sewak Party	House No.128, Ward No.5,Lalit Nagar,Opposite SDM's Residence,Tehsil and P.O-Sunder Nagar,District-Mandi,Himachal Pradesh-175019
2422	Satyawadi Rakshak Party	B/501,Yogi Pujan Appartment, Akshar Farm Road, Vidhya Nagar, Gujarat-388120.
2423	Saurashtra Janta Paksha	H.No. 6/3/116, Himmat Lal Parmar Road, Wadipara, Surendra Nagar, Gujarat- 363001
2424	Savarn Samaj Party	East of Stadium, Nand Hardware, Sirmor Road, Rewa-486001, (Madhya Pradesh).
2425	Secular Alliance of India	Keswani Complex, 1 st Floor, Above Navjeevan Cooperative Bank Ltd., Chopda Court Branch, Ulhasnagar - 421003, Maharashtra.
2426	Secular Democratic Congress	No. 958/D, ward No. 13, (Old No. 722/D in ward No. 10), Kelakam (Near Kelakam Police Station), P.O- Kelakam Grama Panchayat, District- Kannur, Kerala- 670674
2427	Secular Inqilab Party	Ho.No.-202,Rajeev Garden,Loni,Ghaziabad,Uttar Pradesh-201102
2428	Secular National Dravida Party	Kadakkavoor Buildings, Thumpara Nagar, Mundakkal, Kollam City, Kollam-691001, Kerala.
2429	Secular Party of India	House No.122-A, Rainvihar, Old Janipur, Jammu-180007 (J& K).
2430	Secular Republican Democratic Party	Adam star Complex, Room No. 132, 1 st Floor, 2 nd Block, Thodupuzha, Idukki District, Kerala.
2431	Sehajdhari Sikh Party	622/9, Near Telephone Exchange,Raikot, District Ludhiana, Punjab.

2432	Serv Bhalai Party	H.No. 625, New Azad Nagar, Sultanwind Road, Amritsar, Punjab - 143001.
2433	Service Adhered with Integrity Desam Party	Plot No. 29, Phase-I, Main Road, Near Police Station, Vanasthalipuram, Hyderabad, Telangana State- 500070
2434	Service Class Party	HIG, 4/305, Vineet Khand Gomtinagar, Lucknow, Uttar Pradesh-226010
2435	Seva Dal	532 (Opp.126-R), C.R. College Road, Model Town, Rohtak - 124001, Haryana
2436	Seva Samrajya Party	Dhabunaik Tanda, Aanandiwadi, Tq. - Palam, District - Parbhani, Maharashtra- 431536.
2437	Shakti Sena (Bharat Desh)	Simi Bhawan, National Highway 43, Cross Lane Tiraha, Devpuri, Raipur, Chhattisgarh-492015.
2438	Shaktimaan Samaj Party	Plot No. 133, Kaushalpur, Phase-II, Near By Grammer School Road, Post-Khojpur, Distt.-Ayodhya (Faizabad) Uttar Pradesh- 224001
2439	Shane Hind Fourm	B-111/1, B-Block, Ashok Vihar Phase-I, New Delhi- 110052
2440	Shanknad Party	Chamber No. 6, Election Office Road, Civil court Compound Kanpur Nagar, Uttar Pradesh-208001
2441	Shanti Morcha	X-919, Chand Mohalla, Gandhi Nagar, Delhi-110031.
2442	Shining India Party	Ward No.6, Post - Deshnoke, District - Bikaner, Rajasthan - 334801
2443	Shiromani Akali Dal (Amritsar) (Simranjit Singh Mann)	Village Quilla S. Harnam Singh, P.O. Tellania, District-Fatehgarh Sahib, Punjab- 140 406.
2444	Shiromani Akali Dal (Sanyukt)	Plot No.92, Sector-82, Airport Road, Sahibzada Ajit Singh Nagar (Mohali), Punjab-140308
2445	Shiromani Akali Dal (Taksali)	No. 30, Guru Har Rai Avenue, Opposite Khalsa College, Amritsar, Punjab- 143001
2446	Shiromani Lok Dal Party	Building No. 108, Near Krishna Mandir, Opposite Dana Mandi, G.T. Road, Amritsar, Punjab.
2447	Shivrajya Party	Flat No. B/102, Deccan Apartment, Union Park, Pali Hill, Khar (West) Mumbai- 400052
2448	Shoshit Inquilab Party	Murlichak, Jagdev Path, Near Jagdev Smriti Apartments, Post Office-B.V. College, Patna, Bihar-800014
2449	Shoshit Samaj Dal	Center Office : Dakshinini Mandiree, Patna-800001 (Bihar).
2450	Shoshit Sandesh Party	Gird Badgaon, Sant Ravidas Nagar, Bhadohi, Uttar Pradesh.
2451	Shram Shakti Party	J-1749, J-Block, Jahangirpuri, Delhi- 110033
2452	Shramajeevi Party	1-6-48, Old Alwal, Post - Bollaram, Secunderabad - 500010, Andhra Pradesh.
2453	Shri Janta Party	Manda Sadan, Dwarika Nagar, Rewa, Madhya Pradesh - 486001.
2454	Shubha Karnataka	House No.1262, Kustagi Road, 1st Cross, Gajendragad, Distt. Gadag - 512114, Karnataka
2455	Sikkim National People's Party	The Dzong, MG Marg, Gangtok, East Sikkim-737101
2456	Sikkim Rajya Manch Party	Yangang Bazaar, P.T.C Road, P.O.-Yangang, P.S- Ravangla, South Sikkim, Sikkim- 737134.
2457	Sikkim Republican Party	Central Pendam, Sajong Ward No.- 3, P.O.- Upper Pendem, P.S.- Rongpo, East Sikkim- 737132
2458	Sikkim United Front	Sapkota Building, Assam Lingzey Souraney, P/O- Assam Lingzey, P.S- Ranipool, East Sikkim- 737135
2459	Sirupaanmai Makkal Nala Katchi	No. 16A, 9 th Cross Street, Anna Nagar, Pammal, Kachipuram District, Chennai, Tamil Nadu-600075
2460	Smart Indians Party	Grampanchayat- Ghana Khamariya, Opp. Jain Building, Jabalpur, Madhya Pradesh- 482005
2461	Smast Bhartiya Party	W-6/5, DLF City Phase-III, Gurgaon - 122002, Haryana.
2462	Social Action Party	Mylackal House, Ranny, Pathanamtitta Distt. Pin-689072 (Kerala).

2463	Social Democratic Party of India	C-4, Hazrat Nizamuddin West, New Delhi - 110013
2464	Social Justice Party of India	H. No. 2-97, Chinaravirala- Village, Hayathnagar Mondal, Ranga Reddy-District, Telangana State- 501505
2465	Social Movement Party	H.O. - 539, Lane No. - 29, Rajpura Mangotrian, Jammu, Jammu & Kashmir-180001.
2466	Socialist Janata Party	XB-1, Sah Vikas Apartment, Patparganj, Delhi - 110 092
2467	Socialist Party (India)	Lohiya Mazdoor Bhawan, H. No. 41/557, Dr. Tufel Ahmed Marg, Narhi, Lucknow, Uttar Pradesh.
2468	Socialist Republican Party	State Committee Office, Tutor's Lane, Statue, Trivandrum - 695001 (Kerala).
2469	Socialist Unity Centre of India (Communist)	48-Lenin Sarani (First Floor), Kolkata - 700 013, West Bengal.
2470	Socialist Workers Party	Plot No - 218, Backside of Binayak Enclave, At- Kolathia, P.O. - Aiginia, District - Khordha, Bhubaneswar, Odisha - 751019
2471	Socialistic Democratic Party	Post Box No.1089, General Post Office, Srinagar-190001, Jammu and Kashmir.
2472	Sonachal Sangharsh Vahini	Plot No. 597, Vikas Nagar Robertsganj, Sonabhadra, Uttar Pradesh- 231216
2473	South India Forward Bloc	63, Municipality Road, (42/4 - 68 C), Arapalayam, Kanmaikarai Main Road, Madurai, Tamil Nadu - 625016.
2474	Spashtwadi Jan Aadhar Party	M1-344, Double Storey, First Floor, Barra-2, Kanpur City, Uttar Pradesh- 208027
2475	Star Altruistic Humanitarian Unity Party	Tehsil Road, Gauriganj, Distt. Amethi, Uttar Pradesh-227409
2476	State Samvibhajana Party	H. No. 56, Village - Sonkhas, Tq. - Ner, District - Yavatmal, Maharashtra - 445102.
2477	Statesman India Party (Intellectual)	H.No. 21, Near Officers Colony A, Shiv Vihar, In front of Hanuman Temple, Meenawala, Panchyawala, Jaipur, Rajasthan - 302034.
2478	Studentz United For Nation Party	D. No. 12-464/4, B- Block, Tadepalli, District- Guntur, Andhra Pradesh - 522501
2479	Subhashwadi Bhartiya Samajwadi Party (Subhas Party)	F-10, Patel Nagar 111, District- Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201003
2480	Sudesi Makkal Needhi Katchi	No. 24/38, FF2, Kutti Gramini Street, Raja Annamalai Puram, Chennai, Tamil Nadu- 600028
2481	Sudharwadi Party	Mohalla-Piuni Bag, Ward No.-32, Bettiah, Post-Bettiah, Thana-Bettiah Town, Distt.-Pashchim Champaran, Bihar-845438.
2482	Suheldev Bharatiya Samaj Party	Village - Mirangaj, Post Office - Rampur Rasda, District - Balia, Uttar Pradesh - 221712
2483	Suheldev Party	Village & Post - Phulesh, District-- Azamgarh, Uttar Pradesh - 223224
2484	Sumatee Mukti Morcha	Plot No. 347(LR) 391(RS), Khatian No. 2194(LR), Mouza- Pancnai, Area 5 Decimal, P.S.- Matigara, District- Darjeling, West Bengal- 734010
2485	Sunahara Bharat Party	Building No. #B-17, 2173/2A/1A, Jammu Colony, Abdullahpur Road, Ludhiana Punjab-141003.
2486	Sunder Samaj Party	Village + Post - Nangoi, Tahsil - Kharasia, Distt. - Raigarh, Chhattisgarh - 496665.
2487	Sunehra Punjab Party	319, Sector-9, Chandigarh-160009
2488	Super Nation Party	57/1, Thathavalli Village, Kurumbhageri Post, Tirupattur Taluk, Vellore District, Tamil Nadu - 635653
2489	Super Power India Party	78, Upper Ground Floor, Block-A, NRI City Centre, Pari Chowk, Greater Noida, Distt. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh-201310
2490	Super Rangers Party	Shop No. 51, 3rd Floor, Skanda Shopping Mall, Behind Coles Memorial Church, Kurnool, Andhra Pradesh-518001

2491	Super Stars Makkal Kalagam,	D. No. 26, AVP Layout, 2 nd Street, Gandhi Nagar, Tiruppur, Tamil Nadu-641603
2492	Supreme Zero Party of Bharat	Ward No.6, Holding No.222, Upara Shahi, Khordha Municipality, At/PO/PS/District-Khordha, Odisha-752056
2493	Suraaj Seva Dal	Village - Ramdi Jasuva, P.O. - Fatehpur, Tehsil- Haldwani, District - Nainital, Uttarakhand
2494	Suraksha Samaj Party	Mohalla - Tarkapur (SonkarBasti), Bhawan No. 1102/1, Ward No.7, Post & Tehsil - Sadar, Janpad - Mirzapur, Uttar Pradesh - 231001.
2495	Surya Janaseva Party	#2, Second Floor, 5 th Cross, Anjana Nagara, Bangalore, Kamataka- 560091
2496	Surya Revathi Praja Party	H. No. 54, APR Pranav Antila, Bachupally, Hyderabad, Telangana - 500090
2497	Sushasan Party	House No. 558, Vill. + Post - Badsli, Tehsil - Bawanikhed, Distt. Bhiwani-127032, Haryana.
2498	Svatantra Bharat Satyagrah Party	Shop No. - 7 & 8, Upper Ground Floor, Bhagwati Arcade, Jawahar Road No.-5, Udhna Udhhyog Nagar, Udhna, Surat, Gujarat - 394210.
2499	Swabhimani Janta Dal	Nirbhay Cold Store, Khalwaenar, Dumrow, Buxar, Bihar-802119
2500	Swabhimani Party	31/666, New Shanti Nagar, Raipur, Chhattisgarh - 492001
2501	Swabhimani Paksha	Jaisingpur, District Kolhapur, Maharashtra - 416 101.
2502	Swachh Bharat Party	Sai Baba Mandir Bhojyavas, Bhankrota, Ajmer Road, Jaipur Rajasthan.
2503	Swachh Swasth Swawlambijan Party	H.No. 108, Payagipur, Opposite of near ITI, Sultanpur, Uttar Pradesh-228001
2504	Swadesh Jan Sewak Party	J.P.Nagar, Nai Basti, Premchak Urf Umarganj, Ballia, Uttar Pradesh-277001
2505	Swadeshi Ekta Manch	B-3/253, Vinay Khand-3, Gomti Nagar, In Front of Gomti Nagar Railway Station, Lucknow, Uttar Pradesh- 226010.
2506	Swadeshi Hind Party	Village & Post-Hatira, Mathura Road Crossing ke Pass, Tehsil & District-Hathras, Uttar Pradesh-204101
2507	Swadhin Swaraj Party	213/63, Mahatma Gandhi Marg, Civil Lines, Prayagraj, Uttar Pradesh-200001
2508	Swadhinta Party	Ground Floor, House of Late Suresh Prasad, Situated at College Gate, Purab bazar, Ward No. 30, Saharsa, Bihar-852201
2509	Swaraj (J)	Jungle Suhas Kunwari (Mahavir Chhapra), Post Office - Mahavir Chhapra, Police Station - Belipar, Tehsil - Sadar, District - Gorakhpur, Uttar Pradesh.
2510	Swaraj Bhartiya Nyay Party	H.No.C-50, Main 20 Futa Road, Meet Nagar, Shahdara, Delhi-110094
2511	Swaraj India	Unit 109, 1 st Floor, M.M. House, 59 Rani Jhansi Road, New Delhi - 110055.
2512	Swaraj Janata Party	B-79-B, Street No. 7, Shiv Vihar, Karawal Nagar, Delhi-110094
2513	Swaraj Kranti Party	B-31, Second Floor, Tejendra Complex, Opp.C.M.C., Odhav Road, Odhav, Ahmedabad, Gujarat- 382415
2514	Swaraj Party (Loktantrik)	H.No. -17, Village - Mogalpur, Gram Panchayat - Mogalpur, P.O. - Bakhtiyarpur, District - Patna, Bihar - 803212
2515	Swarajya Lokshahi Party	Swarajya Bhawan, 301, 302, Kudera, Chambers, Next to Sancheti Hospital, Shivajinagar, Pune, Maharashtra-411005
2516	Swarajya Nirman Sena	House No. 396/1, Indira Vasahat, Uttam Nagar, Pune, Maharashtra - 411023.
2517	Swarajya Party of India	B-33, Sector-C, Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh., PIN Code-226024.
2518	Swarajya Rashtra Nirman Sena	H. No. 797, Ward No. 01, Post-Koregaon, Bhima, Taluk-Shirur, Distt. Pune, Maharashtra- 412216
2519	Swarajya Sena (Maharashtra)	No. 586, Moh. Masurdi, Post- Taka, Tehsil- Ausa, District- Latur, Maharashtra-413520
2520	Swarajya Shakti Sena	A1-64, Greens, 1101, B Wing, Next to Poddar International School, Tagore Road, Santacruz West Mumbai-400054
2521	Swarna Bharat Party	G-249 Palam Vihar, Gurgaon, Haryana - 122017.
2522	Swarnim Bharat Inquilab	L.G. - 22, Sunrise Tower 579, M.G. Road, Indore, Madhya Pradesh.
2523	Swatantra Bharat Paksha	'Rahi', Khokadpura, Aurangabad-431001, Maharashtra.

2524	Swatantra Indian Labour Party	Khasra No.916, At Village Dhillawal, Garhiya, Post - Bhopat Patti, P.S. Mau Darwaja, District - Farrukhabad, Uttar Pradesh - 209625
2525	Swatantra Jantaraj Party	811/1, Civil Line Anshik, Ward No. 52, Jhansi. Uttar Pradesh- 284001.
2526	Swatantra Party (Jan)	195, ST Mary's Road, Alwarpet, Chennai, Tamil Nadu- 600018
2527	Swatantra Rashtravadi Party	12-H, In front of Traffic Kotwali, Dariyaganj, New Delhi-110 002.
2528	Swatantra Samaj Party	Village & Post - Lebhri, P.S. - Darauli, Block/Circle - Mairva, Pin Code - 841 239, District - Siwan, Bihar.
2529	Swatantrata Abhivyaakti Party	No.2, Mahavimagar, Opp. Kalyan Mill, Near Chetna Hotel, Naroda Road, Shajipur-Bogha, Ahmedabad, Gujarat-382345
2530	Swayam Krushi Party	No. 17/B, Nanjappa Complex, Ground Floor, Kanakpurmain Road, Banashankari, Shakambari Nagar, Bengaluru, Karnataka-560070
2531	Swayam Shashan Party	Chamber No. 10, Rao Tula Ram Block, Opp. Court No. 21, Gate No. 2, Distt. Gurgaon, Haryana-122018
2532	Tamil Maanila Congress (Moopamar)	No.4, Ashoka Road, Alwarpet, Chennai - 600018.
2533	Tamil Maanila Katchi	No. 74, Jermiah Road, Vepery, Chennai, Tamil Nadu - 600007
2534	Tamil Manila Murpokku Dravida Kazhagam	No. 27, 1 st Floor, Gudiyattam Road. Opp. Railway Kalayana Mandapam, Katpadi, Vellore- Distri, Tamil Nadu- 632007
2535	Tamil Nadu Ilangyar Katchi	No. 23, Ganesh Avenue, Sakthi Nagar, Porur. Chennai, Tamil Nadu- 600116
2536	Tamil Nadu Peasants & Workers Party	No. 1, Jayammal Road, Teynampet, Chennai-600018 (Tamil Nadu).
2537	Tamil Telugu National Party	Old No. 4/51, New No. 197, Perumal Koil Street. T.Edaiyar Post, Thirukoilur Taluk. Villupuram District, Tamil Nadu- 607203
2538	Tamil Thayaga Makkal Munnetra Katchi	No. 61/2, Second Floor, 5th Main Road, CIT Nagar, Nandanam, Chennai, Tamil Nadu- 600035
2539	Tamilaga Makkal Dravida Munnetra Kazagam	3-196, Vembarpatty(PO), Vembarpatty, Taluk & District - Dindigul, Tamil Nadu - 624008.
2540	Tamilaga Makkal Munnetra Kazhagam	563, Shanti Colony, N.K.B. Nagar, Palayamkottai, Tirunelveli, Tamil Nadu.
2541	Tamilaga Makkal Nala Katchi	2/272, A Rajapalayam Main Road, Kuvalaikanni (PO), Tenkasi District, Tamil Nadu - 627753
2542	Tamilaga Makkal Thannurimai Katchi	D.No. 4A, Mahalakshmi Nagar, Near the Court, Kattanachampatty Village, Rasipuram Taluka, Namakkal District. Tamil Nadu- 637408
2543	Tamilaga Sihabana Congress	26/1, 33E, Henry Road, Nesamony Nagar, Nagercoil, Tamil Nadu- 629001.
2544	Tamilar Desiya Munnani	119/A, Dippoline C.Pallavaram, Chennai, Tamil Nadu-600043
2545	Tamilar Makkal Katchi	Village - Thumbalaballidam, P.O. - Gendiganahalli, Taluk - Palacode, District - Dharmapuri, Tamil Nadu - 635205.
2546	Tamilnadu Mahatma Gandhi Makkal Katchi	Door No. 9-2/1C, Thettivilai Veedu, Near Sree Devi Kumari Women's College, Kuzhithurai, Kanyakumari District, Tamil Nadu - 629163.
2547	Tamilnadu Makkal Nalvazhyu Periyakkam	No.6A, 10th Cross Street, Thiruvengada Nagar, Thiruninrvur, Thiruvallur District, Avadi Legislative Assembly Constituency, Thiruvallur Parliament Assembly Constituency. Tamil Nadu- 602024.
2548	Tamilnadu Makkal Urimai Katchi	43, V.O.C. Nagar, Kichipalayam, Salem, Tamil Nadu - 636015.
2549	Tamilnadu Telugu Makkal Katchi	Door No.-1/803, Opposite Karpagam University, Pollachi Main Road, Coimbatore, Tamil Nadu - 641021
2550	Tamizhaga Murpokku Makkal Katchi	82/1, 5th Street, Padmanabha Nagar, Adyar, Chennai - 600020, Tamil Nadu.
2551	Tamizhaga Vaazhvirimai Katchi	13-6-54, Pillaiyar Koil Street, Samrajapettai Post, Mecheri Mettur Tk., Salem District, Tamil Nadu - 636451.
2552	Tamizhar Desam Katchi	27/44, Kudi Street Periya, Kothamangalam Ramji Nagar, Tiruchi West Taluk, Piratipur west village, Tiruchirapalli District-Tamil Nadu - 620009
2553	Tarang Party	KHP/55/26, Yogendra Vihar Naubasta, Kanpur, Uttar Pradesh-208021

2554	Tararani Paksha	W. No. 6, H. No. 2067, Dhangan, Mal, (Shivnagar), Korochi, Tal. Halkangale, District - Kolhapur, Maharashtra - 416109
2555	Teen Ek Party	At-Podalguda, P.O. Majniguda, Distt. - Nabarangpur, Odisha- 764059.
2556	Tehreke Inquilaab Party	Ansar Nagar, Abdul Rasheed Manzil, Tajoddin Baba Nagar, Near Ilahi Masjid, Latur, Maharashtra-413520
2557	Tejas Jankalyan Party	26A, Central Road (Golf Green), Jadavpur, Kolkata, (KMC ward No. 095), West Bengal - 700032.
2558	Telangana Communist Party of India	H. No. 3-4-760/19, Beside Narayanaguda, Flyover Bridge, Barkatpura, Hyderabad, Andhra Pradesh - 500027.
2559	Telangana Dravida Prajala Party	D.No.-1-158/1, Village-Seethampet, Mandal-Hasanparthy, District-Hanamkonda, Telangana-506371
2560	Telangana Inti Party	14-70, V.T. Colony, Post & Mdl.- Nekirekal, District- Nalgonda, Telangana, - 508211
2561	Telangana Jaghir Party	H.No. 4-32/1, Munugancor Village, Abdullapurmet Mandal, Ranga Reddy District, Telangana State- 501511
2562	Telangana Jana Samithi	Door No. 7-1-215/E, Balkampet, Near Nature Cure Hospital, Hyderabad, Telangana-500016
2563	Telangana Karmika Raitlu Rajyam Party	Village - Bairanpally, Post - Siddapur, Mandal - Hasanparthy, District - Warangal, Telangana.
2564	Telangana Labour Party	H.No.8-2-293/82/BJR/A/1, BJR Nagar, Film Nagar, Jubilee Hills, Mandal: Shaikpet, Hyderabad, Andhra Pradesh-500096.
2565	Telangana Loksatya Party	Plot No. 46, Flat No. 201, Gunrock Teachers Colony, Trimulgherry, Secunderabad- 500015 Andhra Pradesh
2566	Telangana Minorities OBC Rajyam	17-3-4, Rein Bazar, Yakutpura, Hyderabad, Andhra Pradesh -500023.
2567	Telangana Pragati Samithi	ADR Estate House No. 2-22-295, 2 nd Floor, Bhagyanagar Colony, Above Bank of India, K P H B Main Road, Kukatpally, Hyderabad, Andhra Pradesh - 500072.
2568	Telangana Praja Samithi (Kishore, Rao and Kishan)	H.No.10-4-108, Girmajipet, Warangal-506002 Andhra Pradesh.
2569	Telangana Praja Shakthi Party	H.No.- 3-5-233, 1 st Floor, Kota Gally, Shivaji Nagar, Opposite to Andhra Bank, R.R.Chowrastha, Nizamabad, Telangana - 503001
2570	Telangana Praja Jeevana Rythu Party	H.No.10-157/1, Malkajgiri, Medchal, Malkajgiri District, Hyderabad, Telangana-50047
2571	Telangana Prajala Party	H.No.12-13-830/15, Gokulnagar, Street No. 1, Tarnaka, Secunderabad, Telangana- 500017
2572	Telangana Rajya Samithi	D. No. 1-4-177/148 & 149/201, Old Alwal Secunderabad, Hyderabad, Telangana - 500010
2573	Telangana Rashtra Punahnirmana Samithi	H. No.1-3-186/a, Vidya Nagar, Bhongir, District - Nalgonda, Andhra Pradesh - 508116.
2574	Telangana Republican Party	H.No. 2-134, Tanedarpally Village, Marriguda Mandal, Nalgonda District, Telangana State- 508245
2575	Telangana Sakalajanula Party	H. No. 4-2-99, NFC (Nuclear Fuel Corporation Colony), Bandlaguda Jagir (Village) & (Post), Rajendra Nagar Mandal, Ranga Reddy Dist. - 500 086 Andhra Pradesh
2576	Telangana Studentz United for Nation Party	H.No. 3-85, Bowrampet Village, Quthbullapur Mandal, Ranga Reddy District, Telangana-500043.
2577	Telangana Yuva Shakti	Flat No. 404, H.No. 2-2-25A/1, Jeelani Meadows Apartment, D.D. Colony, Amberpet, Hyderabad, Telangana- 500013
2578	Telangana Independent Party	House No.5-2-13, Tirumala Nagar, Moulali, R.R. District, Kapra Circle, Hyderabad, Andhra Pradesh- 500040
2579	Telugu Bahujana Party	8/160-A, Mittapalem Street, Gudur, SPSR Nellore District, Andhra Pradesh - 524101.
2580	Telugu Congress Party	8-2-38, Opp. G.P. office, Bhavaninagar, Vemulawada, Karim Nagar District, Andhra Pradesh - 505302.

2581	Telugu Janata Party	No.70-7-16/2A,Ramnayyapeta,TSR Nagar, Road No.2,Kakinada Urban Mandal,E.G.District.Andhra Pradesh-533003
2582	Telugu Prajaa Patham Party	4-96/25/3, GF-103, Chinamusidiwada, Revenue Ward 70, Vishakhapatnam, Andhra Pradesh- 530051
2583	Telugu Rajadhikara Samithi Party	13-56, Sanjeeva Nagar,Kanchikacherla,NTR District,Andhra Pradesh-520018
2584	Telugu Rashtra Shakti Party	302, GVR, Residency, Beside GVR Towers, Gannavaram, District-Krishina, Andhra Pradesh- 521101
2585	Telugu Sena Party	3-6,PathaAngadi Bazar,Devapur, Bellampelli,Kasipeta,Distt-Mancheryal,Telangana-504218
2586	Telugu Vijayam Party	Flat No.306,Sinivasa Towers,Near Kerala Hotel,Ibrahimpattam,Vijayawada-Krishna District,Andhra Pradesh- 521456
2587	Thakkam Katchi	1/2755,Nehru Street(Old Annai Theresa Street),V.P.Singh Nagar,Pammathukulam Post,Chennai,Tamil Nadu-600052
2588	Thamilaga Makkal Suthanthira Kalagam	No. 19/1,Sellapa Kounder Street,Velyayuthampalayam,P. Pugalur Taluk,Karur District,Tamilnadu - 639117
2589	Thamizh Desiya Munnetra Kazhagam	No.143-A.Mela Veethi,Main Road,Thiruppanandal-Post,Thiruv daimaruthur-Taluk,Thanjavur-District,Tamil Nadu,Pin-612504
2590	Thamizh Perarasu Katchi	3/6,Paari Street (Extn.),Choolainiedu,Chennai,Tamil Nadu- 600094.
2591	Thamizhaga Dravidar Katchi	No.32/217,Gandhi Road,West Tambaram,Tambaram (TK),Chengalpattu District,Chennai,Tamil Nadu-600045
2592	Thamizhaga Munnetra Congress	No. 91, Ponnusamy Nagar, 3 rd Street Perambur, Division 68, Chennai-600011, Tamil Nadu.
2593	Thamizhaka Padaippalar Makkal Katchi	No. 72, Neyveli Main Road, Kurinjipadi Taluk, Cuddalore Distt.-Tamil Nadu, Tamil Nadu - 607303
2594	Thamizhar Munnetrak Kazhagam	2/5, Thiruvalluvar Salai, Perumal Nagar, Mogappair, Chennai, Tamil Nadu-600037.
2595	The Agrani Party	Located at Anmol House,Lichi Bagan,Pankhatoli,P.O.-Ramana,Distt.-Muzaffarpur,Bihar-842002
2596	The Future India Party	No: 2/191 B, Nethaji Street, Opp. to Elite School, M.A. Nagar, Redhills, Chennai, Tamil Nadu - 600052.
2597	The Imperial Party of India	190, Shrinagar Main, Indore - 452001. Madhya Pradesh.
2598	The Indian Aspirations party	Office Unit No.- 205, Peninsula Plaza, A/16, Veer Industrial Estate,Veera Desai Road, Andheri West, Mumbai. Maharashtra- 400053.
2599	The Lok Party of India	Room No. 7, Building No. 61, 1 st Floor, 2 nd Lane, M.R. Road, Kamathipura, Mumbai - 400 008. Maharashtra.
2600	The National Road Map Party of India	B-145, New Ashok Nagar, Delhi- 110096.
2601	The Plurals Party	Sukhbaso Complex,3 rd Floor,Opposite Western Hotel,Plot No. 130,Danapur Khagul Road,P.O.-Danapur,Distt.- Patna,Bihar-801503
2602	The Public Welfare Party	Sonapur Complex, Alhadnagar, Ward No.i4, East of Zilla Complex High School, Gadchiroli, Maharashtra - 442605.
2603	The Religion of Man Revolving Political Party of India	Kabitirtha, Kabitanagar, P.O.Bongaon, Distt. 24-Parganas (North)-743235 (West Bengal).
2604	Third View Party	203, Hill View, Plot No. 85,Lullanagar, Near Mount Carmel Convent School, Pune-411 040, (Maharashtra).
2605	Thozhilalar Party	No. 28A, Metu Street,Nemilichery, Chrompet,Chennai-600044Tamil Nadu.
2606	Thrinamool Tamil Nadu Congress	189/1, Amaravathi Street (Near Five Roads), Reddiyur Village, District - Salem - 636004,Tamil Nadu.
2607	Tipra Motha Party	Khatian No. 1201, Mouja- Jirania, Revenue Circle-Jirania, R.S. Plot no. 1493/7543,C.S. Plot no. 471,468/P, Khumulwng, Tripura-799035
2608	Tipraland State Party	Old Kalibari Road, Krisnanagar, Agartala, West Tripura, Tripura- 799001.

2609	Tipu Sultan Party	56/2, Attar House Near Karbala Bès, Revivar Peth, Ambajogai, District-Beed, Maharashtra-431517
2610	Tola Party	H. No. - 56, Ward No. - 14, Andhua Patti, Hodel, (Palwal), Haryana.
2611	Total Vikas Party	C-95 A-1, 2 nd Floor, Ardee City, Sector - 52, Gurgaon, Haryana - 122011.
2612	Tripura Peoples Party	8/9, Jail Ashram Road, Dhaleswar, Agartala, TRIPURA- 799007
2613	Truth, Equality, Justice Applying Service Dal	B-35, Anandlok, Near Shriji Baba School, Post - Krishna Nagar, Govardhan Marg Mathura, Teh. & Dist. - Mathura, Uttar Pradesh- 281004.
2614	Tuluvere Paksha	Door. No - 2-139(5), Koyyuru Cross Laila Village, Belthangady, Dakshina Kannada, Karnataka- 574214.
2615	Twenty 20 Party	Building No.IV/172, Ikkarnadu Panchayath, Kadayiruppu PO, Kunnathunadu Taluk, Ernakulam Dist., Kerala - 682311
2616	Udarwadi Samrasta Party	133/1, Harijan Basti, Gaon Samaypur, Delhi- 110042
2617	Uday Bharatam Party	A-13, Sector 44, Gautam Budh Nagar, Noida, Uttar Pradesh-201301
2618	Udaya Chandra Desam Party	No.27, Kamaraj Neduchalai, Old Perungulathur, Chennai, Tamil Nadu-600063
2619	Udiyoman Democratic Party of India	4/3C, Orient Row, Ground Floor, Kolkata-700017
2620	Ujala Party	E-26, Gali No.9, Near Water Tank, Subhash Vihar, Bhajanpura, Delhi-53.
2621	Ulaga Makkal Katchi	No. 15/24A, Methukummal Junction, Methukummal Post, Kanyakumari District, Tamil Nadu - 629172.
2622	Ulzaipali Makkal Katchy	74, Santhi Nagar, Ist Street, S.M. Nagar Post, Chennai - 600 062 Tamil Nadu.
2623	Ummeed Party of India	Gram - Shishu, Vill. /PO - Shishu, Ward - 12, Tehsil - Dantaramgarh, P.S.-Ranoli, District - Sikar, Rajasthan -332405.
2624	United Democratic Front Secular	539/13, Shastri Nagar, Meerut, Uttar Pradesh.
2625	United Goans Democratic Party	1st Floor, Casa Dos Aliados, Behind Gomat Vidya Niketan, Absde Faria Road, Margao, Goa-403601.
2626	United Goans Party	Shop No.7, H.No. 18/5/6, Gramilo Apartment, Dondrem, Taleigao, Tiswadi, Goa.
2627	United India Party	No. 4-2-256/K/1, Bheemunipatnam N.T.P.C, Ramagundam (Mandal), Karimnagar, Telangana - 505215
2628	United Naga Democratic Party, Nagaland	Ward No. 7, Near Agape School, Chumukedima - 797 103, Dimapur - 797 112 (Nagaland).
2629	United National Party	Village Shantinagar, Mauja - Sannpura, Post - Gonsili, Tehsil - Baah, District - Agra, Uttar Pradesh - 283104
2630	United People's Front	City Regency Building, R.K.B. Road, Dibrugarh, ASSAM-786001
2631	United Republic of Bharath Party	D. No. 6-9-1373A, Defence Colony, Near A.P.H.B. post Office, Besides, Kanchimatam Hospital, Chittoor, District, Tipupati, Andhra Pradesh- 517501
2632	United Republican Party of India	80/81, C.A.H. College-By-Pass Road, Melvisharam, Walaja Taluk, Distt.-Vellore Tamil Nadu- 632509
2633	United Secular Congress Party of India	2/104 B, Kuria Jai Hind Budhvikas, SRA Grihnirman Sanstha, Maryadit Nehru Nagar, Kuria (East), Mumbai-400024, Maharashtra.
2634	United Socialist Party	B 41-H/6, Bright Street, 2 nd floor, P.O. Circus Avenue, P.S. Karaya, Kolkata, West Bengal- 700017
2635	United States of India Party	No. 10/116, Mathaganeri, South Street, Sembikulam(PO), (PO), Vadakankulam (Via), Taluk - Radhapuram, District - Tirunelveli, Tamil Nadu- 627116.
2636	Universal Brotherhood Movement	57-D, Sattur Main Road, Kovilpatti, District - Thoothukkudi, Tamil Nadu- 628501.
2637	Universal Family Party	Taobungkhok, P.S-Patsoi, P.O-Langjing, Manaipur, Imphal West, 795113

2638	Universe Citizen Party	15-5-122, Vinay Nilaya, Opp. Karnataka Law & Pharmacy College, Dhyamandir Road, Rapure Colony, Bidar, Karnataka- 585401
2639	Urban & Rural Party	H.No.660/7/P.003, Gaura Bangh, Kursi Road, (Phool Bagh), Lucknow, Uttar Pradesh-226026
2640	Urimai Meetppu Kazhagam	New No. 10A, Krishna Street, Irumbuliyur, West Tambaram, Chennai-600045, Kanchi Street, Tamil Nadu.
2641	Utkal Bharat	Plot No. 296/2624, At - Govinda Prasad, East Canal Road, In front of Twin Bridge, P.O. - G.G.P. Colony, Bhubaneswar-751010 Odisha.
2642	Utkal Samaj	Anandayan, Plot No.-567/2, Kanan Vihar, Phase - II, Bhubaneswar - 751031 Orissa.
2643	Utkrisht Party	1 st Floor, Rakesh Cloth House, Main Bazar, Village- Narot Mehra, Tehsil & District- Pathankot, Punjab.
2644	Uttama Prajaakeeya Party	7/A, 1 st Cross, 3 rd Stage, 3 rd Phase, 6 th Block BSK, BSK 3 rd Stage, Kathiriguppe, Bengaluru, Karnataka - 560085.
2645	Uttar Bhartiya Vikas Sena	201/202, 2 nd Floor, Sukumar Corner, 127- J.P. Road, Dawood Baug Lane, Andheri (West), Mumbai, Maharashtra- 400058.
2646	Uttar Pradesh Navnirman Sena	House No. 3, Sector- 15A, District- Gotam Buddha Nagar, Noida, Uttar Pradesh- 201301
2647	Uttar Pradesh Republican Party	552/2, Rajendra Nagar, 2nd Street, Lucknow-226004 (U.P.).
2648	Uttara Janashakti Sena	H. No. 66,67, Shivapura Colony (Anchalgeri Layout), Near Rajadhani Colony, Gokul Road, Hubli, Karnataka-580028.
2649	Uttara Karnataka Party	No.25, 4 th cross, MSR Nagar, Bengaluru, Karnataka-560054
2650	Uttara Raashtra Telangana Party	H. No. 4-32/B, Gandhi Nagar, Brahmanpally, Arnoor, Jakranpally, District- Nizamabad, Telangana-503224.
2651	Uttarakhand Jan Samarthan Party	Amrit Kaur Road Civil 17, New Road Dehradun, Uttarakhand-248001
2652	Uttarakhand Janata Party	Plot No.6, Prakash Enclave, Shimla Road, Sewla Kalan, District - Dehradun Uttarakhand- 248001
2653	Uttarakhand Janakta Party	18F-/Sector-3B Near C-Block, Type-II, New Tehri, Uttarakhand- 249001
2654	Uttarakhand Janshakti Party	Sushila Berthwal Niwas, Near Doordarshan Prasur Bharti Office, Haridwar Bye-Pass Road, Dehradun, Uttarakhand- 248001.
2655	Uttarakhand Kranti Dal	Rochipura, P.O. Majra, Dehradun, Uttarakhand).
2656	Uttarakhand Kranti Dal (Democratic)	85/12 - B, Nash Villa Road, Dehradun-248001, (Uttaranchal).
2657	Uttarakhand Parivartan Party	Sah Bhavan, Veer Chandra Singh Garhwali Marg, Gairsain, Distt. - Chamoli, Uttarakhand.
2658	Uttarakhand Pragatisheel Party	13, Subhash Road, Opposite back gate of St. Joseph School, Dehradun-248001, Uttarakhand.
2659	Uttarakhand Raksha Morecha	H. No. 1, Village - Nouka (Dour Wala), Post - Mothronwala, Vikashkhanda Raipur, District - Dehradun, Uttarakhand.
2660	Uttarakhand Samanta Party	33, Gangotri Vihar, Lane No.1, Nehrugram Road, Dehradun, Uttarakhand - 248005
2661	Uttan Rashtriya Vikas Party	Gunpati Smart City, Flat no.507, Satlaj Tower-4, Vaipur Sikander, Agra, Uttar Pradesh-282001
2662	Uzhaippaalar Munnetra Kazhagam	18, M.G.R. Nagar, Venkataraman, Salai, Chollai, Pallam, K.K. Nagar, Chennai, Tamil Nadu-600078
2663	Vada Tamil Nadu Munnetra Katchi	No.209/42, Sri Iyappa Nagar, Kalamman Koil Street, Virugampakkam, Chennai, Tamil Nadu-600092
2664	Vaicharik Kranti Party	F- 11, 12, 13, Ishwari Dayal Complex-92, Gautam Buddha Marg, Lucknow, Uttar Pradesh.
2665	Vaidik Samajwadi Party	Arya Shiv Nagar, Jayantipur road Barf Khane ke behind, Moradabad, Uttar Pradesh-244001
2666	Valamaana Tamizhagam Katchi	H-982, 23 rd Street, 13 th Main Road, Annanagar, Chennai, Tamil Nadu-600040.

2667	Valimai Valartchi Indians Party	411 D, Goundachi Palayam, Vadamugam Vellore, Erode District, Tamil Nadu - 638112.
2668	Vallarasu Party	H. No.-6(23), Mosque Steet, Mylapore, Mylapore, Chennai Tamil Nadu-600004
2669	Vanchit All India Shoshit Yatharthvadi Party	H.No.42a, Ward No.4-6, Indira Nagar, Near-Paidliganj, Nala Road, P.S.-Taramandal, District-Gorakhpur, Uttar Pradesh-273009
2670	Vanchit Bahujan Aaghadi	Survey No. 858B/2, 'Akash' Bhigvan Road, Behind Ranade Petrol pump, Ashok Nagar, Baramati, District - Pune, Maharashtra - 413102
2671	Vanchit Samaj Party	Circle- Bankipur, R.Circle No.- 13, Ward- 36, Mohalla- Pump House Gali Talab Parr, Lalji Tola, Police Station- Gandhi Maidan- Patna, District- Patna, Bihar- 800003
2672	Vanchitsamaj Insaaf Party	39, Adarsh Nagar, c/o Dr. Sheikh Maholi Road, Mathura, Uttar Pradesh.
2673	Vande Bharat Party	Gaddopur Mathiya, Nearby ITI School, Post -Gaddopur Majhawa, Distt. - Ayodhya, Uttar Pradesh-224001
2674	Vande Republic Party	555, NitiKhand-3, Near Pipal Chowk, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201014
2675	Vastavik Bharat Party	Plot No.-16, Chanakyapuri, Minal residency, Gate No.-1 ke pas, J.K. Road, Bhopal, Madhya Pradesh-462041
2676	Vasudhaiv Kutumbakam Party	Ward No. 07, Holding No.1050 New, Mohalla- Sahebabad Ganj, District- Darbhanga, Bihar.
2677	Vasundhara Jan Vikas Dal	Khata No. 39, 59; Plot No. 32, 35 and 36, Mauja and Thana No. 371, New Thana No. 27, NH-2, Shiv Sagar, District - Rohtas, Bihar - 821111
2678	Veerath Thiyagi Viswanathadoss Thozhilalarkal Katchi	Manickavasagar Arangam, No. 1/9, Chengam to Tiruvannamalai Main Road, Kariamangalam Village & Post, Chengam Taluk, Tiruvannamalai District, Tamil Nadu- 606709
2679	Venukabadinavargala Mahila Raithu Party	Door No.- 3-110A, Chakrayapalem Village, Kollipara Mandalam, Guntur District, Andhra Pradesh.
2680	Vichara Jagruthi Congress Paksha	Door No. 275 of Hebbalu Village and Post, Davangere Taluk and District, Karnataka.
2681	Vidarbh Maza Party	237, Post- Ubali, Tahsil- Kalmeshwar, District- Nagpur, Maharashtra.
2682	Vidarbha Rajya Aghadi	Block No. 4, Daftari Complex, Opposite Dadaji Dhuniwale Math, Nagpur Road, Grampanchayat Nalwadi, District- Wardha, Maharashtra
2683	Vidhyardhula Mahilala Raithula Mahasena Party	Dr.No. 74-6/1-1A, VSR Road, Ayyappanagar, Patamata, Vijayawada, Andhra Pradesh.
2684	Vidhyarthula Rajakiya Party	H.No. 11-13-624/4, Flat No. 402, I.B. Nagar, Haripuri Colony, Road No. 3, Saroonnagar (M), Rangareddy, Andhra Pradesh- 501505
2685	Vidial Valarchi Perani	37-B, Keela theru, Ichikamalai Patti, K.Sathanur (Post), Thiruchirapalli, Tamil Nadu - 620021
2686	Vidyalai Thedum Indhiyargal Party	#10/2032, South Thiruppachethi, Post - Thiruppachethi, Taluk - Thiruppuvanam, District - Sivagangai, Tamil Nadu 630610.
2687	Viduthalai Chiruthaigal Katchi	No. 16, Chinnaiah Street, T-Nagar, Chennai - 17, Tamil Nadu.
2688	Viduthalai Kalain Katchi	D. No. 2-48, Bodinaickenpatty, Oorpuram, Ward-2, Bodinaickenpatti(P), Singalandapuram-Via, Rasipuram (TK), Namakkal District, Tamil Nadu - 637412
2689	Viduthalai Makkal Munnetra Kazhagam	No. 11, Kabilar Street, Devanampattinam, Cuddalore District, Tamil Nadu.
2690	Vijay Bharat Party	H.No. 402, 3 rd Floor, Plot No. 2-3, Gali No. 3, Friends Encalve, Shahberi, Greater Noida Extension, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh- 201009
2691	Vijaya Bharatha Makkal (People) Party	70, 2 nd Floor, Braod Bazzar Street, Ambur-635802, Vellore District, TAMIL NADU
2692	Vijaya Janata Party	No. 9, Om Sai Shankthi Nilaya, Bharathinagara, Hundasamaranahalli Post, Jala Hobali, Bangalore North Taluk, Bangalore Karnataka- 560058
2693	Vikas India Party	T-192, Street No.2, Gautam Puri, Delhi-110053

2694	Vikas Insaf Party	House No. 23, Ward No.10, Mahmoodpur Pargana, Near P. C. F. Godown, Tehsil- Sadar, District – Fatehpur, Uttar Pradesh -212601
2695	Vikas Manch	Bhura Chowk, Post office & Tehsil- Nokha, District- Bikaner, Rajasthan- 334803
2696	Vikas Party	Satyagarh Marg, Darul Safa Compound, Lucknow (Uttar Pradesh).
2697	Vikassheel Insaan Party	Ghar Apna Apartment, Ward No. 38, Flat No. 604, Phase-03, Abhiyanta Nagar, Ranjan Path, P.O.-Danapur Cantt, P.S- Rupaspur, District Patna, Bihar-801503
2698	Vikassheel Janta Party	First Floor,(Ground Floor Ayurvedic Chikitsalaya),Chauhan Market,Behta Chowraha,Lalganj,(Near Hanuman Mandir),Vaishwara,Rai Bareli,District- Rai Bareli,Uttar Pradesh- 229206
2699	Villagers India Party	Talpali Pada (Near Durgamandap Chowk),district- Bolangir,Odisha- 767001.
2700	Vindhya Janta Party	Makan NO-M.I.G.1-86.Padamdhar Colony,Rewa In huzur,Tehsil of Rewa,District Rewa,Madhya Pradesh-486001
2701	Viraj Jan Party	H. No. A-21, Shiv Vihar, Meena Wala, Jaipur, Rajasthan-302034
2702	Viro Ke Vir Indian Party	First Floor, B-2, Sarthi Complex-2, Manekpura, Liliya Road, Amreli, Gujarat-365601.
2703	Vishal Janta Party	No. 1/4649/183,Budh Bazar Gali,Sub Gali No.08,Mandoli Road,New Modern Shahadra.Delhi-110032
2704	Vishal Party of India	Village – Chaurha, P.O.-Degham, Tehsil – Garhshankar, District – Hoshiarpur, Punjab – 144527.
2705	Vishva Shakti Party	B-10/144, Pradeep Vihar, Nathupura More Delhi -110084.
2706	Vishwa Adarsh Bharat Party	House No. 251, Mega Pathology, Behind of Court , Sookh Vilas Colony, Badwani, Tehsil- Badwani, District- Badwani, Madhya Pradesh- 451551
2707	Vishwa Bandhutva Party	Village-Ghooripur, Post-Badaunadih, Thana-Kadipur, District- Sultanpur, Uttar Pradesh- 228175.
2708	Vishwa Bharath Party	H.No.5-6-160B,Krishna Nagar NTPC,Jyothinagar,Ramagundam,Peddapalli District,Telangana-505215
2709	Vishwa Hindustani Sangathan	3/105, Anandnagar, 100 ft. Ring Road,Satelite Vejalpur, Ahmedabad, Gujarat.
2710	Vishwa Jagriti Party	74/16A,Paramhans Marg,Shipra Path,Mansarovar,Jaipur,Rajasthan-302020
2711	Vishwa Jana Party	Door No. 4-122, Padmayati Nagar, Thogatavari Street, Podalakur, District-SPSR Nellore, Andhra Pradesh
2712	Vishwa Jana Samrajyam Party	MIG-74,H.No. 15-13-vii-m-74,Phase VII,KPHB Colony,Kukatpally,Hyderabad,Telangana State- 500085
2713	Vishwa Manav Samaj Kalyan Parishad	Village & Post Chandapur, Wazirganj, District – Gonda, Uttar Pradesh.
2714	Vishwa Shanti Party	Plot No.III-F/621,Sector-III-F,Vaishali,Ghaziabad,Uttar Pradesh - 201010
2715	Vishwa Tamil Kazhagam	Door No. 70/2, Block No. 1, Raajiv Nagar, Kandhampatty, Salem West (TK), Distt. Salem, Tamil Nadu - 636005.
2716	Vishwanath Pratap Janta Dal	Ward-2,Malviya Nagar Infront of State Bank of India,Main Raod Madhugarh,District Jalaun Uttar Pradesh- 285126
2717	Vision India Party	16-216,Siva Giri Colony,Mulapet Nellore,Andhra Pradesh-524003
2718	Viswa Bharath People's Party	18/9, Poonga Nagar, Irugur, Coimbatore, Tamil Nadu – 641103
2719	Vivasayigal Makkal Munnetra Katchi	403, SRPK Complex, Udaiyarpalayam, Thalavaipatty- Post, Attur -Taluk, Salem- District, Tamil Nadu- 636102
2720	Voice of Labour Party (Jammu & Kashmir)	Khasra No. 539, Village- Atti, Post- Fathepur, Tehsil & District- Rajouri, Jammu & Kashmir- 185131
2721	Voters Independent Party	No. 903, 1 st Floor, 6 th Block, 80 Feet Road, Koramangala, Ejipura, Ward No. 148, Bangalore, Karnataka - 560095
2722	Voters Party International	H. No. 385, Street No. 12/3, Wazirabad Village, Delhi- 110084.
2723	Vyabasayi Kisan Alpasankhyak Morcha	H. No.12, Maharajganj, Jamui, District – Jamui, Bihar – 811307.

2724	Vyavastha Parivartan Party	At Baudh Diamond, Taluka Panchayat Road, Opp. of Court, Post & Taluka - Ghogha, District- Bhavnagar, Gujarat.
2725	Watan Janta Party	3/4/7 A, Mugalpura, Ayodhya, Faizabad, Uttar Pradesh
2726	Wazib Adhikar Party	Village & Post - Pohaddi Bela, Block - Ghanshyampur, District - Darbhanga, Bihar - 847427.
2727	Welfare Party of India	E - 57/1, Abul Fazal Enclave-1, Jamia Nagar, New Delhi - 110025
2728	West Bengal Socialist Party	42-Ananda Palit Road, Kolkata-700014, (West Bengal).
2729	Y.S.R. Telangana Party	Flat No. 401-A, Third Floor, Siddhardha Sravanti Apartment, No. 8-3-169/35, Plot No. 35, Siddhardha Nagar, Yousufguda, Telangana, Hyderabad - 500038
2730	Yekikrutha Sankshema Rashtriya Praja Party	D No 7-1-500, NGO Colony, YSR Street, Siddavatam Road, Badvel-516227, YSR District, Andhra Pradesh.
2731	Young India Party	Circle No. 28, Holding No. 128/113, Arya Kumar Road, Machhuatoli, P.S.-Kadamkuan, District - Patna, Bihar - 800004
2732	Young India Tangress Party	Yelam Galli, Tugav(H), Taluk - Bhalki, Distt. - Bidar, Karnataka.
2733	Young India United Party	House of Madan Mohan Mishra, Village- Mangalpurva, Post- Parsa, Gondari, Block- Haldharmau, Tehsil- Colonel Ganj, District- Gonda, Uttar Pradesh- 271126
2734	Young Senior Rich Common People Kings Party	Flat No. 403, (Door No. 54-9-2398), 4th Floor, Saveer Towers, Venkateswara Colony, Main Road, Guntur, Andhra Pradesh-522001
2735	Young Star Empowerment Party	34, Ground Floor, 2 nd Main Road, 11 th Cross Road, Singasandra, Subhash Nagar, B- Block, Begur Village, Hobli, Bangalore-560068, Karnataka.
2736	Youth and Students Party	R.P. Estates, 4/1, Poonamallee High Road, Koyambedu, Chennai-600 107.
2737	Youth India Peace Party	Assessment No.- 18, Village- Katha No.- 215, Yeshwanthpur Hobli, Bangalore North Taluk, Bangalore, Karnataka- 560022
2738	Youth Socialist Party	H. No. 248, Sihora Govind (Govind Nagar), Post & Thana - Katghar, Tehsil & District - Moradabad, Uttar Pradesh - 244001.
2739	YSR Bahujana Party	28/434, Rameshwaram, Proddatur-516360, Kadapa District, Andhra Pradesh.
2740	Yug Kranti Dal	H. No. 122, Gali No. 1, Punjabi Colony (Dhampur), Samastipur Town, Bihar- 848101
2741	Yug Nirman Party	B-84, Second Floor, Gharoli Dairy Farm, Mayur Vihar Phase-III, Delhi- 110096.
2742	Yug Parivartan Party	H. NO. 2179, Motiram Colony, Near Mohit Public School, Noorwala, Panipat Haryana- 132103
2743	Yuga Thulasi Party	H. No. 5-9-296, Flat No. 310, Prasad Apartment, Gunfoundry, Abids, Hyderabad, Telangana-500001.
2744	Yuva Aam Dal Aadami Vikas	Apra City, Phase-2, Sector-C, Village Mishrauliya State, Post- Mishrauli, Near-Jail Road, Dist.- Basti Uttar Pradesh- 272001
2745	Yuva Anubhav Party	House No. - 393 - I, Haritima, Rajiv Nagar, West Basharatpur, Gorakhpur, Uttar Pradesh.
2746	Yuva Bharat Atmanirbhal Dal	F/49/1A, Ayodhya Nagar, Near Shiv Mandir, N-7, CIDCO, Aurangabad, Maharashtra- 431003
2747	Yuva Bharat Rashtraseva Party	At-LGF-138, Gautam Nagar, New Delhi - 110049
2748	Yuva Bharat Save Merit Save National Dal	H.No.-33, Village-Uchetha, Pargana-Bhadohi, Dist-Sant Ravidas Nagar, Uttar Pradesh-221301
2749	Yuva Bihar Sena	H. No. 17, Batukeshwar Dutta Lane, New Jakkanpur, Patna Bihar-800001
2750	Yuva Jankalyan Party	Shop No. 06, Laxmi Ashirwad CHS Ltd., Plot No. 23, Sector- 25, Kamothe, District- Raigad, Maharashtra- 410209
2751	Yuva Jankranti Party	Kasba - Kerakat, Mohalla - Shekhzada 2 nd , Post - Kerakat, Janpad - Jaunpur, Uttar Pradesh.
2752	Yuva Janta Party	Building No. 91/1, Grant Ganj, Main Market Mahoba, District - Mahoba, Uttar Pradesh - 210427.

2753	Yuva Karnataka Paksha	#66, Anepura Village, Nidharamangala Post, Malur Taluk, Kolar District, Karnataka- 563137
2754	Yuva Krantikari Party	Adarsh Nagar, Road No. 1E, Samastipur, Bihar-848101
2755	Yuva Party	1-8-1-83, Garage No.83, Ground Floor, Baghlingampally, Hyderabad, Andhra Pradesh.
2756	Yuva Party (Democratic)	Plot No. 63, Gurukrupa Society, Panch Faliya, Dabholigam, Katargam, Surat, Gujarat- 395004.
2757	Yuva Samriddhi Dal	Flat No.101, Anil Resedicy, Bhagwat Nagar Main Road,Patna-800026,Bihar
2758	Yuva Sarkar	161, Vanmali Park Society,Harikrishna Chowk, Dharmakul Ashrit Road,Puna-Simada, Surat-394211GUJARAT.
2759	Yuva Shakti Sanghathana	Bhangdia Wada, Tilak Ward, Tah. Chimur, District - Chandrapur, Maharashtra
2760	Yuva Star Party	Vill.-Akha, P.O.-Jayantigram Isapur Sherpur, P.S.-Bhagvanpur, Distt.- Begusarai, Bihar-851112
2761	Yuva Taram Party	H.No.- 8-1-32/4,Near Hanuman Temple Back Side, Ward No. 8,Block-1,Gattaigudem Village,Palvancho-Mandal,Badradi Kothagudem-District,Telangana- 507115
2762	Yuva Telangana Party	Plot No. 143&144, Rock Town Colony, Alkapuri, Mansoorabad, LB Nagar, Hyderabad- 500068, Telangana
2763	Yuva Vahini Party	D-95,LDA Colony,Kanpur Road,Lucknow,Uttar Pradesh - 226012
2764	Yuva Vikas Party	Serawan, Atrampur, Allahabad, Uttar Pradesh.

TABLE - I(B)
DELISTED REGISTERED UNRECOGNIZED POLITICAL PARTIES [RUPPs]*

Sr.No.	Name of RUPP	Headquater of RUPP
1.	Aarthik Samanta Party	189, B-Block, Gali No. 4/6, Karawal Nagar, DELHI-110094.
2.	A-Chik National Congress (Democratic)	Dakopgre (Opp. office of Inspector & School), Tura, West Garo Hills, Meghalaya - 794 101.
3.	Ajeya Bharat Party	A-14, Mohan Estates, Mathura Road, New Delhi.
4.	Akahand Bharat Maha Sangh Sarvahara Krantikari Party	Sunfool, Kota-1, (Rajasthan).
5.	Akhil Bharatiya Azad Lokhit Congress Party	Khari Mohalla, Khatikon Ka Chowk, Bhiwani, Haryana.
6.	Akhil Bharatiya Dalit Utthan Party	A-201/2, Gali No. 1, Vikas Marg, Shakarpur, Delhi-110092.
7.	Akhil Bharatiya Kranti Dal	7, Prem Colony, Pragati Path, 1st Floor, Kalyan Nagar, Behind Hanuman Mandir, Tonk Road, Jaipur - 302011, Rajasthan.
8.	Akhil Bharatiya Revolutionary Shoshit Samaj Dal	Vaishali Nagar, Sidheshwar Ves, At. & Post : Latur, Distt. Latur, 413512 (Maharashtra).
9.	Akhil Bhartiya Nagrik Sewa Sangh	Plot No. 98, Ratan Lal Nagar, Kanpur - 208022, Uttar Pradesh.
10.	Akhil Jan Vikas Dal	50A/1A, Nahar Pur, Rao S.K. Shopping Complex, Sector-7, Rohini, Delhi-85.
11.	All India Ambedkar Makkal Munnetra Kazhagam	104, Walja Road, 3rd Floor, Arivu Mani Arangam, Triplicane, Chennai, Tamil Nadu 600002
12.	All India Babu Jagjivan Ram Baba Sabab National Congress	C-22, Basement, Chirag Enclave, New Delhi-110048
13.	All India Christian Democratic and Backward People's Party	Block A-1, Flat 2, Kolkata-700054 (West Bengal)
14.	All India Dalit Welfare Congress	Flat No. 44, Sector B-4, Narela, Delhi
15.	All India Lok Raj Party	Village-Meharban, Tehsil & District-Ludhiana (Punjab)
16.	All India Mahila Democratic Front (AIMDF)	House No.6-1-57/62, Secretariat Road, Saifabad, Hyderabad-500004, Andhra Pradesh
17.	All India Muttahida Qaumi Mahaz	# H. No. 19-2-23/M/J/5/E, 1 st Floor, Bahadurpura, Mecca Colony, Hyderabad-500053, Andhra Pradesh.
18.	All India Raksha Party	Post Box No. 136, Main Post Office, Karnal-132001, Haryana.
19.	All India Tribes And Minorities Front	Windrush Hill Annexe, Shimla-2 (Himachal Pradesh).
20.	All J & K Peoples Patriotic Front	Jawaharnagar, House No.97, Police Station, Ragh Bagh, Srinagar (Jammu & Kashmir).

21.	Alpjan Samaj Party	Dak Bangala Market Parishar, 1st Floor, Shop No. 28, Dak Bangla Market, P.O. – Sasaram, P.S. – Sasaram, Distt. Rohtas, Bihar – 821115.
22.	Ambedkar Kranti Dal	Shanti Homeopathic Store, Arya Samaj Chowk, Badayun, Uttar Pradesh.
23.	Ambedkar Pragatisheel Republican Dal	Dr. Lohia Colony, Shahjhapur, Pin-242001 (Uttar Pradesh).
24.	Anti Reservation Party of India	H.No. 1184, Sector-21-B, Chandigarh.
25.	Arya Sabha	7, Jantar Mantar Road, New Delhi-110001.
26.	Asom Gana Parishad Pragatisheel	H.O.-G.S. Road, Ulubari, Guwahati-781 007, Assam.
27.	Ati Pichhra Jan Dal	Village: Rampur Bakli, Post & Distt. Bijnor, Uttar Pradesh.
28.	Awami Socialist Party of India	Bukhara, Bakshiwalla Road, Bijnaur – 246 701 (Uttar Pradesh).
29.	Baaratha Samuthaya Munnetra Munnani	400/12, 1st Floor, Township Commercial Complex, Kamarajar Nagar Main Road, Avadi, Chennai – 600 071, Tamil Nadu.
30.	Bahujan Ekta Party (R)	Suraj Bhawan, R.D.-136A, Dhram Pura Ex. Najafgarh, New Delhi-110043.
31.	Bahujan Kisan Dal	Kisan Bhawan, Rishabh Vihar, Circular Road, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh.
32.	Bahujan Loktantrik Party	G-161, J.J.Colony, Wazirpur, Delhi-110052.
33.	Bahujan Shakti	Mines Resque Station Camps, Post – Dhansar, Distt. – Dhanbad, Jharkhand.
34.	Bam Party	538 K/780, Triveni Nagar-II, Lucknow, Uttar Pradesh.
35.	Barak Valley Territory Demand Committee	Swaraj Bhawan, Silchar Road, P.O. P.S. and District – Karimganj, Pin-788711, Assam.
36.	Begumpura Sanjha Front	193, New Rasila Nagar, Basti Danishmandan, Jalandhar, Punjab.
37.	Bhaarat Mahashakti Party	11A, DDA Flats, Priyadarshni Vihar, Laxmi Nagar, Delhi-110092.
38.	Bharat Bachao Party of India	S – 528, Greater Kailash Part-1, New Delhi – 110048.
39.	Bharat Desam Party	Door No. 8-3-270/1, Nehru Nagar, 9th Line, Main Road, Guntur – 522 001, Andhra Pradesh.
40.	Bharat Jan Party	324, Kailash Nagar, Ghaziabad (Uttar Pradesh).
41.	Bharat Vikas Party (Secular)	Kh. No.21/25. Near HP Petrol Pump. Upkar Properties, A-Block, Hingiri Enclave, Burari, Delhi-110084.
42.	Bharathiya Dravida Makkal Katchi	2036, 15th Main Road, Anna Nagar West, Chennai – 600 040, Tamil Nadu.
43.	Bharathiya Jana Shabdth	331(311), Ward No. 1, Kallara House, Mundella (P.O.), Vellanadu, Thiruvananthapuram – 695 543, Kerala.

44.	Bharatiya Yuvatha, Samatha, .. Rashtriyatha Congress Party	Flat No. G1, Ground Floor, ARK Residency Plot No. 304, Survey No. 153, 154, 163 and 143, Boduppal, Village & Gram Panchayat - Ghatkesar (Mandal), Rangareddy (District), Hyderabad-500038, Andhra Pradesh.
45.	Bharatiya Asht Jan Party	151, C Sector, Second Floor, Room No. 203, Inder Puri, Bhopal - 462022 (M.P.).
46.	Bharatiya Awaj Party	Milan Committee Sewa Sangh, Santosh Nagar, Behram Bagh, Jogeshwari West, Mumbai-440102, Maharashtra.
47.	Bharatiya Berozgar Mazdoor Kisan Dal	Bansal Gaon, P.O. Dheghat, Patti Malla, Chackaut, Distt- Almora (Uttaranchal).
48.	Bharatiya Bouddhik Vichar Party	Village - Ballanagla Patti, Post - Shahpur Kheri, Tehsil - Dhampur, Distt. - Bijnour, (Uttar Pradesh).
49.	Bharatiya Congress (M)	16, Batra Colony, M.T.X. (Sonapat), Haryana.
50.	Bharatiya Jan Kisan Party	1080C, Babaji Bag, Tilak Road, Balua Ghat, Allahabad, Uttar Pradesh
51.	Bharatiya Jan Samajwadi Party	A-62, J. J. Colony, Khanpur, New Delhi-110062.
52.	Bharatiya Lok Kalyan Dal	Area/Post/Tahsil Bikabur, Distt. Faizabad, (Uttar Pradesh).
53.	Bharatiya Loktantrik Party (Gandhi-Lohiawadi)	Satyawati Niwas, Ram Das Path, Meethapur B- Area, Patna - 800001, Bihar.
54.	Bharatiya Manavata Vikas Party	133/4, Qutub Enclave, Phase-II, New Delhi-110016.
55.	Bharatiya Parivartan Party	70-A, DDA Flat, Pandav Nagar, Near Metro Station Shadipur, New Delhi - 110008.
56.	Bharatiya Purvanchal Party	E-68, Premchand Colony, Pandeypur (1), Varanasi, UTTAR PRADESH.
57.	Bharatiya Rashtriya Janhit Party	C-2968, Sapna Colony, Lucknow-226017 (Uttar Pradesh).
58.	Bharatiya Rashtriya Swadeshi Congress Paksh	308, Ramnagari, 2/C, 3rd Floor, Alandi Road, Bhosry, Pune-411039, Maharashtra.
59.	Bharatiya Samaj Kalyan Party Bharat	Ravender Electronics, Purani Chungi, Agra Road, Hathras, Distt. Aligarh (U.P.).
60.	Bharatiya Sarvkalayan Kranti Dal	2/643/C, Rambagh Colony, Ramghat Road, Aligarh-202001 (Uttar Pradesh).
61.	Bharatiya Shakti Sena	Shakti Sena Bhawan, Bariar No. 6, Audyaugik Kshetra Bahadarabad, Haridwar - 249402, Uttarakhand.
62.	Bharatiya Shramik Dal	L-238, Vikash Pradhikaran Colony, Indira Nagar, Rai Bareilly (U.P.).
63.	Bharateey Samajwadi Morcha	3/1108, Dehradun Chowk, Saharanpur-247 001 (Uttar Pradesh).
64.	Bharti Lok Lehar Party	136, Ajiit Nagar, Amritsar (Punjab).

65.	Bhartiya Deshbhakt Sangh (Brajesh)	Shop No. 1, Khasra No. 1494, Nehru Enclave, Bank Wali Gali, Alipur, Delhi - 110036.
66.	Bhartiya Gantantra Party	H. No.5, Ganga Dham, Kundan Nagar, Bagh Mughaliya, Hoshangabad Road, Bhopal, MADHYA PRADESH.
67.	Bhartiya Gorkha Janashakti	26/2, H.D. Lama Road, Darjeeling-734 101, (West Bengal).
68.	Bhartiya Harit Kranti Dal	Village & P.O. - Sonta, Via - Alipur, Kheri, Distt. Mujaffar Nagar, Uttar Pradesh.
69.	Bhartiya Hind Ekta Dal	Defence Colony, Anil Shaheed Nagar, Izatnagar, Nainital Road, Bareilly - 243122, Uttar Pradesh.
70.	Bhartiya Jan Sanmati Party	Village - Harola, Sector - 5, Noida, Uttar Pradesh.
71.	Bhartiya Jana Congress (Rashtriya)	113/70B, Lal Bahadur Shastri Nagar, Patna-800023 (Bihar).
72.	Bhartiya Janta Ki Ekta Party	Plot No. 29-A and 30-A, Khasra No. 20/1/1, Village Rajapura Khurd Delhi, Colony Mohan Garden, R-III, A-2, New Delhi - 110059
73.	Bhartiya Swarn Samta Party	201- C Block, Goyal Enclave, Faizabad Road, Chinhut Lucknow, UP.
74.	Buddhiviveki Vikas Party	R(U)-9, 2nd Floor, Pitampura, Delhi - 110088.
75.	Chandigarh Vikas Party	House No.230, Sector 9-C, Chandigarh-160009.
76.	Chhattisgarh Navnirman Sena	C. R. - 12, R.D.A. Building, Gurunanak Market, Sharda Chowk, Raipur, Chhattisgarh.
77.	Children First Party of India	703-704, Devatha Plaza, 132, Residency Road, Bangluru-560025, Karnataka.
78.	Democratic Insaf Party	D-62, G.T.B. Nagar (Kareli), Allahabad (Uttar Pradesh).
79.	Democratic Janta Dal (J & K)	344 EP, Cristen Colony (Shaheedi Chowk), Jogi Gate, Jammu (Jammu & Kashmir).
80.	Desiya Forward Bloc	No.5, M. P. Avenue, Majestic Colony, Saligramam, Chennai-600093, Tamil Nadu.
81.	Ekta Kranti Dal U.P.	C/o Satyapal Sagar, Amanjai Jalal Nagar, Opp. Chhotti Line, Shahjapur (Uttar Pradesh).
82.	Federal Congress of India	Holumbi Khurd, Village & P.O. - Holumbi Kalan, Delhi - 110 082.
83.	Forward Bloc (Socialist)	Temple Street, P.O. & Distt. Jalpaiguri-735101 (West Bengal).
84.	Garib Janata Party	Rajinder Nagar, Main Bazar, P.O. Vijay Nagar, Batala Road, Amritsar (Punjab).
85.	Gramanchal Party	3/A, Sarya Nagar, In Front of Central School, Bhubaneswar-7, Orissa.
86.	Gujarat Yuva Vikas Party	C/o Darbar Kruha Transport, Near Bus Station, Vadnagar-384 355, District-Mehsana (Gujarat).

87.	Harit Pradesh Party	H. No. 349, Village & Post - Bilsuri, Distt. - Bulandshahar, Uttar Pradesh - 203205.
88.	Haryana Janta Party	Village & Post Office - Risalu, Tehsil & District - Panipat, Haryana - 132103
89.	Haryana Samajik Nyay Party	Kothi No. 239, Sector-7, Urban Estate, Kurukshetra-136118, Haryana.
90.	Hind Ekta Mission	Village - Leduwawar, Post - Kauragahani, Tehsil - Phulpur, Distt. - Azamgarh, Uttar Pradesh.
91.	Hind Morcha	Samaj Sudhar Ashram, Siraspur, Delhi.
92.	Hind Raksha Sena	WZ-13 B, First Floor, Mukhram Park Extn. Tilak Nagar, New Delhi-110018
93.	Hind Rashtriya Ekta Party	Plot No.104, Anguri Palace, Wazirabad Road, Pasunda, Garima Garden, Sahibabad, Ghaziabad, U.P.-201 005.
94.	Hind Swarajya Ganatantra Party	S-41, Panchsheel Park, New Delhi-110017.
95.	Hindustan Action Party	156, Khanna Nagar, Loni, Ghaziabad-201102, Uttar Pradesh.
96.	Hindustan Peoples Party (Rajpal)	85A-Mohiley Nagar, Allahpur, Allahabad, Uttar Pradesh.
97.	Hindustani Gareebwadi Party	61, Aggarwal Chambers, Vikas Marg, Veer Savarkar Block, Shakarpur, Delhi-110092.
98.	Hindusthan Suraksha Party	North East Zone, Berpeta Road, Near Tourists Lodge, Ward No.6, District Berpeta (Assam).
99.	Indian Federal Democratic Party	1, Balwant Rai Mehta Lane, K.G. Marg, New Delhi - 110 001.
100.	Indian Secular Congress	202, Pocket-B, SFS (DDA Flats), Sukhdev Vihar, New Delhi - 110025.
101.	Indian Voters Welfare Party	No. 608, 14th Main, Gokula 1st Stage, Bangalore - 560 054, Karnataka.
102.	Indians Front	37-12-62, NGGO's Colony, P.R. Gardens, Visakhapatnam - 530 007 Andhra Pradesh.
103.	Istatantra Parisad	At Village/Mouza - Dibyasinghapur, Khata No. 638, Plot No. 1343, P.O. Rayagurupur, P.S. - Gadisagoda, District - Puri, Odisha.
104.	J & K Citizen's Party	Heera Building, Abi Guzar, Lal Chowk, Srinagar, Jammu and Kashmir.
105.	Jaghat Telugu Munnetra Kazhggam	No.33, Halls Road, P.A. Tower, F-9 & 10, Egmore, Chennai-600008, Tamil Nadu.
106.	Jai Janata Janardan Party	Mohalla-Manohari Ganj, Mardan Naka Shahar Banda, Paragana & Distt. - Banda, Uttar Pradesh.
107.	Jai Samaj Bharatiya Samaj Party	Town Area Sadat, Post - Sadat, District - Gazipur, Uttar Pradesh.

108.	Jammu & Kashmir National United Front	Post Office Building, Amphalla Chowk, Karan Nagar, Jammu Tawi - 180 005, Jammu & Kashmir.
109.	Jammu & Kashmir Save Srinagar Front	Naib Mufti Azam Manzil, Tailbal Road, Habak Crossing, Srinagar - 190 006, Jammu and Kashmir.
110.	Jammu and Kashmir Awami League	B-24, Indra Nagar, Srinagar-190001, (Jammu & Kashmir).
111.	Jammu and Kashmir Democratic Party Nationalist	Kursoo Rajbagh, Srinagar-190 008, Kashmir.
112.	Jammu and Kashmir People Democratic Front (Secular)	Rajbagh, Near Little Angels School, Srinagar, Kashmir.
113.	Jan Ekta Party	147/5, Behind ITI, Shamsheerpur, Paonta Sahib, Himachal Pradesh.
114.	Jan Lokmat Party	2, Hasrat Building, Adhyatmik Nagar, Beneath Rly. Fly Over, Dasna, Ghaziabad-201302 Uttar Pradesh.
115.	Jan Shanti Sangathan	AA-14, Chandan Van, Phase -I, Mathura, Uttar Pradesh-281001
116.	Jana Hitkari Party	A/13-14, Industrial Estate, Rasulgarh, Bhubaneswar-751 010, Orissa.
117.	Jana Unnayan Mancha	C/o Dolphin Engineering Co., 39, Shakespeare Sarani, Kolkata-700017 (West Bengal).
118.	Janadesh Party	Radhey Niwas, Jarimari, Jagtap Wadi, Kurla Andheri Road, Mumbai - 400072.
119.	Jananayaha Munnetra Kazhagam	No.32, New Tank Street, Nungambakkam, Chennai-600034. (Tamil Nadu).
120.	Jathiya Telugu Abhivrudhi Seva Samuham	# 171, Kesavaigunta, Near S.G.S. Arts College, Tirupati -517501, Chittoor District, Andhra Pradesh.
121.	Jharkhand Jan Morcha	IInd Floor, Ajmeri Tower, Mallah Toli, Ranchi - 834001, Jharkhand.
122.	Jharkhand Janadhikar Manch	Bhubaneshwari Lok, Kali Mandir Road, Vardman Compound, Ranchi - 834 001 (Jharkhand)
123.	Jharkhand Vananchal Congress	5, Ratu Road, Ranchi-834005, Jharkhand.
124.	Kaivinyager Munnetra Kazhagam	Sri Visweswara Bhavanam, 76, Millers Road, Kilpauk, Chennai-600010. (Tamil Nadu).
125.	Kamgar Samaj Dal	H. No.9/237, Mohalla : Raidopur, Post & Distt. Azamgarh, Uttar Pradesh.
126.	Karnataka Kranthi Dal	No.240, 16th Main, 6th Cross, 1st Phase, 2nd Stage, BTM (EWS) Layout, Bangalore-560076(Karnataka).
127.	Karnataka Thamizhar Munnetra Kazhagam	No.6, IInd Floor, Chick Bazar Road Cross, Shivaji Nagar, Bangalore-560051 (Karnataka).
128.	Kerala Janapaksham	PURA-36, Shyamala Nivas, Poojappura P.O., Thiruvananthapuram - 695012.

129.	Kisan Garib Nagrik Party	203, Markaz View, 2nd Floor, 24, Opposite Carrit Cinema, Jogeshwari (West), Mumbai-400103, MAHARASHTRA.
130.	Kisan Mazdoor Bahujan Party	J-1/2, Dali Bagh Colony, Lucknow (Uttar Pradesh).
131.	Kisan Vyawasayee Mazdoor Party	Prakash Bhavan, Narhi Bazar, Lucknow (Uttar Pradesh).
132.	Kongunadu Jananayaga Katchi	"Irai Arul" No. 24, Metha Layout, Laxmipuram, Peelamedu (PO), Coimbatore, Tamil Nadu - 641004.
133.	Kosal Party	G.M. College Road, Sambalpur-768004 (Orissa).
134.	Kranti Dal	132, Babuganj, Lucknow (U.P.).
135.	Kranti Parishad	House No. 2019, Mistrikhan Road, Nahargarh Road, Jaipur (Rajasthan).
136.	Krantisena Maharashtra	5-A, Jyotisadan Shitladevi, Temple Road, Mahim, Mumbai, Maharashtra.
137.	Labour And Job Seeker's Party of India	66, Royapettah High Road, Mylapore, Chennai-600004 (Tamil Nadu).
138.	Lal Morcha	RZC-113, Vishnu Garden, Khayala, New Delhi - 110018
139.	Lattin Congress	Bavali, Post-Khash, Distt. Meerut-250621 (Uttar Pradesh).
140.	Lok Paritran	"Saubhagya" 12-13 Tilak Nagar-II, Mahamandir, Jodhpur-342010 (Rajasthan).
141.	Loko Sanmilon	P.O.-Jaleswar, Distt.-Goalpara, Assam.
142.	Loksena	63/H/S, Madan Mohan, Burman Street, Kolkatta-700007, West Bengal.
143.	Loktantrik Chetna Party	Mumtaj Manjil, Azad Nagar, Baanda. (Uttar Pradesh).
144.	Loktantrik Janata Front	E-13/307, Press Complex, Jawahar Park, Vikash Marg, Laxmi Nagar, Delhi - 110092
145.	Mahagujarat Janta Party	A-203, Satyamev-1, S.G. Road, Opp. High Court, Ahmedabad, Gujarat.
146.	Mahakaushal Vikas Party	'Shanti Kutir' 281, Sanjivani Nagar, Jabalpur (M.P.).
147.	Mahanayak Sardar Patel Sangh	52/98, 11nd Floor, Chittaranjan Park, New Delhi-110019.
148.	Makkal Congress Vazhapadiyar	18, Telugu Brahmin Street, Velacheri, Chennai-600 042, Tamil Nadu.
149.	Makkal Desiya Jananayaka Katchi	245/6, R.K. Mutt Road, Mylapore, Chennai - 600004, Tamil Nadu.
150.	Makkal Marumalarchi Munnetra Kazhagam	No. 13A, 1 st Floor, Thiyagarajan Nagar, Kodungaiyur, Chennai - 600118, Tamil Nadu.
151.	Mana Party	5-4-719, Kattelamandi, Nampally, Hyderabad-500 001, Andhra Pradesh.

152.	Manipur People's Party (Democratic)	Qtr. No.1, Type-IV, Babupara, Imphal-795001 (Manipur).
153.	Maryadi Dal	Gram Chhoukarwada, Tehsil - Vair, District - Bharatpur, Rajasthan.
154.	Matra Bhakta Party	Raghunath Farm, Village + Post - Kundli, Sonapat, Haryana.
155.	MGR Thonderkal Katchi	No.18/33A, Vattavilai, Kappiyarai Post, Kanyakumari District-629156, Tamil Nadu.
156.	Mizoram Congress Party	Headquarters: Aizawal, Mizoram - 796 001.
157.	Naga National Party	Hd.Qtrs. Aja Daily Office, Church Road, Dewlahland, Imphal, Manipur.
158.	National Jankranti Dal	K-316, Near Bus Terminal, Opposite Qutub Minar, M.B. Road, Lado Sarai, New Delhi - 110030.
159.	National Progressive Party	House No.1080, Block-P/1, Sultan Puri Colony, New Delhi - 110041
160.	National Secular Party	C-20/B, 1st Floor, Green Park Extention, New Delhi-110 016.
161.	National Students Party	16/2, Karaneeshwarar Pagoda Street, Mylapore, Chennai-600004 (Tamil Nadu).
162.	National Vikas Party (India)	B-40/A-11, Ganapati, Paradise Central Spine, Vidhya Dhar Nagar, Jaipur-302023, Rajasthan.
163.	Nava Nirmana Nagarika Samithi	6/7/8, Shankarmutt Road, Basavanagudi, Bangalore-560004 (Karnataka).
164.	Nava Telangana Party	House No. 8-2-598/B, Road No.8, Banjara Hills, Hyderabad - 500 034.
165.	Netaji Subhash Party	Shajanwa, Distt. Gorakhpur (Uttar Pradesh).
166.	News Congress	Baimahal, 2nd Floor, Wadia Street, Tardeo, Mumbai - 400 034, Maharashtra.
167.	Niswarth Sewa Party	Ved Ayurvedic Store, Near Bus Stand, Mahendregarh, Haryana.
168.	Orissa Gana Parishad	A/52, Kharvela Nagar, Unit-III, Bhubaneswar-751001.
169.	Orissa Mukti Morcha	15, Bhouma Nagar, Unit-IV, Bhubaneswar-751 001, Orissa.
170.	Pahachan Mangalkari Party	L-II-56, Madangir, Delhi-110 062.
171.	Paschimi Prajatantra Morcha	386, Shahnatthan, Meerut, Uttar Pradesh
172.	Paschimi Uttar Pradesh Swaraja Party	Sardhana Road, Kankar Khara, Meerut (Uttar Pradesh).
173.	Patriot	28-Appavu Street, Cuddalore Port, Pin-607003, Tamil Nadu.
174.	People's Democratic Conference of India	Bankra, Post Office - Birati, Kolkata - 700051, West Bengal.

175.	Peoples Power Party	P.B.No.16, Shivaji Nagar Post Office, Mumbai-400043, Maharashtra.
176.	Plains Tribals Council of Assam	P.O. & T.O. Kokrajhar, Distt. Kokrajhar (Assam).
177.	Prabuddha Bharat Party	7A, Hospital Street, 1st Floor, Kolkata - 700072, West Bengal.
178.	Praja Bharath Party	Plot No. 106, Block 'A', Archana Appartments, East Marredpally, Secunderabad-500026 (Andhra Pradesh)
179.	Praja Chaithanya Party	1-7-578/31/2, Gemini Colony, Musheerabad, Hyderabad, Andhra Pradesh.
180.	Prajatantrik Lok Ekta Dal	3, Koutilya Marg, Patna - 800 001, Bihar.
181.	Progressive Party	B Block, Gali No.5, Shani Bazaar Road, Amrit Vihar, Burari, Delhi - 110084.
182.	Progressive People's Party	House No. -975,976, Shyam Colony, Budh Vihar Phase-II, Near Krishna Mandir, P.S. - Vijay Vihar, DELHI- 110086.
183.	Puducherry Padaippali Makkal Katchi	No. 4, First Street, Thendral Nagar, Puducherry - 605013.
184.	Punjab People's Party	14, Sector 28, Arun Vihar, Noida-201303 (Uttar Pradesh).
185.	Punjab Vikas Congress Party	Panj Peer Chowk, Jalandhar, Punjab.
186.	Punjabi Dal	H.No. BV/30A, Ramgarhia, Gurdwara Road, Barnala-148101. Distt. Sangrur (Punjab).
187.	Purvanchal Gan Parishad	House No. 34, Pocket-28, Sector-24, Rohini, Delhi-110085.
188.	Purvanchal Janshakti Party	Shree Vishveshwar Ashram Satuabhar, Post - Bihari Bujurg, Khajni, Gorakhpur-273 212, Uttar Pradesh.
189.	Purvanchal Vikas Party	L-131, Street No.5, Mahipal Pur Extn., New Delhi-110037.
190.	Puthiya Needhi Katchi	6, North Boag Road, T-Nagar, Chennai-600017, Tamil Nadu.
191.	Quami Janta Dal	9-B, Triloknath Road, Lal Bagh, Lucknow (Uttar Pradesh).
192.	Rajasthan Dev Sena Dal	Opposite to Bus Stand, Dhamai Haveli, Dudu, Jaipur, Rajasthan.
193.	Rajdal Haryana	D/S 45, Brass Market, Bawal Road, Rewari-123401, Haryana.
194.	Rashtrasamarpit Jansamooch	H-101, Ground Floor, Chandu Park, Krishna Naga, New Delhi-110051
195.	Rashtrawadi Samta Party	196/187 K, Village-Balipur Khurdwan, Tehsil- Gauriganj, Distt. Distt. Amethi, UTTAR PRADESH.
196.	Rashtrawadi Swarn Ekta Party	Plot No. 11, 2 nd Floor, Awadhपुरी Khand - I, Market Khargapur, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
197.	Rashtriya Agraniye Dal	Village - Khamona, Post - Resipur, P.S. - Jansa, District - Varansi, Uttar Pradesh.

198.	Rashtriya Awami Dal	152, Kazi Tola, Sailani Road, Old City, Bareilly-243005, Uttar Pradesh.
199.	Rashtriya Dehat Morcha Party	601, Rohit House, 3-Tolstoy Marg, New Delhi-110001.
200.	Rashtriya Ekta Vikas Party	Near Noor Masjid, Madina Masjid Transformer Wali Gali, Ashok Vihar Ward No.42, Loni, Tehsil and District - Ghaziabad, Uttar Pradesh.
201.	Rashtriya Hamara Dal	22/191, Dholi Khar, Mantola, Agra (Uttar Pradesh).
202.	Rashtriya Hindustan Sena, Karnataka	Shiva Shakti, 141, Behind New Bus Stand, Vasvi Nagar, Hubli-580030, Karnataka.
203.	Rashtriya Hith Congress	712, G-Block, Military Road, Karol Bagh, New Delhi - 110005.
204.	Rashtriya Indira Party	Dattipura, Near Subzi Mandi, Morena, (Madhya Pradesh).
205.	Rashtriya Jan Samanavadi (Ambedkar)	71-B, Pocket A-3, Kalkaji Extension, New Delhi-110 019.
206.	Rashtriya Janandholan Paksha	"Powrabhavan", No.567(38), 60 Ft. Road, Gokula Mathikere Layout, Bangalore-560054 (Karnataka).
207.	Rashtriya Janata Janardan Party	Suraj Ka-Purva, Atarrarural, P.O. Atarra, District Banda, Uttar Pradesh.
208.	Rashtriya Janhit Party	Kothi No.75, Sector-17, Panchkula-134 109 (Haryana).
209.	Rashtriya Jantantrik Party (Secular)	Flat No. 153-154, Vir Chand Patel Path, Patna-800001 (Bihar).
210.	Rashtriya Kamgar Party	B.W - 97 D, Shalimar Bagh, Delhi - 110088
211.	Rashtriya Kamjor Varg Party	Central Office: Post Office Building, Lal Bahadur Shastri Nagar, Post Office (Upper Floor) Patna-800023 (Bihar).
212.	Rashtriya Krantikari Janata Party	407, Durga Chambers, D.B. Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi - 110005.
213.	Rashtriya Lok Jagriti Party	Near Bk. No. 27, Opp. Budh Vihar, Bhim Nagar, Ulhasnagar - 421 001, Distt. Thane, Maharashtra.
214.	Rashtriya Lok Seva Morcha	206, Lovekush Tower, Exhibition Road, Patna-800 001, Bihar.
215.	Rashtriya Lokhit Party	A-40/35A, Amarpur Madiya, Varanasi, Uttar Pradesh.
216.	Rashtriya Machhua Samaj Party	Railway Road, Dadri, Near Ravaji Farm House, Gautam Budh Nagar (Uttar Pradesh)
217.	Rashtriya Manav Adhikar Party	17/700, Village-Gopalpur, Post-Azadpur (Timarpur), Delhi-110009.
218.	Rashtriya Pragatisheel Prajatantra Party	3518, Daribapan, Opposite to Sheela Cinema, Paharganj, New Delhi-110055.
219.	Rashtriya Rajdhani Congress Delhi	8, Nath Market, Nai Sarak, Delhi-110006.
220.	Rashtriya Samadhaan Party	121-A, R-3/A-2, Mangal Bazar Mohan Garden, New Delhi - 110059.

221.	Rashtriya Samajwadi Party 'Pragatisheel'	B-248, Mohan Nagar, Thatipur, Morar, Gwalior (Madhya Pradesh).
222.	Rashtriya Sarvasamaj Party (India)	Plot No. 256, Mithila Dham Rahivashi Sangh, Opp. Jery Verghese Termate Company, Gen. A.K. Vaidya Marg, malad (East), Mumbai-400097, Maharashtra.
223.	Rashtriya Sawarn Shakti Party	299, Ground Floor, Gagan Vihar, Delhi - 110051
224.	Rashtriya Sindhi Congress	437/B/1, Rubia House.B/H. Ellis Bridge Shopping Centre, Ashram Road, Ahmedabad-380 006, Gujarat.
225.	Republican Labour Party	Block-4, House No. 236, 7th Mile Chumukedima, Dimapur-797103, Post Box -354, Nagaland.
226.	Republican Presidium Party of India	Uruli-Kanchan, Pune-412202 (Maharashtra).
227.	Samajik Ekta Party	22, Housing Board Colony, Sonipat-131001 (Haryana).
228.	Samajik Jantantrik Party	Mukam Raja Market, Cinema Road, Gopalganj Nagar Palika Post, Gopalganj-841428, Distt. Gopalganj (Bihar).
229.	Sampoorna Kranti Dal	Village - Khajoori Kalan, Post - Khajoori Khurd, Koraon, Allahabad, Uttar Pradesh
230.	Sanyukt Dastkar Party	P-205, Basti Khwaja Meer Dard, Barron Road, New Delhi-110002.
231.	Sarav Samaj Vikas Party	Bamba Road, Sailai, Post Office - Sailai, District - Firozabad, Uttar Pradesh.
232.	Sarvahara Samaj Party	68-A Block, Darulshafa, Lucknow(Uttar Pradesh).
233.	Sarvochcha Rashtriya Vikas Mahaparishad	C-90, DDA Flat, West Gorakh Park, (New Jafrabad) Shahdara, Delhi-110032.
234.	Satya Vijay Party	101-C, Press House, 22, Phiroz Gandhi Press Complex, Agra - Mumbai Road, Indore - 452 008, Madhya Pradesh.
235.	Satyavadi Paksh	Room No. 4-5, Oriyan Complex, Opp. Hotel Rajdhani, Railway Station Road, Aurangabad-431005 Maharashtra.
236.	Secular Democratic Labour Party of India	6-2-44/3A, Jammibanda Street, Khammam-507001 Andhra Pradesh.
237.	Shetkari Vichar Dal	49, Mamta, Anandnagar Co-op. Housing, Gulmohar Road, Savedi, Ahmednagar-414001, Maharashtra.
238.	Shiromani Youth Akali Dal (Kahlon)	5/5051, Shakti Nagar, Khandwalla, Chaharta, Amritsar (Punjab).
239.	Shoshit Samaj Adhikar Party	Tehsil - Kole, Thana - Gandhi Park, Janpad - Aligarh, Uttar Pradesh - 202001.
240.	Shree Bharat Vikas Paksh	220, Shreeji Complex, Near Ellishbridge Post Office, Ashram Road, Ahmedabad - 380 006(Gujarat).

241.	Sikkim Gorkha Prajatantric Party	Shimma Building, P.O. & P.S. Singtam, East Sikkim-737 134 (Sikkim).
242.	Sikkim Himali Rajya Parishad Party	Tulsikunj Building, Near Telephone Exchange, P.O. - Dara Gaon, 31-A, National Highway, Tadong Bazar, Tadong, Gangtok - 737102, Sikkim.
243.	Sikkim Jan-Ekta Party	Tinzir, Namchi, South Sikkim - 737 126
244.	Sikkim Liberation Party	Tintek, East Sikkim, Gangtok, Sikkim - 737134
245.	Sikkim Sangram Parishad	Deorali Bazaar, P.O.- Tadong, Gangtok, Sikkim- 737102.
246.	Sinh Jan Sena Party	Near Public Library, Veraval-362265 (Gujarat).
247.	Sirpanch Samaj Party	T-47, Old Nangal, Delhi Cantt-110 010.
248.	Suraaj Party	6-81, Office Building, Vishal Estates, Village - Annaram, Mandal - Jinnaram, District - Medak, Andhra Pradesh - 502313
249.	Swaraj Dal	No.4 Stop, Pattar Gudda, Post-Garaharama, Port Blair-744101 (Andaman & Nicobar Islands).
250.	Swarna Yuga Party	No. 26, "Ammu" 1st Main Road, Dollars Colony, RMV 2nd Stage, Bangalore - 560 094, Karnataka.
251.	Swatantra Adarshwadi Bhartiya Kranti Party	Village & Post- Lutuhi, Yanha Mahuli, Distt.- Sant Kabir Nagar, Khalilabad, Uttar Pradesh.
252.	Tamil Maanila Quaide Milleth League	579, Anna Salai Teynampet, Chennai - 600 006, Tamil Nadu.
253.	Tamilina Vidiyal Pulikal iyakkam	Annai Illam, Pallavan Nagar, Third Street, Theni Main Road, Madurai-625 016, Tamil Nadu.
254.	Tamilnadu Jananayaka Congress	327, Lloyds Road, Royapettah, Chennai - 600 014, Tamil Nadu.
255.	Tamizhar Party	8/43, M.T.C. Road, Mattur Dam, I, Salem District, Chennai-600017 (Tamil Nadu).
256.	Thanthai Periyar Dravida Munnetra Kazhagam	23, Alagappan Street, Thenkarai Periyaklam, District - Theni, Tamil Nadu - 625601.
257.	Tippu Sultan National Republic Party	No.24, 1st Main, 13th Cross, Bapujinagar, Mysore Road, Bangalore - 560 026 Karnataka.
258.	Trikalinga Congress	Palanka Koligadia, P.O.- Gunthuni Barchana, District- Jaipur, Pin- 754024, Odisha.
259.	Trilinga Praja Pragati Party	B-118, Madhuranagar, S.R. Nagar post, Hyderabad-500038, Andhra Pradesh.
260.	Trinamool Gana Parishad	Ananda Plaza Complex, 4th Floor, Ganeshguri Chariali, Gawahati-781006 (Assam).
261.	United Bodo Nationalist Liberation Front	C/o Deori Bora, Rambhapuri, Kahilipara, Guwahati, (Assam).
262.	United India Peoples Party	Manjamattam, Moozhoor P.O., Kottayam Distt. (Kerala).

263.	United Indian Democratic Council	No.1205, II-Stage, Rajaji Nagar, Bangalore-560010 (Karnataka).
264.	United Minorities Front, Assam	Ulubari, Guwahati-781007 (Assam).
265.	United People's Democratic Party (Socialist)	Tangkhu Avenue, Imphal, Manipur-795001.
266.	United Peoples Party of Assam	S.S. Road, Lakhtokia, Guwahati-781001, Assam.
267.	United Reservation Movement Council of Assam	Post Box No. 2, P.O.Rehabari, Guwahati-781008 (Assam).
268.	United Tribal Nationalists Liberation Front	Deulguri, Harisingh Darrong-784510 (Assam).
269.	Urs Samyuktha Paksha	No. 46, Palace Road, Bangalore - 560 001, Karnataka.
270.	Uttarakhand Sanskriti Parishad	D-355, Vinod Nagar (West), Delhi-110092.
271.	Uttarakhand Sena Party	Jai Matadi Apartment, 10/1, Near Shankar Mandir, Juna Kalwa, Bela Road, Kalwa, Thane (W), Maharashtra-400605.
272.	Uttarakhand Janwadi Party	53-K, Rajpur Road, Dehradun, Uttaranchal.
273.	Vidarbha Vikas Party	Block A, Second Floor, Poonam Chambers, Chhindwara Road, Nagpur-13 (Maharashtra).
274.	Vidharbha Rajya Party	Kamgar Bhawan, Near Baidyanath Chowk, Great Nag Road, Nagpur-3, Maharashtra.
275.	Vidhayak Dal	HIG-205, Sector-I, Vikas Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
276.	Vikas Parishad	62A, Shastri Colony, Ambala Cantt. Haryana - 133001.
277.	Vishwa Vikas Sangh	F-53/F-1, Dilshad Colony, Delhi - 110 095.
278.	Vivasayi Anbhu Katchi	No.14, Raghava Nattan Street, Uthiramerur-603 406, Tamil Nadu.
279.	War Veterans Party	A/301-302, Pearl Aptt., I.C. Colony, Borivali (West), Mumbai-400 103, Maharashtra.
280.	West Bengal Pragatishil Indira Congress	68 - B, A.P.C. Road, Kolkata - 700 009, West Bengal.
281.	Youth Brigade	Village Kakgachi, P.O-Bhanderhati, District Hooghly, West Bengal.
282.	Yuva Jagriti Dal	3-B, Prayosha Flats, Near Gymkhana, Sector-19 Gandhinagar-382019, Gujarat.

*Vide Order of Commission dated 25.05.2022, 20.06.2022 & 13.09.2022, these RUPP's have been 'de-listed' after due verification and having been sent notice. They have been given opportunity to respond against the interim order of ECI which includes the denial of a common symbol. All CEOs/ROs are advised that in case any "delisted RUPP" approaches for common symbol, proper due diligence and process as laid down in the ECI Order of 25.05.2022, 20.06.2022 & 13.09.2022 needs to be followed. As their address is non-existent, Form A & B required to claim a 'common symbol' also becomes inoperative for de-listed RUPPs.

TABLE - I (C)
INACTIVE REGISTERED UNRECOGNIZED POLITICAL PARTIES [RUPPs]**

Sr.No.	Name of RUPP	Headquarter of RUPP
1.	Aadarsh Janhit Party	Hathi Wali Gali, H. No. 22, Ward No. 9, Asfabad, Firozabad, Uttar Pradesh - 283203
2.	Adhunik Vikaswadi Party	D-1/425, Sector-H, L.D.A. Colony, Kanpur Road, Lucknow, Uttar Pradesh.
3.	Ahinsa Dal	Sikarwar Sadan, L-1/108, 109 Sector-B, Priyadarshini Colony, Sitapur Road, Lucknow, Uttar Pradesh.
4.	Aims Party	Azad Chowk, Piprahi Bazaar, Post - Piprahi, Distt. - Sheohar BIHAR-843334.
5.	Akhand Bharat National Party	22-3-947/33/A/1/1, Mega City No.125, Purani Haveli, Opp. Setwin Office, Hyderabad-500002, Andhra Pradesh.
6.	Akhand Desham Party	6, Dwarkapuri, Sector-8, Indira Nagar, Lucknow-226016, Uttar Pradesh.
7.	Akhand Jharkhand People's Front	At & P.O.- Gidhaur, Distt. Jamui, Bihar - 811305.
8.	Akhil Bharatiya Aman Committee	1/9986, West Gorakh Park, Shahdara, Delhi-110032.
9.	Akhil Bharatiya Atyant Pichhara Sangharsh Morcha Party	Transformer Lane, North Nawada, Ara, District - Bhojpur, Bihar-802301.
10.	Akhil Bharatiya Azad Party	Phawwara Tiruha, Nai Sarak, Shajadpur, Akbarpur-224122 Janpad-Ambedkarnagar, Uttar Pradesh.
11.	Akhil Bharatiya Desh Bhakt Morcha	Puranderpur G.P.O., Patna (Bihar).
12.	Akhil Bharatiya Manav Adhikar Dal	1602, D.D.A. Janta Flats, G.T.B. Enclave, Delhi-110093.
13.	Akhil Bharatiya Manav Seva Dal	A-74, Sector-12, Noida (U.P.).
14.	Akhil Bharatiya Ram Rajya Parishad (Prem Ballabh Vyas)	Shri Krishna Bodh Dham, 7, Shankracharya Marg, Civil Lines, Delhi - 110054.
15.	Akhil Bhartiya Lok Dal	A-1, Main Road, Gokal Puri, Near Aggarwal Sweet Corner, Shani Sai Mandir, Delhi - 110094
16.	Akhil Bhartiya Loktantrik Congress	F-3, Park Road, Lucknow (U. P.).
17.	Akhilandra Mahadesam	Door No. 2-9-53, Nawabpet, Medak - 502 110, Medak District, Andhra Pradesh.
18.	All India Athithanar Makal Katchi	H.O. 24, Thangam Colony, Annagar West, Chennai-40, Tamil Nadu
19.	All India Bahujan Samman Party	107, Tikri Kalan, New Delhi-110041
20.	All India Mukti Dal Party	Plot No. 158/1, H. No. 37-93/55/1, Road No.3, Mathuranagar, Neredmet 'X' Roads, Secunderabad-500094, Andhra Pradesh.

21.	All India Party for the Protection of Civil Rights	100 A/5, 11th Sector, 66th Street, Ponnambalam Salai, K.K. Nagar, Chennai - 600 078
22.	All India Rajiv Krantikari Congress	B- 58, Gali No. 18, Jitar Nagar, New Delhi - 110051.
23.	All India Singaravelar Munnetra Kazhagam	No. 2/305, Singaravelar Nagar, Neelangkarai, Chennai - 600 041, Tamil Nadu.
24.	All India Tamil Makkal Munnetra Kazhagam,	No. 25, Veerapandi Street, Perambur, Chennai-600 039, Tamil Nadu.
25.	All Indians' Gandhi Congress	212, Kalika Nagar, Andrahalli, Main Road, Bangaluru-560058, Karnataka.
26.	Ambedkar National Makkal Katchi	Door No. 53, Gandhi Road, (formerly Peeran Lane), Thirupattur, Vellore District, Pin-635601 Tamil Nadu.
27.	Ambedkar Samaj Party	304, Mandakini Enclave, Alaknanda, New Delhi-110019.
28.	Andhra Pradesh Navodaya Praja Party	No.3-11, Thukkuguda, Village, Maheshwaram Mandal, Mankhal Post, Ranga Reddy District (Andhra Pradesh).
29.	Antarrastriya Swara Congress Party	Village & Post - Sarakara Vishnoi, Vikas Khand - Diler, Tehsil - Thakurdwara, District - Moradabad, Uttar Pradesh - 244401.
30.	Ati Picchra Party	Mohalla- Badi Pahadi, PO-Sohsarai, Thana-Laheri, Zila-Nalanda-803118, Bihar.
31.	Ati Pichhda Varg Mahasangh	3/1274, Jankipuram Vistar, Sitapur Road, Lucknow, Uttar Pradesh.
32.	Azad Hindustan Party	E Block - 265, Yadav Nagar, New Delhi - 110042.
33.	Bahujan Samaj Mukti Morcha	H. No. B-198, Gali No. 11, Ground Floor, Bhajanpura, Delhi-110053.
34.	Bahujan Uday Manch	Village: Chalakpur, Post - Jameen Rasoolpur, Distt. Azamgarh, Uttar Pradesh.
35.	Best Class Party	House No. 94, Mohalla Alwal, Sadar- Azamgarh, Uttar Pradesh-276001.
36.	Bharat Abhyudhaya Party	6-6-35, Anasuya Nilayam, Kavadiiguda Main Road, Kavadiiguda, Secunderabad, Andhra Pradesh - 500380
37.	Bharat Bhrashtachar Mitao Party	New House No.4, Ground Floor, Begam Vihar, Block - A, Khasra No. 16/19, Village - Begampur, Near Bhairon Mandir, DELHI - 110086.
38.	Bharat Deshbhakt Sangathan	19/460, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh - 226016
39.	Bharat Mangalam Parishad	Jamo Bazar, Hospital Chowk, P.O. Jamo Bazar, District Siwan, Bihar.
40.	Bharat Punarnirman Dal	K.J. - 116, Kavi Nagar, Ghazlabad, Uttar Pradesh.
41.	Bharathiya Nethaji Party	3857, 4th Cross, Gayathri Nagar, Bangalore-560021 (Karnataka).

42.	Bharathiya Praja Shakti	No. 931.932, Karabala Maidana, Railway Station Cross Road, Channapattna Town & Taluk, Ramanagara District, Pin-571501 KARNATAKA.
43.	Bharatiya Jagriti Dal	RZ-21D, Gali No.4, Syndicate Enclave, Near Dabri Mode, Delhi - 110045.
44.	Bharatiya Janvadi Party	A-559, Shastri Park Extn., Buland Masjid, Delhi-110053.
45.	Bharatiya Krantikari Dal	A-5, Priyadarshini Vihar, NEW DELHI - 110092.
46.	Bharatiya Navyuvak Chetna Party	429/263, Near Amber Marriage Hall, Mojjamnagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
47.	Bharatiya Ravidas Party	Moh.Kundigarh, Post-Sadar, Ajamgarh, Uttar Pradesh.
48.	Bharatiya Satya Vijayee Party	C- 120, Begam Vihar Extension, Begampur, Delhi-110086.
49.	Bharatiya Uttam Sena	Village & Post - Kheddhain, Thana - Aander, Distt. - Siwan, Bihar.
50.	Bhartiya Deshbhakt Party	92/H/2, Pratap Market, Munirka (C/o Somu Press), New Delhi-110067.
51.	Bhartiya Gramvasi Party	Village - Vikrampur Banspar (Mani Chouraha), Post - Baitalpur, District - Deoria, Uttar Pradesh
52.	Bhartiya Jan Seva Party	Sharif Market, Hardoi Road, Sikrori, Post: Kakori, Lucknow, Uttar Pradesh-227 107.
53.	Bhartiya Mazdoor Kisan Congress Party	D-40, Meerut Road, Industrial Area, Ghaziabad-121003 Uttar Pradesh.
54.	Bhartiya Naujawan Inklav Party	2/26, Mandauli Extension, Mandauli Chungi, Shahdara, Delhi-110093
55.	Bhartiya Nojawan Dal	H.No.882, Street No.16, Phase - 4, Pushkar Vihar, Shiv Vihar, Karawal Nagar, Delhi - 110094
56.	Bhartiya Prajatantra Nirman Party	7/7/47-A, New Colony Lal Bagh, Post Office, Faizabad, UTTAR PRADESH
57.	Bhartiya Rajnitik Vikalp Party	Village - Nayatola Bariapur, Panchayat - Champapur, Ward No. 13, Thana - Bakhtiyarpur, District - Patna, Bihar.
58.	Bhartiya Samajik Nyay Morcha	Ward No.3, Vikas Nagar, Robertsganj, Janpad - Sonbhadra, Uttar Pradesh - 231216
59.	Bhartiya Sanvaidhanik Janhit Party	Virk Gold Farm, Village - Sarayjoga, Post- Kamha, Nawabganj, Unnao, Uttar Pradesh.
60.	Bhartiya Sarvsamaj Party	Lot Singh Kachri Wala, Shani Bazar Wali Gali, Tunda Nagar, Johri Pur, Delhi.
61.	Bhartiya Shakti Dal	D - 236, Vivek Vihar, Delhi - 110095.
62.	Bhartiya Shanti Kranti Party	1/80, Ratan Vihar, Kiradi, Nangloi, New Delhi - 110041.

63.	Bhartiya Shramik Party	79/4, Juhi Safed Colony, Saket Nagar, Kanpur Nagar - 208014, Uttar Pradesh.
64.	Bundelkhand Aikrit Party	Bundeli Sadan, Gram & Post - Satari, Zila - Mahoba, Uttar Pradesh
65.	Bundelkhand Mukti Morcha	Sh. Sukhlal Ice Factory Bhavan, Elite Chouraha, Jhansi-284001 (Uttar Pradesh).
66.	Christian Mannetra Kazhagam	93, Thaiyappa Mudali Street, Chennai-600001 (Tamil Nadu).
67.	Dalit Samaj Party	Navchetna Path, Shiv Puri P.O. Anishabad, Patna-800 002 (Bihar).
68.	Delhi Parivartan Party	E-37, Tagore Garden Extention, New Delhi - 110 027.
69.	Desh Bhakt Party	B-114, Preet Vihar, Delhi- 110092.
70.	Desia Pathukappu Kazhagam	"ARIVAGAM" 33, Ramakrishna Street, Gandhi Nagar, Saligramam, Chennai-600 093 (Tamil Nadu).
71.	Elatchia Dhiravida Munnetra Kazhagam	"ELATCHIAGAM" 4-A, Hindi Prachar Sabha Street, T. Nagar, Chennai-600017, Tamil Nadu.
72.	Gandhiwadi Rashtriya Congress	Teachers Colony, Tehsil Road, Mahoaria, Post Mahoaria Town and Distt. Mirzapur (Uttar Pradesh).
73.	Garib Raj Party	H. No. 748A, Jharkhandi Kayasthwada, Sikandrabad, District - Bulandshahar, Uttar Pradesh.
74.	Garib Samaj Party (Shoshit)	Hajipur Malipur Road, Near Ram Janaki Mandir, Shankargarh, P.S. & Tehsil - Jalalpur, District - Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh-224149.
75.	Garib Vikas Party	Professor's Colony, Belbanwa, Motihari, Bihar - 845401.
76.	Gorkha Janmukti Morcha	North Point, Singamari, Darjeeling - 734104, West Bengal.
77.	Hamara Dal	C-112, Sector-G, L.D.A. Colony, Kanpur Road, Lucknow-12, Uttar Pradesh.
78.	Hind Kisan Mazdoor Party	31/419, Kela House, Maharana Pratap Nagar, Agra-4. (U.P.).
79.	Hindustan National Party	No. 103/68, College Road, Nanganallur, Chennai-600 114, Tamil Nadu.
80.	Hindustani Swaraj Party	69, Ashok Mohalla, Nangloi, Delhi - 110041.
81.	Indian Bahujan Sandesh Party (Kanshiram)	B-525, Guru Harikishan Nagar, New Delhi.
82.	Indian Democratic Republican Front	House No.-404, Sanjay Colony, Arthala Mohan Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
83.	Indian Justice Party	5, Pusa Road, IIIrd Floor, Karol Bagh, New Delhi - 110 005.
84.	Indian National Green Party	A/44, Paryavaran Complex, Saidulazaib, New Delhi-30.
85.	Indian Oceanic Party	K-316, M.B. Road, Lado Sarai, New Delhi-110030.

86.	Indian People's Congress	79, Lawyers Chambers, Supreme Court, New Delhi-110001.
87.	Indian Youth Party	7/545, Vikas Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
88.	Inqalab Party of India	Mohalla Paschimi Lakhpeda, Town & Post - Mohammadi, Distt. Lakhimpur Khiri - 262 804 Uttar Pradesh.
89.	Inqalab Vikas Dal	92, Village Gawandi, Near Sardar Patel Park, Ghonda, Delhi.
90.	Jaganmay Nari Sangathan	Sector-21/5, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
91.	Jagrat Bharat Party	101, Vidhayak Niwas, Rajender Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
92.	Jai Jawan Jai Kisan Mazdoor Congress	WZ-553-A/3, Soni Kunj, Nangal Raya, New Delhi-110046.
93.	Jan Adhikar Manch	9 Shivakhand, Jhilmil, Delhi-110095.
94.	Jan Bhavana Party	C-103, Ganesh Nagar, Pandav Nagar Complex, New Delhi - 110092.
95.	Jan Ekta Dal	Gher Katebaz Khan, Near Masjid Kale Khan, Rampur, Distt. Rampur - 244 901, Uttar Pradesh.
96.	Jan Kranti Swatantrata Party	226/27, Street No.-6, Mahavir Nagar, Firozabad, Uttar Pradesh.
97.	Jan Lok Kalyan Party	Village & Post: Butrada, Tehsil: Shamli, Distt. Muzaffar Nagar, Uttar Pradesh.
98.	Jan Morcha	1, Teen Murti Marg, New Delhi-110001.
99.	Jan Samarthan Dal	12, Krishna Vihar, Jwala Nagar, Rampur, Uttar Pradesh.
100.	Jan Sangram Party	House No. 482, Sector - 3 A, Awas Vikas Colony, Bodla, Agra - 7, UP.
101.	Jana Priya	A/2, Kastel, 5, Cornwell Road, Bangalore-560025 (Karnataka).
102.	Janata Vikas Manch	C/216, Awas Vikas Colony, Meera Bhawan, Pratapgarh, UTTAR PRADESH.
103.	Janlok Rashtriya Party	452, Sector -19, Dwarka, New Delhi.
104.	Jansatta Party	L-14, Mahendra Park, Adarsh Colony, New Delhi-110 003.
105.	Janshoshit Samaj Party	A-618/7, Street No. - 8, Bhajanpura, Delhi - 110053
106.	Kamarajar Adithanar Kazhakam	6-E, Sasthan Koil Street, Pudhukudieruppu, Nagercoil-629001, Tamil Nadu.
107.	Kannada Naadu Party	54, Ground Floor, Parasana Colony, Basaveshwar Nagar, Gokul Road, Hubli - 580030, Karnataka.
108.	Kongu Nadu Munnetra Kazhagam	320, Best Complex, Kumaran Road, Tirupur-641601, Coimbatore (District), Tamil Nadu.
109.	Kosi Vikas Party	Machhli Bhawan, Dr. Ambedkar Marg, At. + P.O. & Distt. Khagaria, Bihar - 851204.

110.	Labour Samaj Party	Chamber No. 91, Civil Court, Rajnagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
111.	Laghujan Samaj Vikas Party	Badapura, Lalitpur, Uttar Pradesh.
112.	Lenin Communist Party	20, Bharathinagar, Alagappapuram, Karaikudi - 630003, Tamil Nadu.
113.	Lok Janhit Party	Village - Daloopur Sultanpur, Post - Prempur, Janpad - Kannauj, Uttar Pradesh.
114.	Lok Shakti	83, Lodhi Eastate, New Delhi-110003.
115.	Lok Vikas Party	41, Vigyan Vihar, Delhi-110092.
116.	Loknayak Party	172/3 C, East Moti Bagh, Sarai Rohilla, Delhi-110 007.
117.	Maanila Konghu Peravai	No.41, Narayanaguru Road, Saibaba Colony, Coimbatore-641011, Tamil Nadu.
118.	Maha Loktantra Party	Shop No. 4, Basant Ganga Market, H. No. 762/ 648, Purana Katra, Allahabad - 211002, UP.
119.	Mahila Adhikar Party	29-A, Naharpur, Sector-7, Rohini, Delhi-110085.
120.	Manav Samaj Party	9538, Gausala Baradari, Kishanganj, Delhi-110006.
121.	Marxist Co-ordination	Temple Road, Purana Bazar, Dhanbad, Distt. Dhanbad, Jharkhand-826001
122.	Momin Conference	47/26, Waris Plaza, Hussain Ganj, Vidhan Sabha Marg, Lucknow-226001, Uttar Pradesh.
123.	Musalsal Iman Samaj Party	261, Chakki Wali Gali, Railway Road, Bazaria, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
124.	Muslim Majlis Uttar Pradesh	Sultan Manzil, Takia Peer Jaleel, Lucknow (Uttar Pradesh).
125.	Namadhu-Dravida Iyakkam	SCC Anthony Pillai Illam, New No.41, Old No.18, 7th Cross Street, Shenoy Nagar West, Chennai - 600030, Tamil Nadu.
126.	National Lokhind Party	C-1375, Rajajipuram, Lucknow-226017, Uttar Pradesh.
127.	National Sarvasamaj Party	H. No. 66, Khasra No. 1995, Iqbal Colony, Near of Sana Masjid, Village - Pasaunda, Pargna - Loni, Tehsil & District - Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201001
128.	National Welfare Party	16, Nehruji Nagar, Karupparayan, Koil Street, Samundipuram South, Tripur - 641603, Tamil Nadu
129.	Nationalistic Telangana Rashtra Samithi	23-6-431/1, Gowlipura, Hyderabad - 500265, Andhra Pradesh.
130.	Nav Yuvak Dal	Village - Tikra, Post - Ghunghter, Tehsil - Fatehpur, District - Barabanki, Uttar Pradesh - 225302
131.	Navbharat Nirman Party	30, DSIDC Complex, Mata Sundri Road, New Delhi-110 002.

132.	Nelopa (United)	B.D.O. Building, Durga Devi Marg, Sheesh Mehal, Hussenabad Chowk, Lucknow (Uttar Pradesh).
133.	New All India Congress Party	A-138, Main Vikas Marg, Shakarpur, Delhi - 110092.
134.	New Democratic Party of India	2nd Floor, 9A/83, W.E.A., Karol Bagh, NEW DELHI-110005.
135.	Party Kisan Mazdoor Vyapari	Railway Road, Hathras Junction, Mahatma Prakritik Chikitsalya, Nangla Hira, Hathras Junction, Mahamaya Nagar, Hathras, (Uttar Pradesh).
136.	People's Democratic Forum	C-177, Sector 7, Aliganj, Lucknow (Uttar Pradesh).
137.	Peoples Movement of India	-9/215/15, Yojna - 3, Aavas Vikas Colony, Jhoonsi, Allahabad, Uttar Pradesh - 211 019.
138.	Pragatisheel Party	111, Badshah Nagar, Lucknow-226007 (Uttar Pradesh).
139.	Praja Party	3-5-898/1, Himayatnagar, Hyderabad-500029 (Andhra Pradesh).
140.	Prajatantrik Bahujan Shakti Dal	T-1, Shriram House, 117 H-2/52, Pandunagar, Kanpur, Uttar Pradesh.
141.	Progressive Democratic Party	Village and Post- Surjawali (Salempur), District-Bulandshahr-203001, Uttar Pradesh.
142.	Public Development Party	Murlipur Shekh Salah Takiya, Chinhat, Lucknow, Uttar Pradesh.
143.	Purvanchal Rajya Banao Dal	374, Bakshipur, (Near the North of Power House), Distt.-Gorakhpur, Uttar Pradesh.
144.	Rashtravadi Bahujan Kranti Party	Mohalla - Chiranjilal, Town - Afzalgarh, Tehsil - Dhampur, District - Bijnor, Uttar Pradesh - 246722.
145.	Rashtrawadi Jantantrik Party	Ambar Villa, 127/660, W-1, Saket Nagar, Kanpur-208014, UTTAR PRADESH.
146.	Rashtrawadi Labour Party	D-12/104, Sector-8, Rohini, Delhi - 110085
147.	Rashtrawadi Sena	Main Shahdra Chowk, Delhi - 110032
148.	Rashtriya Aman Sena	Aman House, Sanjay Gandhi Nagar, Road No. 9, Shiwaji Nagar No. 2, Govandi, Mumbai, Maharashtra-400043.
149.	Rashtriya Gramin Party	Village Chakershanpur (Kemrala), P.O. Ghorl Bachera (Dadri). District Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.
150.	Rashtriya Hind Sena	158/1, Dev Nagar, District Firozabad - 283203, Uttar Pradesh.
151.	Rashtriya Jan Sansad	Shakti Nagar, Old G.T.Road, Khurja, Distt. - Bulandshahr-203131, UTTAR PRADESH.
152.	Rashtriya Jan Sewak Party	Village : Nangla Jamalpur, Post : Panchli Khurd. Baghat Road, Meerut, Uttar Pradesh.
153.	Rashtriya Janrakshak Party	Village - Birjapur, Post - Aduki, Distt. Mathura UTTAR PRADESH

154.	Rashtriya Jansangh	Old 20, New 35, Victoria Park, Sports Colony, Meerut, Uttar Pradesh
155.	Rashtriya Janta Congress	12, Siri Fort Road, New Delhi - 110049
156.	Rashtriya Jantantra Paksh	24, Star Apartments, Vidya Vihar Marg, Sector - IX, Rohini, Delhi - 110085
157.	Rashtriya Lok Nirman Party	M-12, Mir Vihar, Madan Pur Dabas DELHI.
158.	Rashtriya Lokmanch	1303, Naurang House, B-Block, 21-Kasturba Gandhi Marg, NEW DELHI-110001.
159.	Rashtriya Lokshahi Party	Survey No. 40/1, 40/2 & 40/3, House No. 411 & 412, Village - Beed Budhruk, Taluka - Karjat, District - Raigad, Maharashtra.
160.	Rashtriya Loktantrik Sambhav Secular Party	H. No. 411, Krishna Bihari Nagar, Banda Sagar Road, Varma Tiraha, District & Tehsil - Fatehpur, Uttar Pradesh.
161.	Rashtriya Parivartan Dal	B-4A/25, Rana Pratap Bagh, Delhi-110007.
162.	Rashtriya Peace Party	17G/322, Sector - 17, Vasundhara, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
163.	Rashtriya Prajantantrik Party	House No. 38, Gram-Janaur, Post-Kandhikala, Janpad-Jaunpur, Uttar Pradesh.
164.	Rashtriya Sadhu Vichar Council	Raidopur New, Officer Colony, Nyay Marg, Azamgarh, Uttar Pradesh.
165.	Rashtriya Samajwadi Party (United)	9, Community Centre, Ashok Vihar, Phase-II, Delhi-110052.
166.	Rashtriya Samdarshi Deshbakti Dal	Khushkari Sadan, Anand Nagar, Mandi Road Tiraha, Kasganj, Kanshiram Nagar, Uttar Pradesh.
167.	Rashtriya Samyawadi Aryan Party	570/20, Virat Nagar, Alam Bagh, Lucknow-226005, Uttar Pradesh.
168.	Rashtriya Sangharsh Party	Faridabad, Sujanganj, Jounpur-222201 Uttar Pradesh.
169.	Rashtriya Sarvjan Samaj Party	Village & Post - Mandhata, Tehsil - Sadar, Distt. - Pratapgarh, Uttar Pradesh.
170.	Rashtriya Viklang Party	114, DDA Pocket -2, Sector-7, Dwarka, New Delhi-110045.
171.	Rashtriya Yuva Sangh	B-117, Gali No. 6, East Vinod Nagar, Delhi-110091
172.	Rastriya Praja Chakravayuha Party	No. 73, Shanthinikethanam, D.K. Halli Main Road, Palar Nagar, BEML Nagar Post, Bangarapet Taluk, Kolar District, Karnataka - 563115.
173.	Republican Party of India (Kamble)	A, 703, Suryakiran Co. Op. Housing Society, Plot No. 12&13, Sector-5, Ghansoli, Navi Mumbai- 400701, Maharashtra.
174.	Gareebjan Samaj Party	B-8, New Sai Plaza, Kankarkhera, Sardhana Road, Meerut - 250001, Uttar Pradesh
175.	Revolutionary Democratic Party of India	5221, Street No. - 115, B - Block, Sant Nagar, Burari, Delhi - 110084.

176.	Sab Samaan Party	House No. 95 K. Village - Sarsanda, Post - Gopramau, Tehsil & District - Lucknow, Uttar Pradesh
177.	Sadbhavana Party	Room No.14, 1st Floor, Lucknow Hotel, Sri Ram Road Choraha, Aminabad, Lucknow-226018 (Uttar Pradesh).
178.	Sakhthi Baratha Desam	2/58, Vairavan Chetty Store, Pachiyamman Padithurai, Madhurai-625001, Tamil Nadu.
179.	Samajik Insaaf Party (Rashtrawadi)	House No - 53, Village Lehari, Post Kuriyar, District - Basti, Uttar Pradesh - 272178.
180.	Samajik Nyaya Party	M-22, Mahavir Park, Marris Road, Aligarh-202001 (Uttar Pradesh).
181.	Samajwadi Janata Dal Democratic	90, Kautilya Nagar.B.M.P.Road,P.O.Veterinary College,Raza Bazar,Patna,Bihar-800014
182.	Samajwadi Kranti Dal	3/197, Vidhayak Puram, Vinay Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
183.	Samuga Samatuva Padai	4/388, Ram Garden, Anna Salai, Palavakkam, Chennai-600041, TAMIL NADU.
184.	Sanatan Samaj Party	Ramanand Nagar, Begumpura, Ayodhya, Faizabad (Uttar Pradesh).
185.	Sanyukta Samaj Party	Village and Post-Khari, District-Bijnaur, Uttar Pradesh.
186.	Sarvajan Kalyan Party	In front of K-73, Hanuman Nagar, Kankarbag, Patna-800020, Bihar.
187.	Sarvajanik Kranti Party	Surya Lodge. Road ways, Azamgarh, Uttar Pradesh.
188.	Sarwajan Mahasabha	B-36/40, Kabir Nagar, Durgakund, Varanasi -221005, Uttar Pradesh.
189.	Satyug Party	Village - Sukhatola, Dumri, Post - Kasya, Distt. - Kushinagar, Uttar Pradesh.
190.	Shiromani Akali Dal (Republic)	9, Hakikat Nagar, Guru Tegh Bahadur Nagar, DELHI-110009.
191.	Shivaji Congress Party	House No. 31, A/P Khakurdi, Tal. Malegaon, District - Nashik, Maharashtra.
192.	Shoshin Samaj Party	4/8, Thyagraj Nagar (Near Safdarjung Bus Terminal), New Delhi-110003.
193.	Shreshthatam Rashtra Party	Village - Jagsar, Post - Sarsava, Janpad - Kheeri-Lakhimpur, Uttar Pradesh.
194.	Sikshit Berozgar Sena	Chandan Kumar Bahraicha, Khajurhawan, Madiyahun, Jaunpur, Uttar Pradesh.
195.	Socialist Party (Lohia)	Siddiqui Building. 6122, Bara Hindu Rao, Delhi-110006.
196.	Socialist Party Secular	505/506 Bhilawan, Lucknow Kanpur Road, (In front of Ajanta Hospital) Aalambagh, Lucknow -5, Uttar Pradesh.

197.	Sukhee Samaaj Party	344 Bhonjha, Ghaziabad - 201001, Uttar Pradesh.
198.	Swaraj Party - Yes (Subhash Chandra Bosh)	Village & P.O. Semrikhan Kot, Sidharth Nagar, Uttar Pradesh-272 192.
199.	Swarashtra Jan Party	Tarkapur, Phulwariya, P.O. Sadar, Distt. Mirzapur, - 231001, Uttar Pradesh.
200.	Taayi Nadu Party	44/15, Kamraj Raod, Shivaji Nagar, Bangalore-560001, Karnataka
201.	Tamil Desiyak Katchi	80-A, Chamundi Shopping Complex, Salem-636007 (Tamil Nadu).
202.	Tamil Manila Dravida Munnetra Kazhagam	Door No.296, Ambedkar Street, Uthukkadu Village & Post, Walajabad Via Kancheepuram Taluka & District, Tamil Nadu.
203.	Tamizhaga Makkal Jananayaga Katchi	Vanavil Illam, No. 9, East 7th Street, Pudukkottai-622001, Tamil Nadu.
204.	Thalli Telangana Party	Plot No.50, Road No.5, Jubilee Hills, Hyderabad-500 033, Andhra Pradesh.
205.	The Humanist Party Of India	34, Lavina, 52A, Tagore Road Santa Cruz (West), Mumbai-400054 (Maharashtra).
206.	Ujjawal Rashtra Party	Village - Ahirawan, Post - Barua, Tshsil - Sandila, District - Hardoi, Uttar Pradesh - 241304
207.	United Citizen Party	D-29, Kondli, Delhi-110096.
208.	United Communist Party of India	29/116, Gali No.10, Vishwas Nagar, Shahdra, Delhi-110 032.
209.	United Front (Party)	Abu Fakharuddin Plaza, Langar Toli Chauraha, Bari Path, Patna-800004, Bihar.
210.	United National Loktantrik Party	D-786, Jaidpur Extn., Part - II, Badarpur, Delhi - 110044.
211.	Upekshit Samaj Party	F-15, Bhagat Singh Market, Near Gole Market, New Delhi-110001.
212.	Uttar Pradesh United Democratic Front	38-Royal Hotel, Vidhan Sabha Marg, Lucknow, Uttar Pradesh.
213.	Vikassheel Samaj Party	305 A, Sahara Shopping Centre, Faizabad Road, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh - 226016
214.	Voters Party	A, 1/75, Freedom Enclave, Neb Sarai, IGNOU Road, New Delhi - 110068
215.	Youth Democratic Front	H.No.1-10-63/5, Plot No.44, Chikoti Gardens, Begumpet, Hyderabad, Andhra Pradesh-500016.
216.	Youth For Equality	P-90A, IInd Floor, South Extension-II, New Delhi - 110034.
217.	Yuva Jan Jagriti Party	315, Freeway Trade Centre, Opp. I.O.C Petrol Pump, Narol - Aslali Highway, Ahemdabad, Gujarat- 382427

218.	Yuva Kranti Dal	B-667, Aman Vihar, Post Office-Sultanpuri, Distt.-North-West, New Delhi-110 086.
------	-----------------	--

**** Vide order of Commission dated 13.09.2022, the following parties have been declared 'inactive'. They were served notice individually and through CEO & ECI website. They are restrained in their quest for a "Common Symbol" by the said interim order of the ECI. All CEO/RO are advised that in case any such 'inactive' party approaches for common symbol, proper due diligence as laid down in ECI order of 13.09.2022 needs to be adhered to. As the said parties have not updated the required material changes, in particular, their office bearers since 2014, the basis to accept Form A & B ceases to exist.**

By order,
Sd./-
(DILIP K. VARMA)
Principal Secretary,
Election Commission of India.